

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-------------------|-----------|-----------|
| | | |

HINDI-ENGLISH DICTIONARY OF TECHNICAL TERMS

pertaining to

accounts and administration, agriculture, anatomy, bacteriology, banking, biochemistry, botany, chemistry, civics, commerce and finance, constitution, dyes and colours, economics, education, engineering, insurance, law, mathematics, medicine, mineralogy, newspapers, optics, parasitology, pharmacy, physics, physiology, politics, radio, railway, statistics, zoology, etc., etc.

BY

PROF. DR. RAGHU VIRA, M.A., Ph.D., D. Litt. et Phil.

being the reverse of our
CONSOLIDATED ENGLISH-INDIAN DICTIONARY

The only dictionary, which will help administrators, professors, technicians, journalists, bankers and others to follow budgets, parliamentary proceedings, scientific and technical literature that is being issued in Hindi, Marathi, etc., year after year with our terminology.

PRICE RS. 20/-

SARASVATI VIHARA SERIES

EDITED BY

RAGHU VIRA, M.A, PH.D., D.LITT. ET PHIL.

Director, International Academy of Indian Culture, Nagpur

IN COLLABORATION WITH OTHER SCHOLARS

Volume XXV,

HINDI-ENGLISH DICTIONARY
OF
TECHNICAL TERMS

Rupees 20/-

Shillings 30/-

1951

Published by

Dr. Lokesh Chandra, D. Litt.

Secretary

The International Academy of Indian Culture, Nagpur (India)

Printed by

Shri S. K. Verma, M.A.

Manager

Arya Bharati Press, Nagpur

FOREWORD

It is now several years that we had started issuing our technical English-Indian Dictionaries. The first, relating to Inorganic Chemistry, came out in the early part of 1944. Since then there has been a continuous flow. We have covered a large variety of subjects, such as, Mathematics, Physics, Chemistry (Inorganic, Organic, Physical), Pharmacy, Dyes and Paints, Commerce, Banking, Administration, Constitution, Engineering, Medicine, Zoology, Botany, etc. etc.

The issuing of Indian technical terms has given a strong push to the production of technical literature in Hindi and other languages of India.

The Hindi version of the Indian Constitution prepared recently may be taken to be the first authoritative work of a highly technical nature.

As a member of the Constituent Assembly, the present author took keen interest in the Hindi version of the Constitution. In fact it was he who was entrusted by Dr. Rajendra Prasad, the President of the Constituent Assembly, to prepare the first draft of the legal and constitutional terms and phrases employed in the Constitution. He also participated in the finalization of the terminology. This terminology has been taken into other languages of India, right from Punjabi to Malayalam. Side by side with the provincial languages, a Sanskrit version of the Constitution is also in progress. The present author is a member of the Committee and he is happy to be able to convey to the users of this Dictionary that the constitutional terminology remains the same even in the Sanskrit version. This terminology has been considered in great details, word by word, by an All-India committee of language experts and has been adopted unanimously.

Following the appearance of the Hindi version of the Indian Constitution there have been coming out series of pamphlets, bulletins, budget estimates, parliamentary and legislative documents from the central and state capitals, all using the new technical phraseology, not covered by any Hindi-English Dictionary.

Then there are the newspapers which are using words like संसद् for Parliament, आयव्ययक for budget, विधेयक for bill, etc., etc.

Lastly, I may mention a number of technical text-books issued in Hindi and other languages of India. Here special importance attaches to the publications of the Nagpur University, which, under the orders of the Government of Madhya Pradesh, has been bringing out a collection of scientific volumes intended to serve as books of instruction in all branches of Chemistry, Physics, Mathematics, Botany and Zoology at the Intermediate stage. The present

author has had the honour and privilege of planning and executing these scientific volumes in the capacity of general editor. These are original works written by the teachers of the Nagpur University in two different versions—one in Hindi and the other in Marathi. All told they cover about fifteen thousand pages.

With the increasing use of Hindi and other languages in schools, universities, newspapers and in the state Secretariats, it is becoming more and more imperative that a Hindi-English Dictionary of technical terms be made available to officers, journalists, teachers and students.

I may particularly mention Dr. S. D. Limaye, who felt the need keenly and offered himself to prepare a reverse index to our Consolidated English-Indian Dictionary, first edition, 1950. My staff has been working under his supervision and the result is the present volume. To effect economy of space, long compounds and phrases have been left out in this volume. But the simple words which compose them will be found in their due alphabetic order. I am thankful to Dr. S. D. Limaye, without whose devotion, the work could never have seen the light of the day.

Nagpur
28. 5. 1951.

RAGHU VIRA

भारतीय-आङ्गल पारिभाषिक शब्दकोष

अ *a* (alpha)
 अ (अन्तर) Δ delta (difference)
 अ (अयस्) Fe (ferium, iron)
 अ (आपात-कोण) i (angle of incidence)
 अ (सामान्य अस्तित्वाची) (तर्कशास्त्र) A (universal affirmative)
 अ- a-, an-, -less, non-
 अ. अ. (अधिकारन् अनु) p. p. (per procuratorem)
 अ-अंजन *n.* a-antimony
 अ अम्ल *n.* a (alpha) acid
 अ. आ. (अचलान्त्राणु) S (Shigella)
 अ. ए. (अन्ताराष्ट्रिय एकक) I. U. (international units)
 अंश *m.* 1 (भौतिकी) degree 2 (गणित) numerator 3 (वाणिज्य) share
 अंश- demi- (अंशावतार demigod)
 अंश-अधिपत्र *n.* (वाणिज्य) share warrant
 अंशक *m.* 1 element (a part) 2 (गणित) grade
 अंशकाल *m.* part-time
 अंशकाल-कर्मी (-इन्) *m.* part-time worker
 अंशकाल-पाठचर्या *f.* part-time courses
 अंशकालिक *mfn.* part-time
 अंश-छन्द *n.* cuttail
 अंशतः partly, partially
 अंशतः शोधन *n.* part-payment
 अंशत-स्फटन-विरतन-विधा *f.* = अंवि-विधा (धातुकर्म) Pattinson process
 अंशतो-दत्त *mfn.* partly paid
 अंशतो-नवकृत *mfn.* partly renewed
 अंशदत्त *mfn.* contributed
 अंशदाता (-त्) *m.* contributor
 अंशदान *n.* contribute *vb.*, contribution
 अंशदान-कर्म *n.* contributational work
 अंशदायी (-इन्) *mfn.* contributory
 अंश-धारी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) shareholder
 -अंशन -lyse, -lysis
 अंश-निगमने अपहार *m.* discount on issue of shares
 अंश-पत्री *f.* (वाणिज्य) share register
 अंश-पुंजी *f.* (वाणिज्य) share capital, stock
 अंश-पुनर्निगमन *n.* reissue of shares
 अंश-प्रपत्री *f.* share ledger
 अंश-प्रमाणपत्र *n.* share certificate
 अंश-प्रत्याजि *m.* premium on shares
 -अंशयिता -lyst

अंश-विपणि *f.* share market
 अंश-संक्रमण *n.* share transfer
 अंशाहो *f.* (रसायन) degree value
 अंशावतार *m.* demigod
 -अशि -lysin
 -अशिक -lytic
 अंशु *m.* 1 (अँड्रिदी) strain 2 (विद्युत्, आँड्रिदी) filament
 -अंशु (प्राणिकी) -tense (filament)
 अंशुक *n.* muslin (Sino-Indian Studies, Vol. II, p. 86)
 अंशुमा *f.* (अँड्रिदी) elater
 अंशु-परिवर्तक *m.* (तेजोन्वेष) filament transformer
 -अंशेद -lase
 -अंश्य -lyte
 अस *m.* shoulder
 अस-चक्र *n.* pectoral arch, shoulder girdle
 असचक्र-पेशी *f.* pectoralis muscle, pectoralis
 असफलक *n.* scapula, shoulder blade
 असफलक- scapul-, scapulo-
 असफलकीय *mfn.* scapular
 असवेष्टकोप *m.* (आयुर्विद्या) deltoiditis
 असवेष्ट-पेशी *f.* deltoid muscle
 अससन्धि-कूप *m.* (शारीर) glenoid cavity
 असीय *mfn.* scapular
 अंस्यक *n.* (शारीर) humeral
 अकणिक *mfn.* nongranular
 अकण्टा: *m. pl.* (प्राणिकी) Anacanthini
 अकपाल-वृग *m.*, अ-कपाला: *m. pl.* (प्राणिकी) Acephala, Lamellibranchia
 अकर दस्तु *n.* free goods
 अकरोटय. *m. pl.* (प्राणिकी) Acrania
 अकर्मण्य *mfn.* passive, inactive
 अकर्मण्यन *n.* inactivate
 अकर्मण्यन-तापन *m.* inactivating bath
 अकर्मण्य बल *n.* (गणित) passive force
 अकर्मण्य भागी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) inactive partner
 अकर्म-वेतन, अकर्माधिदेय *n.* (अर्थशास्त्र) dolo
 अकल्प *mfn.* stainless
 अकल्प वज्रायत *n.* stainless steel
 अकार (अ) *m.* alpha (α)
 अकार-नभोनीली *f.* (रगदेशना) alphazurine
 अकार पात-परीक्षित्र *n.* alpha drop testing machine
 अकार लव *m.* (भौतिकी) alpha particle
 अकारव *m.* (भैषजिकी) alpher
 अकार-विरालिक *mfn.* (रसायन)

alphaltoluic
 अकारायस *n.* alpha iron
 अकार्य *mfn.* (अँड्रिदी) functionless
 अकाल-पक्व *mfn.* precocious
 अकालशोध ऋण *n.* (वाणिज्य) dead loan
 अकाशितावान् *mfn.* optically inactive
 अकिंचन *m.* poor, pauper
 अकिंचन-गृह *n.* poor-house
 अकिंचन-विधि *m.* poor law
 अकुप्य *n.* specie
 अकुप्य धातु *m.* noble metal
 अकूटिका: *m. pl.* (प्राणिकी) Ratitae
 अकृष्ट-भूमि *f.* untilled land, uncultivated land
 अकोश, अकोशीय *mfn.* (जैविकी) acellular
 अकोशीय अंगी (-इन्), अकोशीय जीव *m.* (प्राणिकी) acellular organism
 अक्रम *mfn.* haphazard
 अक्रमेण *adv.* haphazard, haphazardly
 अक्रिय *mfn.* inactive, inert
 अक्रिय वाणि *m.* (रसायन) inert gas
 अक्रिय-विपणि *f.* inactive market
 अछोमरन्ध्राति = अछोमरन्ध्र-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Rhabdopleura
 अक्ष *m.* axis
 अक्ष- axi-, axial, axo-, axono-
 अक्षक *m.* clavicle, collar-bone
 अक्षकी (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) clavicate
 अक्ष-कीकस *n.* (शारीर) axis vertebra
 अक्षकीय *mfn.* clavicular
 अक्षदण्ड *m.* 1 (प्राणिकी) axostyle 2 axle
 अक्षदण्डका *f.* stub axle
 अक्ष-दीर्घण *n.* (अँड्रिदी) prolongation of the axis
 अक्ष-धान *n.* (अयोमार्ग) axle box
 अक्षधान-शृंग *n.* axle box horns
 अक्षपटलिक *m.* accountant general
 अक्ष-परिवर्तन *n.* (गणित) transformation of axes
 अक्षपाद *m.* (प्राणिकी) axopodium, axiopodium
 अक्ष-प्राचली *f.* (आंकिकी) axis pencil
 अक्ष-मान *m.* (काशिकी) axo-meter, axono-meter
 अक्षय *mfn.* permanent
 अक्षय ऋण *n.* permanent debt
 अक्षय-नीवि *f.* permanent endowment
 अक्षय-प्रणीवि *f.* permanent fund
 अक्षर *n.* syllable
 अक्ष-रम्भ *m.* (शारीर, दैहिकी) axis cylinder

SARASVATI VIHARA SERIES

EDITED BY

RAGHU VIRA, M.A., PH.D., D.LITT. ET PHIL.

Director, International Academy of Indian Culture, Nagpur

IN COLLABORATION WITH OTHER SCHOLARS

Volume XXV.

HINDI-ENGLISH DICTIONARY
OF
TECHNICAL TERMS

Rupees 20/-

Shillings 30/-

1951

Published by

Dr. Lokesh Chandra, D. Litt. .

Secretary

The International Academy of Indian Culture, Nagpur (India)

Printed by

Shri S. K. Verma, M.A.

Manager

Arya Bharati Press, Nagpur

FOREWORD

It is now several years that we had started issuing our technical English-Indian Dictionaries. The first, relating to Inorganic Chemistry, came out in the early part of 1944. Since then there has been a continuous flow. We have covered a large variety of subjects, such as, Mathematics, Physics, Chemistry (Inorganic, Organic, Physical), Pharmacy, Dyes and Paints, Commerce, Banking, Administration, Constitution, Engineering, Medicine, Zoology, Botany, etc. etc.

The issuing of Indian technical terms has given a strong push to the production of technical literature in Hindi and other languages of India.

The Hindi version of the Indian Constitution prepared recently may be taken to be the first authoritative work of a highly technical nature.

As a member of the Constituent Assembly, the present author took keen interest in the Hindi version of the Constitution. In fact it was he who was entrusted by Dr. Rajendra Prasad, the President of the Constituent Assembly, to prepare the first draft of the legal and constitutional terms and phrases employed in the Constitution. He also participated in the finalization of the terminology. This terminology has been taken into other languages of India, right from Punjabi to Malayalam. Side by side with the provincial languages, a Sanskrit version of the Constitution is also in progress. The present author is a member of the Committee and he is happy to be able to convey to the users of this Dictionary that the constitutional terminology remains the same even in the Sanskrit version. This terminology has been considered in great details, word by word, by an All-India committee of language experts and has been adopted unanimously.

Following the appearance of the Hindi version of the Indian Constitution there have been coming out series of pamphlets, bulletins, budget estimates, parliamentary and legislative documents from the central and state capitals, all using the new technical phraseology, not covered by any Hindi-English Dictionary.

Then there are the newspapers which are using words like संसद् for Parliament, आयव्ययक्र for budget, विधेयक्र for bill, etc., etc.

Lastly, I may mention a number of technical text-books issued in Hindi and other languages of India. Here special importance attaches to the publications of the Nagpur University, which, under the orders of the Government of Madhya Pradesh, has been bringing out a collection of scientific volumes intended to serve as books of instruction in all branches of Chemistry, Physics, Mathematics, Botany and Zoology at the Intermediate stage. The present

author has had the honour and privilege of planning and executing these scientific volumes in the capacity of general editor. These are original works written by the teachers of the Nagpur University in two different versions—one in Hindi and the other in Marathi. All told they cover about fifteen thousand pages.

With the increasing use of Hindi and other languages in schools, universities, newspapers and in the state Secretariats, it is becoming more and more imperative that a Hindi-English Dictionary of technical terms be made available to officers, journalists, teachers and students.

I may particularly mention Dr. S. D. Limaye, who felt the need keenly and offered himself to prepare a reverse index to our Consolidated English-Indian Dictionary, first edition, 1950. My staff has been working under his supervision and the result is the present volume. To effect economy of space, long compounds and phrases have been left out in this volume. But the simple words which compose them will be found in their due alphabetic order. I am thankful to Dr. S. D. Limaye, without whose devotion, the work could never have seen the light of the day.

Nagpur
28. 5. 1951.

RAGHU VIRA

भारतीय-आङ्गल पारिभाषिक शब्दकोष

अ *a* (alpha)
 अ (अन्तर) Δ delta (difference)
 अ (अयस्) Fe (ferrum, iron)
 अ (आपात-कोण) i (angle of incidence)
 अ (सामान्य अस्तित्वाची) (तर्कशास्त्र) A
 (universal affirmative)
 अ- a-, an-, -less, non-
 अ. अ. (अधिकारम् अनु) p. p. (per procuracionem)
 अ. अंजन *n.* a-antimony
 अ अम्ल *n.* a (alpha) acid
 अ. आ. (अचलान्त्राणु) S (Shigella)
 अ. ए. (अन्तराष्ट्रिय एकक) I. U.
 (international units)
 अंश *m.* 1 (भौतिकी) degree 2 (गणित)
 numerator 3 (वाणिज्य) share
 अंश- demi- (अंशावतार demigod)
 अंश-अधिपत्र *n.* (वाणिज्य) share
 warrant
 अंशक *m.* 1 element (a part)
 2 (गणित) grade
 अंश-काल *m.* part-time
 अंशकाल-कर्मा (-इन्) *m.* part-time
 worker
 अंशकाल-पाठचर्या *f.* part-time
 courses
 अंशकालिक *mfn.* part-time
 अंश-छेदन *n.* curtail
 अंशतः partly, partially
 अंशतः शोधन *n.* part-payment
 अंशत-स्फटन-विरजतन-विधा *f.* =
 अंवि-विधा (धातुकर्म) Pattinson
 process
 अंशतो-दत्त *mfn.* partly paid
 अंशतो-नवकृत *mfn.* partly
 renewed
 अंशदत्त *mfn.* contributed
 अंशदाता (-त्तु) *m.* contributor
 अंशदान *n.* contribute *vb.*, con-
 tribution
 अंशदान-कर्म *n.* contributinal
 work
 अंशदायी (-इन्) *mfn.* contributory
 अंश-धारी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) share-
 holder
 -अंशन -lyse, -lysis
 अंश-निर्गमने अपहार *m.* discount on
 issue of shares
 अंश-पंजी *f.* (वाणिज्य) share regis-
 ter
 अंश-पुंजी *f.* (वाणिज्य) share capital,
 stock
 अंश-पुनर्निर्गमन *n.* reissue of
 shares
 अंश-प्रपंजी *f.* share ledger
 अंश-प्रमाणपत्र *n.* share certificate
 अंश-प्रव्याजि *m.* premium on
 shares
 -अंशयिता -lyst

अंश-विपणि *f.* share market
 अंश-संक्रमण *n.* share transfer
 अंशार्हा *f.* (रसायन) degree value
 अंशावतार *m.* demigod
 -अशि -lysin
 -अशिक -lytic
 अंशु *m.* 1 (औद्भिदी) strain 2 (विद्युत्,
 औद्भिदी) filament
 -अंशु (प्राणिकी) -tene (filament)
 अंशुक *n.* muelin (Sino-Indian
 Studies, Vol. II, p. 86)
 अंशुका *f.* (औद्भिदी) elater
 अंशु-परिवर्तक *m.* (तेजोन्वेष) filament
 transformer
 -अंशेद -lase
 -अंश्य -lyte
 अस *m.* shoulder
 अस-चक्र *n.* pectoral arch, shoul-
 der girdle
 असचक्र-पेशी *f.* pectoralis muscle,
 pectoralis
 असफलक *n.* scapula, shoulder
 blade
 असफलक- scapul-, scapulo-
 असफलकीय *mfn.* scapular
 असवेष्टकोप *m.* (आयुर्विद्या) deltoiditis
 असवेष्ट-पेशी *f.* deltoid muscle
 अससन्धि-कूप *m.* (शारीर) glenoid
 cavity
 अंसीय *mfn.* scapular
 अंस्यक *n.* (शारीर) humeral
 अकणिक *mfn.* nongranular
 अकण्टा: *m. pl.* (प्राणिकी) Anacan-
 thini
 अकपाल-वर्ग *m.*, अ-कपाल: *m. pl.*
 (प्राणिकी) Acephala, Lamelli-
 branchia
 अकर वस्तु *n.* free goods
 अकरोटय: *m. pl.* (प्राणिकी) Acrania
 अकर्मण्य *mfn.* passive, inactive
 अकर्मण्यन *n.* inactivate
 अकर्मण्यन-तापन *m.* inactivating
 bath
 अकर्मण्य बल *n.* (गणित) passive
 force
 अकर्मण्य भागी (-इन्) *m.* (वाणिज्य)
 inactive partner
 अकर्म-वेतन, अकर्माधिदेय *n.* (अर्थशास्त्र)
 dole
 अकलुष *mfn.* stainless
 अकलुष वज्रायस *n.* stainless steel
 अकार (अ) *m.* alpha (α)
 अकार-नभोनीली *f.* (रगदेशना)
 alphazurine
 अकार पात-परीक्षित्र *n.* alpha drop
 testing machine
 अकार लव *m.* (भौतिकी) alpha
 particle
 अकारव *m.* (भेषजिकी) alphol
 अकार-विरालिक *mfn.* (रसायन)

alphaltoluic
 अकारायस *n.* alpha iron
 अकार्य *mfn.* (औद्भिदी) functionless
 अकाल-पक्व *mfn.* precocious
 अकालशोध ऋण *n.* (वाणिज्य) dead
 loan
 अकाशितावान् *mfn.* optically
 inactive
 अकिंचन *m.* poor, pauper
 अकिंचन-गृह *n.* poor-house
 अकिंचन-विधि *m.* poor law
 अकुप्य *n.* specie
 अकुप्य धातु *m.* noble metal
 अकूटिका *m. pl.* (प्राणिकी) Ratitae
 अकृष्ट-भूमि *f.* untilled land, un-
 cultivated land
 अकोश, अकोशीय *mfn.* (जैविकी)
 acellular
 अकोशीय अंगी (-इन्), अकोशीय जीव
m. (प्राणिकी) acellular organism
 अक्रम *mfn.* haphazard
 अक्रमेण *adv.* haphazard, hap-
 hazardly
 अक्रिय *mfn.* inactive, inert
 अक्रिय वाति *m.* (रसायन) inert gas
 अक्रिय-विपणि *f.* inactive market
 अहोमरन्ध्राति = अहोमरन्ध्र-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) Rhabdopleura
 अक्ष *m.* axis
 अक्ष- axi-, axial, axo-, axono-
 अक्षक *m.* clavicle, collar-bone
 अक्षकी (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) clavi-
 culate
 अक्ष-कीकस *n.* (शारीर) axis vertebra
 अक्षकीय *mfn.* clavicular
 अक्षदण्ड *m.* 1 (प्राणिकी) axostyle
 2 axle
 अक्षदण्डिका *f.* stub axle
 अक्ष-दीर्घण *n.* (औद्भिदी) prolonga-
 tion of the axis
 अक्ष-धान *n.* (अयोमार्ग) axle box
 अक्षधान-शृंग *n.* axle box horns
 अक्षपटलिक *m.* accountant
 general
 अक्ष-परिवर्तन *n.* (गणित) transforma-
 tion of axes
 अक्षपाद *m.* (प्राणिकी) axopodium,
 axiopodium
 अक्ष-प्राचली *f.* (आंकिकी) axis
 pencil
 अक्ष-मान *m.* (काशिकी) axo-meter,
 axono-meter
 अक्षय *mfn.* permanent
 अक्षय ऋण *n.* permanent debt
 अक्षय-नीवि *f.* permanent endow-
 ment
 अक्षय-प्रणीवि *f.* permanent fund
 अक्षर *n.* syllable
 अक्ष-रम्भ *m.* (शारीर, वैदिकी) axis
 cylinder

अक्षरयोजक *m.* (सुद्रण) compositor
 अक्षरवण्टक *m.* (सुद्रण) distributor
 अक्षरस *m.* axoplasm
 अक्षररेखा *f.* (गणित) latitudo
 अक्षलस *mfn.* (औद्भिदी) axile
 (placentation)
 अक्षवत् *mfn.* axial
 अक्षवृत्त *n.* (गणित) latitude
 अक्षांश *m.* degree of latitude
 अक्षांश-समान्तर *n.* (गणित) parallels
 of latitude
 अक्षांशु *m.* (प्राणिनी) axial filament
 अक्षाभिग *mfn.* axipetal
 अक्षि *n.* eye, mesh, oculus
 अक्षि-oculo-, ocul-
 अक्षिका *f.* ocellus
 अक्षिकार *m.* ocellarist
 अक्षिकि *f.* oculin
 अक्षिकूप *m.* eye socket, orbit
 अक्षिकूप-छदि *n.* roof of orbit
 अक्षिकूप-पश्च *mfn.* post-orbital
 अक्षिकूप-भूमि *f.* floor of orbit
 अक्षिकूप-मूल *n.* root of orbit
 अक्षिकूप-शीर्ष *n.* apex of orbit
 अक्षिकोप *m.* ophthalmia, ophthalm-
 mitis
 अक्षि-गोल *m.* eyeball
 अक्षिगोल-प्रतुंगक *n.* prominence
 of the eyeball
 अक्षिगोल-प्रावर *m.* fascia bulbi,
 Tenon's capsule
 अक्षिचालक *mfn.* oculo-motor
 अक्षिचालक-चेता *f.* oculo-motor
 nerve
 अक्षाचकिरता *f.* oculistics
 अक्षिज्ञ *m.* oculist
 अक्षिता = -नेत्रता -opia, -opsia
 अक्षितारा *f.* eyespot (of a proto-
 zoan)
 अक्षि-दन्त *m.* eye-tooth
 अक्षिनास-चेता *f.* naso-ciliary
 nerve
 अक्षि-पट्ट *m.* orbital plate
 अक्षिप्र *mfn.* inactive
 अक्षिप्र कपूर *m.* inactive camphor
 अक्षिमानेक्ष *m.* oculo-metro-scope
 अक्षि सुद्रराणु *m.* Corynebacterium
 zerosis
 अक्षिलोछन *n.* stigma (of a proto-
 zoan)
 अक्षिवेद्य *m.* oculist
 अक्षुधा *f.* anorexia, anorexy
 अक्षुब्ध *mfn.* calm, unagitated
 अक्षोट *m.* walnut
 अक्षोट-कुल *n.* (औद्भिदी) Juglan-
 daceae
 अक्षोट-गोत्र *n.* Juglans
 अक्षोटति = अक्षोट-प्रजाति *f.* Aleu-
 rites, Juglans
 अक्षोट-तैल *n.* artist's oil, Kakmi

oil
 अक्षोत्थापक *m.* elevator
 अक्षोत्थापन *n.* elevation
 अक्षोभ *m.* tranquillity
 अक्षोभ तथा शान्ति *f.* peace and
 tranquillity (note that the
 order in English is reversed)
 अक्षाणिनी *f.* group of armies
 अक्षुष-पट्ट *m.* infra-orbital plate
 अक्षुषरि-पट्ट *m.* supra-orbital
 plate
 अक्षुष उदर *n.* unsegmented
 abdomen
 अक्षुषता *f.* integrity
 अक्षुष-न्यष्टि *f.* mononuclear,
 monocyte
 अक्षुष-न्यष्टिजन वेदराणु *m.* Bacterium
 monocytogenes
 अक्षुष स्तम्भ *m.* (औद्भिदी) unbroken
 column
 अ. खा. (अर्थस्यारी) bl., bar. (barrel)
 अखिल-भारतीय-सेवा *f.* All-India
 Service
 अगतिक *mfn.* inert
 अगद *m.* medicament
 अगद-iatro-
 अगद-निर्देशक *m.* prescriber
 अगद-निर्देशन *n.* prescribe
 अगद-रसायन *m.* iatro-chemist
 अगद-रसायन *n.* iatro-chemistry
 अगदीय *mfn.* medicinal
 अगन्त्र, अगन्त्रविमान *m.* glider
 अगर् *m.* agalloch, agallochum,
 aloes wood
 अगरितति = अगरित-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Agasti
 अगाधवासी जीव *m.* abyssal life
 अगुणार्थक *mfn.* (तर्कशास्त्र) noncon-
 notative
 अगुरुकृत माध्य *n.* (अर्थशास्त्र) un-
 weighted average
 अगुरुति = अगुरु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Aquilaria
 अगुर्वक-रज्य *mfn.* (प्राणिनी) osmio-
 phobe, osmiophobic (not
 readily stained by osmic
 acid)
 अग्नि *m.* fire
 अग्नि- pyro-
 अग्नि-आगोप *m.* fire insurance
 अग्नि-उद्धारिका *f.* fire syringe
 अग्निकाय-प्रजाति *f.* (प्राणिनी) Pyro-
 soma
 अग्निकाय-वंश *m.* Pyrosomatidae,
 Pyrosomidae
 अग्निकायाः *m pl.* Lucida
 अग्निकाष्ठि *f.* pyroxylin
 अग्निक्वीडनक *m.* fireworks
 अग्निक्वीडनकी *f.* pyrotechny
 अग्नि-क्वीडा *f.* Bengal fire

अग्नि-सदिरव *m.* pyro-catechol
 अग्निगर्भाति = अग्निगर्भ-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) Ammannia
 अग्निगोपनेत्र *m.* (वाणिज्य) fire policy
 अग्नि-चूर्ण *n.* gun-powder
 अग्निचूर्णादि *n.* ammunition
 अग्निछिद्र कपाट *n.* (अयोमार्ग) firehole
 door
 अग्निजन *m.* (रसायन) pyrogen
 अग्निजातातु *m.* (रसायन) pyro-
 xonium
 अग्निदाहिन *n.* (मैना) grenado
 अग्निदुस्फोटक *m.* pyro-gallol
 अग्नि-द्रुस्फोटक *n.* pyro-gallate
 अग्निद्वार *n.* fire door
 अग्निद्वार-उन्नोक *m.* fire door re-
 lease
 अग्नि-धान *n.* (अयोमार्ग) fire box
 अग्नि-धान-मूर्धा *m.* (अयोमार्ग) fire box
 crown
 अग्निनाल *m.* (अयोमार्ग) fire-tube
 अग्निनाल वाष्पित्र *n.* fire-tube boiler
 अग्नि-निर्वाप-आदेश *m.* curfew
 अग्निन्य *n.* pyran
 अग्निन्यदितिग्नि *f.* -pryanodioxin
 अग्निन्यल *n.* pyranyl
 अग्निपयिज्ञ *m.* pyrophyllite
 अग्नि-पिपीलिका *f.* fire ant
 अग्नि-प्रमाजत *n.* (काच-निर्माण) fire-
 polish, firepolishing
 अग्निभर *mfn.* pyrophoric
 अग्निभारवीय *n.* pyrophosphate
 अग्निमान *m.* pyrometer
 अग्नि-मृत्तिका *f.* fire clay
 अग्निराज (अग्नी राजते) *m.* pyrex
 अग्निराज-काच *m.* pyrex glass
 अग्निरालु *m.* pvyrium
 अग्नि-वर्षा (-इन्) *m.* (सेना) spit-lre
 अग्निशम-सेवा *f.* fire service
 अग्नि-शक्ति *n.* fire-engine
 अग्नि-शलाका *f.* fire-bars
 अग्नि-शामथिता (-वृ) *m.* fire
 extinguisher
 अग्निशिखा *f.* superb lily
 अग्निशिखाति = अग्निशिखा-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) Gloiosa
 अग्निष्ठिका *f.* fire-place
 अग्निसह *mfn.* fireproof
 अग्नि-सेवा *f.* fire-service
 अग्नीध *m.* fireman
 अग्नीष्टका *f.* firebrick
 अग्नेन्य *n.* (रसायन) pyrene
 अग्नेन्यशन *n.* (रसायन) pyrolysis
 अग्नेन्यशन-नाल *m.* pyrolysis tube
 अग्नेन्यशन-आष्ट *n.* pyrolysis fur-
 nace
 अग्नेन्यजनीय *n.* pyro-antimonate
 अग्नेन्यत्र *n.* ammunition
 अग्नेन्यस्त्रागार *n.* ammunition depot
 अग्नेया *f.* pyrene

अग्न्यायी *f.* (रंगदेशना) pyronine
 अग्न्यासु *m.* (रंगदेशना) pyronal
 अग्न्युपल *m.* (खानिजी) fire-opal
 अग्न्युपसी *f.* (रंगदेशना) pyrosine
 अग्र 1 *n.* end, extremity, tip, point, apex 2 *mfn.* anterior, forward, leading, terminal
 अग्र-*pre-*
 अग्र उद्विक्षेप *m.* (अभियंत्रणा) front elevation
 अग्र-कलिका *f.* (बौद्धिदी) terminal bud
 अग्रकाय *m.* = शुक्रकोशाय *n.* (प्राणिकी) acrosome
 अग्रग *mfn.* forward
 अग्रगण्डस्थि *n.* squamosal bone, squamosal, squamosa
 अग्र-गति *f.* forward movement
 अग्रगा क्रिया *f.* (रसायन) forward reaction
 अग्रगामी (-इत्) *mfn.* forward
 अग्रचोल *m.* (अंगुष्ठिदी) caruncle
 अग्रजन *m.* foreman
 अग्रत in front
 अग्र-तटाक *m.* (भूसेचन) forebay
 अग्रतः स्थिति *f.* (सेना) forward position
 अग्रतो-दान *n.* advance (to supply before-hand, as money)
 अग्रतोवर्ध *m.* (प्राणिकी) pluteus
 अग्रतोवर्धन *n.* (चाक्षुषी) bulging in front
 अग्रदाय *m.* (वाणिज्य) imprest
 अग्रदाय-राशि *m.* imprest money
 अग्रदीप *m.* headlight, head lamp
 अग्रस्थीय *mfn.* nonglandular
 अग्रन्युब्ज कीकस *n.* procoelous vertebra
 अग्र-पक्ष *m.* fore-wing
 अग्रपदच antero-posterior, antero-posteriorly
 अग्रपदच *mfn.* (प्राणिकी) sagittal
 अग्र-पश्चतया antero-posteriorly
 अग्र-पाद *m.* fore-limb
 अग्र-पीडा *f.* (आयुर्विद्या) acrodynia
 अग्र-पुष्प *n.* terminal flower
 अग्रप्रकाश *m.* headlight
 अग्र-प्रान्त *m.* anterior margin
 अग्र-भाग *m.* terminal part, pars anterior, frontage
 अग्रभित्ति *f.* front wall
 अग्र-भूमि *f.* fore-ground
 अग्र-मस्तिष्क *n.* fore-brain, proencephalon
 अग्र-मुख्या *f.* anterior cardinals, anterior cardinal veins
 अग्रशोणिवर्ध *m.* (प्राणिकी) prezyg-apophysis, prozygapophysis
 अग्र-वर्ध *m.* metapophysis
 अग्र-वलय *m.* basi-ring

अग्रवलि *mfn.* circinate
 अग्रवलि कण्टाल *m.* Cycas circinalis
 अग्र-वृद्धि *f.* apical growth
 अग्र-शृंग *n.* anterior cornua
 अग्र सघटक *m.* (गणित) leading constituent
 अग्रहनु *f.* premaxilla
 अग्रहन्वस्थि *n.* premaxillary, premaxillary bone
 अग्राग *n.* fore-limb
 अग्राधर *mfn.* basi-ventral
 अग्राधारकर्षर गवाक्ष *m.* fenestra hypophyseos, anterior basocranial fenestra
 अग्रानीत *mfn.* brought forward
 अग्रामिमुख-स्थिति *f.* (भौतिकी) end-on-position
 अग्रामिवर्ध क्रम *m.* acropetal succession
 अग्राह्य *mfn.* 1 (गणित) inadmissible 2 ineligible
 अग्रिम *n.* advance
 अग्रिम-प्रपञ्जी *f.* advance ledger
 अग्रिम रक्षी (-इत्) *m.* (सेना) advance guard
 अग्रिम शोधन *n.* payment in advance
 अग्रे forward, in advance, in future
 अग्रे-करण *n.* advance *vb.* (to forward, to further)
 अग्रे-गमन *n.* advance *vb.* (to make to go on)
 अग्रे-दत्त *n.* paid-in-advance
 अग्रे-नयन *n.* advance *vb.* (to bring forward, carrying forward, carrying over)
 अग्रनयन-दिवस *m.* contango day
 अग्रनयन-प्रसार *m.* contango
 अग्रनीत *mfn.* carried forward
 अग्रप्रेषण *n.* forward
 अग्रे-मूल्य *n.* forward price
 अग्रे-विनिमय *m.* forward exchange
 अग्र-शोधन *n.* payment in advance
 अग्रे-स्थापन *n.* submit, advance (to place farther forward)
 अग्रे-स्थापित *mfn.* submitted
 अग्रोत्तर *mfn.* (प्राणिकी) basidorsal
 अग्रोद्वाही (-इत्) *m.* front truck
 अग्रोरस *n.* prothorax
 अग्रोरुपेशी *f.* pectineus
 अवोपित्र *n.* larynx (in birds it does not function as a वोपित्र the mammalian larynx)
 अंक *m.* figure (digit), graduation, point
 अंक- numerical
 अंक-कुत्तुर *m.* lap dog (अंक 'lap')

अंक-क्षेत्र *n.* number field
 अंकगणित *n.* arithmetic
 अंकगणितीय-सख्या *f.* arithmetical number
 अंकन *n.* marking, mark *vb.*, plot *vb.* (to mark the position of on a plan)
 अंकनी *f.* pencil
 अंकनी-अग्र *n.* pencil point
 अंकनी-अग्रप *m.* pencil point protector
 अंकनी-उत्तज *m.* pencil sharpener
 अंकनी-उद्वेख *m.* pencil drawing
 अंकनी-प्रस्तर *m.* pencil stone
 अंकपरीक्षक *m.* (शिक्षण) valuer
 अंकपालित्र *n.* book-keeping machine
 अंक-लेखन *n.* (वाणिज्य) figuring
 अंक-विज्ञान *n.* science of numbers
 अंकशोधक *m.* calibrator
 अंकशोधन *n.* calibrate, calibration
 अंकश्रेणी *f.* scale
 अंक-सामग्री *f.* numerical data
 अंकाः (योग्या) *m.* pl. numbers
 अंकानीक *n.* dial
 अंकायत *m.* (गणित) array
 अंकित *mfn.* enumerated, graduated, marked
 अंकित-अर्हा *f.* face value
 अंकुर *m.* 1 (शारीर) papilla 2 = प्ररोह sprout (shoot)
 अंकुर-रन्ध्र *n.* (बौद्धिदी) germ pore
 अंकुश *m.* hook
 अंकुशक *m.* hooklet
 अंकुशकृमि *m.* hookworm
 अंकुश-पक्ष *m.* hook-wing
 अंकुश-प्रतानी (-इत्) *m.* hook climber
 अंकुशमुखरक्षा *f.* ankylostomiasis
 अंकुशमुख-वंश *m.* Ancylostomidae
 अंकुशमुखाति = अंकुशमुख-प्रजाति *f.* Ancylostoma, Ancylostomum
 अंकुशगुण्ड-वंश *m.* Reduviidae
 अंकुशिचूप-वंश *m.* Davaineidae
 अंकुशिचूपाति = अंकुशिचूप-प्रजाति *f.* Davainea
 अंकेशक *m.* auditor
 अंकेशण *n.* audit *vb.*, auditing
 अंकेशा *f.* audit *n.*
 अंकेशा-टिप्पणी *f.* audit note
 अंकेशित-लेख *f.* audited account
 अंकाः (योग्या) by numbers
 अकोल *m.* Alangium lamarekii
 अंकोली *f.* alangine
 अंग *n.* 1 component, member 2 (शारीर) organ 3 part, unit
 अंगक *n.* tentacle

अंगकर्ता (-रु) *m.* (प्राणिकी) organizer
 अंगक-वृत्त *n.* (प्राणिकी) circlet of tentacles
 अंगग्रह *m.* spasm
 अंग-चेताप्रदाय *m.* enervation of an organ
 अंगन-जलपात्र *m.* gully trap
 अंगनिर्मायि द्रव्य *n.* organ-forming material
 अंग-माया-काल' *m.* (प्राणिकी) organ magic period
 अंगमार *m.* blight (an organism causing blight)
 अगमारी *f.* blight
 अगारक्षक *m.* bodyguard
 अंगारसचिकित्सा *f.* organotherapy, opotherapy
 अंगवर्णना *f.* organography
 अंगवृत्त *n.* (प्राणिकी) topography
 अंगव्यापार *m.* physiology
 अंगस्थिति *f.* (प्राणिकी) topography
 अंगाङ्कुर *m.* (प्राणिकी) anlage
 अंगाणु *m.* organella
 अंगातिवृद्धि *f.* macroplasia
 अंगार *m.* charcoal, coal
 अंगार- carboni-
 -अंगार- -carb-, -carbo-
 अंगार-अन्धन *m.* coal blende
 अंगार-इष्टका *f.* charcoal block
 अंगार-करण *n.* carbonize (to convert into carbon, to char)
 अंगार-कालिमा *m.* 1 carbon black
 2 (रगदेशना) charcoal black
 अंगार-कोष्ठ *m.* (अयोगाग) coal bunker
 अंगार-क्षेत्र *n.* coal field
 अंगार-खनि *f.* coal mine, colliery
 अंगार-गर्त *m.* coal-pit
 अंगार-छिद्रक *m.* charcoal borer
 अंगार-जन *mfn.* carbonigenous
 अंगारण *n.* coalification, coalify
 अंगार-तरप *m.* 1 beds of coal
 2 (भौमिकी) coal measures
 अंगार-पित्तल *n.* coal brass
 अंगार-भर *mfn.* carboni-ferous
 अंगार-भवन *n.* carbonize (to become carbonized, to char)
 अंगार-सूद् *f.* charkaolin
 अंगारम्भ *m.* (जैविकी) anlage
 अंगार-युग *n.* Carboniferous age or period
 अंगार-युग चूर्णप्रस्तर *m.* (भौमिकी) Carboniferous limestone
 अंगार-राल *m.* coal tar, pitch
 carbonis
 अंगारराल-पटलेय *m.* emplastrum picis, plaster of pitch
 अंगार-वाति *m.* coal gas
 अंगारायस *n.* charcoal iron
 अंगारिय *mfn.* carbonaceous

अगारीभाव *m.* (भौमिकी) carbonification
 अंगारोट *m.* carbonite
 अगारीयोग *m.* coal industry
 अंगिका *f.* (प्राणिकी) organelle
 अंगी (-इन्) *m.* organism
 अगीकरण *n.* admit, adopt
 अंगीकार *m.* comply (admit)
 अंगुतिमजनि *f.* digoxigenin
 अंगुतिग्मि *f.* digoxin
 अंगुपणि *f.* digitofol
 अंगुमिथ्र *n.* digitofol
 अंगुल *m.* digit
 अंगुलक *n.* (भैषजिकी) digitalis = digitalis folium = digitalis leaf = foxglove leaf
 अंगुलकजनि *f.* digitaligenin
 अंगुलकधु *n.* digitalose
 अंगुलक-निष्कर्ष *m.* tincture of digitalis = tinctura digitalis
 अंगुलकि *f.* digitalin
 अंगुलकिन *m.* (भैषजिकी) digitalin
 अंगुलजनि *f.* digitogenin
 अंगुलध्वि *f.* digitonin
 अंगुलि *f.* finger
 अंगुलि-अग्र *n.* finger tip
 अंगुलिजाल *n.* toeweb
 अंगुलिजाल दण्डाणु Bacillus epidermidis, Bacillus graveolens
 अंगुलित्र *n.* thimble
 अंगुलिपर्व *n.* phalange = phalanx
 अंगुलिपर्व- phalangal = phalangeal
 -अंगुलिपर्वता *f.* -phalangia
 अंगुलिपर्वस्थि *n.* phalangeal bone = phalanx
 अंगुलिपर्वीय *mfn.* phalangal = phalangeal
 अंगुलि-फलक *m.* finger board
 अंगुलीयक *n.* finger-ring
 अंगुलिपि *f.* digitoxin
 अंगुलिपिजनि *f.* digitoxigenin
 अंगुलिपिथु *n.* digitoxose
 अंगुष्ठ *m.* large toe, thumb
 अंगुष्ठकवश *m.* (प्राणिकी) Grantiidae
 अंगुष्ठकाति = अंगुष्ठक-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Grantia
 अंगुष्ठ-पद *n.* thumb impression
 अंगुष्ठिका *f.* (शारीर) villus
 अचकासी (-इन्) *mfn.* nonluminous
 अचर *mfn.* nonmotile
 अचर्मकोपि *f.* adermin
 अचल *mfn.* 1 (सांख्यिकी) absolute
 2 constant, immovable, invariable; standing
 अचल-अर्हा *f.* constant value
 अचल आन्त्र दण्डाणु Bacillus coli immobilis
 अचल-करण *n.* immobilize
 अचलकारी (-इन्) *m.* immobilizing

agent
 अचल तरंग *m.* (भौतिकी) standing wave
 अचल पद *n.* (बीजगणित) absolute term = constant term
 अचल सन्धि *m.* imperfect joint = immovable joint
 अचल-सम्पत्ति *f.* immovable property
 अचलालु *m.* invar
 अचलान्त्राणु *m.* Shigella
 अचलिष्णु *mfn.* immobile
 अ. चि. (अनुज्ञाधारी चिकित्सक) L. M. P. (licentiate medical practitioner)
 अचिन्त्य *mfn.* inconceivable
 अचिर *mfn.* temporary
 अचिरपक्ष *m.* ephemerid = ephemerian
 अचिरपक्षाः *m.pl.* Ephemeroptera
 अचुम्ब- nonmagnetic
 अचूर्ण-रुह *m.* calci-fuge (plants)
 अचेतन 1 *m.* coca 2 *mfn.* inanimate
 अचेतन-पत्र *n.* coca leaves
 -अचेतनी *f.* -caine (cocaine)
 अचेताकोपि *f.* aneurin
 अचूत *mfn.* nonnervous
 अचेतन्य *n.* narcosis
 अच्यावी (-इन्) *mfn.* leak-proof
 अछादित वाहन *n.* open wagon
 अछिद्रकरोटयः *m. pl.* Anapsida
 अछिद्र करोटि *f.* anapsid skull
 अछिद्रचूर्णय-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Biloculina
 अज (अजीवाति) Az (azote)
 अज *mfn.* azo
 अज goat
 अज- (रसायन) az-, azo- (azote)
 अजक *mfn.* azo
 अजक्षय *m.* (पशुचिकित्सा) takosis
 अजक्षय गुच्छगोलाणु Micrococcus caprinus
 अजगन्धी *f.* azthine
 अजगर *m.* 1 boa 2 python
 अजजन स्थिर नील *m.* (रगदेशना) azogene fast blue
 अज-जा- az-ox-
 अज-जातातु *m.* az-oxonium
 अज-जार- az-oxy-
 अज-तातु *m.* azonium
 अजतिकृती *f.* (रगदेशना) azamine
 अज-तैलिक *mfn.* az-elaic
 अज-तैलीय *n.* az-elate
 अज-ट्रिफोदिन *m.* azo-gallein, azo-galleine
 अज-धरगिक *mfn.* azo-humic
 अज-धूमिक *n.* az-ulmic
 अज-ध्वनि *m.* (आयुर्विद्या) egophony

अजनीलशेष *m.* (रंगदेशना) azo mauve
 अजनीला *mfn.* (रंगदेशना) azindone
 अजन्युता *f.* (औद्धिरी) apogamy
 अजपर्णकुल *n.* Caprifoliaceae
 अजपर्णति = अजपर्ण-प्रजाति *f.* Caprifolium
 अज-प्रोदी *f.* azo-methine
 अजमृग *m.* chamois (a goatlike antelope)
 अजमृगाजिन *n.* chamois skin
 अजमोद *m.* apiol
 अजमोदवा *f.* apiole
 अजमोदा-प्रजाति *f.* Helosciadium = Apium
 अजमोदा *m.* apionol
 अजमोदि *f.* apiin
 अजमोदिधु *n.* apiose
 अजमोदेहि *f.* (भेषजिकी) (अजमोद + तैल + ङ) apiolin
 अज रंजक *m.* azo dyes
 अजर-प्रजाति *f.* Ageratum
 अजल *mfn.* anhydrous
 अजल-अhydro-, अhydro-
 अजलचिह्नित *mfn.* unwater-marked (paper)
 अजलचूर्णशुद्धिज *m.* anhydrite
 अजल-जावि *n.* anhydr-oxime
 अजल धावन *n.* dry clean, dry cleaning
 अजल-पीठ *n.* anhydro base
 अजल-मधु *m.* anhydro-glucose
 अजल-रंजन *n.* dry-dye
 अजलिज *m.* anhydrite
 अजलेय *n.* anhydride
 अजलेय-करण *n.* anhydridization, anhydriization, anhydridize, anhydrize
 अजव *m.* (रंगदेशना) azol
 अजव *m.* (रसायन) -azol
 अजवा *f.* azole
 अजवी *f.* -azoline
 अजशुक्लवतिवतेय *n.* neo-prontosil = azosulphamide
 अज-शेवलि *f.* azo-hitmin
 अजा-आशय *m.* goat's bladder
 अजा-ज्वर *m.* goat fever
 अजा-ज्वर अयिनोलाणु (शाकाण्विकी) *m.* Alcaligenes melitensis = Brucella melitensis = Bacillus melitensis = Micrococcus melitensis
 अ-जान्बुक-वाल *m.* cretin
 अ-जान्बुक-वाल्य *n.* (आयुर्विधा) cretinism
 अजारकजीव *m.* anaerobe
 अजारक-जीवन *n.* anaerobiosis
 अजारक-दशा *f.* torula condition
 अजारक-पूयन *n.* anaerobic putrefaction

अजारक श्वसन *n.* anaerobic respiration
 अजारकित *mfn.* nonoxygenated
 अजिन-सन्ध *m.* furrier
 अजिनोपानहू *m.* moccasin
 अ-जिन्य *m.* a-oxan
 अजिह्व *direct*
 अजी- (अजीवाति) azi- (azote)
 अजीर्ण *n.* dyspepsia
 अजीर्ण *n.* indigestion
 अजीव *mfn.* nonliving
 अ-जीव-जनन *n.* a-bio-genesis
 -अजीविक *mfn.* -azylic
 -अजीवा *f.* -azone
 अजीवाजनन *n.* a-bio-genesis
 अजीवाणु *mfn.* (शाकाण्विकी) sterile
 अजीवाणुता *f.* sterilization
 अजीवातक *m.* azofier
 अजीवातन *n.* azofication, azofy
 अजीवाति *m.* azote
 अजीवाति- azot- azoto- (azote)
 अजीवातिक *mfn.* azotic
 अजीवानित *n.* azotite
 अजीवाति-मान *m.* azoto-meter
 अजीवातिय *mfn.* azoted, azotic
 अजीवाति-युत *mfn.* azoted
 अजीवाति-योजन *n.* azotize
 अजीवाति-योजित *mfn.* azoted
 अजीवाति-व्यापित *mfn.* azoted
 अजीवाति *f.* azotine
 अजीवातीय *n.* azotate
 अजीवातीयन *n.* azotize
 अजीवात्य *mfn.* azotic, azotous
 अजीविक *mfn.* (रसायन) azoic, -azic
 अजीवी *f.* (रसायन) azine, azino-
 -अजीवीन्य *n.* (रसायन) -azane
 -अजीवीय *n.* -azoate
 अजीवी रंजक *m.* azine dyes
 अजीवेय *n.* (रसायन) azide
 अजीवेयी (रंगदेशना) azidine
 अजोत्तेलेन्य *n.* azo-naphthalene
 अज्ञात *mfn.* unknown
 अज्ञात-कल्प *m.* (भौमिकी) Agnoffozoic
 अज्ञात राशि *m.* (य, र, ल x, y, z) unknown quantity
 अज्ञान *n.* ignorance
 अज्ञानं प्रति युक्ति *f.* argumentum ad ignorantiam
 अ-ज्वर-व *m.* (भेषजिकी) abrastol
 अं (अंजन) (रसायन) Sb (stibium = antimony)
 अंज- (रसायन) stib- (stibium)
 अंजचूषिज *m.* stibiopalladinite
 अंजजारिज *m.* cervantite
 अंजजारेयिज *m.* senarmontite
 अंजतातु *m.* (रसायन) stibioniy
 अंजन *n.* antimonium = antimony
 अंजन- stib- (stibium)
 अंजन कुंकुम *n.* antimony saffron

= crocus antimonii
 = crocus of antimony
 = crocus metallorum
 अंजन-कुंकुम *n.* (खानिजी) antimony bloom = valentinite
 अंजन-कृत *mfn.* (रसायन) antimoniated
 अंजनजारशिज *m.* kermesite = pyrostibite
 अंजन-तमिह्ता *f.* inky night
 अंजन पीत *m.* antimony yellow = daffodil yellow = Merimee's yellow = Naple's yellow = sunray
 अंजन-भर *mfn.* (रसायन) antimoniferous
 अंजन-युक्त *mfn.* (रसायन) antimoniated
 अंजन-युत *mfn.* stibiated (combined with or containing antimony)
 अंजन-रजत *n.* (खानिजी) antimon-silver
 अंजन रत्ना *f.* (खानिजी) antimony glance = stibnite
 अंजनल *n.* (रसायन) antimonyl
 अंजन शुक्लेय *n.* (खानिकर्मी) antimony crude = antimony sulphide
 अंजन हिंयुल *n.* (खानिजी) antimony cinnabar = antimony vermilion
 अंजनातु *m.* = अंजन *n.* antimonium = antimony
 अंजनान्धन *m.* (खानिजी) antimony blende
 अंजनाम *n.* crude antimony = antimony sulphide
 अंजनिक *mfn.* (रसायन) antimonie
 अंजनिल *m.* antimonite = antimony glance = stibnite
 अंजनित *m.* (रसायन) antimonite
 अंजनी *f.* (रसायन) stibine
 अंजनीय *n.* (रसायन) antimonate
 अंजनेय *n.* (रसायन) antimonide
 अंजनेयित *mfn.* (रसायन) antimoniu-reted, antimoniu-retted
 अंजनेयित उदजन *m.* (रसायन) antimoniu-retted hydrogen
 अंजन्य *mfn.* (रसायन) antimonious
 अंजन पीत *m.* (रंगदेशना) Merimee's yellow = antimony yellow
 अंजरशिज *m.* pyrargyrite
 अंजरूपियज *m.* dyscrasite = antimonial silver
 अंजस्त्रीशिज *m.* zinkenite = zinckenite
 अटरूपति = अटरूप-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) Justicia
 अटवीजन्वीरति = अटवीजन्वीर-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) Atalantia

अणि *m.* (यत्र) 1 pin
 2 point, pointed tip
 अणिमद् अत्र *n.* (प्राणिकी) pointed end
 अणु- *micro-*
 अणु-अवसादन नाल *m.* micro sedimentation tube
 अणु उपेन्द्रगोप *m.* Trombicula aka-mushi
 अणु-काय *m.* (प्राणिकी) micro-home
 अणु-काष्ठिका *f.* (तेजोन्वेष) micro-seconda
 अणु-कोशा *f.* (शारीर) microcyte
 अणुगोल *m.* micrococcus
 अणुच्छिद्र क्षुर *m.* microtome razor
 अणु जारण पल्लि *m.* micro oxidation flask
 अणुजीव *m.* microbe, micro-organism
 अणुजीवधन *mfn.* microbicide
 अणुतक्ष *m.* microtome
 अणु-तरंग *m.* (तेजोन्वेष) micro-wave
 अणुतरंग-नाल *m.* (तेजोन्वेष) resatron
 अणुतरङ्ग-पारेषक *m.* (तेजोन्वेष) microwave transmitter
 अणुतरङ्ग-पारेषण *n.* (तेजोन्वेष) microwave transmission
 अणु दाहक *m.* micro burner
 अणु-युक्षम *m.* (भौतिकी) microfarad
 अणु-युक्षम *n.* (भौतिकी) microvolt
 अणु द्रवमि *m.* micro burette
 अणु-धान्य *n.* (ग्र. धा.) micro-gram ($\mu g.$)
 अणु-न्यष्टि *f.* micro-nucleus
 अणु पिनाल दाहक *m.* micro Bunsen burner
 अणुप्राणी (-इन्) *m.* animalcules (microscopic)
 -अणुभक्ष -bacteriophage
 अणुभाचित्र = भाणुचित्र *n.* micro-photograph = photomicrograph
 अणुभाष *m.* (भौतिकी) microphone
 अणुम *m.* = प्रयुक्ति-मान micro-meter = micron (μ) (ग्र. मा., प्रि. मा.)
 अणु-मान *m.* (भौतिकी) micrometer = micron (μ)
 अणुमान-अण्वीक्ष *m.* (भौतिकी) micrometer microscope
 अणुमान भ्रम्यामान *m.* (भौतिकी) micrometer screw gauge
 अणु-सूया *f.* micro crucible
 अणुरसायनिक *mfn.* microchemical
 अणुवर्णना *f.* micrography
 अणु सधर *m.* micro clamp
 अंड *n.* (औद्भिदी) oosphere =

ooplast = egg = ovum
 अण्ड- oval
 अण्डकलंक नानारूप *Proteus melan-ovogenes*
 अण्डकवकानि *n. pl.* (जैविकी) Oomycetes
 अण्डकवची (-इन्) *m.* (प्राणिकी) ootype
 अण्ड-कोशा *f.* (जैविकी) egg cell = ovum = oocyte
 अण्डगुहासन्धि *m.* (शारीर) condyloid joint
 अण्डगोल *m.* (औद्भिदी) egg = ooplast = oosphere = germinal corpuscle
 अण्डज *mfn.* (प्राणिकी) oviparous
 अण्डजन *m.* (प्राणिकी) germarium
 अण्डजनन *n.* 1 oogenesis = oogeny
 2 *vb.* spawn
 अण्डज-संजीव *m.* (प्राणिकी) oozoid
 अण्डजस्तनि *n. pl.* (प्राणिकी) Prototheria = monotremes = Monotremata
 अण्डद्वार *n.* (औद्भिदी) micropyle
 अण्डधानी *n.* (औद्भिदी) venter
 अण्डधानी कुल्या कोशा *f.* (औद्भिदी) ventral canal cell
 अण्डनिधाता (-त्) *m.* (प्राणिकी) ovipositor
 अण्डनिधान *n.* oviposit
 अण्डनिधानांग *n.* (प्राणिकी) ovipositor
 अण्डप *m.* (शारीर) carpel
 अण्डप-भर *m.* (औद्भिदी) carpophore
 अण्ड-पीत *m.* egg yellow
 अण्डपीत *n.* yolk
 अण्डपीत- vitelline
 अण्डपीत-कोशा *f.* (प्राणिकी) vitelline cell
 अण्डपीत-निग *m.* (प्राणिकी) yolk plug
 अण्डपीति *f.* (जीवरसायन) lecithin
 अण्ड-पोष *m.* (प्राणिकी) vitellarium
 अण्ड-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) oviduct
 अण्डप्रणाली. oviducal
 अण्डप्रणाली-निवाप *m.* (प्राणिकी) oviducal funnel
 अण्डप्रावर *m.* (प्राणिकी) ovicepsule
 अण्डबीजाणु *m.* (औद्भिदी) oospore
 अण्डबीजाणु-गर्भ *m.* (औद्भिदी) endothecium
 अण्डरस *m.* ooplasm
 अण्डरसीय *mfn.* ooplasmic
 अण्डरसीय द्रव्य *n.* ooplasmic material
 अण्डरूप *mfn.* ovoid
 अण्डरूप गुच्छगोलानु *Micrococcus viticulosus*
 अण्डवत् *mfn.* (औद्भिदी) ovate

अण्डवेष्ट *m.* (प्राणिकी) chorion
 अण्डशावक *m.* (मधुपालन) brood
 अण्डशावका: *m. pl.* (प्राणिकी) brood (youngs produced from eggs)
 अण्डशीर्षे गदाणु *Clostridium capitovialis*
 अण्डश्लेप *m.* (प्राणिकी) ooglea
 अण्ड-श्वेति *f.* (जीवरसायन) egg albumen
 अण्ड-सावित्र *n.* (औद्भिदी) egg apparatus = germinal apparatus
 अण्डसू. *f.* (प्राणिकी) oviparous
 अण्डस्नेह *m.* yolk
 अण्डस्नेह-ग्रन्थि *m.* (प्राणिकी) yolk gland
 अण्डस्नेह-न्यष्टि *f.* (प्राणिकी) yolk nucleus
 अण्डस्यून *m.* (प्राणिकी) ovisac
 अण्डस्यूनिका *f.* (शारीर) Graafian follicle, ovarian follicle
 अण्डाकर्षण *n.* (प्राणिकी) castration
 अण्डाकार *mfn.* oval, ovoid
 अण्डाकार क्षुद्र दण्डाणु *Bacillus ovatus minutissimus*
 अण्डाकार गवाक्ष *m.* (प्राणिकी) fenestra ovalis = fenestra vestibuli
 अण्डाकार-रोहिणी *f.* (प्राणिकी) ovarian artery
 अण्डाकार हिमञ्चरी (-इन्) *m.* Plasmodium ovale
 अण्डाञ्जनन *n.* hatch
 अण्डाञ्जन्यता *f.* (प्राणिकी) hatchability
 अण्डाद (सर्प) *m.* (प्राणिकी) egg-eater
 अण्डादुद्गमन *n.* hatch
 अण्डाशय *m.* (औद्भिदी) ovary
 अण्डाशय-नाल *m.* (प्राणिकी) ovarian tube
 अण्डाशय-निःसार *m.* (भैषजिकी) ovarian extract
 अण्डाशय-न्यासर्ग *m.* ovarian hormone
 अण्डाशयसुज (प्राणिकी) mesovarium
 अण्डाशय-संयोग *m.* (भैषजिकी) ovarian compound
 अण्डाशयाकर्षण *n.* (प्राणिकी) ovariectomy = spaying (female castration to remove ovaries)
 अण्डाशयाल (अण्डाशय + नाल) (प्राणिकी) ovariole
 अण्डक *n.* (पारजैविकी) ovum (a single cell from which the embryo develops; not अण्ड)
 अण्डोपनेत्र *n.* oval glasses
 अण्डोष *m.* spawn
 अण्डोषजनन *n.* (प्राणिकी) spawn
 अण्विन्द्रगोप *m.* microtrombidium
 अण्वीक्ष *m.* microscope

अण्वीक्ष-*mfn* microscopic
 अण्वीक्षदृश्य *mfn*. microscopic
 अण्वीक्ष-दृश्य शारीर *n*. microscopic anatomy
 अण्वीक्ष-द्वारा परीक्षा *f*. (जैविकी) microscopic examination
 अण्वीक्ष-निर्मिति *f*. (औद्भिदी) micro-preparation
 अण्वीक्ष-प्रयोग *m*. micrography
 अण्वीक्ष रञ्जक *m*. microscopic dye
 अण्वीक्ष शारीर *n*. microscopic anatomy
 अण्वीक्ष-सुप *m*. microscope slide
 अण्वीक्ष-सुप *m*. (औद्भिदी) microslide
 अण्वीक्ष-स्थाप *m*. microstat
 अण्वीक्षीय-निर्मिति *f*. (औद्भिदी) microscopic preparation
 अण्वीक्ष्य *mfn*. microscopic
 अण्वीक्ष्य काय *m*. microscopic bodies
 अतः therefore
 अतरसंबद्ध *mfn*. noncorresponding
 अतथ्य *mfn*. inexact
 अतथ्य *adv*. inexactly
 अतथ्यतया *adv*. inexactly
 अतथ्यता *f*. inexactitude
 अतः परं further
 अतरलकर शाखी दण्डाणु *m*. Bacillus arborescens nonliquefaciens
 अतर्कित *mfn*. unexpected
 अतरिचह *n*. sign of therefore
 अतसिका *f*. (औद्भिदी) cathartolinum, catharticum
 अतसिकि *f*. (रसायन) linin
 अतसी *f*. linseed
 अतसी-कुल *n*. (औद्भिदी) Lineae
 अतसी-तन्तु *m*. linseed fabric
 अतसीति = अतसी-प्रजाति *f*. Linum
 अति very
 अति- 1 over-, ultra 2 (रसायन) per-
 अति अभिज्वाल्य *mfn*. highly inflammable
 अति-उद्भिकसित *mfn*. (औद्भिदी) highly evolved
 अतिकाय 1 *m*. (प्राणिकी) giant
 2 *mfn*. gigantic
 अतिकायत्व *n*. (प्राणिकी) gigantism
 अतिकार्यता *f*. (प्राणिकी) hyperfunction
 अतिकास = कुम्कुरकास *m*. (आयुर्विद्या) pertussis = whooping cough
 अतिकास ओपप्रियाणु *m*. Hemophilus pertussis = Bordet's bacillus, Bordet-Gengou b., B. pertussis, B. tussis convulsivae
 अतिकासीय दण्डाणु *m*. Koplik's

bacillus
 अतिकु. (अतिकुन्तलाणु) L. (Leptospiro-
 spira)
 अतिकुन्तलाणु (अतिकु.) *m*. Leptospi-
 ra (L.)
 अतिकुन्तलाणुरुजा *f*. (आयुर्विद्या) leptospirosis
 अतिकोलसुता *f*. (आयुर्विद्या) barbitalism
 अतिक्रतेय *n*. (रसायन) anammonide
 अतिक्रमण *n*. violation
 अतिक्रियाशीलता *f*. (प्राणिकी) hyperactivity
 अतिक्षारता *f* (आयुर्विद्या) alkalosis
 अतिक्षार-पीतता *f*. (उद्भिद्-वैकारिकी) alkali chlorosis
 अतिगलभ्रंशिता *f*. (आयुर्विद्या) hyperthyroidism
 अतिगुरु-शतघ्नी *f*. (सेना) superheavy gun
 अतिगोल भ्रमाप्य *m*. Volvox perlobator = rolling alga
 अतिघटन *n* (प्राणिकी) metaplasia
 अतिच्यवन *n*. percolate
 अतिच्याव *m*. percolation
 अतिछन्न *mfn*. (औद्भिदी) overlapped
 अतिछादन *n*. overlap
 अतिछादी (-इन्) *mfn* overlapping
 अतिजननभ्रंशिक्रियता *f*. (प्राणिकी) hypergenitalism
 अति-जनसंख्या *f*. (अर्थशास्त्र) overpopulation
 अति-जम्बिक *mfn*. (रसायन) per-iodic
 अतिजम्बिक अम्ल *n*. per-iodic acid
 अति-जल-विलेय *mfn*. very soluble in water
 अति-जारणीय *mfn*. very oxidizable
 अनिजारेय *n*. (रसायन) hyperoxide = peroxide
 अतिजीवन *n*. outlive, survive
 अतिजीविता *f*. (जैविकी) survival
 अति-ता *f*. -osis
 अतितिकवीता *f*. (आयुर्विद्या) aminosis
 अतिवक्रुस्नेह दण्डाणु *m*. Bacillus spiriferus
 अतिदण्डाणुता *f*. (आयुर्विद्या) bacillosis
 अति-दान *n* (to) administer large doses
 अतिदुराप्तीता *f*. (आयुर्विद्या) bromism
 अतिदुराजम्बुजा *f*. (आयुर्विद्या) bromoidism
 अति-नक्षरिक अम्ल *n*. (रसायन) per-ruthenic acid
 अति-नक्षरीय *n*. (रसायन) per-ruthenate
 अतिनीरसुता *f*. (आयुर्विद्या) chloralism
 अतिनूतनयुग *n*. (भौतिकी) Pliocene
 अतिपानि कार्य *n*. urgent work
 अतिपाती (-इन्) *mfn*. 1 (आयुर्विद्या)

(प्राचीन शब्द) acute (disease)
 2 urgent
 अनिपादम् (योग्या) step out
 अतिपानना *f*. (आयुर्विद्या) alcoholism
 अतिपायिता *f*. alcoholicity
 अतिपायी (-इन्) *m*. alcoholic (ad-
 dicted to alcohol)
 अतिपाव *m*. ultrafilter
 अतिपिग अर्थगोलाणु *m*. Neisseria perflava
 अतिप्रदाय *m*. (अर्थशास्त्र) glut
 अति-प्रविकिरण *n*. (प्राणिकी) overirradiation
 अतिप्राशन *n*. overfeeding
 अतिवाहतीता *f* (भेषजिकी) atropism
 अतिशुद्ध *mfn*. immense
 अतिभक्षण *n*. overfeeding
 अतिमधुरकता *f*. hyperglycemia
 अतिमन्द अर्थगोलाणु *m*. Neisseria tardissima
 अतिमन्दयक्ष्म दण्डाणु *m*. Calmette-Guerin bacillus
 अतिमन्द समीर *m*. light air
 अतिमहत् *mfn*. infinitely great
 अतिमात्र *mfn*. enormous, excessive
 अतिमात्र लयक *n*. excessive bail
 अतिमात्रा *f*. overdose
 अतिम्लेच्छीता *f*. (आयुर्विद्या) caffeinism = caffeism
 अतिरक्तकोशता *f*. (आयुर्विद्या) polycythaemia
 अतिरक्तमा (-मन्) *m*. (आयुर्विद्या) erythema
 अतिरिक्त *mfn*. 1 additional, extra, excess, spare
 2 except
 अनिरिक्त अपर न्यायाधीश *m*. extra additional judge
 अनिरिक्त देय *n*. extra payment
 अनिरिक्त भाग *m*. spare part
 अनिरिक्त मत *n*. surplus votes
 अनिरिक्त-लाभ-कर *m*. excess-profits tax
 अनिरिक्त सचिव *m*. extra secretary
 अनिरिक्त समय *m*. spare time
 अनिरिक्त सहायक अकेडक *m*. extra assistant auditor
 अतिरेक 1 *m*. excess, surplus
 2 *mfn*. surplus
 अतिरेक-अर्हा *f*. (अर्थशास्त्र) surplus value
 अतिरेक-अर्हा-सिद्धान्त *m*. (अर्थशास्त्र) theory of surplus value
 अतिरेक उत्पाद *m*. (अर्थशास्त्र) surplus produce
 अतिरेक-जल *n*. excess water
 अतिरेक नियोजन *n*. excess appropriation
 अतिरेक श्रम *m*. surplus labour

अतिरोहि कारण *n.* causa eminens
 अति-लोहकीय *n.* (रसायन) permanganate
 अतिवर्णिक अम्ल *n.* (रसायन) perchromic acid
 अतिवर्धन *n.* hypertrophy
 अतिवात *m.* (32-38 को. प्रतिगण्ट) moderate gale
 अतिवितापता *f.* (आयुर्विद्या) cinchonism
 अति-विलेय *mfn.* (रसायन) very soluble
 अतिविषा *f.* Aconitum heterophyllum
 अतिविषिता *f.* (आयुर्विद्या) toxinosis
 अतिविषी *f.* atisine
 अतिवृद्धि *f.* hypergenesis, overgrowth
 अतिवृद्धता *f.* (औद्धिदी) hypertrophy
 अतिवेधन *n.* permeate
 अतिवेध्य *mfn.* permeable
 अतिवेध्यता *f.* permeability
 अतिवेध्यता-मान *m.* permeameter
 अतिव्ययी *mfn.* spendthrift
 अतिव्याप्त लक्षण *n.* (तर्कशास्त्र) too wide definition
 अतिशयन *n.* exceed, exceeding, excel
 अतिशयपीती (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) megalecithal
 अतिशयवृद्ध *mfn.* (प्राणिकी) exaggerated
 अतिशयित *mfn.* excelled
 अतिशयी (-इन्) *mfn.* excelling
 अति-शु-मिश्र *n.* (मैषजिकी) Basham's mixture
 अतिशुक्लव्यामजन पीत *m.* (रगदेशना) persulphocyanogen yellow
 अतिशुक्लीय *n.* persulphate
 अतिशुक्लेय *n.* persulphide
 अतिशुक्त्य *n.* (भौतिकी) hy-vac
 अतिशोधन *n.* (चाक्षुषी) over-correction
 अतिशोभन *mfn.* (औद्धिदी) pulcherrimus
 अतिशुद्धता *f.* (आयुर्विद्या) albuminosis
 अतिशुद्धता *f.* (आयुर्विद्या) leucemia
 अति-सन्निद्रत *mfn.* highly concentrated
 अतिसमीप *mfn.* very close to
 अतिसर्व *mfn.* supreme
 अतिसर्वता *f.* supremacy
 अतिसार *m.* (आयुर्विद्या) diarrhea
 अतिसार अधिकुन्तलाणु *m.* spuillum helcogenes
 अतिसार आन्त्रज्वराणु *m.* Bacillus paradoxus

अतिसार द्योष्ट *m.* (प्राणिकी) Ascaris lumbricoides
 अतिसार वेत्राणु *m.* Bacterium dysenteriae
 अतिसारगद्य आन्त्र दण्डाणु *m.* Bacillus coli dysentericus
 अतिसारीय दण्डाणु *m.* bacillus "F"
 अति-सु-दृश्यता *f.* very good visibility
 अतिमुपवोद (अ. सु.) *n.* (रसायन) aboveproof spirit = overproof spirit (O.P.)
 अति-सूक्ष्म क्षोद *m.* very fine powder
 अतिसूक्ष्म-तापमान *m.* Beckmann thermometer
 अनिस्थायी (-इन्) *mfn.* persistent
 अति-स्थूल क्षोद *m.* very coarse powder
 अतिहरिकी *f.* Paris green
 अतिहरिभृग्यता *f.* (आयुर्विद्या) cantharidism
 अतीन्द्रिय *mfn.* imperceptible
 अतीन्द्रियता *f.* imperceptibility
 अतृप्य-अमीच्छा *f.* (अर्थशास्त्र) insatiable want
 अत्यणु *mfn.* infinitely small
 अत्यणु कलन *n.* (गणित) infinitesimal calculus
 अत्यणुनया *adv.* (गणित) infinitesimally
 अत्यणुता *f.* (गणित) infinitesimality = infinitesimalness
 अत्यणु समीप *mfn.* (गणित) infinitesimally close
 अत्यधिक *mfn.* excessive
 अत्यधिक भाटक *n.* (वाणिज्य) rack rent
 अत्यन्त 1 *mfn.* extreme 2 *adv.* extremely
 अत्यन्त विलेय *mfn.* freely soluble
 अत्यन्त सूक्ष्म क्षोद *m.* extremely fine powder
 अत्यम्लता *f.* 1 (आयुर्विद्या) acid tide 2 hyper-acidity
 अत्यम्लता-काल *m.* (आयुर्विद्या) acid tide
 अत्यर्थ *mfn.* extreme
 अत्यल्प very sparingly
 अत्यरि जल-विलेय *mfn.* very sparingly soluble in water
 अत्यल्प-विलेय *mfn.* very sparingly soluble
 अत्युच्च *mfn.* (तेजोन्त्रेप) ultra high
 अत्युत्पादन *n.* (प्राणिकी) overproduction
 अत्युदव *m.* (रसायन) perhydrol
 अत्युद्दीपन *n.* (प्राणिकी) overstimulation
 अत्येकशुल्वारिक अम्ल *n.* (रसायन)

Caro's acid or reagent = permonosulphuric acid
 अत्र-भवान् Your Honour
 अथ 1 suppose 2 then
 अथ च also, moreover
 अथ यदि provided, provided that
 अथवा or
 अथापि moreover
 अदशक्षुद्रानुवंश *m.* Meliponinae
 अदशक्षुद्रा-प्रजाति *f.* Melipona
 अदक्ष *mfn.* unskilled
 अदक्ष कर्मा (-इन्) *m.* unskilled worker
 अदक्षता *f.* inefficiency
 अदक्ष श्रम, अदक्ष श्रमिक *m.* unskilled labour
 अदक्षानीरिज *m.* rinneite
 अदग्ध *mfn.* unburnt
 अदग्ध वाति *m.* unburnt gas
 अदग्ध-वाति-शुक्ल *m.* cone of unburnt gases
 अदत्त *mfn.* (वाणिज्य) outstanding, unpaid
 अदत्त अंश *m.* unpaid share
 अदत्त-पुजी *f.* unpaid capital
 अदत्त प्रभाग *m.* (वाणिज्य) call unpaid
 अदत्त-याचना *f.* unpaid call
 अदत्त-राशि *m.* outstandings
 अदत्त लामांश *m.* unpaid dividend
 अदत्त-वृद्धि *f.* unpaid interest
 अदत्त व्यय *m.* outstanding expenditure
 अदत्त नेप *m.* outstanding balance
 अदना *f.* (आयुर्विद्या) caries
 अदन्तमीनिक *mfn.* (रसायन) clupanodontic
 अदन्तमीनिका-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) clupanodon
 अदल द्विबीजपत्र *m.* (औद्धिदी) apetalous dicotyledon
 अदल पुष्प *n.* (औद्धिदी) apetalous flower
 अदल-पुष्प *n.* (मैषजिकी) pasque flower = pulsatilla
 अदलपुष्प-निष्कर्ष *m.* tincture of pulsatilla = tinctura pulsatillae
 अदलः *m.pl.* (औद्धिदी) Apetalae, Monochlamydeae
 अदह *m.* (खानिजी) asbestos, asbestus
 अदह-पट्टिका *f.* asbestos tape
 अदह पत्र *n.* asbestos paper
 अदह पत्रपट्ट *m.* asbestos mill-board
 अदहप्राचीर-कोशा *f.* (रसायन) Gibbs cell
 अदह-मय *mfn.* asbestos
 अदह-रूप *mfn.* asbestiform

अदह-सिकता *f.* asbestic
 अदह-स्तर छदि *n.* asbestos sheet
 roof
 अदहाम *mfn.* asbestoid, asbesto-
 idal
 अदहीय *mfn.* asbestic, asbestine,
 asbestous
 अदाह्य 1 asbestic, asbestine,
 asbestous 2 incombustible,
 noninflammable
 अदाह्य-करण *n.* asbestinize
 अदिन-स्थगन *n.* adjourn sine die
 अदिन-स्थगित *mfn.* adjourned sine
 die
 अदीर्घवर्ण समायत *m.* (सांख्यिकी)
 Latin square
 अदूर तेजोन्वेषण *n.* short range
 navigation
 अदूरान्वेष *m.* (तेजोन्वेष) shoran
 अदृश्य *mfn.* invisible
 अदृश्य द्विनाभि *m.* (चाक्षुषी) invisible
 bifocals
 अदृश्य निष्क्राम्य *n.* (अर्थशास्त्र)
 invisible export
 अदृश्यपक्षः *m. pl.* (प्राणिकी) Aphanip-
 ptera
 अदृश्य प्रवेश्य *n.* (अर्थशास्त्र) invis-
 ible import
 अदृष्टकणारम *m.* aphanite
 अदृष्ट भाग *m.* hidden part
 अदृष्ट-लक्ष्य-स्थापना *f.* (सेना) indirect
 laying
 अदेहगुह *mfn.* (प्राणिकी) acoelomate
 = acoelomatous
 अदेहगुहिन *m. pl.* Acoelomate
 अद्भुत *mfn.* remarkable
 अद्भुत केशलद्विपत्र *m.* Welwits-
 chia mirabilis
 अद्य यावत् up to date
 अद्राव्य *mfn.* infusible
 अ. द्रो. (अर्थ-द्रोण) pk. (peck)
 अद्धार *m.* blind end
 अ. दि-मिहेय *mfn.* a-bi-uret
 अद्विलिगी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) dioe-
 cious
 अध. (अधमर्ण) dr.
 अधः- 1 down; downward, infra-,
 under- 2 (शारीर) sub- (situ-
 ated below)
 अधःआनीत *mfn.* brought down
 अधःकङ्काल *m.* (अयोमानी) bad frame
 अधःकलावर *m.* (औद्भिदी) sub-
 hymenium
 अधःकोण *m.* (गणित) bottom
 corner
 अधःखनन *n.* (सेना) sapping
 अधःपालि *mfn.* (औद्भिदी) runci-
 nate
 अधःपृष्ठवंश- (प्राणिकी) subventral
 अधःपृष्ठवंश-लसीका-कोटर *n.* (प्राणिकी)

subvertebral lymph sinus
 अधःपृष्ठवंशीय *mfn.* subvertebral
 अध पोत *m.* U-boats
 अध प्रनाडी *f.* (प्राणिकी) subcosta
 अधम *mfn.* lowest
 अधमर्ण *m.* debtor
 अधमर्ण-अपहार-संचिति *f.* reserve for
 discount on debtors
 अधमर्ण-उत्नोचन *n.* discharge of a
 debtor
 अधमर्ण-ऋणमुक्ति *f.* release of debt-
 ors
 अधमर्ण-प्रपंजी *f.* debtor's ledger
 अधर *mfn.* 1 inferior 2 lower,
 ventral
 अधर- ventro-
 अधर अधिचर्म *n.*, अधर अधिस्तर *m.*
 lower epidermis
 अधर आगार *n.* lower house
 अधर-ऋजुपेशी *f.* inferior rectus
 अधर ओष्ठ *m.* ventral lip = lower
 lip
 अधर चतुर्थक *n.* (सांख्यिकी) first quar-
 tile = lower quartile
 अधर चर्म *n.* lower skin
 अधरचर्म-वाहिनी *f.* ventrotegumen-
 tary vessel
 अधर-चिह्न *n.* lower sign
 अधर तल *n.* (प्राणिकी) ventral sur-
 face
 अधर-तिरश्ची (पेशी) *f.* (शारीर) inferior
 oblique = obliquus inferior
 अधरतिर्यक्पेशी *f.* obliquus infe-
 rior = inferior oblique
 अधरदन्त *m.* teeth in mandible
 अधरपट्ट *m.* (प्राणिकी) sternum, ster-
 nite (ventral plate)
 अधर-पाठशाला *f.* lower school
 अधरपादर्व *mfn.* (प्राणिकी) ventrola-
 teral
 अधर पृष्ठतल *n.* (भौतिकी) lower sur-
 face
 अधर-महानील *f.* (प्राणिकी, शारीर)
 inferior vena cava = post-
 cava
 अधर-महारोहिणी *f.* (प्राणिकी) ventral
 aorta
 अधर-महाशिखा *f.* postcaval vein
 अधर मूल *n.* (शारीर) ventral root
 अधर-मेरुमन्त. *m. pl.* (प्राणिकी) lower
 chordates
 अधर-रुधिर-वाहिनी *f.* ventral blood
 vessel
 अधरवर्त्तन *n.* (चाक्षुषी) lower lid =
 palpebra inferior = palpebra
 malaris = lower eyelid
 अधर विदर *m.* (प्राणिकी) ventral
 fissure
 अधर-सेवनी *f.* (औद्भिदी, भौतिकी) ven-
 tral raphe

अधर-हनु-चेता *f.* maxillary infe-
 rior = mandibular nerve
 अधर हनुपट्ट *m.* lower maxillary
 plate
 अधरहनु-पेशी *f.* pterygoid muscle
 अधराघात *m.* (आयुर्विद्या) paraplegia
 अधराच्छद्-वाहिनी *f.* (प्राणिकी) ventro-
 integumentary vessel
 अधराण्डाशय *m.* (औद्भिदी) inferior
 ovary
 अधराण्डाशयाः *m. pl.* (औद्भिदी) Inferae
 अधरान्त्र- ventrointestinal
 अधरान्त्र-वाहिनी *f.* ventro-intesti-
 nal vessel
 अधरिक् *mfn.* 1 (औद्भिदी) hypobasal
 2 subordinate
 अधरिक् कर्मचारिवर्ग, अधरिक् कर्मचारी *m.*
 subordinate staff
 अधरिक्-जाति *f.* (औद्भिदी) subordi-
 nate species
 अधरिक्-सेवा *f.* subordinate ser-
 vice
 अधरौष्ठ *m.* (प्राणिकी) lower lip =
 ventral lip
 अध शून्य साधित्र *n.* (भौतिकी) Reg-
 nault's apparatus
 अधश्चर्म *mfn.* (प्राणिकी) hypodermal
 = subcutaneous
 अधश्चर्मकति *f.* (औद्भिदी) Hypoderma
 अधश्वितुक *n.* submentalis, sub-
 mentum
 अधश्वेता-वाहिनी *f.* subneural vessel
 अध श्लेष्म- submucous
 अध श्लेष्मक *m.* submucosa
 अधस- batho-, cato-
 अध सामान्य *mfn.* subnormal
 अध सामान्य सान्ध *n.* (अर्थशास्त्र) sub-
 normal equilibrium
 अधस्तडाम *m.* (आत्मवह) bottom
 tank
 अधस्तर *m.* (औद्भिदी) hypodermis
 अधस्ताल समन्वेषण *n.* (भूसेचन) sub-
 surface exploration
 अधस्तात् (गणित) from below
 अधस्तापमान *m.* (आयुर्विद्या) kata-
 thermometer
 अधस्तुण्ड खात *m.* subrostral fossa
 अध स्तुत-कला *f.* (शारीर) basement
 membrane
 अध-स्थ वर्ग *m.* backward classes
 अध-स्थ-संरचना *f.* (प्राणिकी) under-
 lying structure
 अध-स्थाय *m.* (सेना) sunken empla-
 cements
 अध-स्पर्शरेखा *f.*, अध स्पर्श (इन्) *m.*
 (रैखिकी) subtangent
 अधस्तर *m.* (प्राणिकी) hypo-blast
 अधस्तरकृत *m.* (प्राणिकी) hypo-blast
 अ. था. (अच्युत-धान्य) myg. (myria-
 gram)

अधातु *m.* (रसायन) non-metal
 अधातु- nonmetallic
 अधात्वीय *mfn.* nonmetallic
 अधाव्य *mfn.* (शाकाण्डिकी) fast
 (resisting)
 -अधाव्य *mfn.* (शाकाण्डिकी) 1 सुवधा-
 धाव्य- positive (gram-positive)
 2 -resistant
 अधि higher
 अधि- 1 (वाणिज्य) over- 2 super-
 3 (अधिविशद) very high
 अधि, अनु (अधिकारम् अनु) (अर्थशास्त्र)
 p. p. (per procuracionem)
 अधिक *mfn.* excess, more
 अधिक अन्तर *n.* (मुद्रण) more space
 अधिक अभियाचन *n.* excess demand
 अधिक उपकार *m.* additional benefit
 अधिक कोण *m.* obtuse angle
 अधिकतम *mfn.* maximum
 अधिकतम-तृप्ति *f.* (अर्थशास्त्र) maximum
 satisfaction
 अधि-कर *m.* super-tax
 अधिकरक्त वृक्कोप दण्डाणु *m.* Bacillus
 haemorrhagicus nephritidis
 अधि-करारोपण *n.* overtaxation
 अधिकर्म *n.* over-work
 अधिक विलेय *mfn.* more soluble
 अधिक-गोधन *n.* overpayment
 अधिकसक्षेपण *adv.* more briefly
 अधिक सुकर *mfn.* more convenient
 अधिकांश *mfn.* chiefly
 अधिकांगता *f.* polymelia = poly-
 mely
 अधिकाधिक in the greatest
 अधिकार *m.* right, rights
 अधिकार-काल *m.* tenure of office
 अधिकारक्षेत्र *n.* jurisdiction
 अधिकार तथा उत्तरदायित्व rights and
 liabilities
 अधिकार तथा कर्तव्य rights and
 obligations
 अधिकार-दान *n.* empower
 अधिकारपत्र (अधिपत्र) *n.* (वाणिज्य)
 warrant
 अधिकार-पृच्छा *f.* (विधि) quo war-
 ranto
 अधिकार-पृच्छा-लेख *m.* writ of quo
 warranto
 अधिकार-प्रयोग *m.* exercise of
 rights
 अधिकार-प्रलेख *m.* (अर्थशास्त्र) docu-
 ment of title
 अधिकार-प्रवर्तन *n.* enforcement of
 rights
 अधिकारम् अनु (अ. अ., अधि, अनु)
 (विधि) per procuracionem
 (p. p, per pro.)
 अधिकार-मानी (-इन्) *m.* bureaucrat
 अधिकार-रक्षा *f.* protection of rights
 अधिकारशुल्क *n.* royalty

अधिकारारूढ पक्ष *m.* party in power
 अधिकारार्थन *n.* ask for as a right
 अधिकारि- *mfn.* official, staff
 अधिकारिगण *m.* officers
 अधिकारि-राज्य *n.* bureaucracy
 अधिकारि-रूप *n.* official capacity
 अधिकारिरूपेण सम्बद्ध *mfn.* officially
 connected
 अधिकारि-वर्ग *m.* bureaucracy,
 official class
 अधिकारि-वहिनयान *n.* staff car
 अधिकारि-सूची *f.* official list
 अधिकारी (-इन्) *m.* official = officer
 अधिकारीय *mfn.* official
 अधिकारीय अभिधान *n.* official desig-
 nation
 अधिकु. (अधिकुन्तलाणु) (शाकाण्डिकी) S
 (Spirillum)
 अधिकुन्तलाणु *m.* Spirillum
 अधिकुन्तलाणुकुल *n.* (शाकाण्डिकी) Spi-
 rillaceae
 अधिकुप्यन *n.* debasement
 अधिकृत *mfn.* competent, entitled
 अधिकृत न्यायालय *m.* competent
 court
 अधिकृत *mfn.* overdrawn
 अधिकृत विपत्र *n.* (अधिकोपण) over-
 drawn bill
 अधिकोण *m.* obtuse angle
 अधिकोण-त्तापमान *m.* obtuse angle
 thermometer
 अधिकोष *m.* (वाणिज्य) bank
 अधिकोष-अधिपत्र *n.* bank note
 अधिकोष-अर्थ *m.* bank rate
 अधिकोष-उद्धार *m.* bank credit
 अधिकोपण *n.* banking
 अधिकोपण कर्म *n.* (अर्थशास्त्र) bank
 operation
 अधिकोपण-मन्त्रदाता (-रु) banking
 advisor
 अधिकोष-पति *m.* (वाणिज्य) banker
 अधिकोष-पत्र (पत्र = अर्थपत्र) *n.* bank
 note
 अधिकोष-परिषद् *f.* bank association
 अधिकोष-प्रत्यय *m.* bank credit
 अधिकोष-भाटक *m.* bank rent
 अधिकोष-विकर्ष *m.* bank draft
 अधिकोष-वृत्त *n.* bank return
 अधिकोष-व्यापार *m.* banking
 अधिकोष-संकट *n.* bank crisis
 अधिगम *m.* (वाणिज्य) gain
 अधिगम्य अर्थ *m.* intelligible mea-
 ning
 अधि-गुह्य *n.* super-secret
 अधिघटन *n.* paraplasim
 अधिचर्म *n.* epidermis
 अधिचर्म-आदाता (-रु) *m.* epidermal
 receptor
 अधिचर्मकति = अधिचर्मक-प्रजाति *f.*
 Epidermophyton

अधिचर्म गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus
 epidermidis
 अधिचर्मजन *m.* (औद्भिदी) dermato-
 gen
 अधिचर्मिय *mfn.* epidermal
 अधिचार *mfn.* superfine
 अधिचार धून्ली स्फट *m.* (रगदेशन)
 superfine magenta crystals
 अधिचार नीललोहित *m.* superfine
 violet
 अधिचूर्णरक्तता *f.* (आयुर्विद्या) hypo-
 calcemia
 अधिचूषक *m.* adsorbent
 अधिचूषण *n.* (भौतिक रसायन) adsorb,
 adsorption
 अधिचूषण ऊष्मा *m.* heat of adsorp-
 tion
 अधिचूषित *mfn.* adsorbate, ad-
 sorbed
 अधिचूषी (-इन्) *mfn.* adsorptive
 अधिचूष्य *mfn.* adsorbable
 अधिचोल *m.* (औद्भिदी) aril
 अधिच्छद्-epitheli- = epithelio-
 अधिच्छद् *m.* epithelium
 अधिच्छद्-epithelio-, epitheli-
 अधिच्छद्करण, अधिच्छद्न *n.* epithe-
 lize
 अधिच्छद्-पेशी-कोशा *f.* epithelio-
 muscular cell
 अधिच्छद्बृद्धि *f.* (आयुर्विद्या) epithe-
 liosis
 अधिच्छद्दाम *mfn.* (शारीर) epitheloid
 अधिच्छद्दीय *mfn.* epithelial
 अधिच्छद्दीय स्तर *m.* (औद्भिदी) epithe-
 lial layer
 अधिछात्र *m.* fellow
 अधिछात्रवृत्ति *f.* fellowship
 अधि-जीवितिता *f.* (आयुर्विद्या) hyper-
 vitaminosis
 अधितप्त *mfn.* superheated
 अधितप्त प्रवाष्प *m.* superheated
 steam
 अधितप्तशम *m.* desuperheater
 अधितप्तान *m.* (भौतिकी) supertone
 अधितापक *m.* (अयोमार्ग) super-
 heater
 अधितापक-नाड *n.* superheater
 pipes
 अधितापक-वाहिनी-नाल *m.* super-
 heater flue tubes
 अधितापक-शीर्षणी *f.* superheater
 header
 अधितप्तजोन्वेप *m.* superradar
 अधित्रपु *n.* pewter
 अधिदन्त *m.* redundant tooth
 अधि-दन्ति-चक्र *n.* extragear wheel
 अधिदर्शक *m.* overseer
 अधिदर्शन *n.* oversee
 अधिदर्शनीय *mfn.* spectacular
 अधि-दाय *m.* (अर्थशास्त्र) oversupply

अधिदिन *n.* leap day
 अधिदिन वर्ष *m.* leap year
 अधिदृश्य *n.* spectacle
 अधिदेय *n.* allowance, extra payment
 अधिनायक *m.* (सेना) havildar
 अधिनियम *m.* act (of parliament), enactment
 अधिनियमन *n.* enact
 अधिनिष्कासन *n.* (अर्थशास्त्र) evict
 अधिनीलातिरक्त *m.* fuchsia; Tyrian pink
 अधिनौमाटक *m.* plimage
 अधिन्यष्टि *f.* merocyte
 अधिपणन *n.* over-trading
 अधिपत्र (अधिकारपत्र) *n.* (वाणिज्य, विधि) warrant
 अधिपत्र-निक्षेप *m.* (अर्थशास्त्र) warrant deposit
 अधिपीतातिरक्त *m.* burnt ocher, light red, chrome scarlet, florentine, flame scarlet, Indian orange, lobster, mandarin, mandarin red, mikado, sweet orange
 अधि-पुंजी *f.* (अर्थशास्त्र) watered capital
 अधिपुंजीयन *n., vb.* (अर्थशास्त्र, वाणिज्य) overcapitalization, water, watering
 अधिपुंजीयित *mfn.* over-capitalized
 अधिपुरुष *m.* boss
 अधि-पूर्ति *f.* (अर्थशास्त्र) oversupply
 अधिपोतिक *m.* Royal Navy Commander
 अधि-प्रतिस्वन *m.* hyper-resonance
 अधि-प्रदाय *m.* (अर्थशास्त्र) oversupply
 अधि-प्रयाणम् (योग्या) double march
 अधिप्रवण (चाक्षुषी) standing level
 अधिप्राथित-पुंजी *f.* over-subscribed capital
 अधिप्लवन-मार्ग *m.* spillway
 अधिप्लवन-वार *m.* (भू-संरक्षण) waste weir
 अधिवह्य *mfn.* (दंष्ट्रिकी) hyperisotonic = hypertonic
 अधिवाष्प-नारण विधा *f.* Barff's process
 अधिमवन *n.* predominate
 अधिमार *n.* (वाणिज्य) surcharge
 अधि-भारमोक *m.* super-tare
 अधिनैड *n.* bread, dabal roti
 अधिमत् *mfn.* preferred
 अधिमनन *n.* prefer
 अधिमान *n.* preference
 अधिमान्त. preferentially
 अधिमान-पद्धति *f.* (अर्थशास्त्र) prefer-

ence system
 अधिमान्य *mfn.* preferable, preferential
 अधिमान्य अध्ययन *n.* (अर्थशास्त्र) preferential claim
 अधिमाम्य उत्तमण *m.* preferential creditor
 अधिमाम्य प्रशुल्क *n.* (अर्थशास्त्र) preferential tariff
 अधिमूर्च्छा *f.* (आयुर्विद्या) coma
 अधिमूल *n.* (औद्धिदी) taproot
 अधिमूल-सहति *f.* (औद्धिदी) taproot system
 अधिमूल्यन *n.* (अर्थशास्त्र) appreciate, appreciating, appreciation, overvaluation
 अधिमूल्यित *mfn.* appreciated
 अधिमूल्ये (वाणिज्य) above par, at premium
 अधिमूल्ये ऋणपत्र-निर्गमन *n.* issue of debenture at premium
 अधिमूल्ये निर्गमित *mfn.* (वाणिज्य) issued at premium
 अधियाचन *n.* requisition
 अधियाचने (वाणिज्य) on demand
 अधियाची प्राधिकारी (-इन्) *m.* requisitioning authority
 अधिरक्त *m.* rose Neuron
 अधिरक्तता *f.* (आयुर्विद्या) congestion = hyperaemia, hyperemia
 अधिरक्तपीत *m.* fiery red, mandarin, mandarin orange, marathion
 अधिरक्तस्त्राव *m.* (आयुर्विद्या) haemophilia, hemophilia
 अधिरक्तस्त्राव-प्रवृत्ति *f.* hemophilic tendency
 अधिरक्तस्त्रावीय *mfn.* haemophilic, hemophilic
 अधिरक्तानील *m.* spring beauty
 अधिरक्तापीन *m.* cherry, cherryred, Chinese rouge, Carthamus red, cochineal, Castilian red, crimson madder, Dutch scarlet, dyer's saffron, excelsior lake ponceau, French scarlet, French vermilion, geranium geranium lake, goblin scarlet, gold red, non-oxide red, oxide red, leaf red, Lincoln red, naccarine, madder crimson, phantom red, ponceau, poppy red, poppy, rose Carthame, scarlet, para red, blood red, cadmium vermilion
 अधिराजन्य *n.* super royal
 अधिराज्य *n.* dominion

अधिराज्य अधितोप *m.* dominion
 bank
 अधिरोध *m.*, अधिरोधन *n.* embargo
 अधिरोपण *n.* superpose
 अधिलभांश *m.* bonus
 अधिलभांश अंश *m.* bonus shares
 अधिलिखन *n.* overwrite
 अधिवक्ता (-रु) *m.* advocate
 अधिवक्ता-निकाय *m.* faculty of advocates
 अधिवचन *n., vb.* advocate
 अधिवर्ण काल *m.* superchrome black
 अधिवसन *n.* domicile
 अधिवाक *m.* (from ऋग्वेद) advocacy
 अधिवापिक अधिदेय *n.* superannuation allowance
 अधिवापिकी *f.* superannuation
 अधिवापिकी उत्तरवेतन *n.* superannuation pension
 अधिवापिकी प्रणवि *f.* superannuation fund
 अधिवास *m.* domicile
 अधिवास-परिवर्तन *n.* change of domicile
 अधिविकर्ष *m.* over-draft
 अधिविमामिक *m.* wing commander (R. A. F.)
 अधिवृद्धि *f.* (in a hypha) intercalary growth
 अधिवेशन *n.* meeting
 अधिवेष्ट *m.* (औद्धिदी) calyptra (any caplike covering)
 अधिव्यय *m.* (वाणिज्य) oncost
 अधिशायि-भूमि *f.* superjacent ground
 अधिशायी (-इन्) *mfn.* overlying
 अधिशायक *m.* executive
 अधिशायि कार्य *n.* executive action
 अधिशायि-द्वग *m.* executive
 अधिशायी (-इन्) *mfn., m.* executive
 अधिशायी अभियन्ता (-रु) *m.* executive engineer
 अधिजीवन *n., vb.* (रसायन) supercool
 अधिशोधन *n.* overpayment
 अधिष्ठान *n.* 1 preside 2 seat
 अधिष्ठापन *n.* install, installation
 अधिष्ठापित धारिता *f.* installed capacity
 अधिष्ठापक *m.* president
 अधिसंख्य *mfn.* supernumerary
 अधिसदस्य *m.* fellow
 अधिसदस्यता *f.* fellowship
 अधिसभा *f.* senate = senat = senato = Senatul = senatus
 अधिसभा-मदन *n.* senate house
 अधिसभ्य *m.* senator
 अधिसभ्यत्व *n.* senatorship
 अधिसभ्या *f.* senatress, senatrix
 अधिसमय *m.* over-time

अधिसूचना *f.* notification
 अधिसूचित क्षेत्र *n.* notified area
 अधिसूचित क्षेत्र समिति *f.* notified area committee
 अधिस्कन्ध *m.* over-stock
 अधि-स्कन्धित-विपणि *f.* (वाणिज्य) over-stocked market
 अधिस्तर *m.* (औद्भिदी) epidermis
 अधिस्तर-शल्क *m.* (औद्भिदी) epidermal peeling
 अधिस्फोटक *m.* detonator
 अधिस्फोटन *n.* detonate *vb.*, detonating, detonation
 अधिस्फोटन-क्षोद *m.* detonating powder
 अधिस्फोटन-ज्वाल *m.* detonating fuse
 अधिस्फोटन-नाल *m.* detonating tube
 अधिस्फोटन-वाति *m.* detonating gas
 अधिस्फोटित्र *n.* detonator
 अधिस्फोटी (-इन्) *mfn.* detonative
 अधिस्फोट्य *mfn.* detonable
 अधीक्षक *m.* superintendent
 अधीक्षकता *f.* superintendentship
 अधीक्षक-पद *n.*, अधीक्षक-विषय *m.* superintendency
 अधीक्षण *n.* 1 superintend
 2 superintendence, superintendency
 अधीक्षण-अभियन्ता (-रु) *m.* superintending engineer
 अधीक्षमान *mfn.* superintendent
 अधीक्षिका *f.* matron
 अधीक्षिता (-रु) *m.* superintendent
 अधीन *mfn.* 1 (सांख्यिकी) subordinate 2 under
 अधीनकरण *n.* subject to
 अधीन कर्मचारिवर्ग *m.* subordinate staff
 अधीनकृत *mfn.* subjected to
 अधीनता *f.* subordination
 अधीनन *n.* subject to
 अधीन व्यवहारालय *m.* subordinate civil courts
 अधीन व्युत्पन्न *n.* subordinate derivatives
 अधीनाधिकारी (-इन्) *m.* subordinate officer
 अधीनित *mfn.* subjected to
 अधीन्द्र *n.* hyperbola
 अधीन्द्रज *n.* hyperboloid
 अधीन्द्रजीय *mfn.* hyperboloidal
 अधीन्द्र-त्रित *n.* hyperbolic function
 अधीन्द्रोय ज्या *f.* hyperbolic sine
 अधो. (अधोवाही) (औद्भिदी) Ph (phloem)
 अधोऽसकलक *n.* sub-scapular
 अधोक्षक रोहिणी *f.* (शारीर) subclavi-

an artery
 अधोगत *mfn.* subsided
 अधोग बल *n.* downward force
 अधोगमन *n.* abate, abatement, subside
 अधोगामि पत्र *n.* (औद्भिदी) decurrent leaf
 अधोगामी *mfn.* (अर्थशास्त्र) degressive
 अधोगामी कर *m.* degressive rate of tax
 अधोग्रसनी- (प्राणिकी) subpharyngeal
 अधोग्रीव-नीला *f.* innominate vein
 अधोग्रीव-रोहिणी *f.* innominate artery
 अधोकन *n.* (वाणिज्य) subscribe
 अधोजठर *mfn.* hypogastric
 अधोजठर प्रदेश *m.* hypogastric region
 अधोजाय *mfn.* (औद्भिदी) hypogynous
 अधोजायता *f.* (औद्भिदी) hypogyny
 अधो-जिह्व *mfn.* sub-lingual
 अधोजिह्व-चेता *f.* hypoglossal nerve
 अधोज्वलन *n.* strike back (in a Bunsen burner)
 अधोदत्त उदाहरण *n.* subjoined example
 अधोदन्त *m.* (प्राणिकी) 1 catodon
 2 catodont (a whale)
 अधो-दन्ती (-इन्) *m.* bottom gear (in a car)
 अधोऽधिच्छद-कोशा *f.* (प्राणिकी) sub-epithelial cell
 अधो-नयन *n.* carrying down
 अधोनिगल-प्रगण्ड *m.* (प्राणिकी) sub-oesophageal ganglion
 अधो-निरसन *n.* (रसायन) downward displacement
 अधो-नीत *mfn.* carried down
 अधोन्तश्छद-स्तर *m.* (प्राणिकी) sub-endothelial layer
 अधोऽन्त्र-वाहिनी *f.* subintestinal vessel
 अधोवाहु नाल *m.* inverted U-tube
 अधोवाहु नाल माषित्र *n.* Hare's apparatus = inverted U-tube apparatus
 अधोविन्दु *m.* nadir
 अधो-विम्ब *m.* (प्राणिकी) basal disc
 अधोवीजपत्र *n.* hypocotyl
 अधोभाटकी (-इन्) *m.* under tenant
 अधोभूज *mfn.* (औद्भिदी) geophilous
 अधोभूमिक *mfn.* (औद्भिदी) hypogeal (germination)
 अधोभूम्यान *n.* tube railway = underground railway
 अधोभ्रुस्तारी (-इन्) *m.* (औद्भिदी) sucker
 अधो-आश *m.* (रसायन) bathoflore

अधो-आशिक *mfn.* (रसायन) bathofloric
 अधोमात्रा *f.* under-dose
 अधोमुख 1 *mfn.* downward
 2 (प्राणिकी) hypostomatous
 3 *n.* (प्राणिकी) hypostome, manubrium
 अधोमुख अपघात *m.* downward stroke
 अधोमुख बल *n.* downward force
 अधोमूल्यन *n.* undernate
 अधो-मृदा *f.* subsoil
 अधोरक्त *mfn.* (भौतिकी) infra-red
 अधो-रक्त विकिरण *n.* (भौतिकी) infra-red radiation
 अधोहण *n.* undervaluation
 अधोलम्ब *m.* (रैखिकी) subnormal
 अधो-वर्णाय *mfn.* batho-chromatic
 अधोवर्तन *n.* invert, reverse, turn upside down
 अधोवर्ती (-इन्) *mfn.* inferior
 अधोवर्ध *m.* (औद्भिदी) hypophysis = hypophysis cerebri = pituitary body
 अधोदसानिक-चेता *f.* subterminal nerve
 अधोवाप *m.* hopper
 अधोवाप-कपाट *n.* (स्वास्थिकी) hopper valve, Scherlingham's valve
 अधोवाही (-इन्) *m.* (औद्भिदी) bast = phloem
 अधो-विक्रयण *n.* under-sell
 अधोवृन्त *n.* (प्राणिकी) cardo
 अधोहनु *f.* mandible
 अधोहनु- mandibular, submaxillary
 अधोहनु-अन्तर्दचेता *f.* mandibularis internus
 अधोहनु-चेता *f.* mandibular nerve = maxillary inferior
 अधोहनु-मृश *m.* mandibular palp
 अधोहन्वस्थि *n.* mandibular bone
 अधोहस्ताक्षर *n.* (वाणिज्य) subscribe
 अधोहस्ताक्षरी (-इन्) *m.* undersigned
 अधो-हिमानी *f.* crysto-sphere
 अध्यंश *m.* bonus
 अध्यंश-प्रणीवि *f.* bonus fund
 अध्यक्ष *m.* 1 director, head
 2 (सिक्शन) principal
 3 speaker (of the Assembly)
 अध्यक्ष-अपसारण *n.* removal of speaker
 अध्यक्ष महोदय Mr. Speaker
 अध्यद् above
 अध्यधिक *mfn.* maximum
 अध्यनुविद्ध *mfn.* supersaturated
 अध्यथक *m.* claimant

अध्यर्थन *n.* claim
 अध्यर्थित *mfn.* claimed
 अध्यर्पक *m.* surrenderer
 अध्यर्पण *n.* surrender
 अध्यर्पणा *f.* surrender
 अध्यर्पित *mfn.* surrendered
 अध्यर्पिती (-इन्) *m.* surrenderee
 अध्यर्षुद *m.* (आयुर्विद्या) (अधिच्छ्दर)
 cancer of epithelium
 carcinoma
 अध्यर्षु above par
 अध्यागणन *n.* overestimation
 अध्यादेश *m.* ordinance
 अध्यादेश-प्रसारण *n.* promulgation
 of ordinance
 अध्यापक *m.* teacher
 अध्यापन *n.* teach
 अध्यापन-विद्या *f.* pedagogy
 अध्याय *m.* chapter
 अध्यारोपण *n.* superimpose,
 superpose, superposition
 अध्यारोपित *mfn.* superimposed,
 superposed
 अध्यारोप्य *mfn.* superposable
 अध्यावृद्धि *f.* (औषिकी) epibole =
 epiboly
 अध्यासक *m.* president
 अध्यासन *n.* preside
 अध्यासी अधिकारी (-इन्) *m.* presi-
 ding officer
 अध्यासी व्यक्ति *m.* person presi-
 ding
 अध्यास्ता *m.* president
 अध्याहार *m.* inference
 अध्युत्पादन *n.* (वाणिज्य) overproduc-
 tion
 अध्युपकार *m.* (अर्थशास्त्र) bounty
 अध्युपित *mfn.* domiciled
 अध्येता (-त्) *m.* scholar
 अध्रुव *mfn.* (प्राणिकी) apolar
 अध्रुविक *mfn.* soundless
 अ न आ ना A E I O
 अनखरि *mfn.* (प्राणिकी) non-chelate
 अनखरी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) non-
 chelate
 अनग्रन्ता: *m.pl.* Edentata
 अनर्कित *mfn.* ungraduated
 अनर्कित नाडक *n.* ungraduated
 pipette
 अनर्कित पत्र *n.* plain paper
 अनकुश पट्टकृमि *m.* unarmed
 tapeworm
 अनर्गोकार *mfn.* renounce
 अनति *mfn.* moderate
 अनति अभियाचन *n.* (अर्थशास्त्र)
 moderate demand
 अनतिछादी (-इन्) *mfn.* (औषिकी)
 valvate
 अनति-विलेय *mfn.* moderately
 soluble

अनति-वेग *m.* moderate speed
 अनतिवेध्य *mfn.* impermeable
 अनति संकेन्द्रित *mfn.* moderately
 concentrated
 अनधिकारप्रवेश *m.* trespass
 अनधीन *mfn.* absolute, independ-
 ent, not subject to
 अनध्यर्थित *mfn.* unclaimed
 अनध्यर्थित तथा प्रत्यावृत्त सम्पत्ति *f.*
 unclaimed and escheated
 property
 अनध्यर्थित राशि *m.* unclaimed
 balances
 अनध्यर्थित लाभांश *m.* unclaimed
 dividend
 अनध्यर्थित-वृद्धि *f.* unclaimed
 interest
 अनध्याय *m.* holiday
 अननुकूल *mfn.* unfavourable
 अननुज्ञात *mfn.* illicit
 अननुपत्र *n.* (औषिकी) exstipulate
 अननुपत चित्र *n.* (सांख्यिकी) simple
 chart
 अननुनोदन *n.* disapprove
 अननुविद्ध *mfn.* (रसायन) unsaturated
 अननुविद्ध संयोग *m.* unsaturated
 compound
 अननुविध *mfn.* illegal, unlawful
 अनन्त 1 *m.* (गणित) infinity
 2 *mfn.* endless, infinite
 अनन्तकोलि *f.* coumalin
 अनन्तकोलिक अम्ल *n.* coumalic acid
 अनन्तता *f.* (गणित) infiniteness
 अनन्तमूरिलिक अम्ल *n.* coumarilic
 acid
 अनन्तमूला *f.* coumarone
 अनन्तमूला-उद्यास *m.* coumarone
 resin = cumar = coumar gum
 or resin
 अनन्तमूलिक *f.* coumain
 अनन्तमूलिक *mfn.* coumaric,
 coumaric
 अनन्तमूलिन्य *n.* coumaran, coum-
 arane
 अनन्तमूलिक अम्ल *n.* coumarinic
 acid
 अनन्तमूलीय *n.* (रसायन) coumarate
 अनन्तरम् (मुद्रण) no space
 अनन्तरित *mfn.* uninterrupted
 अनन्तर्गत विषय *m.* casus omissus
 अनन्तर्नासाति *f.* Latimeria
 अनन्तश्रेढी *f.* (गणित) infinite series
 अनन्तसंख्या *f.* infinite number
 अनन्तिनि (गणित) at infinity
 अनन्ति-रेखा *f.* (गणित) line at
 infinity
 अनन्ती (-इन्) *m.* (गणित) infinity
 अनन्ती पर्यन्त upto infinity
 अनन्ते (Hindi अनन्त पर) (गणित) at
 infinity

अनन्तेस्पर्शा (-इन्) *m.* (गणित) asymp-
 tote
 अनन्य *mfn.* exclusive, unique
 अनन्यापेक्ष *mfn.* self-contained
 अनभिदृश्य *mfn.* inconspicuous
 अनभिन्नत विभ्रम *m.* (सांख्यिकी) un-
 biased error
 अनभिमत गन्ध *m.* disagreeable
 smell
 अनध्र-वज्रपात *m.* bolt from the
 blue
 अनम *m.* (अभिव्यञ्जना) strut
 अनयनित *mfn.* nonionized
 अनयोभ्रासैकिज *m.* leuchtenbergite
 अनर्जित *mfn.* unearned
 अनर्जित आय *m.* unearned income
 अनर्जित वृद्धि *f.* 1 (अर्थशास्त्र) unearned
 increment 2 unearned interest
 अनर्हित गोपलेख *m.* (आगोप) unva-
 lued policy
 अनल-काच *m.* Jena glass
 अनवशुंठ-विधा *f.* (धातुकर्म) Belgian
 process
 अनवशुंठित आसोत्र *n.* (धातुकर्म)
 Belgian retort
 अनवधानी (-इन्) *mfn.* absent, in-
 attentive
 अनवलोकन *n.* non-observation
 अनवसित *mfn.* unexpired
 अनस्थिकृत *mfn.* unossified
 अनाकार *mfn.* amorphous (shape-
 less, formless)
 अनाकार-अंगुलिक *f.* amorphous
 digitalin
 अनात्मपरागणता *f.* (औषिकी) herco-
 gamy
 अनाथ *m.* orphan
 अनादरण *n.* dishonour
 अनादरण-सूचना *f.* (वाणिज्य) notice
 of dishonour
 अनादर-प्रमाणने (विधि) supraprotest
 (after Italian *sopra protesto*
 upon protest)
 अनादरप्रमाणने शोधन *n.* supra-
 protest payment
 अनादरप्रमाणने स्वीकरण *n.* supra-
 protest acceptance
 अनादृत *mfn.* dishonoured
 अनादृत धनादेश *m.* dishonoured
 cheque
 अनादृत विपत्र *n.* dishonoured bill
 अनाधिकारिक *mfn.* unofficial
 अनान्तर *mfn.* (रत्न) immediat
 अनान्त्र-कृमि *m.* cestoda worm
 अनान्त्र-वर्ग *m.* Cestoda
 अनान्त्रा: *m.pl.* Cestoda
 अनाभित *mfn.* out of focus
 (not in focus)
 अनाभोगाधिकार *m.* nonoccupancy
 right

अनामिक तनुसूत्रक *m.* Leptothrix
innominata
अनामिक दण्डाणु *m.* Bacillus
maximus buccalis
अनाम्य *mfn.* rigid
अनाम्यकरण *n.* rigidify
अनाम्यतया (गणित) rigidly
अनाम्यता *f.* rigidity, rigidity
अनाम्यता-मापांक *m.* (भौतिकी) rigidity
modulus
अनाम्यता-विकार *m.* (भौतिकी) rigidity
strain
अनाम्यभवन *n.* rigidify
अनाम्य सविधान *n.* rigid consti-
tution
अनात्रेडित मूल *n.* (गणित) non-
repeated root
अनायास easily, with ease
अनावर्तन *mfn.* (भौतिकी) aperiodic
अनावर्ती (-श्च्) *mfn.* nonrecurring
अनावर्ती व्यय *m.* nonrecurring
expenditure
अनावश्यकतया not necessarily
अनावृत ऋणपत्र *n.* (वार्णज्य) naked
debenture = simple de-
benture
अनाशंकित *mfn.* unexpected
अनाशुरंज्य *mfn.* (प्राणिकी) chromo-
phobe, chromophobic
अनाश्रयता *f.* indestructibility
अनाश्रित *mfn.* 1 (रजन) direct
2 irrespective of
अनाश्रित तैलवदर *m.* (रंगदेशना)
direct olive
अनाश्रित नारंग *m.* direct orange
अनाश्रित नीचरक्त रक्त *m.* direct
maroon red
अनाश्रित रक्त *m.* direct red
अनाश्रित रजक *m.* direct dyes, sub-
stantive dyes
अनासंजन *n.* (प्राणिकी) incoordi-
nation
अनाहूत *mfn.* (वाणिज्य) uncalled
अनाहूत-पुंजी *f.* uncalled capital
अनाहसित *mfn.* undiminished
अनिच्छायत्त-चेता-सहति *f.* involun-
tary nervous system
अनिद्रा *f.* insomnia
अनिपत्र *mfn.* (औद्भिदी) ebracteate
अनियत 1 *mfn.* indefinite 2 *adv.*
indefinitely
अनियत तिथि (दिन) पर्यन्त sine die
अनियत-पुपता *f.* (औद्भिदी) indefi-
nite inflorescence
अनियतरूप *mfn.* 1 ambiguous
2 amorphous (having no
determined form)
अनियतरूपेण *adv.* indefinitely
अनियत समीप *mfn.* (गणित) indefi-
nitely close to

अनियन्त्रित *mfn.* uncontrolled,
unrestrained, unrestricted
अनियमच्छत्र *mfn.* (औद्भिदी) imbric-
ated
अनियमछादी (-श्च्) *mfn.* (औद्भिदी)
imbricate
अनियमत irregularly
अनियमता *f.* irregularity
अनियमि उच्चावचन *n.* (सांख्यिकी)
irregular fluctuations
अनियमित *mfn.* irregular
अनियमितरूपेण irregularly
अनियमता *f.* irregularity
अनियम पाण्डुरता *f.* Didymium
difforme
अनियमी (-श्च्) *mfn.* difform, ir-
regular
अनिर्गमित *mfn.* (वाणिज्य) unissued
अनिर्गमित-पुंजी *f.* unissued capital
अनिर्धारित *mfn.* undetermined
अनिर्धारित गुणक *m.* undetermined
coefficient
अनिर्द्यत *mfn.* indeterminate, un-
determinate
अनिर्विन्दु *mfn.* (काशिकी) anastig-
matic
अनिर्मित *mfn.* raw
अनिर्मित उत्पाद *m.* raw produce,
raw product
अनिर्मित द्रव्य *n.* (वाणिज्य) raw
materials
अनिल- anem-, anemo-
अनिलमान *m.* anemometer
अनिलावर्तना *f.* (जैविकी) anemotro-
pism
अनिलेक्ष *m.* anemoscope
अनिवार्य *mfn.* compulsory,
indispensable, obligatory,
unavoidable
अनिवार्य-अवधि *f.* compulsory
acquisition
अनिवार्य कारण *n.* causa sine qua
non
अनिवार्य व्यय *m.* obligatory ex-
penses
अनिवार्य समापन *n.* (वाणिज्य) com-
pulsory winding up
अनिवार्य-सेवा *f.* compulsory ser-
vice
अनिवास *m.* nonresidence
अनिश्वार-आदेश *m.* curfew, curfew
order
अनिश्चित *mfn.* 1 indefinite, inde-
terminate 2 indefinitely
अनिश्चित अनुकल *m.* (गणित) inde-
finite integral
अनिश्चितकाल ऋण *n.* (वाणिज्य) fund-
ed debt
अनिश्चित पर *n.* (तर्कशास्त्र) indeter-
minate term

अनिश्चितरूपेण indefinitely
अनिश्रेयित *mfn.* unexhausted
अनिश्रेयित पत्र *n.* unexhausted
paper
अनिपिदत अंड *n.* (प्राणिकी) unferti-
lized egg
अनिपिदतजनक *m.* (औद्भिदी) partheno-
gonidium
अनिपिदत-जनन *n.* (जैविकी) partheno-
genesis
अनिपिदतजवीजाणु *m.* (औद्भिदी) par-
thenospore
अनीक 1 (गणित) face 2 face (of
a crystal) 3 (भौतिकी) facet
-अनीक -hedron
अनीक-करण *n.* (अभियंत्रण) face
अनीक-कोण *m.* face angle
अनीक-चेता *f.* facial nerve
अनीक-चेता प्रगंड = भुज प्रगंड *m.* geni-
culate ganglion
अनीकन *n.* (अभियंत्रण) face
अनीकित *mfn.* (अभियंत्रण) faced
अनीकिनी *f.* army
अनीर = अनीर वापीडमान *m.* ane-
roid
अनु along
अनु- 1 pro- 2 (रसायन) sub-
अनु (गणित) w. r. t. (with respect
to)
अनुकम्पा *f.* sympathy
अनुकंपूर *m.* eucalyptus
अनुकंपूर-नि = अनुकंपूर-प्रजाति *f.* Euca-
lyptus
अनुकंपूर-निष्कर्ष *m.* tincture of euca-
lyptus = tinctura eucalypti
अनुकंपूर-पत्र *n.* (भेषजिकी) eucalyptus
= eucalypti folium = euca-
lyptus leaf
अनुकल *m.* (गणित) integral
अनुकल कलन *n.* (गणित) integral
calculus
अनुकलन *n.* (गणित) integrate
अनुकलनीय *mfn.* (गणित) integrable
अनुकल-समीकार *m.* (गणित) integral
equation
अनुकल्य *n.* (गणित) integrand
अनुकाण्ड *m.* subsection
अनु-कुल *n.* (औद्भिदी) sub-family
अनुकूल *mfn.* favourable
अनुकूलतम *mfn.* optimum
अनुकूलतम-जनसख्या *f.* optimum
population
अनुकूलतम ताप *m.* optimum tem-
perature
अनुकृति *f.* copy, imitation
अनुकृति हिगुल *m.* (रंगदेशना) imita-
tion cinnabar
अनुकेन्द्र centrally
अनुक्रम *m.* sequence
अनुक्रम-चित्र *n.* flow sheet

अनुखण्ड *n.* subclause
 अनुगण suborder
 अनुगामी (-इन्) *mfn.* consecutive, successive
 अनुगामी पूर्णांक *m.* (गणित) conjugate integer
 अनुगामी प्रणोद *m.* (भौतिकी) successive impulses
 अनुगुण *m.* (तर्कशास्त्र) proprium
 अनुगुल्फास्थि *n.* astragalus
 अनुगोत्र *n.* (औद्धिदी) suborder
 अनुग्रह *m.* (वाणिज्य) grace
 अनुग्रह-दिवस *m.* days of grace
 अनुग्रह-पत्र *n.* (वाणिज्य) accommodation note
 अनुग्रह-विकर्ष *m.* (वाणिज्य) accommodation draft
 अनुग्रह-विपत्र *n.* (वाणिज्य) accommodation bill
 अनुक्षुप *m.* under-shrub
 अनुचक्र *n.* trailing wheel
 अनुचक्र-स्कन्द *m.* (अयोमार्ग) trailing wheel spring
 अनुचर *m.* attendant
 अनुचारि आवेपन *n.* (भौतिकी) sympathetic vibration
 अनुचित *mfn.* illicit
 अनुचित अभाव *m.* undeserved want
 अनुचित्र *n.* trailer
 अनुच्छावच *mfn.* plane
 अनुच्छाया *f.* (भा-चित्रणा) positive print
 अनुच्छेद *m.* article
 अनुजंघा-रोहिणी *f.* peroneal artery
 अनुजंघास्थि *n.* fibula
 अनुजंघास्थिक *mfn.* fibular
 अनुजाति *f.* 1 subcaste
 2 (जैविकी) sub-species
 अनु-जारेय *n.* (रसायन) sub-oxide
 अनुज्ञा *f.* license
 अनुज्ञाना (-रु) *m.* licenser
 अनुज्ञा द्वारा प्रवेश *m.* admission with permission
 अनुज्ञाधारी (-इन्) *m.* licensee, licentiate
 अनुज्ञाधारी चिकित्सक *m.* (अ. चि.) licentiate medical practitioner (L.M.P.)
 अनुज्ञापत्र *n.* license
 अनुज्ञापत्र-शुल्क *n.* license fee
 अनुज्ञापित *mfn.* licensed
 अनुज्ञा-शुल्क *n.* license fee
 अनुज्ञेय *mfn.* permissible
 अनुतट-प्रवाली *f.* (भौतिकी) fringing reef
 अनुतालम् (योग्या) judging the time
 अनुतोष *mfn.* failed (in exam.)
 अनुत्पत *mfn.* (रसायन) fixed, non-

volatile
 अनुत्पत क्षारक *m.* fixed (non-volatile) alkali
 अनुत्पत तेल *n.* fatty oil
 अनुत्पतार *m.* fusain
 अनुत्पादि-भूति *f.* unproductive wages
 अनुत्पादी (-इन्) *mfn.* unproductive
 अनुत्पादी उपभोग *m.* nonproductive consumption, unproductive consumption
 अनुत्पादी कर्म *n.* unproductive work
 अनुत्पादी व्यय *m.* unproductive expenses
 अनुत्पादी श्रम *m.* (वाणिज्य) unproductive labour
 अनुदत्त *mfn.* granted
 अनुदरछिद्राति = अनुदरछिद्र-प्रजाति *f.* Lepidosiren
 अनुदान *n.* grant
 अनु-दार *n.* meta-xylem
 अनुदिक् प्रातन्तु *m.* (तेजोन्वेष) directional antenna
 अनुदिक् प्रातन्तु-संहति *f.* (तेजोन्वेष) directive antenna system
 अनुदृस्कोटीय *n.* (रसायन) subgallate
 अनुद्राह सहजीवन *n.* free love
 अनुधारा *f.* subsection
 अनुध्यान *n.* contemplate
 अनुनमन *n.* comply, yield
 अनुनासिकता *f.* (आयुर्विद्या) rhinolalia
 अनुन्मुक्त *mfn.* (वाणिज्य) undischarged
 अनुन्यास *m.* (गणित) configuration
 अनुपक्ष *m.* (प्राणिकी) barbical
 अनु-पट्ट *m.* (विधि) sub-lease
 अनुपत्र *n.* stipule
 अनुपत्रि पत्र *n.* stipulate leaf
 अनुपवी शिरीष *m.* Albizzia stipulata
 अनुपयुक्त *mfn.* unsuitable
 अनुपयोगिता *f.* disutility
 अनुपर्णा *f.* allonge
 अनुपस्थाता (-रु) *m.* absenter
 अनुपस्थान *n.* absent, absentation
 अनुपस्थायिता *f.* absenteeism
 अनुपस्थायी (-इन्) *m.* absentee
 अनुपस्थित *mfn.* absent, absentee, not present
 अनुपस्थित मतदाता (-रु) *m.* absent voter
 अनुपस्थित मतदान *n.* absent voting
 अनुपस्थिति *f.* absence
 अनुपस्थिति-अनुमति *f.* leave of absence
 अनुपात *m.* proportion, ratio
 अनुपात-चित्र *n.* ratio chart
 अनुपाततः pro rata
 अनुपाततः अंश *m.* pro rata share

अनुपातन *n.* proportion, proportionate *vb.*
 अनुपातपूरक-परीक्षा *f.* analogy test
 अनुपात-श्रेणी *f.* ratio scale
 अनुपातिक *mfn.* proportional, rateable
 अनुपातिता *f.* proportionality
 अनुपाति परिवर्तन *n.* proportional change
 अनुपाति प्रतिनिधान *n.* proportional representation
 अनुपाति-भाग-प्रनियम *m.* principle of proportional parts
 अनुपाति-संचिति *f.* proportional reserve
 अनुपाती (-इन्) *mfn.* proportional, proportionate
 अनुपाती अंक *m.* proportional numbers
 अनुपाती कर *m.* proportionate tax
 अनुपात्य *mfn.* proportionable
 अनुपिंग अर्धगोलाणु *m.* Neisseria subflava
 अनुपिंग गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus subflavus
 अनुपूर *m.* supplement
 अनुपूरक *mfn.* suppelmental, supplementary
 अनुपूरक अनुदान *n.* supplementary grant
 अनुपूरक अर्जन *n.* supplementary earning
 अनुपूरक आगणन *n.* supplementary estimate
 अनुपूरक आदेश *m.* supplementary order
 अनुपूरक आयव्ययक *n.* supplementary budget
 अनुपूरक उद्योग *m.* supplementary industry
 अनुपूरक परिव्यय *m.* supplementary cost
 अनुपूरक प्रश्न *m.* (सांसद व्यवहार) supplementary question
 अनुपूरक विपत्र *n.* (अर्थशास्त्र) supplementary bill
 अनुपूरक विवरण *n.* supplementary statement (as of expenditure)
 अनुपूरक सस्य *n.* supplementary crop
 अनुपूरण *n.* supplement
 अनुप्रकार *m.* subcase
 अनु-प्रजाति *f.* (जैविकी) sub-genus
 अनुप्रसृष्टि *f.* (प्राणिकी) sub-phylum
 अनुप्रस्थ *mfn.* cross, horizontal, transverse
 अनुप्रस्थ *adv.* along the width, horizontally
 अनुप्रस्थ अक्ष *m.* (गणित) transverse

axis
 अनुप्रस्थ अन्तराल *n.* (अभियन्त्रणा)
 transverse pitch
 अनुप्रस्थ-छेद *m.* cross-section,
 transverse section
 अनुप्रस्थ तन्तु *m.* (भौतिकी) cross
 wire
 अनुप्रस्थ तरंग *m.* transverse
 waves
 अनुप्रस्थ तल *n.* transverse planes
 अनुप्रस्थ द्वार *n.* (प्राणिकी) transverse
 opening
 अनुप्रस्थ-पटी *f.* septum transver-
 sum
 अनुप्रस्थपटीक *n.* lomentum
 अनुप्रस्थ प्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) transverse
 process
 अनुप्रस्थ वाष्पित्र *n.* horizontal
 boiler
 अनुप्रस्थभेदि वदरीय शिम्बी *f.* lomen-
 taceous beriaceous legume
 अनुप्रस्थभेदी (-इन्) *m.* (औद्भिदी)
 loment = lomentum
 अनुप्रस्थभेदी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी)
 lomentaceous (pod)
 अनुप्रस्थ मलाशय *m.* (शारीर) trans-
 verse colon
 अनुप्रस्थ योग *m.* (गणित) cross
 totals
 अनुप्रस्थ-राजि *f.* cross stripes
 अनुप्रस्थ वंटन *n.* horizontal distri-
 bution
 अनुप्रस्थवर्ध *m.* (शारीर, प्राणिकी) diap-
 physis
 अनुप्रस्थ स्थिति *f.* horizontal posi-
 tion
 अनुप्रस्थ-स्कोटना *f.* (औद्भिदी) trans-
 verse dehiscence
 अनुप्रस्थवर्त *mfn.* (औद्भिदी) amphi-
 tiopous (or transverse)
 अनुप्राणन *n.* animate *vb.*
 अनुप्रादेशिक शाखा *f.* subregional
 branch
 अनुवद्ध *mfn.* 1 annexed 2 (गणित,
 जैविकी) conjugate
 अनुवद्ध उत्प्रवासन *n.* indentured
 immigration
 अनुवद्ध-नाभि *f.* conjugate foci
 अनुवद्ध श्रामक *m.* indentured coolie
 अनुवन्ध *m.* 1 annexation 2
 indenture
 अनुवन्धन *n.* annex
 अनुवन्ध-नाल *m.* (औद्भिदी) conjuga-
 tion tubes
 अनुभव *m.* experience
 अनुभव-जन्य *mfn.* (तर्कशास्त्र) em-
 pirical
 अनुभव-जन्य ज्ञान *n.* (तर्कशास्त्र) empi-
 rical knowledge
 अनुभव-जन्यता *f.* empiricism

अनुभव-जन्य नियम *m.* (तर्कशास्त्र) empi-
 rical law
 अनुभव-जन्य मनोविज्ञान *n.* (तर्कशास्त्र)
 empirical psychology
 अनुभव-वाद *n.* empiricism
 अनुभाजन *n.* subdivide
 अनुभाटकन *n.* (वाणिज्य) sublet
 अनुभाटकित (गृह) *mfn.* (वाणिज्य)
 sublet
 अनुभूति *f.* sense
 अनुभेद *m.* sub-variety
 अनुमत *mfn.* permitted
 अनुमति *f.* 1 admittance 2 leave,
 permission, permit
 अनुमतिक *n.* permit
 अनुमति-दान *n.* 1 admit 2 permit
 अनुमति-पत्र *n.* permit
 अनुमध्यार अक्ष *m.* (प्राणिकी) adradius
 AXIS
 अनुमनन *n.* admission
 अनुमनन *vb.* 1 admit 2 deduce
 3 permit, 4 yield
 अनुमन्य *mfn.* admissible
 अनुमान *n.* deduction, inference
 अनुमानत deductively
 अनुमाप *m.* scale
 अनुमार्गण *n.* trace
 अनुमार्गित *mfn.* traced
 अनुमिलन *n.* tally, tallying
 अनुमिलित *mfn.* tallied
 अनुमिलित फल *n.* tallying results
 अनुमेय *mfn.* deducible
 अनुमेलन *n.* tally, tallying
 अनुमेलन फल *n.* (सांख्यिकी) tallying
 results
 अनुमेलित *mfn.* tallied
 अनुमोदन *n.* 1 accept, acceptance
 2 approve, approval, appro-
 ving 3 second *vb.*
 अनुमोदनार्थे on approval
 अनुमोदनार्थे वस्तु *n.* goods on
 approval
 अनुमोदित *mfn.* 1 accepted 2 ap-
 proved
 अनुमोद्य *mfn.* acceptable
 अनुमोद्यता *f.* acceptability,
 acceptableness
 अनुयान *n.* (अयोमार्ग) trailer
 अनुयुग *n.* (भौतिकी) epoch
 अनुराग *n.* affection
 अनुरूपता *f.* similitude
 अनुरेख *mfn.* along the line,
 linear
 अनुरेख-गमन *n.* (गणित) moving
 along the line
 अनुरेखण *n.* trace
 अनुरेखण पत्र *n.* tracing paper
 अनुरेखण वस्त्र *n.* tracing cloth
 अनुरेख त्वरण *n.* (भौतिकी) linear
 acceleration

अनुरेख विस्तरण *n.* (भौतिकी) linear
 expansion
 अनुरेखित पथ *m.* (गणित, अभियन्त्रणा)
 traced path
 अनुरोध-करण *n.* recommend
 अनुलग्न *n.* appurtenance
 अनुलग्न वस्तु *n.* appurtenance
 अनुलग्न (गणित) offset
 अनुलग्न अक्ष *m.* (गणित) vertical
 axis
 अनुलाभ *m.* (विधि) perquisite
 अनुलिपि *f.* facsimile
 अनुलेखन *n.* transcribe
 अनुलेखन-यन्त्र *n.* transcribing
 machine
 अनुलोम *mfn.* positive
 अनुलोम-विषमता *f.* (सांख्यिकी) posi-
 tive skewness
 अनुलोम सहसम्बन्ध *m.* direct cor-
 relation = positive cor-
 relation
 अनुलोमानुपात *m.* direct propor-
 tion
 अनुल्लाति *f.* (पारलैविकी) Acantho-
 cheilonema
 अनुल्विनः *m. pl.* (प्राणिकी) Anam-
 niota
 अनुल्वी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) anam-
 niote
 अनुल्वीय *mfn.* (प्राणिकी) anamnio-
 tic
 अनु-वंश *m.* (प्राणिकी) sub-family
 अनुवर्ग *m.* subclass, subgroup
 अनुवर्तन *n.* comply, obey, sub-
 mit
 अनुवर्ती *mfn.* consequent, follow-
 ing, subsequent
 अनुवाद *m.* translation
 अनुवादक *m.* translator
 अनु-विक्षेप *m.* (अभियन्त्रणा) plan
 अनुविद्ध *mfn.* (रसायन) saturated
 अनु-विधा *f.* (प्राणिकी) sub-process
 अनुविधान *n.* comply
 अनुविन्यसन *n.* (सांख्यिकी) array
 अनुविन्यस्त *mfn.* (सांख्यिकी) array-
 ed
 अनुविन्यास *m.* (सांख्यिकी) array
 अनुविभाग *m.* section
 अनुविभाग-पाल *m.* section holder
 अनुविभाग प्रपञ्जी *f.* sectional ledger
 अनुविभागीय *mfn.* sectional
 अनुविभागीय सन्तोलन *n.* sectional
 balancing
 अनु-पूञ्जी आकुन्तलाणु *m.* Vibrio
 berolinensis
 अनुवेधक *m.* saturant
 अनुवेधन *n.* (रसायन) saturate,
 saturation
 अनुवेधन-बिन्दु *m.* (भौतिकी) satura-
 tion point

अनुवेषन-वाह *m.* (भौतिकी) saturation current
 अनुवेष्य *mfn.* saturable
 अनुवेष्यता *f.* saturability
 अनुव्यास *adv.* diametrically
 अनुव्यास अभिमुख *mfn.* diametrically opposite
 अनुशासन *n.* discipline
 अनुशासन-सन्धारण *n.* maintenance of discipline
 अनुशासित *mfn.* disciplined
 अनुशास्ता (-त्) *m.* disciplinarian
 अनुशास्य *mfn.* disciplinable
 अनुशिष्ट *mfn.* disciplined
 अनुशीर्षक *n.* caption, subhead, subtitle
 अनुशोणज्वर माला-गोलाणु *m.* Streptococcus septicus liquefaciens
 अनुश्रेणी *f.* vernier
 अनुश्रेणी-प्रनियम *m.* (भौतिकी) principle of Vernier
 अनुश्रेणी-माजन *n.* (भौतिकी) Vernier division
 अनुश्रेणी-न्यासमि *m.* (यांत्रिकी) Vernier caliper
 अनुषक्तक *n.* (स्कन्ध विपणि) talon
 अनुषक्ति *f.* allegiance
 अनुषक्ति-शपथ *m.* oath of allegiance
 अनुष्ठान *n.* 1 ceremony 2 practicals
 अनुष्ठान-कर्म *n.* practical work
 अनुष्ठान-यांत्रिकी *f.* practical mechanics
 अनुष्ठान-रसायन *n.* practical chemistry
 अनुष्ठाने (H. अनुष्ठान में) practically
 अनुसंधाता (-त्) *m.* investigator
 अनुसंधात-आरागमान *m.* investigator's tintometer
 अनुसंधान *n.* 1 investigate
 2 (सांख्यिकी) enquiry, inquiry = investigation
 अनुसंधान-लेख *m.* memoir
 अनुसमूह *m.* subgroup
 अनुसर्पा (-इन्) *m.* (अयोमार्ग) trailer
 अनुसार by
 -अनुसार 1 in accordance with
 2 with respect to
 अनुसूचन *n.* schedule
 अनुसूचित *mfn.* scheduled
 अनुसूचित अधिकोष *m.* scheduled bank
 अनुसूचित-जाति *f.* scheduled caste
 अनुसूचित-सूची *f.* scheduled list
 अनुसूची *f.* schedule
 अनुसूचीबद्ध *mfn.* scheduled
 अनुसूचित *f.* (जैविकी) branch = subkingdom = phylum
 अनुसूचन *n.* subserve

अनुस्थापन *n.* orient *vb.* (placing along a certain direction), orientation
 अनुस्थिति *f.* 1 orientation
 2 (सांख्यिकी) rank
 अनुस्थितिज्ञान *n.* orientation
 अनुस्थिति-सहसम्बन्ध *m.* (सांख्यिकी) rank correlation
 अनुस्पर्श *adv.* tangentially
 अनुस्पर्श-क्रिया *f.* (गणित) tangential action
 अनुस्मारक *m.* reminder
 अनुस्रोत *adv.* downstream, down the stream = with the stream
 अनुहस्ताक्षरण *n.* subscribe
 अनुहृष *mfn.* susceptible
 अनुहृषता *f.* susceptibility
 अनुन्च्छाय *mfn.* altitudinal (along the altitude)
 अनूद्वाहि-चक्र *n.* (अयोमार्ग) trailing truck wheels
 अनूद्वाही (-इन्) *m.* (अयोमार्ग) trailing truck
 अनून *mfn.* absolute, free from imperfection
 अनूप *adv.* directly
 अनूप-विचरण *n.* vary directly, direct variation
 अनूपानुपात *m.* direct proportion
 अनूपानुपाती (-इन्) *mfn.* (cf. प्रतीपानुपाती) directly proportional
 अनूर्ध्वज *m.* (खानिजी) anorthite
 अन्जु *mfn.* 1 abnormal
 2 indirect (not straight)
 अन्जु अन्तरपणन *n.* (अर्थशास्त्र) indirect arbitrage
 अन्जु निर्वाचन *n.* indirect election
 अन्जु प्रकारान्तरण *n.* (तर्कशास्त्र) indirect reduction
 अन्जु-भुति *f.* indirect wages
 अन्जु व्यय *m.* indirect expenses
 अन्जु-सामग्री *f.* indirect material
 अनेक *mfn.* 1 many 2 (वाणिज्य) sundry
 अनेक कर *m.* (अर्थशास्त्र) plural taxation
 अनेकग्रीव-बुकी *f.* Woulfe bottle
 अनेकरूपता *f.* diversity
 अनेकानुपात *m.* (गणित) compound proportion
 अनेकान्तर-पणन *n.* (अर्थशास्त्र) compound arbitrage
 अनेकार्थ *mfn.* ambiguous
 अनेकार्थता *f.* ambiguity
 अनेकाई *mfn.* multiple-valued = many-valued
 अनेकाई श्रित *n.* (गणित) many-valued function
 अनेत्राणि = अनेत्रप्रजाति *f.* (प्राणिकी)

Campodea
 अनेधावी पूल *m.* (औद्धिदी) closed bundle
 आत *m.* 1 abatement 2 abolishment, abolition 3 end 4 tail
 अन्त *mfn.* ultimate
 अन्तः (अंदर) within
 अन्तः- inter-
 अन्त-करण *n.* 1 abate 2 abolish 3 abrogate 4 annul 5 put an end to
 अन्त-करण *n.* 1 abatement 2 abolishment, abolition
 अन्तःकरण *n.* conscience
 अन्तःकरण-आपत्तिकारी *f.* conscientious objector
 अन्तःकरणानुकूल *mfn.* conscientious (person)
 अन्त-करणानुयायी (-इन्) *m.* conscientious (person)
 अन्त-कर्ण *m.* internal ear
 अन्त-कर्ता (-त्) *m.* abolisher
 अन्तःकल अस्थीयन *n.* intramembraneous ossification (कल membrane
 अन्तःकामरूप्याति = अन्तःकामरूपी-प्रजाति *f.* Endamoeba, Entamoeba
 अन्त-कालीन *mfn.* ad interim
 अन्त-कास्थि *n.* (प्राणिकी) endochondral
 अन्त-कास्थि अस्थीयन *n.* endochondral ossification = intercartilaginous ossification
 अन्त-कीर्ण *mfn.* interspersed
 अन्त-कुल्या *f.* (भूसेचन) after-bay = tail race
 अन्त-केन्द्र *n.* (गणित) in centre
 अन्त-केजकानि *n.pl.* Endothrix
 अन्त-कोचि-पेशी *f.* Sartorius
 अन्त-कोण *m.* interior angle, internal angle
 अन्त-कम-द्रव *m.* inoculant = inoculum
 अन्त-क्रामण *n.* inoculation
 अन्त-क्राम्य *mfn.* (आयुर्विद्या) inoculable
 अन्त-क्षेप *m.* injection
 अन्त-क्षेप्य रूप *n.* (भैषजिकी) injectable form
 अन्त-खण्ड *n.* (गणित) intercept
 अन्त-छेदन *n.* curtail
 अन्त-जल *n.* (भूसेचन) tail water
 अन्ततः *adv.* eventually, ultimately
 अन्त-तटाक *m.* (भूसेचन) after-bay
 अन्त-दृशा *f.* (अभियन्त्रणा, आस्मवह) end view
 अन्त-पद *n.* 1 end terms = extremities 2 (सांख्यिकी) extremity

अन्तःपरजीवी (-इन्) *m.* endoparasite
 अन्तःपाइवे *n.* (अन्त. = अन्तस्त्व) (औषिकी) splanchnopleure
 अन्तःपाल *m.* boundary guard
 अन्तःपाश संहति *f.* (अयोमार्ग) interlocking system
 अन्तःपृष्ठ *m.* (प्राणिकी) endotergite
 अन्तःपेशि-प्रदान *m.* (प्राणिकी) plexus of Auerbach
 अन्तःपेशीक *m.* endomysium
 अन्तःपेशीय *n.* endomysium
 अन्तःप्रयोग *m.* (भैषजिकी) internal use
 अन्तःप्रस *m.* (जैविकी) endoplasm
 अन्तःप्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) apodeme
 अन्तःप्रवेश *m.* break in
 अन्तःप्रवेशन *n.* penetrate
 अन्तःप्रवेश-रोध *m.* resistance to penetration
 अन्तःप्रवेशी (-इन्) *mfn.* penetrating
 अन्तःप्रान्तीय *mfn.* interprovincial
 अन्तःभित्ति *f.* (औद्भिदी) end wall
 अन्तःमध्यक-निष्पत्ति *f.* (गणित) extreme and mean ratio
 अन्तर्- interior, internal
 -अन्तर intra-
 अन्तर-अधरपट्ट *m.* endosternite
 अन्तर *n.* 1 (वाणिज्य) balance
 2 difference 3 distance
 4 gap 5 interval
 अन्तर- endo-, inward
 अन्तरक *m.* spacer
 अन्तरङ्ग *n.* viscera
 अन्तर-चिह्न *n.* sign of difference
 अन्तरज *mfn.* innate
 अन्तरतः internally
 अन्तरतः प्रतीपनिष्पत्ती (भौतिकी) internally in the inverse ratio
 अन्तर-दण्ड *m.* (यान्त्र) space bar
 अन्तर-निवेश *m.* (वाणिज्य) insertion of balance
 अन्तरनिष्पत्ति *f.* (गणित) dividendo
 अन्तरनीक *n.* interface
 अन्तर-पणन *n.* (वाणिज्य) arbitrage = arbitrage dealings or operations
 अन्तरय *m.* intervention
 अन्तरयण *n.* 1 intervene 2 intervention
 अन्तरस्थ *n.* (शारीर) endosteum
 अन्तरा in-between
 अन्तरा- inter-
 अन्तराकास्थि अस्थीयन *n.* intercartilaginous ossification = endochondral ossification
 अन्तराकीकस *mfn.* (प्राणिकी) intervertebral

अन्तराकीकस छिद्र *n.* (शारीर) intervertebral foramina
 अन्तरा-कूर्पर *m.* (यान्त्र) crank web
 अन्तराकोशा अवकाश *m.* (जैविकी) intercellular space
 अन्तराकोशा-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) intercellular channels
 अन्तराक्षक *m.* (प्राणिकी) interclavicle
 अन्तराखण्ड- intersegmental
 अन्तराखण्ड-, अन्तराखण्डीय *mfn.* (प्राणिकी) intersegmental
 अन्तराङ्कुर भाग *m.* (प्राणिकी) interpapillary portion
 अन्तरानास ग्रन्थि *m.* internasal gland
 अन्तरानास पटी *f.* internasal septum
 अन्तरापक्ति टिप्पणिका *f.* interlinear gloss
 अन्तरापूल *mfn.* (औद्भिदी) interfascicular
 अन्तरापूल-एषा *f.* (औद्भिदी) interfascicular cambium
 अन्तराबन्धन *n.* intern
 अन्तराभिजनन *n.* interbreeding
 अन्तराय *m.* intervention
 अन्तरारम्भ *mfn.* (औद्भिदी) endarch
 अन्तगल *n.* 1 areola 2 gap, intermediate space, inter-space = interstice 3 interval 4 (यात्रिकी) pitch
 अन्तराल- interstitial
 अन्तराल-दली *f.* (प्राणिकी) interstitial lamellae
 अन्तरालस्थ *mfn.* (प्राणिकी) interstitial
 अन्तरालित-ऊति *f.* (शारीर) areolar tissue
 अन्तरालिन्द-पटी *f.* (प्राणिकी) interauricular septum
 अन्तरालीय *mfn.* (प्राणिकी) interstitial
 अन्तरालीय-कोशा *f.* (प्राणिकी) interstitial cell
 अन्तरावहन *n.* perfilation = free ventilation
 अन्तरावातन *n.* (स्वास्थिकी) ventilation by perfilation
 अन्तराविष्ट *mfn.* included
 अन्तरावेश *m.* inclusion
 अन्तरावेशन *n.* include
 अन्तराव्यूहणु (रसायन) intermolecular
 अन्तरासर्ग *m.* (दैहिकी) endocrine
 अन्तरासर्गिकी *f.* endocrinology
 अन्तरासर्गा (-इन्) *mfn.* (दैहिकी) endocrine
 अन्तरासर्गा ग्रन्थि *m.* endocrine gland

अन्तरासृति *f.* (भौतिक रसायन, दैहिकी) endosmosis
 अन्तरास्तर *m.* inner lining
 अन्तरास्थापन *n.* interpose
 अतरिक्षव *m.* uranol
 अन्तरित *mfn.* interrupted, intervening = intervened
 अन्तरितेक्ष *m.* stroboscope (अन्तरित interrupted)
 अन्तरितेक्षीय-रीति *f.* (भौतिकी) stroboscopic method
 अन्तरुपांग *n.* (प्राणिकी) endopodite
 अन्तरे during
 अन्तरोद संवनक *m.* (रसायन) Liebig condenser
 अन्तरोधि विमान *n.* (सेना) interceptor plane
 अन्तर्गत *mfn.* 1 involved 2 to be included
 अन्तर्गत कोण *m.* (गणित) included angle
 अन्तर्गुदा *m.pl.* (प्राणिकी) Endoprocta
 अन्तर्ग्रहण *n.* 1 ingest, ingestion (take in for digestion)
 2 intake
 अन्तर्ग्रहण-नियमन *n.* (भूसेचन) regulating of intake
 अन्तर्ग्रहण-प्रस्थाणु *m.* (भूसेचन) intake tower
 अन्तर्घटन *n.* (प्राणिकी) endomixis
 अन्तर्जिह्वा *f.* lacinia (inner glossa)
 अन्तर्जीवी (-इन्) *m.* entozoon
 अन्तर्जीवी (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) entozoic
 अन्तर्देश- *mfn.* inland
 अन्तर्देश जल *n.* inland waters
 अन्तर्देश नौवहन *n.* inland navigation
 अन्तर्देशीय *mfn.* inland
 अन्तर्द्रव्य *n.* (शारीर, जैविकी) matrix = die
 अन्तर्धारण *n.* contain
 अन्तर्धारित, अन्तर्धृत *mfn.* involved
 अन्तर्नेयन *n.* pass into
 अन्तर्नासाविवर *m.* (प्राणिकी) internal nostril
 अन्तर्नातीय *mfn.* internarial
 अन्तर्न्येष्टि *mfn.* = न्येष्ट्यन्तर्- (प्राणिकी) (मृत्वि-भाजना) intranuclear (mitosis)
 अन्तर्वल *n.* internal force
 अन्तर्वह्निमेहाबीजाणु केशकवक *n.* Trichophyton megalosporon
 endoectothrix
 अन्तर्वीजकति = अन्तर्वीजक-प्रजाति *f.* Endomyces
 अन्तर्वीजाणु *m.* (जैविकी) endospore
 अन्तर्भाजन *n.* 1 (प्राणिकी) endomitosis 2 subdivide, subdivision
 अन्तर्भटिक *m.* (वाणिज्य) inward

freight
 अन्तर्भित्ति *n.* (औद्भिदी) endocarp
 अन्तर्भूत *mfn.* involved
 अन्तर्भूत काय *m.* inclusion body
 अन्तर्भेदन *n.* insecting (cutting in)
 अन्तर्मातृका *f.* (प्राणिकी) internal jugular vein
 अन्तर्मिलन *n.* anastomose (inter-join)
 अन्तर्मुख *mfn.* inward
 अन्तर्मुख निपीड *m.* inward pressure
 अन्तर्मुख-पालि *f.* (औद्भिदी) introrse lobe
 अन्तर्य *mfn.* interior
 अन्तर्याण *n.* (भौतिकी) ingress
 अन्तर्लेसीका *f.* (शारीर) endolymph
 अन्तर्लेसीका-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) ductus endolymphaticus
 अन्तर्लेसीका-स्थूण *m.* (प्राणिकी) saccus endolymphaticus
 अन्तर्लिखित *mfn.* inscribed
 अन्तर्लिखित-प्रतिभूति *f.* (वाणिज्य) inscribed security
 अन्तर्लिखित स्कन्ध *m.* (वाणिज्य) inscribed stock
 अन्तर्लेख *m.* inscription
 अन्तर्लेखन *n.* inscribe, inscription
 अन्तर्लेख्य *mfn.* inscribable
 अन्तर्वयन *n.* interlace = interweave
 अन्तर्वर्ती (-इन्) *mfn.* transitional
 अन्तर्वर्ती काल *m.* period of transition, transitional period
 अन्तर्वर्ती प्रावधान *n.* transitional provisions
 अन्तर्वर्तमावकाश *m.* (चाक्षुषी) interpalpebral space
 अन्तर्वर्ध *m.* 1 (औद्भिदी) ingrowth
 2 (प्राणिकी) phragma
 अन्तर्वर्ध *m.* (प्राणिकी) -phragm
 अन्तर्वर्ध-पत्र *n.* (प्राणिकी) post-phragma
 अन्तर्वर्धाय *n.* (प्राणिकी) prephragma
 अन्तर्वेलन *n.* invaginate
 अन्तर्वलित *mfn.* involute
 अन्तर्वलित रूप *n.* (औद्भिदी) involution form
 अन्तर्वली तट *m.* (प्राणिकी) invaginating edge
 अन्तर्वस्तु *n.* 1 contents 2 (औद्भिदी) inclusions
 अन्तर्वासी (-इन्) *mfn.* indoor
 अन्तर्वासी चिकित्सालय *m.* indoor hospital
 अन्तर्वासी रोगी *m.* indoor patient
 अन्तर्विकासिवक्षा: *m. pl.* (प्राणिकी) Eudopterygota
 अन्तर्विभक्त *mfn.* subdivided
 अन्तर्विभाग *m.* subdivision

अन्तर्विभाजन *n.* subdivision
 अन्तर्विभाजन तथा अपखण्डन *n.* subdivision and fragmentation
 अन्तर्विषि *f.* (प्रातिकारिकी) endotoxin
 अन्तर्विष्ट *mfn.* 1 included 2 intercalary
 अन्तर्विष्ट कास्थि *n.* intercalary cartilage
 अन्तर्वृत्त *n.* (गणित) in-circle
 अन्तर्वेदी *f.* (भूगोल) Doab
 अन्तर्वेश *m.* interpolation
 अन्तर्वेशक *m.* interpolator
 अन्तर्श: finally
 अन्त-शोधन *n.* end correction
 अन्तश्चर्मकति = अन्तश्चर्मक-प्रजाति *f.*
 Endodermophyton
 अन्तश्चर्मकील *m.* papilloma
 अन्तश्चूषण *n.* imbibe
 अन्तश्चूषण *n.* (आत्मदह) induction
 अन्तश्चूषण-वाद *m.* imbibition theory
 अन्तश्चोल *m.* (औद्भिदी) tegmen
 अन्तश्छद *m.* ceiling
 अन्तश्छद *m.* (शारीर) endothelium
 अन्तश्छद-endotheli-, endothelio-
 अन्तश्छदकोशा *f.* (शारीर) endotheliocyte
 अन्तश्छदराशि *f.* endotheliolysin
 अन्तश्छद्रीय *mfn.* endothelial
 अन्त-श्वासन *n.* inspiration
 अन्तर्धर्मकाल *m.* (प्राणिकी) endoskeleton
 अन्त सीमा *f.* (भौतिक रसायन) interface
 अन्त सीमा-interfacial
 अन्त-सीमीय *mfn.* interfacial
 अन्त-सेवन *n.* (भैषजिकी) internal use
 अन्त-स्तर *m.* 1 (प्राणिकी) endoderm = entoderm 2 (औद्भिदी) endodermis
 अन्त स्तरण *n.* lining
 अन्तस्तर-दली *f.* (प्राणिकी) endodermal lamella
 अन्त-स्तरीय अधिच्छद *m.* (प्राणिकी) endodermal epithelium
 अन्तस्तापन *n.* endothermy
 अन्तस्तिरश्ची *f.* (प्राणिकी) obliquus internus
 अन्तस्तुन्न *mfn.* tucked in
 अन्त-स्तुत्त *mfn.* lined
 अन्तस्तोदन *n.* (प्राणिकी) tucking in
 अन्तस्त्य *n.* viscera
 अन्तस्त्य *mfn.* splanchnic = visceral
 अन्तस्त्य-अंग *n.* visceral organ
 अन्तस्त्य-उदरच्छद *m.* visceral peritonium

अन्तस्त्य-कला *f.* (शारीर) visceral membrane
 अन्तस्त्यगुहा *f.* (प्राणिकी) splanchnocoel
 अन्तस्त्य-चेता-संहति *f.* sympathetic nervous system = visceral nervous system
 अन्तस्त्य-दरी *f.* visceral slit
 अन्तस्त्य परिक्लोम *m.* visceral pleura
 अन्तस्त्य-परिहृत *m.* visceral pericardium
 अन्तस्त्य-पुंज *m.* visceral mass
 अन्तस्त्य स्तर *m.* (प्राणिकी) splanchnic layer = visceral layer
 अन्तःस्थ *mfn.* intermediate
 अन्तःस्थ अवस्था *f.* intermediate stage
 अन्तःस्थ-गुहा *f.* (प्राणिकी) third ventricle = diacoel = diacoelia
 अन्तःस्थ-जल-यमन *n.* control of water content
 अन्तःस्थ पद *n.* intermediate stage
 अन्तःस्थ प्रत्यय *m.* (अर्थशास्त्र) intermediate credit
 अन्तःस्थ-वृहती *f.* vastus intermedius
 अन्तःस्थ भाग *m.* (प्राणिकी) pars intermedia
 अन्तःस्थ राष्क *n.* buffer state
 अन्तःस्थ स्तर *m.* (प्राणिकी) intermediate layer, intervening layer
 अन्तःस्थयी (-इन्) *mfn.* intermediary
 अन्तहीन *mfn.* endless
 अन्तांग *n.* (दैहिकी) end organ
 अन्तात्रपु *n.* britannia metal
 अन्ताद् द्वितीय *mfn.* second next to the last term
 अन्तारम्भ चलित्र *n.* inside cylinder locomotive
 अन्ताराज्यनीति *f.* diplomacy
 अन्ताराज्यनीतिज्ञ *m.* diplomat
 अन्ताराज्यनैतिक *mfn.* diplomatic
 अन्ताराज्यनैतिक अभिकर्ता (-न्) *m.* diplomatic agent
 अन्ताराज्यनैतिक वर्ग *m.* diplomatic body = diplomatic corps
 अन्ताराज्यनैतिक विमुक्ति *f.* diplomatic immunity
 अन्ताराष्ट्रिय *mfn.* international
 अन्ताराष्ट्रिय-अर्हा *f.* international value
 अन्ताराष्ट्रिय एकक *n.* (द्वैद्युत अभियन्त्रणा) international units

अन्ताराष्ट्रिय टंक *m.*, अन्ताराष्ट्रिय टंकन *n.*
 international coinage
 अन्ताराष्ट्रिय द्विधातुता *f.* (अर्थशास्त्र)
 international bimetalism
 अन्ताराष्ट्रिय धन *n.* international
 wealth
 अन्ताराष्ट्रिय रीति *f.* international
 method
 अन्ताराष्ट्रिय -वर्ति = प्रमाण-वर्ति *f.*
 (प्रमाण) international candle
 = standard candle
 अन्ताराष्ट्रिय विधि *m.* international
 law = law of nations
 अन्ताराष्ट्रिय व्यापार *m.* international
 trade
 अन्ताराष्ट्रिय व्यापाराधिक्य, व्यापारान्तर *n.*
 international trade balance
 अन्ताराष्ट्रिय संविदा *f.* international
 agreement
 अन्ताराष्ट्रिय सहकारिता *f.* inter-
 national co-operation
 अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृति-नियम *m.* Inter-
 national Acceptance Cor-
 poration
 अन्तारोधन *n.* (सेना) intercept,
 interception
 अन्तारोध-भू-वश (अ. भू. व.) *m.*
 ground control of intercep-
 tion (GCI)
 अन्तारोध-भू-वश स्थान (अ. भू. व. स्थान)
n. GCI station
 अन्तारोधि योधक *m.* (सेना) inter-
 ceptor fighter
 अन्तारोधी (-इन्) *m.* (सेना) intercept-
 or
 अन्तिम *mfn.* extreme (last, final),
 ultimate
 अन्तिम-ultimo-
 अन्तिम कारण *n.* (तर्कशास्त्र) causa
 finaly = final cause
 अन्तिम-कलोमज काय *m.* ultimo-
 branchial body
 अन्तिम-परीक्षा *f.* terminal examina-
 tion
 अन्तिम प्रक्रम *m.* last stage
 अन्तिम बिन्दु *m.* end point
 अन्तिम-याचना *f.* final call
 अन्तिम लाभान्श *m.* final dividend
 अन्ते ultimately
 अन्य *mfn.* final, ultimate
 अन्य-बुन्द *m.* (शारीर) end-bulb
 अन्य-कोशाभित्ति *f.* (औद्भिदी) end
 cell-wall
 अन्य-धारिता *f.* (भूसेचन) ultimate
 capacity
 अन्य-मस्तिष्क *n.* end-brain = telen-
 cephalon
 अन्य विश्लेषण *n.* ultimate

analysis
 अन्य-स्थिति *f.* final position
 अन्त्र *n.* bowel = intestine,
 enteron
 अन्त्रयुज *m.* mesentery
 अन्त्रवृद्धि *f.* inguinal hernia
 अन्धक *m.* blind
 अन्धक-गण *m.* (प्राणिकी) Protura
 अंधधान *n.* (प्राणिकी) diverticulum
 अन्धन *m.* blende
 अंधनाल *m.* (प्राणिकी) diverticulum
 अन्धबिन्दु *m.* (शारीर) blind spot
 अन्धसूची *f.* pin
 अंधस्यून *m.* diverticulum
 अंधान्त *m.* blind end
 अन्न *n.* food, ration
 अन्न-आयुक्त *m.* food commissioner
 अन्न-उत्पादन *n.* food production
 अन्न-कारक *m.* (जीवरसायन) food-
 factor
 अन्न-कोष्ठ *m.* pantry
 अन्नग्रह *m.* (प्राणिकी) crop (food-
 receptacle)
 अन्न-द्रव्य *n.* food material
 अन्न-धानी *f.* 1 (प्राणिकी) food vacuole
 2 pantry
 अन्न-निर्माण *n.* food manufacture,
 manufacture of food
 अन्न-पथ *m.* (शारीर) alimentary
 tract
 अन्न-परिपाक *m.* assimilation of
 food
 अन्नमात्रा *f.* ration
 अन्नं बहु कुर्वत (तैत्तिरीयोपनिषद्) grow
 more food
 अन्नविष आन्त्रवेत्राणु *m.* Escherichia
 grunthali (found in cases
 of food-poisoning)
 अन्न विगणु (अ. वि) *m.* Salmonella
 अन्न-संक्रमण *n.* (औद्भिदी) transloca-
 tion of food
 अन्न-संग्रह *m.* (औद्भिदी) food storage,
 storage of food
 अन्न-संग्रह-ऊति *f.* (औद्भिदी) food
 storage tissue
 अन्नस्रोतस् *n.* (शारीर) 1 alimentary
 canal 2 enteron
 अन्य *mfn.* different, other
 अन्यक्रामण *n.* alienate, aliena-
 tion
 अन्यक्राम्य *mfn.* alienable
 अन्यग *n.* (रसायन) aludel = udell
 अन्यग-आष्ट *n.* aludel furnace =
 bustamento furnace
 अन्यगमन *n.* migrate, migra-
 tion
 अन्यत्रवासी (-इन्) *m.* absentee
 अन्यथा (गणित) aliter (other wise)
 अन्यदेशीय *mfn.* alien
 अन्यदेशीय मित्र *n.* alien amy

अन्यदेशीय शत्रु *m.* alien enemy
 अन्ययु *n.* (रसायन) altrose
 अन्य-पार्श्वे (वाणिज्य) per contra
 अन्ययुष्ट *m.* (प्राणिकी) parasitical
 cuckoo
 अन्य भिन्न *m.* different fraction
 अन्य-यनस्क *mfn.* absent, preoccu-
 pied
 अन्यष्टि, अन्यष्टित *mfn.* nonnuclea-
 ted
 अन्यापवर्जम् exclusively
 अन्याय्य *mfn.* unfair
 अन्याय्य विवचन *n.* unfair discrimi-
 nation
 अन्यून *mfn.* not less
 अन्योन्य *mfn.* reciprocal
 अन्योन्य-नाभि *f.* conjugate foci
 अन्योन्य अभियाचन *n.* reciprocal
 demand
 अन्योन्य-अभियाचन-नियम *m.* law of
 reciprocal demand
 अन्योन्यस्मिन् लम्ब *mfn.* perpendi-
 cular to each other
 अन्योन्याश्रित *mfn.* interdepend-
 ent
 अन्वक्ष *mfn.* axial
 अन्वचेतनी *f.* (भेषजिकी) procaine
 अन्वचेतनी उदनीरेय *n.* procaine
 hydrochloride = procainae
 hydrochloridum
 अन्वधोवाही (-इन्) *m.* (औद्भिदी) meta-
 phloem
 अन्वनुलोकन *n.* scan
 अन्वनुलोकित *n.* (विद्युत्) scanner
 अन्वनुलुकी विम्ब *m.* (विद्युत्) scan-
 ning disc
 अन्वन्त्र *n.* (शाकाण्डिकी) paracolon
 अन्वन्त्र दण्डाणु *m.* paracolon bacil-
 lus
 अन्वभिकर्ता (-द्व) *m.* subagent
 अन्वय *m.* 1 agreement, concord
 2 construction 3 descent
 अन्वयन *n.* construe
 अन्वय-रीति *f.* method of agree-
 ment
 अन्वय-व्यतिरेक-रीति *f.* method of
 agreement and difference
 अन्वर *adv.* (भौतिकी) radially
 अन्वरत्नि *m.* (शारीर) radius
 अन्वरत्नि चैता *f.* radial nerve
 अन्वरत्नि रोहिणी *f.* (शारीर) radial
 artery
 अन्वायाम *mfn.* longitudinal
 अन्वायाम अक्ष *m.* longitudinal axis
 अन्वायाम अन्तराल *n.* (अभिव्यञ्जना) lon-
 gitudinal pitch
 अन्वायाम छेद *m.* longitudinal sec-
 tion
 अन्वायाम द्विगुणन *n.* (जैविकी) longi-
 tudinal doubling

अन्वायाम-पेशी *f.* longitudinal muscle
 अन्वायाम-प्रसीता *f.* longitudinal groove
 अन्वायाम-भंजन *n.* (प्राणिकी) longitudinal split
 अन्वायाम-विकार *m.* (भौतिकी) linear strain = longitudinal strain
 अन्वायाम विपाट *m.* (औद्भिदी) longitudinal split
 अन्वायाम-स्फोटना *f.* (औद्भिदी) longitudinal dehiscence
 अन्वायुक्त *mfn.* fitted
 अन्वायुक्ति *f.* (यांत्र) fit (coincidence of parts in contact)
 अन्वायुक्ति *f.* (वाणिज्य) fixture = fittings
 अन्वायोज *m.* fitter
 अन्वायोजन *n.* fit, fitting
 अन्वायोजन-शाला *f.* fitting shop
 अन्वायोजित *mfn.* fitted
 अन्वित *mfn.* construed
 अन्विष्ट *mfn.* searched
 अन्वीक्षया *adv.* by trial
 अन्वीक्षया विभ्रमेण च by trial and error
 अन्वीक्षा *f.* trial
 अन्वीक्षा तथा विभ्रम *m.* trial and error
 अन्वीक्षा-भाज्य *n.* (गणित) trial dividend
 अन्वीक्षा-सूची *f.* (वाणिज्य) trial balance
 अन्वृजुरेख *mfn.* rectilinear
 अन्वेषण *n.* research
 अन्वेषण-छात्र research scholar
 अन्वेषण-प्रयोग *m.* application of research
 अन्वेषण-सूची *f.* (भौतिकी) search pin
 अन्वेषि गोलन *n.* (सेना) searching fire
 अन्वेषि-तत्त्व *n.* (भौतिकी) tracer elements
 अन्वेषि-प्रकाश *m.* search-light
 अन्वेषि-प्रकाश-वश-तेजोन्वेष (अ.त्र.व.) *m.* search-light-control radar set (SLC) = Elsie
 अन्वेषि (-च) *m.* research scholar
 अप-
 अपकर्तन *n.* 1 cut off 2 rescind
 अपकर्षण *n.* repel, repulsion
 अपकिरण (श्लेष) *n.* (भौतिकी, भौतिक रसायन) dispersegate = disperse (colloid), dispersion
 अपकिरण-गुणक *m.* coefficient of dispersion
 अपकिरण-घात *m.* (सांख्यिकी) moment of dispersion (घात = moment = power)
 अपकिरण-माप *m.* (सांख्यिकी) measure

of dispersion
 अपकिरण-रचना *f.* (औद्भिदी) dispersal mechanism
 अपकिरण-वक्र *n.* (सांख्यिकी) Lorenz curve
 अपकिरण-शक्ति *f.* (काशिकी) dispersive power
 अपकिरता *f.* (भौतिक रसायन) dispersity (degree of dispersion)
 अपकीर्ण *mfn.* dispersed
 अपकीर्ण *n.* (भौतिक रसायन) dispersoid
 अपकीर्ण-प्रावस्था *f.* (भौतिक रसायन) dispersed phase
 अपकीर्ण-विधा *f.* (भौतिक रसायन) dispersoidology = colloid chemistry
 अपकीर्णक *mfn.* defamatory
 अपकीर्ति *f.* defamation
 अपकीर्तिकर *mfn.* defamatory
 अपकीर्ति-करण *n.* defamation
 अपकीर्ति-शब्द *m.* defamatory words
 अपकुंचन-बिन्दु *m.* (भौतिकी) point of inflection
 अपक्व *mfn.* 1 raw 2 undigested
 अपक्व अन्न *n.* undigested food
 अपक्व द्रव्य *n.* raw material
 अपक्व प्रमाणपत्र *n.* (वाणिज्य) scrip (provisional certificate)
 अपक्ष-गण *n.* (प्राणिकी) Aptera
 अपक्ष-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Apteryx
 अपक्षय *m.* decay
 अपक्षयुग्मिड-गण *m.* (प्राणिकी) Siphonaptera
 अपक्षस्त्रीकाति = अपक्षस्त्रीक-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) oligotoma
 अपक्षाः *m. pl.* (प्राणिकी) Aptera
 अपक्षारण *n.* erode
 अपक्षालक *mfn.* detergent
 अपक्षालन *n.* deterge
 अपक्षालिता *f.* detergency, detergency
 अपक्षमल *mfn.* (प्राणिकी) nonciliated
 अपखण्ड *m.* 1 fragment 2 stipe
 अपखण्डन *n.* 1 fragmentation 2 repeal 3 rescind 4 revoke
 अपखण्डमय *mfn.* fragmental
 अपगमन *n.* (गणित) separation = segregation
 अपगमन-प्रवेग *m.* velocity of separation
 अपघर्ष *m.* policeman (on the end of a glass rod)
 अपघर्षण *n.* ab-rade, ab-raise, abrasion
 अपघर्षण-परीक्षित्र *n.* abrasion testing machine
 अपघर्षी (-इन्) *mfn.* abrasive
 अपघृष्ट *m.* abrasive

अपंक्तिक *mfn.* (औद्भिदी) astichous
 अपचय *m.* catabolism (dissimilation)
 अपचयन *n.* (रसायन) degradation, degrade *vb.*
 अपचयन-ऊर्जा *f.* (रसायन) degradation energy
 अपचयन-स्रष्ट *n.* (रसायन) degradation product
 अपचयन-स्थिर *m.* (रसायन) degradation constant
 अपचयनीय *mfn.* (रसायन) degradational
 अपचयिक *mfn.* catabolic
 अपचयोन्मुख *mfn.* (रसायन) degradative
 अपचालक *mfn.* (दैहिकी, शारीर) abducent, abductor
 अपचालक-चेता = षष्ठी मारिस्थी *f.* (शारीर) abducent nerve = sixth cerebral
 अपचालक-पेशी = आभिपार्श्व-क्रजुपेशी *f.* (शारीर) abducent muscle = rectus lateralis
 अप-चालन *n.* (शारीर) abduction (drawing away)
 अपचित *mfn.* (रसायन) degraded
 अपच्छेदी स्तर *m.* (औद्भिदी) absciss layer
 अपछिन्न-पक्षवत् *mfn.* (औद्भिदी) abruptly pianate
 अपटीमत् *mfn.* (जैविकी) aseptate
 अपट्टा *m. pl.* (प्राणिकी) Aplacophora
 अपतान *m.* (प्राणिकी) cramp
 अपत्य *n.* offspring
 अपत्याका (-च) *m.* abdicant, abdicator
 अपत्यजन *n.* abdicate
 अपत्याग *n.* abdication
 अपत्याज्य *mfn.* abdicable
 अपत्रकी *f.* (भैषजिकी) ephedrine = ephedrina
 अपत्रकी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Ephedra
 अपत्रकोपवृद्धिक *f.* (भैषजिकी) ephedio-adrenalin
 अपदलन *n.* (रसायन) cracking
 अपधावन *n.* run off
 अपधावन-मलकुंड *n.* (स्वास्थिकी) wash-out closet
 अपनयन *n.* 1 remove 2 rescind
 अपनयन *n.* removal
 अपनयन-व्यय *m.* (वाणिज्य) removal expenses
 अपनाम *n.* (प्राणिकी) misnomer (अन्वयनाम के विरुद्ध)
 अपनियंत्रण *n.* decontrol
 अपनीत *mfn.* removed
 अपनीलरक्त *m.* smoked pearl

अपनेय *mfn.* removable
 अपनेयता *f.* removability
 अपपीतहरि *m.* state olive
 अपप्रत्यय *m.* discredit
 अपमापी (-इन्) *m.* abuser
 अपमानलेख *m.* (विधि) libel
 अपमान-वचन *n.* slander
 अपमार्जन *n.* 1 cancel (to delete)
 2 sweep 3 deletion
 अपमार्जित *mfn.* deleted
 अपसुक्त *mfn.* absolute, absolved
 अपसुक्ति *f.* absolution
 अपसुख *mfn.* (प्राणिकी) aboral
 अपसोचक *m.* absolver, absolver
 अपसोचन *n.* absolve
 अपम्लेच्छी *f.* (रसायन) caffoline
 अपयोजन *n.* disconnect
 अपर *mfn.* 1 additional 2 latter
 अपर- (रसायन) all-, allo-
 अपरक्त *m.* crystal gray, cinder
 gray, granite, granite gray,
 metallic gray
 अपरक्तपीत *m.* argali, grege =
 nutria, lime stone = hair
 brown, oriental pearl = slate
 gray, quail
 अपरक्तानील *m.* crane, Prince gray
 अपरक्राम्य *mfn.* not negotiable
 अपरक्राम्य धनादेश *m.* not
 negotiable cheque
 अपरक्राम्य रेखन *n.* (वाणिज्य) not
 negotiable crossing
 अपर-ज्योतिषिक *mfn.* (रसायन) allo-
 ciotonic
 अपर-जार-प्रोभूजिक *mfn.* (रसायन) all-
 oxy-proteic (अपर all)
 अपर च provided further
 अपरदन *n.* erode, erosion
 अपर-दारुसितिक *mfn.* (रसायन) allo-
 cinnamic
 अपर-दृशिक अम्ल *n.* allophanic acid
 अपर-दृशिक *m.* allophane
 अपर-दृशीय *n.* (रसायन) allo-pharate
 अपर-दृश-तिक्तेय *n.* allo-phan-
 amide
 अपरधु *n.* (रसायन) allose
 अपर-निचूपातु *m.* (खानिजी) allo-
 palladium
 अपर-नियेचन *n.* (जैविकी) cross-
 fertilization
 अपर-नेयासिक अम्ल *n.* allo-mucic
 acid
 अपर-परागण *n.* (औद्भिदी) cross-
 pollination
 अपर-बन्धता *f.* (रसायन) allo-
 desmism
 अपर-भागता *f.* (रसायन, खानिजी) allo-
 merism
 अपर-भागीय *mfn.* allomorous
 अपर-म्लेच्छी *f.* allocaffeine

अपर-रूप *n.* allomorph
 अपर-रूपता *f.* allomorphism
 अपर-रूपिज *m.* allomorphite
 अपर-रूपीय *mfn.* allomorphic
 अपर-वंगकिक अम्ल *n.* allo-telluric
 acid
 अपर-इयामी *f.* allo-cyanine
 अपर मच्चिव *m.* additional secre-
 tary
 अपर-समाज *m.* (रसायन) allo-isomer
 अपर-समाजता *f.* (रसायन) allo-
 isomerism
 अपर-समाजिक *mfn.* (रसायन) allo-
 isomeric
 अ-पराग-फलन *n.* parthenocarp
 अपराजिताति = अपराजित-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) Clitoria
 अपराध *m.* 1 abuse, fault
 2 crime, guilt, offence
 अपराधी *m.* abuser
 अपराधीन *mfn.* independent
 अपरावर्त *m.* (रसायन) allotrope
 (allotropic form)
 अपरावर्तन *n.* allotropize
 अपरावर्तना *f.* (रसायन) allotropy,
 allotropism
 अपरावर्तिक *mfn.* allotropic, all-
 otropical
 अपरावर्तिकता *f.* allotropicity
 अपरावर्तिक रूप *n.* allotropic form
 (allotrope)
 अपरावर्तिक सम्परिवर्तन *n.* (रसायन)
 allotropic modification
 अपराह्णपुष्प-वृक्ष *m.* (औद्भिदी) four-
 o'clock family
 अपरिचित *m.* stranger
 अपरितोषद *mfn.* unremunera-
 tive
 अपरिपक्व *mfn.* immature
 अपरिपुष्प *mfn.* (औद्भिदी) achla-
 mydeous (परिपुष्प = perianth)
 अपरिपुष्पाः *m. pl.* (औद्भिदी) Achla-
 mydeae (परिपुष्प = perianth)
 अपरिमेय *mfn.* irrational
 अपरिमेय अंक *m.* (गणित) irrational
 number
 अपरिमेय राशि *m.* (गणित) irrational
 quantity
 अपरिवर्तित *mfn.* constant, un-
 changed
 अपरिवर्ति बल *n.* unchanging force
 अपरिवर्ती *mfn.* constant, un-
 changing
 अपरिवर्त्य *mfn.* inconvertible,
 irreversible, unalterable
 अपरिवर्त्य अर्थपत्र *n.* = अपरिवर्त्य-पत्रमुद्रा
f. inconvertible note = inconvertible
 paper money
 अपरिशुद्ध *mfn.* inaccurate
 अपरिशुद्धता *f.* inaccuracy

अपरिहार्य *mfn.* indispensable
 अप-रेखण *n.* cancel (to cross out
 with a line or lines)
 अपर्णस्तम्भ-कुल *n.* (औद्भिदी) Psilota-
 ceae
 अपर्णस्तम्भ-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Psilo-
 tales
 अपर्णस्तम्भ-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Psilo-
 tum
 अपर्याप्तता-विभ्रम *m.* (सांख्यिकी) error
 of inadequacy
 अपर्याप्त पोषण *n.* malnutrition
 अपलेखन *n.* (वाणिज्य) write off,
 writing off
 अपवचन *n.* evasion
 अपवर्जन *n.* exclude, excluding,
 exclusion
 अपवर्जित *mfn.* excluded
 अपवर्जित प्रदेश *m.* excluded area
 अपवर्जित मध्य *m.* (तर्कशास्त्र) exclu-
 ded middle
 अपवर्जितया *adv.* exclusively
 अपवर्जिता *f.* exclusiveness, exclu-
 sivism
 अपवर्जी (-इन्) *mfn.* exclusive
 अपवर्तक *m.* (गणित) measure, sub-
 multiple
 अपवर्तन *n.* (प्राचीन शब्द) (गणित)
 1 cancel (to remove a com-
 mon divisor, etc.), remove,
 cancellation 2 inversion,
 inverting 3 retrench
 अपवर्तक *m.* [अपवर्तन- inversion,
 तापान्क temperature (point)]
 inversion point
 अपवर्ति *f.* (जीवरसायन) invertin
 अपवर्तद *m.* (जीवरसायन) invertase
 अपवर्त्य *n.* (गणित) multiple
 अपवहन *n.* 1 deduction 2 disposal
 3 drain off, drift 4 sweep
 अपवहनीय प्रत्यपण *n.* deduct
 refunds
 अपवाद *m.* 1 exception, excep-
 tional case 2 saving, savings
 अपवादक-प्रस्थापना *f.* exceptive
 proposition
 अपवाद-प्रावधान *n.* saving provi-
 sion
 अपवादि-प्रस्थापना *f.* (तर्कशास्त्र) excep-
 tive proposition
 अपवाह *m.* (वाणिज्य) deduction
 अपवाही (-इन्) *mfn.* (देहिनी
 efferent
 अपवाही चाप *m.* (प्राणिकी) efferent
 arch
 अपवित्र *mfn.* impure
 अपविद्ध *mfn.* pithed
 अपविद्ध मण्डूक *m.* pithed frog
 अपवृत्त *mfn.* 1 (रसायन) invert
 2 retrenched

अपवृत्त-शर्करा *f.* inverted sugar,
invert sugar
अपवृत्त सेविदग्ग *m.* retrenched per-
sonnel
अपवेदनी *f.* (भैषजिकी) apothesine
अपवेधन *n.* (प्राणिकी) pith *vb.*
अपवेष्टन *n.* strip off
अपव्यय *m.* material abandon-
ment
अपव्ययी (-इन्) *mfn.* spendthrift
अपशब्द *m.* abuse, abusive langu-
age
अप-स्वंगम-कुल्या *f.* (प्राणिनी) Laurer's
canal = Laurer-stieda canal
अपसरण *n.* diverge, divergence
अपसरण-बिन्दु *m.* (चाक्षुषी) point of
divergence
अपसारी *m.* (भौतिकी) divergence,
divergency
अपसारण *n.* 1 removal 2 repel
अपसार-बिन्दु *m.* (चाक्षुषी) point of
divergence
अपसारिता *f.* divergency
अपसारी (-इन्) *mfn.* divergent
अपसारी प्रकार *m.* (औद्भिदी) diver-
gent type
अपसारी रश्मि *m.* (भौतिकी) diver-
ging rays
अपस्फायन *n.* (अर्थशास्त्र) deflate
अपस्फायी *mfn.* (अर्थशास्त्र) deflation-
ary
अपस्फीत *mfn.* deflated
अपस्फीत-करण *n.* (अर्थशास्त्र) deflate
अपस्फीति *f.* (अर्थशास्त्र) deflation
अपस्फीति-कारी (-इन्) *mfn.* (अर्थशास्त्र)
deflationary
अपस्फीति-काल *m.* deflationary
period
अपस्फीति-वादी (-इन्) *m.* (अर्थशास्त्र)
deflationist
अपस्मार *m.* (आयुर्वेद्या) epilepsy
अपस्मारी (-इन्) *mfn.* epileptic
अपस्मारीय दण्डाणु *m.* Bacillus epi-
lepticus
अपहरण *n.* 1 (अप *apo* + हरण
harrein) aphaeresis 2 take
away
अपहर्योर्षित *m.* hathi gray, storm
gray
अपहसन *n.* deride
अपहार *m.* discount
अपहार अर्थ *m.* discount rate,
rate of discount
अपहार-विपणि *f.* discount market
अपहार स्तंभ *m.* discount column
अपहाराय संचिति *f.* reserve for
discount
अपहास *m.* derision
अपाक *m.* (आयुर्वेद्या) dyspepsia
अपाकरण *n.* 1 abate, abatement

2 abrogate, do away with
अपाकार *m.* abatement
अपाकिरण *n.* (भौतिकी) dissipate
अपाकीर्ण *mfn.* dissipated
अपाक्रिया *f.* abatement
अपाक्ष *mfn.* (जैविकी) abaxial
अपांग *n.* (शरीर) canthus
अपाचित *mfn.* undigested
अपाच्य *mfn.* undigestable
अपाच्छदन *n.* curtail
अपाटी (-इन्) *mfn.* crack-proof
अपात्रकरण *n.* disqualify
अपाद *mfn.* (प्राणिकी) apodal =
apodous
अपाद प्रकार *m.* (प्राणिकी) apodous
type
अपादाः *m pl.* Apoda
अपारदर्श *mfn.* opaque
अपार्थनाम *n.* misnomer (अन्वर्थनाम
के विरुद्ध)
अपालन *n.* nonfulfillment
अपावृत्तिता *f.* (आयुर्वेद्या) exotropia
अपावृत्तिता *f.* (आयुर्वेद्या) exophoria
अपासन *n.* repel, repulsion
अपास्त *mfn.* repelled
अपाहरण *n.* misappropriation
अपाहासन *n.* curtail
अपाहान *n.* avocation
अपि- (रसायन) epi-
अपि-अ-उत्तैलव-शुल्फाधिक अम्ल *n.*
Arm-strong and Wynne's a-
naphthol-sulphonic acid, a-
naphthol-3-sulphonic acid
अपि-कड्ड लवण *n.* Epsom salt
अपि-कवकहन *n.* Bugundy mix-
ture (a fungicide)
अपि-काठोर्षे श्रेणी *f.* (खानिजी) Moh's
scale of hardness
अपि-कालस्फोट-दण्डाणु *m.* Bacillus
anthracis similis
अपि-काष्ठा-मुजायमान *m.* (रसायन)
Pulfrich refractometer
अपि-कुनी-विधा *f.* (रसायन) (कुनी =
कुप्यातु नीरेय) Grove's process
अपि-क्लोमपाक प्रावर वेत्राणु *m.* Bacillus
capsulatus septicus
अपि-क्षरश्मि नाल *m.* (भौतिकी)
Coolidge tube
अपि-क्षाद लवण = क्षारातु दहातु न्यासनीय
n. Rochelle salt = sodium
potassium tartarate
अपि-क्षा-द-विधा *f.* (रसायन) (क्षारातु
दर्शय प्रांगार द्विजारेय) Kolbe's
process
अपि-क्षा-परीक्षा *f.* (रसायन) Las-
saigne's test
अपि-क्षामा लवण *n.* Sorensen's
salt
अपि-क्षार कलश *m.* (रसायन) Nessler
jar

अपि-क्षार काच *m.* (रसायन) Nessler
glass
अपि-क्षार नाल *m.* (रसायन) Nessler
tube
अपि-क्षार नाल तथा स्थाम *n.* (रसायन)
Nessler tube and stand
अपि-क्षार परीक्षा *f.* (रसायन) Nessler
test
अपि-क्षार प्रतिकर्ता (-त्) *m.* (रसायन)
Nessler reagent
अपि-क्षार प्रतिक्रिया *f.* (रसायन)
Nessler reaction
अपि-क्षार रन्म *m.* (रसायन) Nessler
cylinder
अपि-क्षार विलयन *n.* (रसायन) Nessler
solution
अपि-गन्वाप-आपाक *m.* (रसायन) Claus
kiln
अपि-गन्वाप-प्रतिक्रिया *f.* (रसायन)
Claus reaction
अपि-गन्वाप-विधा *f.* (रसायन) Chance-
Claus process (a process of
recovering sulphur)
अपि-गर्भपात अर्पगोलाणु *m.* Brucella
paraabortus
अपिगो. (अपि-गोलाणु) Br. (Brucella)
अपि-गोयक्ष्म *m.* John's disease
अपि-गोयक्ष्म कन कवेत्राणु *m.* Myco-
bacterium paratuberculosis
अपि-गोलाणु *m.* (अपिगो.) Brucella
(Br.)
अपि-ग्रहणी-ग्रंथि *m.* Brunner's
gland
अपि-चतुष्क गुच्छगोलाणु *m.* Micro-
coccus paratetrageus
अपि-चूष्यानुपात- नियम *m.* (भौतिक)
रसायन) Freundlich adsorp-
tion law
अपि-चूष्यानुपात समताप *m.* Freun-
dlich isotherm
अपि-चूष्यानुपात समीकार *m.* Freun-
dlich equation
अपि-चेता-प्रतान *m.* (प्राणिकी)
Meissner's plexus, plexus
of Meissner
अपि-तापन-विधा *f.* (रसायन) Bergins
process
अपि-ता-परीक्षा *f.* (ता = तात्र
copper तात्रद्वारा नीकुल्य परीक्षा)
Beilstein's test
अपि-तिल परीक्षा *f.* (रसायन) Baudouin
test or reaction (a test for
sesame oil)
अपि-तिल प्रतिकर्ता (-त्) *m.* (रसायन)
Baudouin reagent
अपि-द्रक्षु-संश्लेषण *n.* (रसायन)
Williamson's synthesis
अपि-द्रक्षु-विधा *f.* Blythe process
अपि-द्रावसत्तिक प्रतिक्रिया *f.* (रसायन)
Perkin's reaction

- अपि-दुक्तेय-प्रतिक्रिया *f.* Hofmann's reaction
 अपि-धम *m.* Bessemer, bessemer
 अपि-धम अयस् *n.* Bessemer iron or pig iron
 अपि-धम ताम्र *n.* Bessemer copper
 अपि-धमन *n.* bessemerize
 अपि-धम ऋष्ट्र *n.* Bessemer converter
 अपि-धम द्वाज्रायस *n.* Bessemer steel
 अपि-धम विधा *f.* Bessemer process
 अपि-धूमप्रचूषक *m.* Folin's fume-absorber
 अपि-धूमप्रचूषक नाल *m.* Folin's fume absorption tube
 अपि-धूमलीप्रतिकर्ता (-त्) *m.* (रसायन) Schiff reagent
 अपि-निम्नन-अनुपात-नियम *m.* (भौतिक-रसायन) Raoult's law
 अपि-पारद उत्स्रादांच *m.* (भौतिकी) Toppler's mercury exhaust pump
 अपि-पीत *m.* giallolino = Naples yellow
 अपिपोष-विलयन *n.* Knop's solution
 अपि-प्रोदलेन्य जम्बेय *n.* (शैलवर्णन) Brauns's liquid (methylene iodide)
 अपिबद्धरति = अपिबद्धर-प्रजाति *f.* (जैविकी) Coccidioides
 अपि-वाष्पघनना-रीति *f.* Victor Meyer's vapour density method
 अपि-वाष्पघनना-साधित्र *n.* Victor Meyer's vapour density apparatus
 अपि-भूति-आसोत्र *n.* (विश्लेषण रसायन) Kjeldahl distillation apparatus
 अपि-भूति-पलिव *m.* (विश्लेषण रसायन) Kjeldahl flask
 अपि-भूति-पाचित्र = अपि-भूति पाचन-साधित्र *n.* Kjeldahl digestion apparatus
 अपि-भूति-प्रदान-नाल *m.* (रसायन) Kjeldahl delivery tube
 अपि-भूति-रीति *f.* (विश्लेषण रसायन) Kjeldahl method
 अपि-भूति-साधित्र *n.* (विश्लेषण रसायन) Kjeldahl apparatus
 अपि-भूति-स्थाम *n.* (विश्लेषण रसायन) Kjeldahl stand
 अपि-भूतीयन *n.* (रसायन) kjeldahlize
 अपि-भ्रम-ऋष्ट्र *n.* Bruknei furnace
 अपि-मक्षीवंश *m.* (प्राणिकी) Simulidae
 अपि-मक्ष्याति = अपिमक्षी-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Simulium
 अपि-महाकुण्ड दण्डाणु *m.* Kedrowski's bacillus
 अपि-रेखीय प्रत्यास्थता-मापांक *m.* (भौतिकी) Young's modulus of elasticity = stretch modulus = Young's modulus = modulus of elasticity
 अपि-लेपोद्यास *m.* Burgundy pitch
 अपि-वर्ष-शराव *n.* petri dish
 अपि-वातापनमा *f.* (रसायन) Crowe process
 अपि-दिकारवाद *m.* (रसायन) Baeyer strain theory
 अपि-विज्वरी-मिष्टोद *n.* (विज्वरी तथा विषतिन्दुकी सहित अयस्य-भस्वीय-मिष्टोद) Easton's syrup (syrup of ferrous phosphate with quinine and strychnine)
 अपि-अण पत्र *n.* Manila paper
 अपि-शौजावि पुनर्विन्यास *m.* (रसायन) Beckmann rearrangement
 अपि-शौजावि प्रतिक्रिया *f.* (रसायन) Beckmann reaction
 अपि-शौजावि व्यस्य *m.* (रसायन) Beckmann transposition
 अपि-श्याननिम्ननरीति *f.* (भौतिक-रसायन) Raoult's method
 अपि-श्रेयस् काच *m.* Crookes glasses
 अपि-त्रेते सीस *n.* Clichy white
 अपि-साजिकन्द *m.* (रसायन) Geissler bulbs
 अपि-सुवर्णपट्टित उपनेत्र *n.* (चाक्षुषी) Pfund's goldplated glasses
 अपि-सुवि प्रतिक्रिया *f.* (रसायन) Claisen reaction
 अपि-सुव्युदपरीक्षा *f.* (रसायन) Schiff test
 अपि-सुव्युदप्रतिक्रिया *f.* (रसायन) Schiff reaction
 अपि-सूकरज्वर अपिगोलाणु *m.* (शाकाण्डिकी) Brucella parasuis
 अपि-सूकरनारी वेत्राणु *m.* Bacillus parvus ovatus
 अपि-सूक्ष्म तापमान *m.* (भौतिक रसायन) Beckmann thermometer
 अपि-स्नायंगारप्रतिक्रिया (स्नै = स्नेहिक, अंगार = उदांगार) *f.* (रसायन) Wurtz reaction
 अपि-स्नेहनिस्सारणसाधित्र *n.* Soxhlet's extraction apparatus
 अपि-स्नेहपादनाल *m.* Soxhlet's filter tube
 अपि-स्नेहसंघनक *m.* (रसायन) Soxhlet's condenser
 अपि-स्फनी प्रतिक्रिया *f.* (रसायन) Friedel-Craft's reaction
 अपि-स्वम्लकरप्रतिक्रिया *f.* (रसायन) Cannizzaro reaction
 अपि-हस्तसंतल *n.* (ज्ञानपद अभियन्त्रणा) flying level
 अपीड (रसायन) -dyne
 अपीति *mfn.* (प्राणिकी) alecithal
 अपीनस *m.* 1 (आयुर्विद्या) atrophic rhinitis 2 (भैषजिकी) ozena
 अपीनस प्रावरवेत्राणु *m.* = अपीनस प्रा. वे. Klebsiella ozaenae = Bacillus mucosus ozaenae (causes ozena)
 अपीनस वेत्राणु *m.* Bacterium ozaenae
 अपीनसीय कशांगाणु *m.* Pseudomonas smaragdina
 अपीनसीय मुच्छगोलाणु Micrococcus loewenbergii
 अपुन-प्रभार्य कोशा *f.* (द्विदुत्) primary cell
 अपुष्टीकृत प्रत्यय *m.* (वाणिज्य) unconfirmed credit
 अपुष्प बुसपत्र *n.* (भौतिकी) empty glume
 अपुष्पी पादप *m.* nonflowering plant
 अपुष्पीद्भिद् *f.* cryptogam
 अपुष्पीद्भिद् *f. pl.* Cryptogamia
 अपूर्ण *m.* cake
 अपूर्ण *mfn.* deficient, imperfect, incomplete, partial
 अपूर्ण. 1 semi- 2 under
 अपूर्णकदकानि *n. pl.* (औद्भिदी) Deuteromycetes
 अपूर्णकृत वस्तु *n.* unfinished goods
 अपूर्ण-गणना *f.* (तर्कशास्त्र) simple enumeration
 अपूर्ण गणना द्वारा उद्गमन *n.* (तर्कशास्त्र) induction by simple enumeration = inductio per enumerationem simplicem
 अपूर्णता *f.* (वाणिज्य) deficiency
 अपूर्णता-लेखा *f.* deficiency account
 अपूर्ण दहन *n.* incomplete combustion
 अपूर्ण-पक्व *mfn.* undercooked
 अपूर्ण पुष्प *n.* (औद्भिदी) imperfect flower
 अपूर्ण भाजन *n.* (प्राणिकी) incomplete cleavage = partial cleavage = meroblastic cleavage
 अपूर्णरचनान्तरण *n.* (प्राणिकी) heterometabolism
 अपूर्णरचनान्तरणा. *m. pl.* (प्राणिकी) Heterometabola
 अपूर्णवलय-वंश *m.* (प्राणिकी) Salpidae
 अपूर्णवयलाः *m. pl.* (प्राणिकी) Hemimyzaria, Salpidae

अपूर्णद्वलयाति = अपूर्णद्वलय. प्रजाति *f.*
(प्राणिकी) Salpa
अपूर्णद्वलयानुगण *m.* (प्राणिकी) Hemi-
myaria = Salpidae
अपूर्ण-विकसित *mfn.* under-deve-
loped
अपूर्णांक *m.* fraction, nonintegral
अपूर्ण *mfn.* irreparable
अपूर्वात् (औद्भिदी) de novo (arising)
अपूर्वाविधृत समाकलन *n.* unanti-
cipated credits
अष्टवंशिनः *m. pl.* Invertebrata
अष्टवंशी (-इन्) *mfn.* inverte-
brate
अपेक्षया *adv.* relatively, rela-
tive to
अपेक्षया अकर्मण्य *mfn.* relatively
inactive
अपेक्षा *f.* requirement
अपेक्षा-भावे निर्देश्य-पुरुष *m.* referee
in case of need
अपेक्षित *mfn.* required
अपेक्षित गुण *m.* requisites
अपेक्षित दिशा *f.* (भौतिकी) required
direction
अपेक्षित वस्तु *n.* requisite
अपेक्ष्य *n.* requisite
अपोह ताम्र *n.* (भौतिकी) drift
copper
अपोहदर्पक *m.* scraper
अपोषक *m.* (रसायन) nonsupporter
अपोषक्ष्य *m.* atrophy
अपोहक *m.* (सेना) sweeper
अपोहन *n.* (सेना) sweep, sweep-
ing
अपोहक *n.* (रसायन) abraum
(अपोह to remove)
आयजप्रोदी पीठ *n.* (रसायन) (अपि-अज^०)
Schiff's base
अय्यजशुल्बनिकतेय *n.* prontosil
अय्यजाञ्जर अपिगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी)
Brucella paramelitensis
अय्यजान्त स्थ अम्ल *n.* Cleve's acid
अय्यजान्तःस्थ क्र.अम्ल *n.* Cleve's o-
acid
अय्यतिसार *m.* paradysentery
अय्यतिसार अचलान्त्राणु *m.* Shigella
paradysenteriae
अय्यधूम क्षौद्र *m.* Brugere powder
(a smokeless powder)
अय्यत्रित लक्षण *n.* deHaen salt
अय्यत्रिविष जात्रवन्त्राणु *m.* Escherichia
paragrubali
अय्यत्रिविध दण्डाणु *m.* Kutscher's
bacillus
अय्यसिकायरोम *m.* (आयुर्विद्या) Chagas'
disease
अय्यस्कन्द पलिव *m.* Erlenmeyer
flask
अय्यहिफेनी-क्षौद्र *m.* (भैषजिकी) Dover's

powder
अय्यान्त्रञ्जर *m.* (आयुर्विद्या) paraty-
phoid
अय्यान्त्रञ्जर दण्डाणु *m.* paratyphoid
bacillus, Bacillus paraty-
phosus
अय्यान्त्रञ्जरीय नानारूप *m.* Proteus
valerici
अय्यच्छुल्बायिक अम्ल *n.* Bronner's
acid
अय्युत्तिशु अम्ल *n.* (रसायन) Tobias
acid
अप्रकाशावर्तिक *mfn.* (औद्भिदी)
apheliotropic = negatively
heliotropic
अप्रचलन *n.* (वाणिज्य) obsolescence
अप्रचलनोन्मुखता *f.* obsolescent
अप्रचलित *mfn.* obsolete
अप्रणाल ग्रंथि *m.* ductless gland
अप्रतिबन्ध *mfn.* unconditional
अप्रतिभूत *mfn.* (वाणिज्य) un-
secured
अप्रतिभूत उत्तमर्ण *m.* unsecured
creditors
अप्रतिभूत ऋणपत्र *n.* naked debenture = simple debenture
अप्रतिभूत देय *n.* unsecured liabi-
lity
अप्रतिभूति-ऋणपत्र *n.* simple de-
benture
अप्रतिवर्त्य *mfn.* irreversible
अप्रत्यक्ष *mfn.* indirect
अप्रत्यक्ष-उपपत्ति *f.* (गणित) indirect
proof
अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान *n.* indirect
oral investigation
अप्रत्यक्ष मौखिक विधि *m.* indirect
oral method
अप्रत्यादेय *mfn.* irrevocable
अप्रत्यादेय-हानि *f.* irrecoverable
loss
अप्रत्यादेश्य *mfn.* irrevocable
अप्रत्यादेश्य प्रत्यय *m.* irrevocable
credit
अप्रत्याहर्ता-शुण्डिन *m. pl.* (प्राणिकी)
Echiuroidea
अप्रत्याश आय *m.* (वाणिज्य) wind-
fall
अप्रत्यास्थ *mfn.* inelastic
अप्रत्यास्थ अमिथाचन *n.* (अर्थशास्त्र)
inelastic demand, nonelastic
demand
अप्रत्यास्थता *f.* inelasticity
अप्रत्यास्थ प्रदाय *m.* (अर्थशास्त्र) in-
elastic supply
अप्रदा भूमि *f.* fallow land
अप्रधि *mfn.* rimless
अप्रबन्ध्य *mfn.* unmanageable
अप्रभावित *mfn.* unaffected
अ-प्रभूज *m.* a-oxan

अप्रमाजित *mfn.* unpolished
अप्रमाजित तण्डुल *n.* unpolished
rice
अप्ररोचि कुंचीयन *n.* (भौतिकी) non-
induction winding
अ. प्र. व. (अन्वेषि-प्रकाश-वश तेजोन्वेष)
SLC = Elsie ('search-light
control' radar set)
अप्रवणरेखा *f.* magnetic equator
अप्रवर्ती (-इन्) *mfn.* inoperative
अप्रविलीन *mfn.* undissolved
अप्रवीण *mfn.* unskilled
अप्रवीण श्रम *m.* (अर्थशास्त्र) unskilled
labour
अप्रवेद्य *mfn.* impenetrable =
impermeable = impervious
अप्रवेद्य no admission
अ-प्रशिक्षित शिक्षक *m.* untrained
teacher
अ-प्रशीतद *mfn.* a-scorbic
अप्रहता *f.* untilled land
अप्रांगार-रसायन *n.* inorganic
chemistry
अप्रांगारिक भेषज *n.* inorganic
drug
अप्रांगारिकी *f.* inorganic chemi-
stry
अप्राणहर *mfn.* aethal
अप्राधिकृत *mfn.* unauthorized
अप्राप्ती गते *m.* (औद्भिदी) simple
pits
अप्राप्त *mfn.* (वाणिज्य) outstand-
ing
अप्राप्त-राशि *m.* outstanding
अप्रिय गंध *m.* unpleasant smell
अप्रेष मुद्रांक *m.* nonpostal stamp
अप्रौढ *mfn.* immature
अप्तरस *f.* nymph
अप्तरोगुलि *f.* fox glove = fairy
finger = finger flower
अप्तरोगुलि नील *m.* fox-glove blue
अफल *mfn.* barren
अफल-उपकल्पना *f.* (तर्कशास्त्र) barren
hypothesis
अफेनद जल *n.* hard water
अवद्ध *mfn.* 1 free 2 loose
अवद्ध आकृषि *m.* (यांत्र) loose pulley
अवद्ध उपकरण *n.* loose tools
अवद्ध टंकन *n.* (अर्थशास्त्र) free
coinage
अवलि क्षेत्र *n.* (अर्थशास्त्र) free zone
अवलि पत्तन *n.* free port
अवलि वस्तु *n.* free goods
अवलि-सूची *f.* free list
अवाध *mfn.* absolute, free, free
from restriction
अवाध अधिकोपण *n.* (अर्थशास्त्र) free
banking
अवाध टंकण *n.* (अर्थशास्त्र) free
mintage

अबाध-प्रतियोगिता *f.* free competition
 अबाध प्रदान *n.* free delivery
 अबाध वातन *n.* (स्वाविरथकी) persflation
 = free ventilation
 अबाध वायु *m.* free air
 अबाध विनिमय-विपणि *f.* (अर्थशास्त्र)
 free exchange market
 अबाध व्यापार *m.* (वाणिज्य) free
 trade
 अबाधित *mfn.* unhampered
 अ.वाष्पच्छात्री (-इन्) *mfn.* steam-
 tight
 अबाष्पासवन *n.* (रसायन) con-distil-
 lation
 अवीजाणुता *f.* (औद्धिदी) apo-
 spory
 अबुद्धाक्षिरा *f.* sherry
 अभस्रोतपाती (-इन्) *mfn.* unsplin-
 terable
 अभञ्जित *mfn.* unfolded
 अभय 1 *mfn.* safe 2 *n.* safety
 अभय-अर्गली *f.* safety belt
 अभय-इपीका *f.* safety match
 अभय उपनेत्र *n.* (चाक्षुषी) safety
 glasses
 अभय कपाट *n.* (अयोमार्ग) safety
 valve
 अभय धुर *m.* safety razor
 अभय ज्वाल *m.* safety fuse
 अभय नाल *m.* (रसायन) safety
 tube
 अभय निवाप *m.* safety funnel
 अभय-मात्रा *f.* safe dose
 अभाय्य *mfn.* indivisible
 अभाय्य व्यय *m.* nondivisible
 expenditure
 अभाय्य-संख्या *f.* (गणित) prime
 number
 अभयक-भूमि *f.* no-rent land
 अभारित *mfn.* (सांख्यिकी) un-
 weighted
 अभारित गुणोत्तर मूल्यानुपात मध्यक *n.*
 (सांख्यिकी) unweighted geome-
 tric mean of ratio
 अभारित देशनाङ्क *m.* (सांख्यिकी) un-
 weighted numbers
 अभारित माध्य *n.* (अर्थशास्त्र) un-
 weighted average
 अभारित मूल्यानुपात मध्यका *f.* un-
 weighted median of ratios
 अभारित मूल्यानुपात माध्य *n.* un-
 weighted average of ratios
 अभाव *m* 1 absence, lack,
 want 2 default, failure 3
 absent, not existing
 अभि- 1 (गति, दिशा इत्यादि बोधक) ad-
 2 -ad 3 con- 4 (औद्धिदी) ob- 5
 (रसायन) pros-
 अभिकर्ता (-त्) *m.* (वाणिज्य) agent

अभिकर्तृत्व *n.* (वाणिज्य) agency
 अभिकर्तृ-प्रदेश *m.* agency
 अभिकर्तृकति = अभिकर्तृक-प्रजाति *f.*
 (औद्धिदी) Amanita
 अभिकर्तृक-दिषि *f.* (जीवरसायन) ama-
 nita toxin
 अभिकर्तृक-शोणांशि *f.* (जीवरसायन)
 amanita hemolysin
 अभिक्रमण अनुपत्र *n.* (औद्धिदी) axillary
 stipule
 अभिगमन *n.* 1 accede 2 approach
vb. 3 access, accession 4
 coming to or toward
 अभिगमन-उपाय, -मार्ग *m.*, -साधन, -स्थान
n. access
 अभिगम्य *mfn.* acces-sible, appoa-
 chable
 अभिगम्यता *f.* access, accesibility
 अभिगृहीत *mfn.* adopted
 अभिगृहीत जानपद *m.* adopted
 citizen
 अभिगोपक *m.* (वाणिज्य) underwriter
 अभिगोपन *n.* (वाणिज्य) underwrite
 अभिगोपन-वर्तन *n.* underwriting
 commission
 अभिग्रहण *n.* adopt
 अभिघटक *m.* plasticizer
 अभिघटन-कर्म *n.* plastic operation
 अभिघटन कला *f.* plastic art
 अभिघटन पदार्थ *m.* (औद्धिदी) plastic
 substance
 अभिघटन-वैरूप्य *n.* (यान्त्रिकी) plastic
 deformation
 अभिघटन-शक्ति *f.* (देहिनी) plastic
 force
 अभिघटन-शस्त्र *n.* plastics, plastic
 surgery
 अभिघटना *f.* plasticism, plastics
 अभिघटनी *f.* plasticine
 अभिघटित *mfn.* plastic
 अभिघटित-करण, -भावन *n.* plasticize
 अभिघटित *f.* plasticity
 अभिघटित-मान *m.* plastici-meter,
 plasto-meter
 अभिघटन *n.* (गणित) impact
 अभिघट्य *mfn.* (जैदिकी, शल्यचिकित्सा)
 plastic
 अभिघट्य (द्रव्य) *n.* plastics (plastic
 materials)
 अभिघट्य-करण *n.* plasticize
 अभिघट्य गन्धक *m.* plastic sulphur
 अभिघट्यता *f.* plasticity
 अभिघट्य-भावन *n.* plasticize
 अभिघात *m.* knock
 अभिचरण *n.* (प्राणिकी) parapodium
 अभिचलित *n.* (भौतिकी) relay
 अभिचलन *n.* relay *vb.*
 अभिचंगट *m.* (प्राणिकी) crayfish =
 crawfish = sea crayfish =
 spring lobster

अभिचूणित *m.* hislopito
 अभिजनक *m.* breeder
 अभिजनन *n.* breeding
 अभिजनन-stud
 अभिजनन प्रक्षेत्र *n.* breeding farm
 अभिजनन वृष *m.* breeding bull,
 stud bull
 अभिजागर *m.* invigilator
 अभिजागरण *n.* invigilate
 अभिजागरक *m.* invigilator
 अभिजात *mfn.* noble, nobleman
 अभिजातता *f.* nobility
 अभिजात पुरुष *m.* nobleman
 अभिजात बीज *n.* pedigree seeds
 अभिजात-महिला *f.* noblewoman
 अभिजातवर्ग *m.* nobility
 अभिजात वृष *m.* pedigree bull
 अभिजाता *f.* noblewoman
 अभिजाति *f.* breed, pedigree
 अभिजात्य *mfn.* nobiliary,
 noblemanly
 अभिजित *m.* (ज्योतिष) Vega = Alpha
 Lyrae
 अभिज्ञात *mfn.* recognized
 अभिज्ञान *n.* identification,
 identify, identity
 अभिज्ञान-चिह्न *n.* identification
 mark
 अभिज्ञान-पत्रक *n.* identification
 card
 अभिज्ञापक *m.* announcer
 अभिज्ञापन *n.* announce, anno-
 uncement
 अभिज्ञापना *f.* announcement
 अभिज्ञापित लाभंश *m.* announced
 dividend
 अभिज्वलन *n.* inflame
 अभिज्वाल्य *mfn.* inflammable
 अभिदिप्यण *n.* annotation
 अभितः amph-, amphi-,
 ampho- (on both sides)
 अभितश्चरण *n.* (प्राणिकी) parapod-
 ium
 अभित-श्वस-संहति *f.* peripneus-
 tic tracheal system
 अभिताडन *n.* percussion
 अभिताडन परीक्षित्र *n.* percussion
 testing machine
 अभितापन *n.* anneal
 अभितापन मल्लक *m.* annealing cup
 अभितोवर्तन *n.* turn about
 अभितोवर्ध *m.* (प्राणिकी) (वर्ध = प्रवर्ध
 process) bipinnaria
 अभिदर्शन *n.* (सेना) reconnais-
 sance
 अभिदाता (-त्) *m.* subscriber
 अभिदान *n.* (वाणिज्य) subscribe,
 subscription
 अभिदान-पुस्त, -पुस्तक *n.* subs-
 cription book

अभिदिशा *f.* (गणित) sense
 अभिद्वंष्ट्र *n.* 1 affirm, make firm,
 2 affirmation
 अभिदृश्य पुष्प *n.* (औद्भिदी) conspicu-
 ous flowers
 अभिद्रोह *m.* treason
 अभिद्रोहात्मक *mfn.* treasonable
 अभिद्रोहात्मक शब्द *m.* treasonable
 words
 अभिधमन *n.* blast
 अभिधमन-उर्ध्व *m.* blast pump
 अभिधमन तथा शून्यक उर्ध्व *m.* (संयुक्त)
 blast and vacuum pump
 (combined)
 अभिधमन दीप *m.* blast lamp
 अभिधमन प्रोथ *m.* (अयोमार्ग) blast
 nozzle
 अभिधमन ऋष्ट्र *n.* blast furnace
 अभिधान *n.* 1 denote, designate
 2 denomination, designa-
 tion
 अभिध्मात *mfn.* blasted
 अभिनत *mfn.* 1 (सांख्यिकी) biassed
 2 inclined, tilted
 अभिनत दर्पण *m.* (भौतिकी) inclined
 mirror
 अभिनत विद्युदीक्ष *m.* (भौतिकी) tilted
 electroscope
 अभिनत समतल *n.* (यांत्रिकी) inclined
 plane
 अभिनति *f.* 1 (सांख्यिकी) bias
 2 (भौतिकी) dip=dip of the
 needle 3 tilt
 अभिनतिकोण *m.* (भौतिकी) dip
 angle=inclination angle=
 dip of the needle
 अभिनति-प्रवरण *n.* (सांख्यिकी) bias-
 ed selection
 अभिनति-वृत्त *n.* (भौतिकी) dip circle
 अभिनति-सन्धि *m.* (आण्विकी) in-
 clination joint
 अभिनन्दन-पत्र *n.* address, address
 of welcome
 अभिनमन *n.* (चाक्षुषी) inclination
 अभिनन *mfn.* fresh, recent
 अभिनव घटना *f.* recent occur-
 rence
 अभिनवतया *adv.* de novo
 अभिनव-पाठचर्या *f.* refresher
 course, refresher's course
 अभिनव यकृत *n.* fresh liver
 अभिनिर्णय *m.* adjudication
 अभिनिर्णयन *n.* adjudge, adjudi-
 cate
 अभिनिर्णयादेश *m.* order of adju-
 dication
 अभिनिर्णायक *m.* adjudicator
 अभिनिर्धारक *m.* assessor
 अभिनिर्धारण *n.* assess, assess-
 ment

अभिनिर्धारित कर *m.* assessed tax
 अभिनीली *f.* azuline
 अभिनीलेन्य *n.* (रसायन) azulene
 अभिन्न *mfn.* (औद्भिदी) entire
 अभिन्नता *f.* monotony
 अभिन्नित पेशीरस *m.* (प्राणिकी) un-
 differentiated sarcoplasm
 अभिन्याय *m.* adjudication
 अभिन्यायक *m.* adjudicator
 अभिन्यायन *n.* adjudicate
 अभिन्यास *m.* lay out
 अभिपश्च *adv.* (प्राणिकी) poste-
 riorly
 अभिपाचि *f.* (जीवरसायन) trypsin
 अभिपाचिक *mfn.* (द्वैहिकी) tryptic
 अभिपाचिक-दृश् (जीवरसायन) trypto-
 phane
 अभिपाचिजन *m.* (जीवरसायन) tryp-
 sinogen
 अभिपाटली नील *m.* induline blue
 अभिपिडन *n.* (पिण्डते, पिडयति 'to
 roll into a ball' प्राचीन प्रयोग)
 agglomerate (to form into
 a ball)
 अभिपुष्टि *f.* affirmation
 अभिपूर *m.* grout
 अभिपूरण *n.* implement *vb.*
 अभिपूरित *mfn.* implemented
 अभिपूरित *f.* implementation
 अभिपृष्ठ *adv.* (प्राणिकी) dorsad=
 dorsally
 अभिपोषण *n.* 1 affirm, make firm
 2 affirmation
 अभिप्रमाण *n.* attestation
 अभिप्रमाणन *n.* attest, attesta-
 tion
 अभिप्रमाणित *mfn.* attested
 अभिप्राय *m.* sense
 अभि-प्रासन्न *mfn.* (औद्भिदी) ob-
 lanceolate
 अभिप्लवन *n.* overwhelm
 अभिप्लुत *mfn.* overwhelmed
 अभिभवन *n.* overcome, prevail
 अभिभाजन *n.* apportion, appor-
 tionment
 अभिभाषण- *n.* a d d r e s s ,
 address *vb.* (to direct speech
 to)
 अभिभूत *mfn.* overcome
 अभिभूत रोध *m.* resistance
 overcome
 अभिमंजिष्टी नील *m.* alizadine blue
 अभिमंजिष्टी न्यवरक्तपीत *m.* alizadine
 chocolate
 अभिमध्य *mfn.* medial
 अभिमध्य-भित्ति *f.* (चाक्षुषी) medial
 wall
 अभिमध्यस्थित *mfn.* medially
 situated
 अभिमर्श *m.* (प्राणिकी) feeler

अभिसुक्ति *f.* acquittance (पूर्ण
 उन्मोचन)
 अभिसुख *mfn.* directed towards,
 oppo-
 site
 अभिसुख अनुपत्र *n.* (औद्भिदी) opposite
 stipule
 अभिसुख तथा व्यत्यस्त *mfn.* (औद्भिदी)
 opposite and decussate
 अभियतन *n.* strife, strive
 अभियतन *m.* strife, conflict
 अभियन्ता (-रु) *m.* engineer
 अभियन्त्रण *f.* engineering
 अभियन्त्रण-रसायन *n.* engineering
 chemistry
 अभियाचन *n.* (वाणिज्य) demand
 अभियाचन-उग्रता *f.* (अर्थशास्त्र)
 intensity of demand
 अभियाचन-उद्ग्रोह *m.* (अर्थशास्त्र) rise in
 demand
 अभियाचन-निक्षेप *m.* demand
 deposit
 अभियाचन नियम *m.* (अर्थशास्त्र) law
 of demand
 अभियाचन-न्यूनता *f.* (अर्थशास्त्र)
 decrease in demand
 अभियाचन-पात *m.* fall in demand
 अभियाचन-प्रत्यास्थता *f.* (अर्थशास्त्र)
 elasticity of demand
 अभियाचन-प्रसार *m.* (अर्थशास्त्र)
 expansion of demand
 अभियाचन-मन्दन *n.* (अर्थशास्त्र)
 weakening of demand
 अभियाचन-विकर्ष *m.* demand draft
 अभियाचन-विपत्र *n.* demand bill
 अभियाचन-विस्तरण *n.* extension of
 demand
 अभियाचन-विस्तार *m.* (अर्थशास्त्र)
 expansion of demand
 अभियाचन वृद्धि *f.* (अर्थशास्त्र) in-
 crease of demand
 अभियाचन-संकोचन *n.* contraction
 of demand
 अभियाचन-सूची *f.* schedule of
 demands
 अभियाचन-हास *m.* (अर्थशास्त्र) de-
 crease in demand
 अभियाचि-वर्तन *n.* (वाणिज्य) tra-
 veller's commission
 अभियाचि-व्यय *m.* (वाणिज्य) tra-
 veller's expenses
 अभियात्री (-इन्) = अभिकर्ता यात्री *m.*
 commercial traveller
 अभियांत्रिक *mfn.* engineering *adj.*
 अभिसुक्त *mfn.* 1 (विधि) charged
 2 (वाणिज्य) engaged
 अभियुक्ति *f.* 1 accusation,
 charge 2 (सेना, वाणिज्य)
 engagement
 अभियोक्ता *m.* (-रु) 1 accuser 2
 prosecutor

- अभियोग *m.* 1 accusation 2 action 3 (सेना) engagement 4 (विधि) case, cause 5 (वाणिज्य) engagement
 अभियोग-चालन *n.* (विधि) prosecution
 अभियोग-जीवी (-इन्) *m.* solicitor
 अभियोग पंजी *f.* register of suits
 अभियोजन *n.* 1 accuser 2 (सेना, वाणिज्य) engage
 अभियोजित *mfn.* (वाणिज्य) engaged
 अभिरक्तिक *mfn.* (रसायन) rhodizonic
 अभिरक्तिक अम्ल *n.* rhodizonic acid
 अभिरक्तीय *n.* rhodizionate
 अभिरक्षण *n.* safeguard *vb.*
 अभिरक्षा *f.* safeguard *n.*
 अभिरक्षी (-इन्) *m.* curator
 अभिरक्षी उप-बोधक *m.* curator tutor
 अभिरजक *m.* stain (colouring material)
 अभिरजन *n.* staining
 अभिरजन-समुद्र *m.* staining box
 अभिरञ्ज्य *mfn.* (जैविकी) chromophil, chromophile
 अभिराजिक *mfn.* (रसायन) brassidic
 अभिराजिक अम्ल *n.* brassidic acid
 अभिराजिलिक *mfn.* (रसायन) brassylic
 अभिरुचि *f.* interest
 अभिलम्ब *mfn.* 1 (औदभिदी) adnate 2 apposed
 अभिलम्ब *m.* (रैखिकी) normal
 अभिलम्ब-अक्ष *m.* (भौतिकी) normal axis
 अभिलम्ब-अपगमन-प्रवेग *m.* (गणित) normal velocity of separation
 अभिलम्ब-उपगमन-प्रवेग *m.* (गणित) normal velocity of approach
 अभिलम्ब-त्वरण *n.* (भौतिकी) normal acceleration
 अभिलम्ब-प्रतिक्रिया *f.* (भौतिकी) normal reaction
 अभिलम्ब-रूप *n.* (गणित) normal form
 अभिलाक्ष *m.* duco (trade name for lacquer)
 अभिलाग *m.* adhesion
 अभिलागन *n.* appose
 अभिलागि अंग *n.* (प्राणिकी) adhesive organ = cement organ
 अभिलागी (-इन्) *mfn.* adhesive
 अभिलागी कोष्ठ *m.* (प्राणिकी) association cyst
 अभिलिखित *mfn.* recorded
 अभिलेख *m.* archives, record
 अभिलेखक *m.* recorder
 अभिलेख-कोष्ठ *m.* records room
 अभिलेखन-तापमान *m.* recording thermometer
 अभिलेखपाल *m.* recorder
 अभिलेख-पुस्त *n.* records book
 अभिलेख प्रदायक *m.* record supplier
 अभिलेखागार *n.* (अभिलेख record) archives
 अभिलोपन *n.* 1 annul 2 cancel (to obliterate)
 अभिदक्ता (-त्) *m.* pleader
 अभिपचन *n.* 1 plead 2 remark
 अभिवर्ण *f.* (जैविकी) chromatin
 अभिवर्ण जाल *n.* chromatin network
 अभिवर्ण न्यष्टिका *f.* (प्राणिकी) chromatin nucleolus = kariosome
 अभिवर्णिय *mfn.* chromatinic
 अभिवर्धन *n.* (विधि) accedo
 अभिवर्धना *f.* (विधि) accession
 अभिवादन *n.* (पत्रव्यवहार) salutation
 अभिवार *m.* bracket
 अभिवार-अपनयन *n.* (गणित) removal of brackets
 अभिवारयुग्म *n.* brackets
 अभिवारी *m.* dual brackets
 अभिवाह *m.* afflux
 अभिवाही (-इन्) *mfn.* (दैहिकी) afferent (conducting inwards or towards)
 अभिविन्ध्यसन *n.* (वाणिज्य) window dressing
 अभिवृद्धि *f.* 1 access, accession 2 boom
 अभिवृद्धिकाल *m.* boom period
 अभिवेचक *m.* censor
 अभिवेचन *n.* censor *vb.*
 अभिवेजक *m.* (भौतिक रसायन) promoter
 अभिव्यक्त *mfn.* expressed
 अभिव्यक्ति *f.* expression
 अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य *n.* freedom of expression
 अभिशयन *n.* repose
 अभिशयन-कोण *m.* angle of repose
 अभिशीत *n.* chill
 अभिशीतक *m.* chiller
 अभिशीतक *mfn.* chilling (making chilly)
 अभिशीतन *n.* chill *vb.*, chilling (act of chilling)
 अभिशीतित *mfn.* chilled (as steel)
 अभिशोष *mfn.* cephalic
 अभिशून्यन *n.* abolish, abrogate, cancel (annul), nullify, rescind, reverse, revoke
 अभिशून्यन विन्दु *m.* (भौतिकी) null point
 अभिशून्यन-रीति *f.* (भौतिकी) null method
 अभिशोण *m.* brazil = brazil-wood
 अभिशोण काष्ठ *n.* brazilwood
 अभिशोणकाष्ठ-पत्र *n.* brazilwood-paper
 अभिशोणि *f.* (रसायन) brazilin
 अभिशोणित *m.* (रसायन) brazilin
 अभिश्लेष *mfn.* agglutinated
 अभिश्लेषण *n.* agglutinate
 अभिश्लेपी (-इन्) *mfn.* agglutinative (adhesive)
 अभिश्लेष्य *mfn.* agglutinable
 अभिश्लेष्यता *f.* agglutinability
 अभिश्वस्रन्ध्रो (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) peripneustic (अभि = अक्षितः on each side, श्वस्रन्ध्र = stigmata)
 अभिशुद्ध *f.* syndicate
 अभिपद्य *m.* syndic
 अभिपेव *m.* veto
 अभिसंविदा *f.* (विधि) stipulation
 अभिसन्न *n.* ussize
 अभिसमय *m.* terms
 अभिसमूह *m.* (सांख्यिकी) aggregate
 अभिसरण *n.* converge, convergence
 अभिसरण-विन्दु *m.* (चाक्षुषी) point of convergence
 अभिसादना *f.* cementation
 अभिसार *m.* (चाक्षुषी) convergence
 अभिसार-विन्दु *m.* (चाक्षुषी) point of convergence
 अभिसारी (-इन्) *mfn.* converging
 अभिसारी प्रकार *m.* (औदभिदी) convergent type
 अभिसारी रश्मि *m.* (काशिकी) converging rays
 अभिसुन्दरा *f.* Transvaal daisy
 अभिसुन्दरा-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Gerbera
 अभिसरण *n.* dilate, dilatation = dilation
 अभिसरणमान *m.* (भौतिकी) dilatometer
 अभिसरणमिति *f.* (भौतिक रसायन) dilatometry
 अभिसरणमितीय रीति *f.* (भौतिक रसायन) dilatometric method
 अभिसूचन *n.* recommend
 अभिसूतार *m.* (भौतिकी) dilatant
 अभिसूतारक 1 *m.* (आयुर्विद्या, शरीर) dilator = dilater 2 *mfn.* dilatant
 अभिसूतारण *n.* dilatation = dilation, dilate
 अभिसूतारी (-इन्) *mfn.* dilatant, dilatative

अभिस्तार्य *n.* (भौतिकी) dilatant
 अभिस्ताव *m.* recommendation
 अभिस्तीर्ण *mfn.* dilated
 अभिस्थापन *n.* appose
 अभिस्थापित *mfn.* apposed
 अभिस्थित *mfn.* apposed
 अभिरपन्दक *m.* (काशिकी) polarizer
 अभिरपन्दन *n.* (काशिकी) polarise =
 polarize, polarization
 अभिरपन्द-मान *m.* (काशिकी) polari-
 meter
 अभिरपन्दित प्रकाश *m.* polarized
 light
 अभिरपन्देक्ष *m.* (काशिकी) polariscope
 अभिरफोट *m.* dynamite
 अभिरव्यदन *n.* afflux
 अभिरुचीकरण *n.* adopt
 अभिरुचीकृत *mfn.* adopted
 अभिरुवेद *m.* (आयुर्वेद्य) ephidrosis
 अभिहनन *n.* (भौतिकी) impinge
 अभिहरण *n.* (विवि) distress
 अभिहरण अविषत्र *n.* distress
 warrant
 अभिहस्तांकक *m.* (विधि) assignor
 अभिहस्तांकन *n.* (विधि) assign, as-
 signing, assignment
 अभिहस्तांकन-लेख *m.* deed of as-
 signment
 अभिहस्तांकित *mfn.* (विधि) assigned
 अभिहस्तांकित (-इन्) *m.* (विधि) (अभि-
 हस्तांकितमस्यास्तीति) assignee
 अभिहित *mfn.* (अर्थशास्त्र) nominal
 अभिहित-अर्हा *f.* (वाणिज्य) face
 value = nominal value
 अभिहित अर्हा पत्रक *n.* face value
 tickets
 अभिहित परिव्यय *m.* (अर्थशास्त्र) nomi-
 nal cost
 अभिहित भाटक *m.* nominal rent
 अभिहित मूल्य *n.* nominal value =
 face value
 अभिहित-लेखा *f.* proprietary ac-
 count = fictitious account =
 nominal account
 अभिहित धन *n.* distress wealth
 अभिहृदत *mfn.* (औद्भिदी) ob-cordate
 अभीच्छा *f.* want
 अभीच्छा-अधीनता *f.* subordina-
 tion of want
 अभीच्छा-अधीनता-नियम *m.* (अर्थशास्त्र)
 law of subordination of
 wants
 अभीच्छा-तृप्ति *f.* (अर्थशास्त्र) satiation
 of wants
 अभीच्छा-स्थापित *n.* (अर्थशास्त्र) stabi-
 lity of wants
 अभीत *m.* (सेना) dreadnought
 अभ्यून्वाकृत, अभ्यून्वार्त *mfn.* (औद्भिदी)
 apogotropic = negatively
 geotropic

अभ्यून्वार्तना *f.* (औद्भिदी) apogeo-
 tropism
 अ-भ्यू-विमंजिष्टि *f.* a-nitro-alizarin
 अ.सू. व (अन्तारोध-भू-वश) (तेजोन्वेष)
 GCI (ground control of
 interception)
 अभोग-अधिकार *m.* occupancy right
 अभोज्य उत्पाद *m.* (अर्थशास्त्र) noneat-
 able product
 अभोज्य उत्पादन *n.* (अर्थशास्त्र) noneat-
 able product
 अभौतिक *mfn.* immaterial, non-
 material
 अभौतिक धन *n.* nonmaterial
 wealth
 अभौतिक-सम्पत्ति *f.* (अर्थशास्त्र) incor-
 poreal property
 अभ्यश *m.* (वाणिज्य) quota
 अभ्यक्ष *mfn.* adaxial
 अभ्यजन *n.* lubricate
 अभ्यङ्गपत्र कासमर्द *m.* Cassia obovata
 अभ्यण्डवत् *mfn.* (औद्भिदी) obovate
 अभ्यधर *adv.* (शारीर) ventrad =
 ventrally
 अभ्यनुज्ञा *f.* allowance
 अभ्यनुज्ञान *n.* allow
 अभ्यरतिन *adv.* (शारीर) ulnad
 अभ्यर्थिता *f.* candidacy, candida-
 ture
 अभ्यर्था (-इन्) *m.* candidate
 अभ्यर्पण *n.* cede, cession
 अभ्याकर्षण *n.* gravitate
 अभ्याकर्षण *n.* (यान्त्र) pull
 अभ्याकर्षी (-इन्) *mfn.* gravitative
 अभ्याकृष्टि *f.* gravitation
 अभ्याकृष्टि-एकक *n.* (दैहिकी) gravita-
 tional unit
 अभ्याकृष्टिनियम *m.* (भौतिकी) law of
 gravitation
 अभ्याकृष्टीय *mfn.* gravitational
 अभ्याक्रामण *n.* aggress *vb.*, aggres-
 sion, assail *vb.*
 अभ्याक्रामक *m.* aggressor
 अभ्याक्रामक राष्ट्र *n.* aggressor nation
 अभ्याक्रामी *mfn.* aggressive
 अभ्यागतबीजाणु *m.* (जैविकी) exoto-
 spore ('foreign spore')
 अभ्यागृहीत *mfn.* (विधि) attached
 अभ्याग्रहण *n.* (विधि) attach, attach-
 ment
 अभ्यान्त *mfn.* biased
 अभ्यान्ति *f.* bias, tilt
 अभ्यान्तमन *n.* 1 bias 2 (अभ्यान्तम-
 यति) tilt *vb.*
 अभ्यारोप *m.* imputation
 अभ्यारोपण *n.* impute
 अभ्यारोपित-अर्हा *f.* (अर्थशास्त्र) impu-
 ted value
 अभ्यावृत्ति *f.* (सांख्यिकी) replication
 (repetition)

अभ्यावेदन *n.* representation
 अभ्यास *m.* exercise, practice
 अभ्याहान *n.* appeal
 अभ्युक्ति *f.* remarks
 अभ्युत्तर *adv.* (प्राणिकी) dorsad =
 dorsally
 अभ्युद्दिष्ट *mfn.* referred
 अभ्युद्देश *m.* reference
 अभ्युद्देश-उद्देश *m.* (अभियन्त्रणा) dra-
 wings of reference
 अभ्युद्देश-कोण *m.* angle of refe-
 rence
 अभ्युद्देश-चिह्न *n.* reference mark
 अभ्युद्देशन *n.* (प्रशासन) refer
 अभ्युपाय *m.* expedient
 अभ्युरोस्थि *n.* sternad (toward
 the sternum)
 अभ्र *m.* cloud
 अभ्रक *n.* mica
 अभ्रक-नियन्त्रण-आदेश *m.* mica
 control order
 अभ्र माला-गोलाणु *m.* Streptococcus
 diffusus
 अभ्र-वेध *n.* (भौतिकी) Cloud
 chamber
 अभ्रान्त *mfn.* correct
 अभ्रज *m.* muscovite = common-
 mica
 अभ्रणपोषि उद्भेदन *n.* (औद्भिदी) non
 endospermic germination
 अभ्रणपोषी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी)
 nonendospermic
 अमतदेय *mfn.* nonvotable
 अमतदेय पद *n.* nonvotable item
 अमतदेय व्यय *m.* nonvotable
 expenditure
 अमधुमेह *m.* diabetes insipidus
 अमध्वा *f.* (जीवरसायन) (अ a- not +
 मधुम glucose + -आ -one)
 aglucone
 अमर *mfn.* immortal
 अमर-पक्षी (-इन्) *m.* phoenix
 अमरपक्षी काल *m.* phoenix black
 अमरपक्षी वस्तु *m.* phoenix brown
 अमरपक्षी रक्त *m.* phoenix red
 अमरलता *f.* dodder
 अमरवह्नि = अमरवह्नि-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) Cuscuta
 अमरी *f.* cuscutine
 अमर्यादितरूपेण *adv.* indefinitely
 अमतीयित तल्प *m.* uninked pad
 अ मा. (अयुत-मान) *mym.* (myria-
 meter)
 अमान्य *mfn.* invalid
 अमान्य गूढमत-पत्र *n.* invalid ballot
 paper
 अमान्य निर्वाचन *n.* invalid
 election
 अमान्य जलका-पत्र *n.* invalid
 ballot paper

अमित *mfn.* immense
 अमिथश्छेदी (-श्न्) *m.* (गणित)
 nonintersecting
 अमिश्र *mfn.* absolute
 अमिश्र राशि *m.* (गणित) simple
 quantity
 अमिश्रित *mfn.* 1 absolute 2 free
 from mixture, plain
 अमिश्रित रोगरोधक *m.* (भैषजिकी) plain
 prophylactic
 अमिश्रित लस *m.* plain vaccine
 अमिश्र्य *mfn.* immiscible = unmix-
 able
 असुक *mfn.* so and so, such and
 such
 असुख्य *mfn.* minor
 असुख्य पत्तन *n.* minor port
 असुख्यसयान *n.* minor railway
 असुद्रित *mfn.* plain (unprinted,
 as paper)
 अभूत *mfn.* abstract, intangible
 अभूत अर्थशास्त्र *n.* abstract econo-
 mics
 अभूर्त्-रीति *f.* abstract method
 अभूर्त्-संख्या *f.* (गणित) abstract
 number
 अभूर्त्-सम्पत्ति *f.* (वाणिज्य) intangible
 assets
 अभेद्य *mfn.* immeasurable
 अभेद्यमत *mfn.* (प्राणिकी) nonchor-
 date
 अभैथुन *mfn.* asexual
 अभैथुन प्रजनन *n.* (जैविकी) asexual
 reproduction
 अभैथुन बीजाणु *m.* (जैविकी) asexual
 spore
 अभैथुन-रीति *f.* (औद्धिदी) asexual
 method
 -अम्बु -plasm
 अम्रल *n.* acyl
 अम्रल- (रसायन) acylo-
 अम्रलजन *m.* (रसायन) acylogen
 अम्रलजार- (रसायन) acyloxy-
 अम्रल-प्रवेशन *n.* (रसायन) acylate
 अम्रलप *m.* (रसायन) (अम्रल acyl + धूप
 benzoin) acyloin
 अम्ल 1 *n.* acid 2 *mfn.* acid
 (soul)
 अम्ल- (रसायन) 1 aci- (denoting
 the true acid form of a tau-
 tomeric substance) 2 bi- =
 acid-
 अम्ल-अजीर्ण *n.* (आयुर्विद्या) acid dys-
 pepsia
 अम्ल-अपिचम-विधा *f.* acid Bessemer
 process
 अम्ल-अर्हा *f.* acid value
 अम्ल-अवशेष *m.* excess of the acid
 अम्ल-ऊर्ण हर्यानीली *f.* acid erio-gla-
 ucine

अम्लक *m.* (अम्लन-कर्ता) acidifier
 अम्ल-कर *mfn.* acid-forming, acid-
 ic, acidant = acidifying
 अम्लकार *mfn.* acidiant = acidifying
 अम्लकर *mfn.* (ग्यानिजी) acidific
 अम्ल-कर *mfn.* acidificans
 अम्लकर *mfn.* (याकांषिकी) acidifi-
 cans
 अम्लकर *mfn.* acidifying = aci-
 diant
 अम्लकर टण्डणु *m.* Bacillus acidi-
 formans
 अम्लकायन *n.* acidulate
 अम्लकायन-तटाराग *m.* acidulating
 tank
 अम्लकायित जल *n.* acidulated water
 अम्ल-काष्ठ *n.* acid wood = chemi-
 cal wood
 अम्ल-गाहक *m.* acid dipper
 अम्ल-छवि *f.* (अम्ल-छेदन) acid gloss
 अम्लजन दुग्धाणु *m.* Lactobacillus
 acidophilus
 अम्ल तरस्त्रेय *n.* bifluoride = acid
 fluoride
 अम्लता *f.* acidity
 अम्लता-गुणक *m.* = जारक-निष्पत्ति *f.*
 (शैलवर्णन) acidity coefficient
 = oxygen ratio
 अम्लतित्वतामिज *m.* teschermache
 lite
 अम्ल तिक्तेय *n.* acid amide
 अम्ल-तिग्मीय *n.* (रसायन) binoxalate
 = acid oxalate = binoxalate
 अम्ल-तेल *n.* acid oil
 अम्लरव *n.* acidness
 अम्ल-दृढ *mfn.* acid-fast
 अम्ल-दृढता *f.* acid-fastness
 अम्ल-धमाता *m.* acid blower
 अम्ल-धमान *n.* (भा-उत्किरण) acid
 blast
 अम्लन *n.* acid *vb.* (to expose to
 the action of acid) acidify,
 acidification
 अम्लन-कर्ता (-त्) *m.* acidifier
 अम्ल निम्बु *m.* (औद्धिदी) Citrus
 acida = Citrus bergamia =
 acid lime
 अम्ल-नीरेय *n.* aci-chloride = acid
 chloride
 अम्ल न्यासवीय *n.* bi-tartrate = acid
 tartrate
 अम्लपिष्ट *n.* sour dough
 अम्ल-पिष्ट दुग्धाणु *m.* Lactobacillus
 pan's
 अम्ल प्रलवण *n.* acid ester
 अम्ल-प्रांगारीय *n.* bi-carbonate =
 acid carbonate
 अम्ल-प्रिय *mfn.* acido-phile, acido-
 philic, acido-philous
 अम्लप्रिय दुग्ध *n.* acidophilus milk

अम्लप्रोभूनाशिक *mfn.* (जीवरसायन)
 acido-proteolytic
 अम्ल-भर *mfn.* acidi-ferous
 अम्ल-भूयिल *m.* acid nitrite
 अम्ल-भृष्टी *f.* Hibiscus sabar
 अम्ल-मान *m.* acidi-meter
 अम्ल-मापक *m.* acid measurer
 अम्ल-माजने *n.* pickling
 अम्ल-मिति *f.* acidi-metry
 अम्ल-मितीय *mfn.* acidi-metric,
 acidi-metrical
 अम्ल-मैतीय *n.* bi-urate = acid urate
 अम्ल-योध्य *mfn.* acid-binding
 अम्ल-रक्तता *f.* (आयुर्विद्या) acid-emia
 अम्ल-रजक *m.* acid dyes
 अम्लरज्य *mfn.* 1 acido-phile,
 acido-philic, acido-philous 2
 oxyphil eosinophil, oxyphilic
 अम्लरज्य *f.* plastin
 अम्लरज्यवत् *mfn.* (जैविकी) plasti-
 noid
 अम्ल-राज *m.* aqua regia
 अम्ल-रोध *m.* acid resist
 अम्ल-रोधी (-श्न्) *mfn.* acid resis-
 tant
 अम्ल लवण *n.* acid salt = bi-salt
 अम्ललोणिका *f.* (औद्धिदी) sorrel
 अम्ललोणिका-लवण *n.* salt of sorrel
 अम्ललोणीति = अम्ललोणी-प्रजाति *f.*
 (औद्धिदी) Oxalis
 अम्लव *m.* (रसायन) acidol
 अम्लदानि-जन दुग्धाणु *m.* Lactobaci-
 llus acidophil-aerogenes
 अम्लवेतस-कुल *n.* (औद्धिदी) Polygo-
 naceae
 अम्लवेतस-गोत्र *n.* (औद्धिदी) Polygo-
 nales
 अम्लवेतसति = अम्लवेतस-प्रजाति *f.*
 (औद्धिदी) Rheum
 अम्ल-वेला *f.* (आयुर्विद्या) acid tide
 अम्ल-अराव *n.* acid-dish
 अम्ल-शुल्वित *n.* bi-sulphite = acid
 sulphite
 अम्ल-शुल्वीय *n.* bi-sulphate = acid
 sulphate
 अम्ल-शु-शुक्ति प्रलवण *n.* aci-, aceto-,
 acetic ester
 अम्ल-संकेन्द्रक *m.* acid concentra-
 tor
 अम्ल-सख्या *f.* acid number
 अम्ल-सम-प्रोभूजिन *m.* (जीवरसायन)
 acid meta-protein
 अम्ल-सह *mfn.* acid-proof
 अम्ल-सह-करण *n.* to render acid-
 proof
 अम्ल-स्थापक *m.* (= अम्ल-रगस्थापक)
 acid-mordant
 अम्ल-स्थापक रजक *m.* acid-mordant
 dyes
 अम्ल-स्थाल *n.* acid-tray

अम्ल-स्थिर *mfn.* acid-fast
 अम्ल-स्वाद *m.* acid taste
 अम्लण्ड *n.* (रसायन) acid egg
 अम्लधाव्य *mfn.* acid-fast, acido-resistant
 अम्लधाव्यता *f.* acid-fastness
 अम्लधाव्य दण्डाणु *m.* acid-fast bacillus = acid-resisting bacillus
 अम्लान *m.* (औद्धिदी) amaranth
 अम्लानिज *m.* (खानिजी) amarantite
 अम्लापगमन *n.* disacidify
 अम्लामिवर्ण *f.* oxy-chromatin
 अम्लारम *m.* (शैलवर्षणा) (सैकजाढ्य शैल = rock rich आढ्य in silica) acidite
 अम्लिक *mfn.* acidic
 अम्लिका *f.* tamarind
 अम्लिकांत = अम्लिका-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) Tamarindus
 अम्लित्र *n.* (रसायन) acider
 अम्लिक-पंक *m.* (पारिस्थिकी) bog
 अम्लीकरण *n.* acidify
 अम्लीका *f.* wood sorrel
 अम्लीभवन *n.* acidify
 अम्लोत्थापक *m.* (रसायन) acid elevator
 अम्लोद्भिद् *f.* (औद्धिदी) oxylophyte
 अय (अयनातु) (रसायन) Io (Ionium)
 अयःकाशीयिज *m.* niobite = columbite
 अयः-किरणानु *m.* ferro-uranium
 अयः-क्षारिज *m.* ferro-natrite
 अयथार्थता *f.* inaccuracy
 अयन *n.* (भौतिकी, रसायन) ion
 -अयन *n.* (रसायन) -ion
 अयन-करण *n.* ionize
 अयन-कर्ता (-त्) *m.* ionizing
 अयन-कर्तृत्व *n.* (भौतिकी) ionizing agency
 अयनतिवृत्ती *f.* (रंग-देशन) ionamine
 अयनन *n.* ionization, ionize
 अयननांश *m.* (रसायन) degree of ionization
 अयन-भवन *n.* ionize
 अयन-मण्डल *n.* ionosphere
 अयनातु *m.* (रसायन) ionium
 अयनान्त *m.* (ज्योतिष) (सूर्यसिद्धान्त) solstice
 अयनिक *mfn.* ionic
 अयनिक उद्जन *m.* ionic hydrogen
 अयनिक शोषातु *m.* ionic strontium
 अयनित *mfn.* ionized
 अयः-पट्टचित्र *n.* ferro-type
 अयः-पुष्कला *f.* ferro-cerium
 अयःप्रांगारीयिज chalybite = siderite
 = spathic iron = spathic iron ore (iron protocarbonate)
 अयश्चण्डातु *m.* ferro-tungsten
 अयश्चयामनील *m.* Prussian blue

अयष्टांकण *m.* ferro-boron
 अयस् (अ) *n.* iron = ferrum (Fe)
 अयस्-ferro- (ferrum)
 अयसि- (अयसिक) ferri- (ferric)
 अयसिक *mfn.* ferric
 अयसिक नीरेय *n.* (भैषजिकी) ferri perchloridum = ferric chloride
 अयसिक नीरेय निष्कर्ष *m.* tincture of ferric chloride = tinctura ferri perchloridi
 अयसिक नीरेय विलयन *n.* liquor ferri perchloridi = solution of ferric chloride
 अयसिकनीरेयिज *m.* molysite
 अयसि-चडिज *m.* ferri-tungstite
 अयसिजा-विधा *f.* (रसायन) Manneheim process
 अयसित *n.* (रसायन) ferrite
 अयसिय *mfn.* ferruginous
 अयसि-श्यामिक *mfn.* (रसायन) ferri-cyanic
 अयसि-श्यामेय *n.* (रसायन) ferri-cyanide
 अयसीय *n.* (रसायन) ferrate
 अयस्क *n.* ore
 अयस्क द्रवित्र *n.* ore crusher
 अयस्क-निस्तारण *n.* (धातुकर्म) exploit
 अयस्क-पंक *m.* slime
 अयस्क-पृथक्कारक *m.* ore separator
 अयस्क-पेषणी *f.* ore-grinding mill
 अयस्क-प्रसाधन *n.* ore dressing
 अयस्कान्त *m.* lodestone = loadstone
 अयःस्फटीयिज *m.* hercynite
 अयस्फीदिज *m.* laterite
 अयस्य *mfn.* ferrous
 अयस्य-ferro-, ferroso- (ferrous)
 अयस्य-उदश्यामीय पत्र *n.* (रसायन) ferro-prussiate paper
 अयस्य-कुप्यशुक्तिज *m.* ferro-goslarite
 अयस्य-चूर्णिज *m.* ferro-calcite
 अयस्य-जम्ब्वेय-मिष्टोद *n.* syrup of ferrous iodide = syrupus ferri iodidi
 अयस्यनीरेयिज *m.* lawrencite
 अयस्य-पत्र *n.* (अभियंत्रण) ferro-paper
 अयस्य-भास्वीय-मिष्टोद *n.* syrup of ferrous phosphate = syrupus ferri phosphatis
 अयस्य-भास्वीय-विलयन *n.* liquor ferri phosphatis = solution of ferrous phosphate
 अयस्य-त्रणिज *m.* ferrous chromite
 अयस्यशिज *m.* pyrrhotite = magnetic pyrites
 अयस्य-श्यामजन *m.* (रसायन) ferro-cyanogen

अयस्य-श्यामिक *mfn.* (रसायन) ferro-cyanic
 अयस्य-श्यामेय *n.* (रसायन) ferro-cyanide
 अयस्यश्यामिक जायेय *n.* ferroso-ferric oxide
 अयस्यश्यामि-श्यामेय *n.* (रसायन) ferro-ferricyanide
 अयस्य-सवर्णातु *m.* ferro-molybdenum
 अयस्संघा *f.* reinforced concrete = armoured concrete
 अयस्सहिज *m.* tantalite
 अयस्य-सैकता *f.* ferro-silicon
 अयस्सैकता विधा *f.* ferro-silicon process = silicol process
 अयस्सैसिज *m.* bronzite
 अयस्य-स्फटिका *f.* iron alum
 अयस्य-स्फट्यातु *m.* ferro-aluminium
 अयस्स्वाद *mfn.* chalybeate
 अयुक्तबीजाणु *m.* (औद्धिदी) azygospore
 अयुक्तियुत *mfn.* absonant
 अयुग्म *mfn.* odd
 अयुग्म-पक्षवत् *mfn.* (औद्धिदी) odd-pinnate
 अयुग्म पद *n.* odd terms
 अयुग्म-माला *f.* odd series
 अयुग्म-संख्या *f.* odd number
 अयुग्मांगुल *mfn.* (प्राणिकी) odd-toed
 अयुत- myria-
 अयुत-धान्य *m.* myria-gram
 अयुत पशु *m.* (शारीर) floating ribs
 अयुतपादाः *m. pl.* Myriapoda
 अयुत-मान *m.* myria-meter
 अयोशिज *m.* berthierite
 अयो-गोमेदातु *m.* ferro-zirconium
 अयोग्य *mfn.* incompetent, ineligible, unqualified
 अयोग्य-करण *n.* disqualify
 अयोग्यता *f.* disability
 अयोग्यता-आरोपण *n.* imposition of disability
 अयोग्यता-निवारण *n.* removal of disqualification
 अयोग्यता-प्रवर्तन *n.* enforcement of a disability
 अयोधन *m.* hammer
 अयोधन-शिर ग्राह *m.* (प्राणिकी) hammer-headed shark
 अयोद्ध *mfn.* (खानिजी) iron shot
 अयोगार-रंजातु *m.* ferro-carbon-titanium
 अ.योजनावद्ध *mfn.* unplanned
 अ.योजनावद्ध-अर्थव्यवस्था *f.* unplanned economy
 अयो-जम्ब्वेय *n.* (भैषजिकी) ferri iodidum = iron iodide
 अयोजलिज *m.* goethite

अयोजारेयक *n.* (रसायन) Colcothar
 अयोजारेयिज *m.* hematite
 अयोइस्तर *m.* gridiron
 अयोजनशिज *m.* gudmundite
 अयोजरजीयिज *m.* derbylito
 अयोध्या *f.* (भूगोल) Oudh
 अयोनेयिज *m.* arsenoferrite,
 lollingite
 अयो-वायिपत्र *n.* iron boiler
 अयो-भर *mfn.* (रसायन) ferri-
 ferous
 अयो-भाण्ड *n.* iron-ware
 अयोभावि-मिष्टोद = विज्वरी तथा
 विपतिन्दुकी सहित अयस्य भास्वीय
 मिष्टोद *n.* (भैषजिकी) Easton's
 syrup = syrup of ferrous
 phosphate with quinine and
 strychnine
 अयो-भास्वर *m.* ferro-phosphorus
 अयो-भास्वीय *n.* (भैषजिकी) ferric
 phosphas = iron phosphate
 अयोत्रक *n.* (खानिजी) baddeckite
 अयोभ्राजस्फटीयिज *m.* ceylonite =
 pleonaste = iron magnesias
 spinel
 अयो-भ्राजिय *mfn.* (खानिजी) ferro-
 magnesian
 अयोमार्ग *m.* railroad, railway,
 railway line
 अयोमार्ग यान *n.* railroad car
 अयोमार्ग संयान *n.* railway train
 अयो-मिश्रातु *m.* ferro-alloy
 अयोम्लभास्विज *m.* phospho-
 ferrite
 अयोयस्क = वर्णक अयस्य *n.* (रसायन)
 iron ore = chrome iron
 अयोयान *n.* (= अयोमार्ग संयान)
 rail, railway train
 अयोयुक्त-प्रोभूजिन-वर्तुलिका *f.* (प्राणिकी)
 protein histone with iron
 अयोरैजजारिज *m.* ilmenite = titanite
 iron ore = menaccanite
 अयो-रंजातु *m.* ferro-titanium
 अयोरस = काल अयोरस *m.* iron
 liquor = black iron liquor
 अयो-रूपक *n.* ferro-nickel
 अयो-रूपक क्षारीय-कोशा *f.* (विद्युत्)
 non-nickel alkaline cell
 अयो-रूपशिज *m.* bravoite, pentlan-
 dite
 अयो-रूपातु *m.* platinite
 अयो-रोचातु *m.* ferro-vanadium
 अयोरोचिज *m.* ferivanite
 अयोलजुजाम्रक *n.* zinnwaldite
 अयोलवणित *n.* chalybeate
 (impregnated with iron
 salts)
 अयोलवणित *mfn.* chalybeate
 अयो-लोहक *n.* ferro-manganese
 अयोवंश *m.* rail

अयो-वट्टक *m.* iron weights
 अयो-वर्णक *m.* ferro-chromo
 अयोवर्णजारेयिज *m.* chromilite
 अयोवर्णशिज *m.* daubrocelite
 अयो-वर्णातु *m.* ferro-chromium
 अयोवर्णिज *m.* magnesiochromite
 = picotite = chromespinel
 अयोवल्क *m.* (औदभिदी) iron bark
 अयोविधा *f.* (रसायन) Lavo's pro-
 cess (= iron process)
 अयो-वि-शु-शुटिका *f.* (भैषजिकी) (अयस्य
 iron, विज्वरी शुक्लीय quinine
 sulphate, विपतिन्दुकी strychni-
 nine, नेपाली त्रिजारेय arsenic
 trioxide इत्यादि) Aitken's pill
 अयोदम *m.* (शैलवर्णना) ferrite
 अयो-हरि *m.* ferro-green
 अर *m.* 1 (गणित) radius 2 spoke
 अर- radio-
 अर-कला *f.* (औदभिदी) velum
 अरकूटपाद-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Actino-
 phrys
 अरकता *f.* anemia
 अरकता *f.* -anemia
 अरगोल-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Acti-
 nosphaerium
 अरवट्ट *m.* Persian wheel
 अर-चक्र *n.* spoke wheel
 अर-रचनान्तरण *n.* (प्राणिकी) ameta-
 bolism
 अर-रचनान्तरणाः *m. pl.* (प्राणिकी)
 Ametabola
 अर-रचनासदृश *mfn.* (जैविकी) non-
 homologous
 अर-रज्य *mfn.* (जैविकी) achro-
 matic
 अर-रज्य-न्यष्टि *f.* (शारीर) Klein-
 Gumprecht nucleus (unsta-
 inable nuclei) = shadow
 nucleus
 अर-रज्य रूप *n.* (औदभिदी) achro-
 matic figure
 अरगिति = अरणि-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
 Premna
 अरणि भारगी *f.* (औदभिदी) Clero-
 dendron phlomoides
 अर-रंतु *m.* radial fibres = radia-
 ting fibres
 अरतिन *m.* (शारीर) ulna
 अरतिन- (शारीर) ulnar, ulno-
 अरतिन-चेता *f.* ulnar nerve
 अरतिन-रोहिणी *f.* ulnar artery
 अरत्रय-चिह्न *n.* triadate mark
 अर-पक्षा *m. pl.* (प्राणिकी) Acti-
 nopteri = Actinopterygii
 अर-पट्ट *m.* (औदभिदी) gill
 अर-वर्ग *m.* square of the
 radius
 अर-वर्ग-कोण *m.* (गणित) steradian
 अरशीर्षेति = अरशीर्ष-प्रजाति *f.*

(औदभिदी) Inula
 अरशीर्षेधु *n.* inulose
 अरशीर्षि *f.* inulin
 अरशीर्षेद *m.* (जीवरसायन) inulase
 अर-समित *mfn.* (औदभिदी) radio-
 symmetrical
 अरसमित पुष्प *n.* (औदभिदी) radio-
 symmetrical flower
 अर-संमिति *f.* (औदभिदी) acti-
 nomorphic symmetry
 अर-संमितीय *mfn.* (औदभिदी) acti-
 nomorphic (flower) = radio-
 symmetrical
 अरसूत्रपादगण *m.* (प्राणिकी) Radio-
 laria
 अरसूत्रपादाः *m. pl.* (प्राणिकी) Radio-
 laria
 अराजकता *f.* anarchy
 अराजकतावाद *m.* anarchism
 अराजकतावादी (-इन्) *m.* anarchist
 अराजक-भूमि *f.* (सेना) no man's
 land
 अराजकीय *mfn.* nonofficial, pri-
 vato
 अराजकीय व्यक्ति *f.* private indivi-
 dual
 अराजपत्रित *mfn.* nongazetted
 अरित्र-चक्र *n.* steering wheel
 अरित्र-चालन, अरित्रण *n.* steer vb.
 अरित्र-दण्ड *m.* (आरतमवह) steering
 column
 अरित्र-दन्ति-धान *n.* steering gear
 box
 अरित्र-दन्ती (-इन्) *m.* steering
 gear
 अरित्रपादानुवर्ग *m.* (प्राणिकी) Cope-
 poda
 अरिष्ट *mfn.* intact
 अरिष्ट-कुल *n.* (औदभिदी) Sapin-
 daceae
 अरिष्ट-गोत्र *n.* (औदभिदी) Sapindales
 अरिष्टति = अरिष्ट-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
 Sapindus
 अरिष्टिक *mfn.* informal
 अरीय *mfn.* radial
 अरीय क्षेत्र *n.* (भौतिकी) radial field
 अरीय तन्तु *m.* (भौतिकी) radial
 wire
 अरीयांगा *m. pl.* (प्राणिकी) (किरण-
 वद्विन्यस्तांगा) Radiata
 अरुधिकर गन्ध *m.* disagreeable
 smell
 अरुणकपो तक *m.* (प्राणिकी) turtle
 dove
 अरुणचर्म *n.* (आयुर्विद्या) erysipelas
 अरुणचर्मकति = अरुणचर्मक-प्रजाति *f.*
 (शाकाण्डिकी) Erysipelothrix
 अरुणचर्म माला-गोलायु *m.* Strepto-
 coccus erysipelatis
 अरुणतिकती *f.* rosamine

अरुणदर्शिता *f.* (आयुर्विद्या) erythro-
psia
अरुणदुग्ध दण्डाणु *m.* Bacillus
lactorubefaciens
अरुण-द्राक्षा *f.* red grapes
अरुण पाकद्वरी *f.* (औद्धिदी) Ribes
rubrum
अरुण पुंजगोलाणु *m.* Staphylococ-
cus fulvus
अरुणशल्क *m.* lichen ruber
अरुणशल्क वेत्राणु *m.* bacillus of
lichen ruber
अरुणी *f.* (रंग-देशना) roseine
अरेख *mfn.* unstriated
अरेख-पेशी *f.* (शारीर) plain
muscle = unstriated muscle
अरेखित *mfn.* unstriated
अरेखित धनादेश *m.* (वाणिज्य) not-
crossed cheque = open
cheque
अरोक-करणीय *mfn.* (वाणिज्य) unreali-
zable
अरोक-कृत *mfn.* (वाणिज्य) unreal-
ized
अरोच्य *mfn.* irresistible
अरोमन्थिनः *m. pl.* (प्राणिकी)
Nonruminantia = nonrumi-
nants
अर्क-कुल *n.* Asclepiadaceae
अर्कति = अर्क-प्रजाति *f.* (औद्धिदी)
Calotropis
अर्गली *f.* bolt
अर्गली-छिद्र *n.* bolt hole
अर्गली तथा नह *m.* bolts and nuts
अर्गलीवृष *m.* (यांत्र) stud bolt
अर्गली-शिर पल्लि *m.* (रसायन)
bolt-head flask
अर्थ *m.* rate
अर्थ तथा भाटक *n.* (वाणिज्य) rates
and fares
अर्जन *n.* earn, earning
अर्जित *mfn.* earned
अर्जित आय *m.* earned income
अर्जुन *m.* (औद्धिदी) arjun
अर्जुनति = अर्जुन-प्रजाति *f.* (औद्धिदी)
Terminalia
अर्जुन-निस्सार *m.* (शैषजिकी) (Lesco)
extractum arjun
अर्थ *m.* 1 finance 2 import,
meaning
अर्थ-चक्र = व्यापार-चक्र *n.* economic
cycle = business cycle
अर्थ-दण्ड *m.* fine
अर्थदाता (-त्) *m.* financier
(investor)
अर्थदायी भागी (-इन्) *m.* financing
partner
अर्थपत्र (पत्रसुद्रा) *n.* note
अर्थपरायण पुरुष *m.* economic man
अर्थ-पुस्तक *n.* financial book

अर्थप्रवन्धक *m.* financier (investor)
अर्थप्रवन्धन *n.* finance *vb.*,
financing
अर्थ-प्रमण्डल *n.* finance company
अर्थ-मन्त्री (-इन्) *m.* finance
minister
अर्थ-महामात्र *m.* Chancellor of the
Exchequer
अर्थसुद्रा *f.* money (नामसुद्रा seal)
अर्थ-विधेयक *n.* (संसद्) finance bill
अर्थविनियोजकता (-त्) *m.* financier
(investor)
अर्थ-विपत्र *n.* (अधिकोपण) finance bill
अर्थव्यय *m.* expenditure (of
money)
अर्थव्यवस्था *f.* economics, economy
अर्थव्यवहार *m.* monetary
transactions = pecuniary
transactions
अर्थशास्त्र *n.* economics, political
economy
अर्थशास्त्र-तत्त्व *n.* elements of
economics
अर्थशास्त्र-प्रनियम *m.* (अर्थशास्त्र) prin-
ciples of economics
अर्थशास्त्र-विभाग *m.* bureau of
economics
अर्थशास्त्री (-इन्) *m.* economist
अर्थशास्त्रीय *mfn.* economic
अर्थसंपद *f.*, अर्थसाधन *n.* finances
अर्थ-साहाय्य *n.* subvention, sub-
sidy
अर्थ-सेवा *f.* finance service
अर्थति *i. e.* (that is), that is to
say, (viz.) namely
अर्थान्तर *n.* (तर्कशास्त्र) ignoratio
elenchi = irrelevant con-
clusion
अर्थित अदत्त प्रभाग *m.* (प्रभाग in-
stalment) call in arrear
अर्थ *mfn.* half
अर्थ- bi-, demi-, half, semi-
अर्थ उद्भूत *n.* (कला) mezzo relieve
= half relief
अर्थ-ऋजु *mfn.* (रसायन) semi-
normal
अर्थक *m.* 1 (रैखिकी) bisector 2
mfn. (जैविकी) haploid
अर्थकंकताति = अर्थकंकत-प्रजाति *f.*
(प्राणिकी) Hoplopsyllus
अर्थकृत वस्तु *n.* partly finished
goods
अर्थ-कौशेय काल *m.* half-silk black
अर्थद्वारी (अ. खा.) *f.* barrel (bbl)
अर्थगो. (अर्थगोलाणु) *N.* (Neisseria)
अर्थगोल *m.* (गणित) hemisphere
अर्थगोलाणु *m.* (अर्थगो.) Neisseria
अर्थचक्षु *m.* (प्राणिकी) half beak
अर्थचन्द्र *mfn.* 1 D (D-shaped)
2 *m.* (रैखिकी) semilune

अर्थचन्द्र कपाट *n.* (शारीर) semilunar
valve
अर्थचन्द्र प्रगड *m.* (शारीर) Gasserian
ganglion = semilunar gang-
lion
अर्थचन्द्र वेडम *n.* (भौतिकी) Dee (D-
shaped chamber)
अर्थछेदा-चित्र *n.* (गणित) semi-loga-
rithmic charts
अर्धजल वाति *m.* semiwater gas
अर्ध-तिग्मीय *n.* bi-oxalate
अर्धदक्षिणतः (योग्या) inclining to
the right
अर्ध दक्षिणा (योग्या) incline, right;
right incline
अर्ध-द्रव *m.* semi-fluid
अर्धद्रोण (अ. द्रो.) *m.* peck (pk.)
अर्धन (अर्धच्छेदन) *n.* bisect, bisec-
tion, halve
अर्धन-पद्धति *f.* halving principle
अर्ध-न्यष्टि *f.* haploid nucleus
अर्ध-न्यासत्रीय *n.* (रसायन) bi-tart-
rate
अर्ध-पक्व *mfn.* undercooked
अर्धपरजीवी (-इन्) *mfn.* (जैविकी) semi-
parasitic
अर्ध-परिस्तम्भ *mfn.* (औद्धिदी) semi-
amplexicaul
अर्ध-पारदर्श *mfn.* half transparent,
semi-transparent
अर्ध-प्रदोलन *n.* (भौतिकी) half-oscil-
lation
अर्ध-प्रांगारीय *n.* bi-carbonate
अर्ध-माध्य *n.* (सांख्यिकी) semi aver-
ages
अर्ध-मेहीय *n.* (रसायन) bi-urate
अर्ध-रजतित *mfn.* (भा-चित्रणा) half-
silvered
अर्ध-रम्भ *m.* (प्राणिकी) semicylinder
अर्ध-रम्भीय छिद्र *n.* semi-cylindrical
hole
अर्ध. रा. (अर्ध-राजकीय) D. O. (demi-
official)
अर्ध. रा आलोक-पत्र *n.* D. O. note-
papers
अर्ध-राजकीय (अर्ध. रा.) *mfn.* demi-
official (D. O.)
अर्धराजकीय-पंजी *f.* demiofficial re-
gister
अर्ध. रा. वेष्टन *n.* D.O. envelope
अर्ध-लवण *n.* bi-salt
अर्ध-वर्तुल *mfn.* semi-circular
अर्धवर्तुल-कुल्या *f.* (प्राणिकी) semi-
circular canal
अर्ध दामस् (योग्या) incline, left; left
incline
अर्धवार्षिक *mfn.* half-yearly
अर्ध-विरुद्ध प्रतियोग *m.* (तर्कशास्त्र) sub-
contrary opposition
अर्ध-विरोध *m.* sub-contrariety

अर्ध-वृत्त *n.* (गणित) semi-circle
 अर्धव्यास *m.* (गणित) radius, semi-diameter
 अर्धसिरः पीडा *f.* (आयुर्विद्या) migraine headache
 अर्धशीताति = अर्धशीत-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Ornithidia*
 अर्ध-शुल्क छात्र *m.* half-rate scholar
 अर्ध-शुल्वित *n.* bi-sulphite
 अर्ध-शुल्वीय *n.* bi-sulphate
 अर्ध-सख्या *f.* (प्राणिकी) haploid number
 अर्ध-सन्तानी (-इन्) *mfn.* (गणित) semi-continuous
 अर्धसाप्ताहिक *mfn.* biweekly = semiweekly (twice a week)
 अर्धसूत्रण *f.* (जैविकी) meiosis = reduction division = first meiotic division
 अर्धसूत्र-भाजन *n.* (प्राणिकी) meiotic division
 अर्ध-स्नायुपेशी *f.* semi-tendinosus
 अर्धस्वायत्त *mfn.* semi-autonomous
 अर्धक्ष *m.* (गणित) semi-axis
 अर्धोष्ण semi-micro-
 अर्धातिवेध्य *mfn.* semi-permeable
 अर्धातिवेध्य-कला *f.* semi-permeable membrane
 अर्धानाम्य *mfn.* semi-rigid
 अर्धायु-काल *m.* (भौतिक रसायन) half-life period
 अर्धार्ध द्विनामि *m.* (वाण्य) split glass bifocals
 अर्धोदय *mfn.* semi-vertical
 अर्पण *n.* deliver, delivery
 अर्बुद 1 *n.* billion 2 *m.* (शारीर) tubercle, tumor
 -अर्बुद *m.* (आयुर्विद्या) -oma
 अर्बुद-अतिवृद्धि *f.* (प्राणिकी) tumour overgrowth
 अर्बुदकर *mfn.* (आयुर्विद्या) tumefacient
 अर्बुदकर शर्कराकवक *n.* Saccharomyces tumefaciens
 अर्बुदचर्ममति = अर्बुदचर्म-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Ornithodoros* (having a skin with many irregular tubercles)
 अर्बुद-पर्वत *m.* (भौमिकी, भूगोल) Abu mountain, Aravali
 अर्हा *f.* value, worth
 अर्हा-एकक *n.* unit of value
 अर्हा-कर *m.* (वाण्य) ad valorem duty
 अर्हा कुलक *n.* set of values
 अर्हा-गोचर *m.* (गणित) range of values
 अर्हा-निश्चयन *n.* determination of value
 अर्हापण *n.* (वाण्य) evaluate,

valuation
 अर्हा-माप *m.* (अर्थशास्त्र) measure of value
 अर्हा-युग्म *n.* (गणित) pair of values
 अर्हाय धारी (-इन्) *m.* holder for value
 अर्हा-सग्रह *m.* store of value
 अर्हा-स्थायित्व *n.* stability of value
 अर्हित गोपलेख *m.* valued policy
 अलक *n.* curl
 अलक्षित *adv.* imperceptibly
 अलक्ष केन्द्रस्थ जरायुन्यास *m.* (औद्धिदी) free central placentation
 अलंकार-आभास *m.* (तर्कशास्त्र) fallacy of figure of speech
 अलवण-जल *mfn.* fresh-water
 अलवण-जल पुर्वगक *m.* (प्राणिकी) fresh-water polyp
 अलवणजलीय शम्बुक *m.* fresh-water mussel
 अलस मूष *m.* (अलस inactive) bamboo rat
 अलाक्षीयित *mfn.* unvarnished
 अलायुक्त *n.* (औद्धिदी) pepo
 अलायु-गोत्र *n.* (औद्धिदी) Peponiferae
 अलाम *m.* (वाण्य) loss
 अलामकारी (-इन्) *mfn.* unremunerative
 अलाम-कृषि *f.* uneconomic agriculture
 अ-लिखित *mfn.* plain (unwritten, as paper)
 अ-लिखित नामपत्र *n.* plain label
 अलिंग *mfn.* asexual
 अलिंग-सूत्र *n.* autosome = eu-chromosome
 अलिन्द *m.* auricle (atrium)
 अलिन्द-कर्ण *m.* auricle, auricular appendix or appendage
 अलिन्द-प्रवेशक कपाट *n.* (प्राणिकी) auriculo-ventricular valve
 अलिन्द-प्रवेशक-मुख *n.* auriculo-ventricular aperture
 अलि-शावधन दण्डायु *m.* Bacillus pluton
 अलोक *mfn.* private
 अलोकसहिज *m.* columbite-tantalite
 अलोत्तमास्त्रिज *m.* triplite
 अलोदसेकिज *m.* = हरिमृद् *f.* celadonite = green earth
 अलोलभिज *m.* (खानिजी) lithio-phillite
 अल्प *mfn.* few, little, short, small
 अल्प-1 oligo- 2 sparingly
 अल्प काल *m.* short period
 अल्पकाल *mfn.* short time, temporary
 अल्पकाल- short

अल्पकाल ऋण *n.* floating debt, short loan
 अल्पकाल मूल्य *n.* short period price
 अल्पकाल रोजि *m.* short money
 अल्पकाल विनिमय *m.* short exchange
 अल्पकाल विपत्र *n.* short bill, short-dated bill
 अल्पकाल सूचना उद्धार *m.* (वाण्य) short notice loan
 अल्पकाल सूचना राशि *m.* short notice money
 अल्पकालिक *mfn.* short
 अल्पकालीन उच्चावचन *n.* (अर्थशास्त्र, सांख्यिकी) short term fluctuations
 अल्पकालीन ऋण *n.* unfunded debt
 अल्पकालीन चल ऋण *n.* unfunded floating debt
 अल्पकालीन परिवर्तन *n.* short term changes
 अल्पकालीन प्रसोल *m.* (सांख्यिकी) short term oscillations
 अल्पकालीन प्रवृत्ति *f.* (सांख्यिकी) short period trend
 अल्पकालीन मूल्य *n.* (वाण्य) short price
 अल्पकालीन विचरण *n.* (सांख्यिकी) short time variations
 अल्पकालीन विनिमय *m.* short exchange
 अल्प-कोशावान् (-वत्) *mfn.* few-celled
 अल्पषटक *mfn.* (गणित) elementary
 अल्प जलविलेय *mfn.* sparingly soluble in water
 अल्पजीवी (-इन्) *m.* ephemeral
 अल्पतम *mfn.* 1 least 2 shortest
 अल्पतम अन्तर *n.* shortest distance
 अल्पतम वर्ग *m.* (गणित) least squares
 अल्पतम-वर्ग-रीति *f.* (सांख्यिकी) method of least squares
 अल्प-दृश्यता *f.* poor visibility
 अल्प-धूमिका *f.* moderate fog
 अल्पपाद *m.* oligopod
 अल्पपीती (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) micolecithal
 अल्प प्रदान *n.* short delivery
 अल्परचनान्तरण *n.* (प्राणिकी) paurometabolism
 अल्परचनान्तरणः *m. pl.* (प्राणिकी) Paurometabola
 अल्परोमिणः *m. pl.* (प्राणिकी) Oligochaeta
 अल्पविकस (जैविकी) rudiment
 अल्पविकसित *mfn.* (जैविकी) rudimentary
 अल्पविकसित कुडमल *n.* rudimentary bud
 अल्पशा *adv.* 1 (वाण्य) retail 2 sparingly

अल्पशून्यक *n.* (भौतिकी) rough vacuum
 अल्पशो-मूल्य *n.* retail price
 अल्पशो-मूल्य-देशनांक *m.* retail price index numbers
 अल्पशो-वणिक् *m.* retail merchant
 अल्पशो-विक्रय *m.* retail sale
 अल्पशो-विक्रेता (-रु) *m.* retail dealer
 अल्पशो-व्यापारी (-रु) *m.* retail dealer, retail trader
 अल्प-संख्य, अल्प-संख्यक *m.* minority
 अल्प-संचय-योजना *f.* small savings scheme
 अल्पसूचना-देय उद्धार *m.* loan at short notice
 अल्पसूचनायां राशि *m.* money at short notice
 अल्प स्तब्ध *m.* short stock
 अल्पान्तर *n.* 1 (सुदृण) less space 2 short distance
 अल्पार्थ विद्युत्, अल्पार्थ-शक्ति *f.* cheap power
 अल्पालग *mfn.* viscidial
 अल्पावधि *m., mfn.* short period
 अल्पावधि उच्चावचन *n.* (अर्थशास्त्र) short-term fluctuations
 अल्पावधि-उद्धार *m.* (अर्थशास्त्र) short-term credit
 अल्पावधि-प्रत्यय *m.* (अर्थशास्त्र) short-term credit
 अल्पावधि-विपणि *f.* short-period market
 अल्पावधि-साम्य *n.* (अर्थशास्त्र) short-period equilibrium
 अल्पाशन *n.* under-feeding
 अल्पास्नाम्बुता *f.* oligoplasma
 अल्पिष्ठ *mfn.* least, minimum
 अल्पिष्ठ अन्तर *n.* least distance
 अल्पिष्ठ क्रोशमूल्य *n.* upset price
 अल्पिष्ठ-दूरता *f.* (काशिकी) least distance
 अल्पिष्ठन *n.* minimize
 अल्पिष्ठ-श्रुति *f.* (अर्थशास्त्र) minimum wage
 अल्पिष्ठ-मात्रा *f.* minimum dose
 अल्पिष्ठ माप *m.* (भौतिकी) least count
 अल्पिष्ठ विचलन *n.* (प्रकाश) minimum deviation
 अल्पिष्ठ वियोज्य कोण *m.* (चाक्षुषी) minimum separable angle
 अल्पीकरण *n.* derogate
 अल्पीयस *mfn.* less, less than
 अव- 1 (औद्भिदी, पुरातात्विकी, प्राणिकी) -aster 2 low 3 under-
 अव-शागत अधिकार *m.* (त्रिधि) nonoccupancy right
 अवकल *m.* (गणित) differential
 अवकलगुणक *m.* (गणित) differential coefficient

अवकलन *n.* (गणित) differentiate
 अवकलनीय *mfn.* (गणित) differentiable
 अवकल-रैखिकी *f.* differential geometry
 अवकल-समीकार *m.* (गणित) differential equation
 अवकाश *m.* 1 (यान्त्र) clearance 2 gap 3 holiday, leave, vacation, leisure 4 interval 5 scope 6 space
 अवकाश-विभाग *m.* vacation department
 अवकाश-वेतन *n.* leave salary
 अवकाशात्वायुक्त *f.* (यान्त्र) clearance fit
 अवकृष्ट *mfn.* 1 degraded 2 inferior
 अवकृष्ट-सेवा *f.* inferior service
 अवक्रमण *n.* 1 devolution 2 (विद्युत्) step down
 अवक्रमण-नियम *m.* devolution rules
 अवक्रम-परिवर्तित्र *n.* (भौतिकी) step-down transformer
 अवक्रय *m.* (वाणिज्य) hire
 अवक्रीत *m.* hireling
 अवक्षयण *n.* (लेखा) depreciation
 अवक्षयण-प्रणवि *f.* depreciation fund
 अवगुण्ड *m.* 1 mask 2 muffle
 अवगुण्ड-आर्द्र *n.* muffle furnace
 अवगुण्ड-विधा *f.* (रसायन) Silesian process
 अवगुण्ठित *mfn.* (औद्भिदी) masked
 अवगुण्ठित आसोत्र *n.* (रसायन) Silesian retort
 अवग्रहनिहाकार, अवग्रहाकार *mfn.* 'S' shaped
 अवग्रहाम sigmoid
 अवग्रहाम मलाशय *m.* sigmoid colon = sigmoid flexure
 अवग्रहाभेक्षा *f.* (आयुर्विद्या) sigmoidoscopy
 अवच्छेद *m.* cover (sheet)
 अवच्छिन्न *mfn.* retrenched
 अवच्छिन्न व्यय *m.* retrenched expenses
 अवच्छेदक *m.* (तर्कशास्त्र) differentia
 अवच्छेदन *n.* retrench
 अवतरणी *f.* pier
 अवतारण *n.* unload, unloading
 अवतारित *mfn.* unloaded
 अवत्यजन *n.* relinquish
 अवत्याग *m.* relinquishment
 अवधाता (-रु) *m.* caretaker
 अवधान *n.* care, caution
 अवधारणा *f.* conception
 अवधि *m.* 1 duration, period, time 2 (वाणिज्य) tenor = term = tenure 3 usance

अवधि विपत्र *n.* usance bill = time bill
 अवधेय *n.* N. B., n.b. (nota bene), note
 अवनति *f.* deterioration
 अवनति-कोण *m.* (ज्यामिति, शातत्रिकी) angle of depression
 अवनमन *n.* deterioration
 अवनाम *m.* plier
 अवनाम्य *mfn.* pliable
 अवनिश्चायक *m.* (सांख्यिकी) Jacobian (आंशिक अवकल सहित निश्चायक determinant with partial differentials as its terms)
 अवनील *m.* celeste, Dutch blue, light wedgwood, light wedgwood blue, opal blue, orient blue, parula blue, Russian blue
 अवनीलरक्त *m.* heliotrope gray, plumbago gray, Ophelia, vestal
 अदनीलातिहरि *m.* Bremen blue, mesange, water blue
 अवनीलरक्त *m.* telegraph blue
 अवनीलाहरि *m.* old blue, pompeian blue, saxe = saxe blue, sistine, twilight blue
 अवनेग *m.* lotion
 अदन्ध्य *mfn.* (औद्भिदी) fertile
 अवर्पक *m.* sludge
 अवपतन *n.* dwindle (to fall away)
 अवपत्र *n.* (औद्भिदी) palea
 अवपात *m.* (वाणिज्य) slump
 अवपीत *m.* moss grey, serpentine green
 अवपीतहरि *m.* fairy green, mermaid (a colour), olive gray = Scotch gray, tea green
 अवपीतातिरक्त *m.* brick red, lateritious, latericeous, monkey skin, wood rose, sorghum brown
 अवपीतातिहरि *m.* French green, green slate, Gretna green, Russian green, slate green, verdigis, verdigis green, verd russe
 अवपीतारक्त *m.* anamite, cracker, dust (a colour), old gold, smoke yellow, sand, Sudan, twine (a colour)
 अवपीताहरि *m.* celadon green, grape green, Kronberg's green, rainette green, vetiver green, Wedgwood green
 अव-पुंजीयन *n.* under-capitalization
 अववञ्जु *m.* fawn = fawn brown
 अववाधन *n.* impede

अवबाधा *f.* (विधि) impediment
 अवबुद्ध *mfn.* understood
 अवबोध *m.* understanding
 अवबोधक *m.* tutor
 अवबोधन *n.* understand
 अवम *mfn.* lowest
 अवम-जाति *f.* (तर्कशास्त्र) infima species
 अवमानन *n.* (अर्थशास्त्र) under-estimation
 अवमिश्रक *m.* diluent
 अवमिश्रण *n.* dilute *vb.*, dilution
 अवमिश्रयिता (-त्तु) *m.* (रसायन) dilutor
 अवमिश्रित *mfn.* (रसायन) diluted
 अवमूल्यन *n.* depreciation
 अवमूल्यन-अव *m.* (वाणिज्य) rate of depreciation
 अवमूल्यन-प्रणीवि *f.* depreciation fund
 अवमूल्यन-प्रभार *m.* depreciation charge
 अवमूल्यन-लेखा *f.* depreciation account
 अवमूल्यन-सारणी *f.* depreciation table.
 अवमूल्ये (वाणिज्य) at a discount
 अवमूल्ये (वाणिज्य) below par
 अवमूल्ये ऋणपत्र-निर्गमन *n.* (वाणिज्य) issue of debenture at discount or at par
 अवमूल्ये निर्गमित *mfn.* (वाणिज्य) issued at discount
 अवमृद् *f.* mail
 अवयव *m.* 1 (गणित) element, factor
 2 (प्राणिकी) limb 3 (औद्भिदी) part
 अवयव-विभाजन *n.* (तर्कशास्त्र) physical partition
 अ-व्ययस्क *m.* (विधि) minor
 अवर *mfn.* 1 inferior 2 junior 3 lower
 अवर अवपत्र *n.* (औद्भिदी) inferior palea
 अवर आधार-पाठशाला *f.* junior basic school
 अवरक्त *m.* livid brown, livid violet, nectar, old rose
 अवरक्तापीत *m.* Algerian, army brown, biscuit, cream beige = sandstone, drab = sand dune, fawn, French beige, golden chestnut, gravel, meerschäum, Mikado brown, oakwood = oakwood brown, old pink, sandalwood, sunburn, tan bark, tawny birch, wood
 अवरक्तातिनील *m.* lavender = lavandula = lavender colour, lobelia violet, madder blue, slate violet, Varley's gray

अवरक्तातिपीत *m.* antique, Bismarck brown = gold brown = Havana = Havana brown, Dresden brown = fox, maple sugar, mastic, medal bronzo, prairie, sirup, sponge, suede, syrup, taffy = walnut brown, thush = thush brown, tiffin
 अवरक्तापीत *m.* Corinthian pink, Corinthian red, faded rose = ocher red, lion
 अवर न्यायाधीश *m.* puisne judge
 अवर-पाठशाला *f.* junior school
 अवर पादप *m.* lower plants
 अवर पुष्पकोश *m.* (औद्भिदी) inferior calyx
 अवर-प्रयोगशाला *f.* junior laboratory
 अवर-प्रौद्योगिक-पाठशाला *f.* junior technical school
 अवरगार *n.* lower house
 अवरोध *mfn.* (वाणिज्य) minimum
 अवरोध्य *mfn.* minimal
 अवरुद्ध 1 *mfn.* detained 2 *m.* detenué
 अवरुद्ध पशु *m.* impounded cattle
 अवरूपशिख *m.* beyrichite
 अवरोध *m.* 1 check 2 detention
 अवरोधन *n.* 1 check *vb.* 2 detain 3 impound
 अवरोध-हेतु *m.* cause of detention
 अवरोह *m.* fall
 अवरोहण *n.* descend, landing
 अवरोहण-काल *m.* (गणित) time of descent
 अवरोहण-भूमि *f.* landing-ground
 अवरोहि प्रहसन *n.* descending reduction
 अवरोही (-इन्) *mfn.* descending
 अवरोही अक्ष *m.* (औद्भिदी) descending axis
 अवरोही क्रम *m.* (सांख्यिकी) descending order
 अवरोही वात *m.* (गणित) descending powers
 अवरोही मलाञ्जय *m.* descending colon
 अ-वर्गित लेखा *f.* suspense account (nonclassified account)
 अवर्ण (अ) *m.* alpha (α) अवर्ण-achloo-, achio
 अवर्ण-कोशाक्षु *n.* (आवर्ण-, इवर्ण-) alpha-cellulose (beta-, gamma-)
 अवर्णजन दण्डाणु *m.* Bacillus zurnianus

अवर्णद *mfn.* (काशिकी) achromatic
 अवर्ण-द्रव्य *f.* (जीवरसायन) achroo-dextrin
 अवर्ण-द्रव्येष्ट *m.* (जीवरसायन) achroo-dextrinase
 अवर्ण-द्रव्यलि *f.* (जीवरसायन) achro-globin
 अवर्णान्वय काल *m.* (रंग-देशना) alphanol black
 अवर्तमान *mfn.* absent, not present
 अवर्तुलक *m.* (ज्योतिष) French eurye
 अवर्धयेव-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Balanoglossus
 अवधप्रवेयाः *m.pl.* (प्राणिकी) Balanoglossida
 अवलम्बन *n.* depend upon
 अवलित *mfn.* (औद्भिदी) plane (not folded)
 अवलि-भाग *m.* (त्राक्षुपी) pars plana = oculus ciliaris
 अवलुम्प *m.* chamfer
 अवलुम्पन *n.* chamfer
 अवलुम्पित *mfn.* chamfered
 अवलोक *m.* observation
 अवलोकक *m.* (सांख्यिकी) observer
 अवलोकन *n.* notice *vb.*, observe, observation
 अवलोकन-कलन *n.* calculus of observations
 अवलोकन-नाल *m.* observation tube
 अवल्युज-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Vernonia
 अवल्युजी *f.* (रसायन) vernonine
 अवविशद *mfn.* low (saturation)
 अवव्रश्च *m.* splinter
 अवशिष्ट 1 *n.* arrears 2 *mfn.* residual, residuary
 अवशिष्ट अधिकार *m.* residuary powers
 अवशिष्ट अध्यर्थक सिद्धान्त *m.* (अर्थशास्त्र) residual claimant theory (of wages)
 अवशिष्ट मूल्य *n.* (वाणिज्य) residual value
 अवशिष्ट-लेखा *f.* (वाणिज्य) residuary account
 अवशिष्ट वायु *m.* (दैहिकी) residual air
 अवशिष्ट वेतन *n.* arrear pay
 अवशिष्ट शक्ति *f.* residual powers
 अवशेष *m.* remains, residue, residues
 अवशेषक (जैविकी) 1 *mfn.* rudimentary 2 *m.* vestige
 अवशेष-रीति *f.* (तर्कशास्त्र) method of residues

अवशेष-समीकार *m.* (गणित) residual equation
 अवशेषी (-इन्) *mfn.* remaining
 अवश्याय *m.* dew
 अवश्यायांक *m.* (भौतिक रसायन) dew-point
 अवष्टब्ध *mfn.* (वाणिज्य) barred
 अवष्टम्भ *m.* (सेना, भूसेचन) barrage
 अवसंकेन्द्रण *n.* lowering of concentration
 अवसन्न *mfn.* deposited
 अवसन्न-विपणि *f.* (वाणिज्य) depressed market
 अवसर *m.* chance, occasion
 अवसर-समानता *f.* equality of opportunity
 अवसाद *m.* 1 deposit, sediment 2 (सांख्यिकी, वाणिज्य) depression
 अवसादन *n.* deposit *vb.*, deposition, sedimentation
 अवसाद-परीक्षित्र *n.* sediment tester
 अवसादित *mfn.* deposited
 अवसादी (-इन्) *mfn.* depressive
 अवसादी आन्त्रकोप दण्डाणु *m.* Bacillus enteritidis mucosus
 अवसान *n.* (वाणिज्य) expire
 अवसान-*mfn.* terminal
 अवसानक *m.* (प्राणिकी) podex, pygidium
 अवसानकारी (-इन्) *mfn.* decisive
 अवसान-द्रुमायण *n.* (शारीर) terminal arborization
 अवसान-परीक्षा *f.* terminal examination
 अवसान-सूत्र *n.* (प्राणिकी) filum terminale
 अवसानांशु *m.* (प्राणिकी) terminal filament
 अवसानीय *mfn.* terminal
 अवसायक *m.* (विधि) liquidator
 अवसायन *n.* 1 (विधि) liquidate, liquidation 2 (वाणिज्य) wind up
 अवसायित *mfn.* 1 (विधि) liquidated 2 (वाणिज्य) wound up
 अवसायी विधि *m.* expiring law
 अवसित *mfn.* (वाणिज्य) expired
 अवसेय *mfn.* (वाणिज्य) terminable
 अवस्तार *m.* stretcher (litter)
 अवस्था *f.* 1 case 2 (जैविकी) stadium, 3 stage, state (condition), status
 अवस्था-माला *f.* (गणित) condition series

अवस्था-विवरण *n.* statement of affairs
 अवस्थिति *f.* state (condition)
 अवहरण *n.* वाणिज्य rebate
 अवहरिनील *m.* cyan-blue, gendarme, gendarme blue, glaucous blue, porcelain blue, powder blue
 अवहर्यतिनील *m.* forget me not, forget me not blue, Gobelin, Gobelin blue, infantry = moonlight blue, Medici blue
 अवहर्यतिपीत *m.* fern green, foliage green, gage green, holly = holly green, leek = leek green, palmetto, pea green, sea weed green
 अवहर्यानील *m.* firmament blue, Japanese blue, Japanese green, porcelain green, Gobelin green, jasper green, lizard = lizard green
 अवहसन *n.* ridicule
 अवहार *m.* (वाणिज्य) rebate
 अवहास *m.* ridicule
 अवहार्य *mfn.* ridiculous
 अवागणन *n.* (अर्थशास्त्र) under-estimation
 अवात-किण्वन *n.* = अवातजीवकिण्वन anaerobic fermentation, anaerobation
 अवातजीव 1 *m.* (जैविकी) anaerobe 2 *mfn.* (जैविकी) anaerobic
 अवातजीव-कलश *m.* anaerobic jar
 अवात-जीवन *n.* anaerobiosis
 अवातजीवीय *mfn.* (जैविकी) anaerobic
 अवात-मुद्रा *f.* hermetic seal
 अवातरोधि चलित्र *n.* (अयोमार्गी) streamline locomotive
 अवातरोधी (-इन्) *mfn.* stream-line
 अवात-रोपण *n.* (आयुर्विद्य) anaeroplasty (treatment of wounds रोपण by exclusion of air अवात)
 अवात (वाताप्रवेश) संसुद्रित *mfn.* hermetically sealed
 अवातोद्भिद् *f.* (ओद्भिदी) anaerophyte
 अवाप्त *n.* acquire
 अवाप्त *mfn.* acquired
 अवाप्ति *f.* acquirement, acquisition
 अवार-*citra-*, *cis-*
 अवाहं *mfn.* (गणित) below par
 अवाहण *n.* devaluation
 अवासन *n.* abate, abatement, demolish, throw down
 अवास्तविक *mfn.* fictitious
 अवास्तविक आदाता (-त्) *m.* fictitious payee
 अवास्तविक-परिसम्पत् *f.* (अर्थशास्त्र)

fictitious asset
 अवास्तविक-लेखा *f.* (वाणिज्य) proprietary account = fictitious account = nominal account
 अवास्तविक सम्पत्ति *f.* (वाणिज्य) fictitious assets
 अवाहरोधी (-इन्) *mfn.* stream-line
 अ. वि. (अन्नविषाणु) (शाकाण्डिकी) S. (Salmonella)
 अवि *m.* sheep
 अविकसित *mfn.* (जैविकी) abortive
 अविकार्य *mfn.* unalterable
 अवि-कुक्कुर *m.* (प्राणिकी) sheep dog
 अवि-कूट यक्ष्म मुद्गराणु *m.* Corynebacterium pseudotubercu-
 losis ovis
 अविकृत *mfn.* unchanged
 अविक्रीत *mfn.* unsold
 अविक्रीतक *n.* stock (goods unsold)
 अविक्रय *mfn.* (वाणिज्य) unmerch-
 antable
 अविक्रय स्क्रन्ध *m.* dead stock
 अविगर्भपात अन्नविषाणु *m.* Salmonella abortus ovis
 अविघ्न द्विशिरोरञ्ज्य *m.* Pasteurella oviseptica
 अविस्वर गदाणु *m.* Clostridium paludis
 अविदान्य *mfn.* (गणित) inextensible
 अवितृण *m.* (ओद्भिदी) fescue
 अवितृणति = अवितृण-प्रजाति *f.* (ओद्भिदी) Festuca
 अविद्यमान *mfn.* absent, not existing
 अविद्युद्द्रव्य *n.* nonelectrolyte
 अ-विद्योचित कर्म *n.* unacademic work
 अ-विधिक *mfn.* informal (सविधिक formal)
 अविनन *mfn.* (भौतिकी) agonic
 अविनाश्यता *f.* indestructibility
 अवि-प्रसावन *n.* sheep-breeding
 अविप्रिया *f.* garden parsley
 अविप्रियाति = अविप्रिया-प्रजाति *f.* (ओद्भिदी) Petroselinum
 अविप्रियिक अम्ल *n.* petroselinic acid
 अविप्रियैलिक *mfn.* (रसायन) petroselinolic
 अविघ्न *mfn.* (रसायन) undecomposed
 अविमज्जि कञ्चुक *m.* (प्राणिकी) unmedullary sheath
 अविमज्जि कञ्चुकी (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी) nonmedullated
 अवि-मांस *n.* mutton
 अवियोज्य *mfn.* inseparable
 अवियोज्य उपलक्षण *n.* (तर्कशास्त्र) inseparable accident

अविरत *mfn.* constant, continuing
 अविराम *mfn.* constant
 अविरामिकुल्या *f.* perennial canal
 अविरामी (-इन्) *mfn.* continuing, unceasing
 अविरामी अभ्यर्थी (-इन्) *m.* continuing candidate
 अविरामी सदस्य *m.* continuing member
 अदिरुद्ध *adv.* without prejudice
 अदिरोध *m.* (गणित) consistency
 अदिरोधेन *adv.* without prejudice
 अविलम्बनीय *mfn.* urgent
 अविलम्ब्य *mfn.* urgent
 अविलिङ्गिदण्डाणु *m.* Bacillus ethacetous
 अविलीन *mfn.* undissolved
 अविलेय *mfn.* insoluble
 अविलेय अयश्श्याम नील *m.* insoluble Prussian blue = Turnbull's blue
 अविलेयतर *mfn.* more insoluble
 अविलेयप्राय *mfn.* (रसायन) almost insoluble
 अविषपा *f.* (भेषजिकी) adeps ovilus (sheep suet or tallow), mutton tallow
 अविवेक-वध *m.* indiscriminate slaughter
 अविशेष *mfn.* nonspecific
 अविश्रम्भ-प्रस्ताव, अविश्वास-प्रस्ताव *m.* no-confidence motion
 अविश्वस्य *mfn.* incredible
 अविष *mfn.* nonvenomous
 अविष पिश्वेत सीस *m.* Ferman's nonpoisonous white lead
 अविषप्रतीकारजन *m.* immunogen
 अविषल *n.* (भेषजिकी) atoxyl
 अविस्तनकोथ गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus mastobius
 अविस्तन गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus ovis
 अवीत शेष *m.* unspent balance
 अवृत्ति-आगोप *m.* un-employment insurance
 अवृन्त *mfn.* (औद्भिदी) sessile
 अवृन्त परिपण *n.* (औद्भिदी) perfoliate sessile
 अवृन्ताः *m. pl.* (प्राणिकी) Eleutherozoa
 अवृष्टि *f.* drought
 अवेषक *m.* 1 caretaker 2 mate
 अवेषा *f.* care
 अवेष्य *mfn.* impenetrable = impervious = impervious
 अवैचित्र्य *n.* monotony
 अवैध *mfn.* illegal = unlawful, illicit
 अवैध पक्ष *m.* (तर्कशास्त्र) illicit minor

अवैध-परिवर्तन *n.* (तर्कशास्त्र) illicit conversion
 अवैध साध्य *n.* (तर्कशास्त्र) illicit major
 अवैयक्तिक *mfn.* (वाणिज्य) impersonal
 अवैयक्तिक वस्तु *n.* (अर्थशास्त्र) nonpersonal goods
 अव्यक्तचूपाति = अव्यक्तचूप-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Watsonius
 अव्यवधान *mfn.* direct
 अव्यवधान-विधा *f.* direct process
 अव्यवस्थ *mfn.* disorderly
 अव्यवहित 1 *mfn.* direct, immediate 2 *adv.* directly
 अव्यवहित अनुमान *n.* (तर्कशास्त्र) immediate inference
 अव्यवहित अभियाचन *n.* (अर्थशास्त्र) direct demand
 अव्यवहित उद्भेदन *n.* (औद्भिदी) direct germination
 अव्यवहित कोश-भाजन *n.* (जैविकी) direct cell-division
 अव्यवहित-क्रिया *f.* direct action
 अव्यवहित दहन *n.* (जीवरसायन) direct combustion
 अव्यवहित निर्वाचन *n.* direct election
 अव्यवहित प्रयोग *n.* (भौतिकी) direct application
 अव्यवहित मत *n.* direct vote
 अव्यवहित-रीति *f.* (दैहिकी) direct method
 अव्यवहित रूपान्तरण *n.* (प्राणिकी) direct metamorphosis
 अव्यवहित वाह *m.* (विद्युत्) direct current
 अव्यवहित-वाह-विद्युज्जन *n.* direct current dynamo
 अव्यवहित सश्रवण *n.* (आयुर्विद्या) immediate auscultation
 अव्यवस्थित *mfn.* disorderly
 अव्याघात *m.* (तर्कशास्त्र) noncontradiction
 अव्याघात-नियम *m.* (तर्कशास्त्र) law of non-contradiction
 अव्यापार दिन *n.* (वाणिज्य) nonbusiness days
 अव्यास *mfn.* (तर्कशास्त्र) undistributed
 अव्यास पद *n.* (तर्कशास्त्र) undistributed term
 अव्यास मध्य *n.* (तर्कशास्त्र) undistributed middle
 अव्यास लक्षण *n.* (तर्कशास्त्र) too narrow definition
 अव्यावहारिक-अर्था *f.* (अर्थशास्त्र) theoretical value
 अव्यूर्णा-स्नेह *m.* (रसायन) degreas

अशक्त *mfn.* disable
 अशक्तता *f.* disability
 अशक्य *mfn.* impossible
 अशक्य-परिणामी (-इन्) *m.* reductio ad impossible = reductio per impossible
 अशंकु *m.* (प्राणिकी) acone
 अशंकु-नेत्र *n.* (प्राणिकी) acone eye
 अशन *n.* meals
 अशाना *f.* (आयुर्विद्या) caries
 अशर्करा *f.* nonsugart
 अशस्त्र- (प्राणिकी) anopl-, anoplo- (unarmed)
 अशास्त्रिकति = अशास्त्रिक-प्रजाति *f.* Leptotrichia
 अशास्त्रिवाहवः *m. pl.* (प्राणिकी) Ophurida
 अशादकशाणाः *m. pl.* (प्राणिकी) Zoonastigina
 अशान्ति *f.* unrest
 अशासकीय *mfn.* nonofficial, unofficial
 अशित *mfn.* (आयुर्विद्या) carious
 अशित-दन्त *m.* (आयुर्विद्या) carious teeth
 अशितदन्तीय अधिकुन्तलाणु *m.* Spirillum mellei, Vibrio mellei
 अशितदन्तीय आकुन्तलाणु *m.* Vibrio mellei
 अशितदन्तीय दण्डाणु *m.* bacillus of Miller
 अशितदन्तीय पीत दण्डाणु *m.* Bacillus luteus
 अशितास्थि *n.* carious bone
 अशिशिल *mfn.* taut
 अशिशिल तत *mfn.* (भौतिकी) stretched taut
 अशिशिल निलम्बित *mfn.* (भौतिकी) suspended taut
 अशिशिल *mfn.* unpallimentary
 अशीतिक *m.* (भौतिकी) Reaumur
 अशीतिक तापमान *m.* Reaumur thermometer
 अशीतिक-श्रेणी *f.* Reaumur scale
 अशुद्ध 1 *mfn.* impure 2 incorrect 3 *adv.* incorrectly
 अशुद्धतया *adv.* incorrectly
 अशुद्धता, अशुद्धि *f.* impurity
 अशुद्धोपस्थापक *m.* misrepresentative
 अशुद्धोपस्थापन *n.* misrepresentation
 अशेष *mfn.* total
 अशेष परावर्तन *n.* (भौतिकी) total reflection
 अशेष-परावर्तन-कोण *m.* (काशिकी) angle of total reflection
 अशेष-भाजक *m.* (गणित) aliquot part
 अशोक *m.* (औद्भिदी) Asoka

अशोकित = अशोक-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) *Saraca*
 अशोक-निस्सार *m.* (भैषजिकी) *extractum asoka*
 अशोणांशिक माला-गोलाणु *m.* *anahemolytic streptococcus*
 अशोधन *n.* (वाणिज्य) *non-payment*
 अशोधन-अनादरण *n.* *dishonour by nonpayment*
 अशोधित-मृत्यु-अर्थ *m.* *crude death-rate*
 अशोध्य *mfn.* (वाणिज्य) *irredeemable*
 अशोध्य ऋण *n.* *bad debt, irredeemable debt*
 अशोध्य ऋणपत्र *n.* *irredeemable debenture*
 अशोध्य ऋण-संचिति *f.* (वाणिज्य) *bad debts reserve*
 अशोध्य ऋणार्थ संचिति *f.* (वाणिज्य) *reserve for bad debts*
 अशोध्य पूर्वधिकार अंश *m.* *irredeemable preference share*
 अशोध्य शेष *m.* *unredeemed balance*
 अशोपि तैल *n.* *nondrying oil*
 अशोपी (-इन्) *mfn.* *nondrying*
 अश्म *m.* *stone*
 अश्म- *petro-*
 -अश्म *m.* (शैलवर्णन) *-ite, -yte*
 अश्म पतंग *m.* *stone fly*
 अश्मपतंग-गण *m.* *Plecoptera*
 अश्ममूल *n.* *collinsonia*
 अश्म-मूल *n.* *knob root = collinsonia = stone root*
 अश्ममूल-निष्कर्ष *m.* *tincture of collinsonia = tinctura collinsoniae*
 अश्म-स्तर *m.* (औद्धिदी) *stony layer*
 अश्मान्तकति = अश्मान्तक-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) *Coleus*
 अश्मीकर 1 *mfn.* *petrifactive*
 2 *m.* *petrifier*
 अश्मीकरण *n.* *petrify*
 अश्मीभव *m.* *petrifier*
 अश्मीभवन *n.* *petrify*
 अश्मीभाव *m.* *petrification*
 अश्मीभाव्य *mfn.* *petrifiable*
 अश्मोत्करक *m.* *litho-glyph*
 अश्मोत्करणा *f.* *litho-glyph*
 अश्रि *f.* *edge*
 अश्रि-पावन *n.* (रसायन) *edge filtration = stream-line filtration*
 अश्रि-बिंदु *m.* *corner point = critical point*
 अश्रिमती कोशातकी *f.* *Luffa acutangula*
 अश्रु *n.* *lachryma, tear*
 अश्रु- *mfn.* *lacrimal*

अश्रुनासा-प्रणाली *f.* (शारीर) *naso-lachrymal duct, naso-lacrimal duct*
 अश्रु-रन्ध्र *n.* (चाक्षुषी) *puncta lacrimalia*
 अश्रु-वलि *m.* (चाक्षुषी) *plica lacrimalis*
 अश्रु-वाति *m.* *tear-gas*
 अश्रु-वर्तन *n.* (अभियन्त्रणा) *distance across corners*
 अक्षिपितरल दण्डाणु *m.* (अ- *not*, तरल *liquid*, क्षिपि *gelatin*) *Bacillus viridescens nonliquefaciens*
 अश्लेष *mfn.* *ungummed*
 अश्लेष नामपत्र *n.* *ungummed label*
 अश्व *m.* *horse*
 अश्व आन्त्रमक्षी *f.* *Gastrophilus equi*
 अश्व. क. (अश्वग्रंथि-कवक) *M (Malleomyces)*
 अश्वकलोमीय द्विशिरोरंज्य *m.* *Pasteurella equiseptica*
 अश्वगन्धा *f.* (भैषजिकी) *aswagandha*
 अश्वगन्धाति = अश्वगन्धा-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) *Withania*
 अश्वगंधा-निस्सार *m.* (भैषजिकी) *extractum aswagandha*
 अश्व गुच्छगोलाणु *m.* *Micrococcus ascoformans*
 अश्वग्रन्थि *m.* *farcy = glanders, malleus*
 अश्वग्रन्थि-कवक (अश्व. क.) *n.* *Pfeifferella = Malleomyces*
 अश्वग्रंथिकवकति = अश्वग्रंथिकवक-प्रजाति (अश्व. क.) *f.* *Malleomyces*
 अश्वतर *m.* *mule*
 अश्वतथ वट *m.* (औद्धिदी) *Ficus religiosa*
 अश्वधावन-भूमि *f.* *race-course*
 अश्वनासा माला-गोलाणु *m.* *Streptococcus equi*
 अश्वपिडक दण्डाणु *m.* *Bacillus acnes contagiosae*
 अश्वपुच्छ *n.* (प्राणिकी) *cauda equina*
 अश्वप्रतिश्याय दण्डाणु *m.* *Bacillus equisepticus*
 अश्वमत्स्यक *m.* (प्राणिकी) *sea horse*
 अश्व सुद्धारणु *m.* *Corynebacterium equi*
 अश्वमेहिक *mfn.* (रसायन) *hippuric*
 अश्वमेहीय *n.* (रसायन) *hippurate*
 अश्व युवपिडक दण्डाणु *m.* *Grawitz's bacillus*
 अश्ववार *m.* (औद्धिदी) *horsetail*
 अश्ववार-कुल *n.* (औद्धिदी) *Equisetaceae*

अश्ववार-गोत्र *n.* (औद्धिदी) *Equisetales*
 अश्ववारति = अश्ववार-प्रजाति *f.* (औद्धिदी) *Equisetum*
 अश्ववाल *m.* *horsehair*
 अश्वशक्ति *f.* (यान्त्रिकी) *horsepower*
 अश्वसंधि अन्तलन्त्राणु *m.* *Shigella viscoea*
 अश्वसंधि दण्डाणु *m.* *Bacillus equirulii*
 अश्वगर्भपात अन्नविषाणु *m.* *Salmonella abortivo-equinus, S. abortus equi*
 अश्वानीक *n.* *cavalry*
 अश्वान्त्र दण्डाणु *m.* *Bacillus equi intestinalis*
 अश्वान्त्र माला-गोलाणु *m.* *Streptococcus equinus*
 अश्वारोहण *n.* *riding*
 अश्वारोहण तथा क्रीडा शिक्षक *m.* *riding and sports instructor*
 अश्वारोही (-इन्) *m.* *cavalier*
 अश्वारोही-सेना-आरक्षी (-इन्) *m.* *mounted military police*
 अश्वसिकाय *m.* *Trypanosoma equiperdum*
 अश्वसिकाय-रोग *m.* (पशुचिकित्सा) *dourine*
 अश्वस्यकोप *m.* *vesicular stomatitis of horses*
 अश्वितिमत् *mfn.* *ex-albuminous*
 अश्वितेना *f.* *cavalry*
 अश्वी (-इन्) *m.* *cavalier*
 अष्टक *n.* *octave, octet, octette*
 अष्टगुण *mfn.* (प्राणिकी) *octoploid*
 अष्ट-चक्र चलित्र *n.* *eight-wheeled locomotive*
 अष्टचूप-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Myzostoma*
 अष्टचष-वर्ग *m.* (प्राणिकी) *Myzostomidae*
 अष्टचूप-वर्ग *m.* (प्राणिकी) *Myzostomida*
 अष्टचषा. *m.* (प्राणिकी) *Myzostomata*
 अष्टपट्टा: *m pl.* (प्राणिकी) *Placophora, Polyplacophora*
 अष्टपाद-वर्ग *m.* (प्राणिकी) *Arachnida, Arachnoidea*
 अष्टपादा: *m pl.* (प्राणिकी) *Arachnida, Arachnoidea, Arachnoids, Octopoda*
 अष्ट-पाश्र्व *mfn.* *eight-sided*
 अष्टपुकेसर *mfn.* (औद्धिदी) *octandrous*
 अष्टवाहु *m.* (प्राणिकी) *octopus*
 अष्टवाह्वाति = अष्टवाहु-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Octopus*
 अष्टमुज *m.* (गणित) *octagon*

अष्टम *n.* (औद्भिदी) octant
 अष्टमक *n.* (भौतिकी) octant
 अष्टम-मास *m.* August
 अष्टमथ *mfn.* (गणित) octonary
 अष्टल *n.* octyl
 अष्टादश *n.* trillion
 अष्टादश-प्राञ्जलि *f.* (सेना) (क्षेत्र-शतघ्नी) eighteen pounder
 अष्टानीक *mfn.* octahedral
 अष्टानीकीय *mfn.* octahedral
 अष्टान्त्रयुज-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Edwardsia
 अष्टान्त्रयुज-वश *m.* (प्राणिकी) Edwardsiidae
 अष्टावयवि-अनुवर्ग *m.* (प्राणिकी) Octocorallia
 अष्टावयवि-गण *m.* (प्राणिकी) Alcyonaria
 अष्टावयविन. *m. pl.* (प्राणिकी) Alcyonalia
 अष्टावयवि-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Alcyonium
 अष्टि *f.* (औद्भिदी) kernel, stone (of a fruit)
 अष्टीन्य *n.* (रसायन) octane
 अष्टिफल *n.* (औद्भिदी) drupe
 अष्टीला *f.* pebble
 अष्टीलाभाण्ड *n.* pebbleware
 अष्टीवत् *m.* (प्राणिकी) knee-cap = patella = kneecap
 अष्टीवत्-*mfn.* patellar
 असंयम *m.* abandonment
 असंयुक्त *mfn.* simple, uncombined
 असंयुक्त मण्डकण *m.* (औद्भिदी) simple starch grain
 असंयुक्त वीक्ष *m.* (चाक्षुषी) simple lens
 असंयुत *mfn.* (भैषजिकी) simple
 असंयुत एला-निष्कर्ष *m.* tinctura cardamomi simplex
 असंयुत ग्रन्थि-निस्सार *m.* (भैषजिकी) simple gland extract
 असंयुत जटिला-निष्कर्ष *m.* (भैषजिकी) simple tincture of valerian = tinctura valerianae
 असंयुत जटिला-निष्कर्ष *m.* (भैषजिकी) simple tincture of valerian = tinctura valerianae
 असंयुत जारक *m.* free oxygen
 असंयुत धूप-निष्कर्ष *m.* tinctura benzoini simplex
 असंयुत योन्य-निष्कर्ष *m.* tinctura viburni prunifol. simplex
 असंयुत स्नेहलेप *m.* (भैषजिकी) simple ointment = unguentum simplex
 असंयोज्य *mfn.* (भैषजिकी, आयुर्विद्या) incompatible
 असंयोधी (-इन्) *m.* (सेना) non-combatant
 असंरक्षि बल-संहति *f.* (गणित) non-

conservative system of forces
 असंरक्षी (-इन्) *mfn.* (गणित) nonconservative
 असंरेख *mfn.* (गणित) noncollinear
 असंलक्ष *mfn.* imperceptible
 असंलम्ब *mfn.* unattached
 असंवादी (-इन्) *mfn.* 1 absonant 2 disparate 3 noncorresponding
 असंवादी विन्दु *m.* (चाक्षुषी) disparate points
 असंवाहक *m.* (भौतिकी) non-conductor
 असंवाहन *n.* nonconduction
 असंश्रावित *mfn.* uncoventanted
 असंश्रावित चिकित्साधिकारी (-इन्) uncoventanted medical officer
 असंस्कृत *mfn.* crude, rough, unfinished, unrefined
 असंस्कृत भेषज *n.* crude drug
 असंहत *mfn.* (सेना) extended
 असंहत क्रम *m.* (सेना, नौदल) extended order
 असंहत-प्रयाणम् *n.* (योग्या) open ranks march
 असंकेन्द्र *mfn.* eccentric
 असंकेन्द्रता *f.* eccentricity
 असंक्राम्य *mfn.* not transferable
 असंक्राम्य वस्तु *n.* nontransferable goods
 असंख्य *mfn.* infinite (unlimited number)
 असंगत *mfn.* 1 absurd, incompatible, inconsistent 2 extantaneous
 असंगति *f.* 1 inconsistency 2 irrelevance
 असंचयी (-इन्) *mfn.* (वाणिज्य) noncumulative
 असंचयी पूर्वाधिकार-अंश *m.* noncumulative preference shares
 असंचयी लाभांश *m.* noncumulative dividend
 असकारण *n.* (तर्कशास्त्र) non causa pro causa
 असदृश *mfn.* dissimilar
 असद्भास *m.* paradox
 असनाभिता *f.* (चाक्षुषी) anisometropia
 असतत *mfn.* discontinuous
 असतत-माला *f.* (सांख्यिकी) discontinuous series
 असतत विभेदन *n.* (उद्विकास) discontinuous variation
 असंतानी (-इन्) *mfn.* discontinuous

असंतोषजनक *mfn.* unsatisfactory
 असंतोषप्रद *mfn.* 1 unremunerative, 2 unsatisfactory
 असन्धिदिनाभि *n.* (चाक्षुषी) kryptok
 असफल *mfn.* failed (in exam.)
 असफलता *f.* failure
 अ-संभाजिक *mfn.* (रसायन) anisomeric
 असभ्य *mfn.* primitive
 असम *mfn.* rough, uneven
 असमकशाति = असमकशा-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Embadomonas
 असमतलस्थ, असमन्तली (-इन्) *mfn.* (गणित) noncoplanar
 असमता *f.* disparity, inequality
 असम-पक्षवत् *mfn.* (औद्भिदी) imparipinnate
 असमरूप *mfn.* dissimilar, nonuniform
 असमरूप अभिसरण *n.* (गणित) nonuniform convergence
 असमर्थ *mfn.* (विधि) invalid
 असमवायि कारण *n.* (तर्कशास्त्र) (प्राचीन शब्द) accidental cause
 असमान्तरयुज *m.* trapezium
 असमाप्त *mfn.* unfinished
 असमाप्त प्रसंविदा *f.* unfinished contracts
 असमायोजित शेष *m.* unadjusted balance
 असमाहता *f.* (गणित) disparity
 अ-समितीय *mfn.* (शैलवर्णना) anisometric
 असमूर्तिता *f.* (चाक्षुषी) aniseikonia
 असंपीड्य *mfn.* incompressible
 असंपूर्ण *mfn.* incomplete
 असंपूर्ण पुष्प *n.* (औद्भिदी) incomplete flower
 असंपूर्ण विलेख *m.* (वाणिज्य) inchoate instrument
 असम्बद्ध *adv.* irrespective of
 असम्भव *mfn.* impossible
 असम्भव-क्रिया *f.* (गणित) impossible operation
 असम्भव राशि *m.* impossible quantity
 असमित *mfn.* asymmetric, asymmetrical
 असमिति *f.* asymmetry
 असमितिक *mfn.* asymmetrical
 असमितिक पुष्प *n.* (औद्भिदी) asymmetrical flower
 असमितिक प्रांगार-परमाणु *m.* (रसायन) asymmetrical carbon atom
 असमितिक वीक्ष *m.* (चाक्षुषी) asymmetrical lens
 असमितीय *mfn.* asymmetric, asymmetrical
 असमितीय संश्लेषण *n.* (रसायन) asymmetric synthesis

असंसुख *mfn.* alternate (not opposite as leaves)
 असंसुख-पक्षवत् *mfn.* alternipinnate
 असमेय *mfn.* (गणित) incommensurable
 असम्यक्कार्यता *f.* malfunctioning
 असहकारिता *f.* (प्राणिकी) incoordination
 असहजीवी शाकाणु *m.* (औद्भिदी) nonsymbiotic bacteria
 असहमति *f.* disagreement
 असहमनन *n.* disagree
 असह्य गन्ध *m.* intolerable smell
 असांसद *mfn.* unparliamentary
 असाधारण *mfn.* extraordinary, remarkable
 असाधारण अधिवेशन *n.* extraordinary meeting
 असाधारण संकल्प *m.* extra-ordinary resolution
 असामान्य *mfn.* abnormal
 असामान्य उच्चावचन *n.* (सांख्यिकी) abnormal fluctuations
 असामान्य जीवनचक्र *n.* (जैविकी) abnormal life-cycle
 असार *mfn.* frivolous
 असारभूत *mfn.* nonessential
 असारभूत-सेवा *f.* nonessential service
 असावधान *mfn.* inadvertent
 असावधानतया *adv.* inadvertently
 असावधानता *f.* inadvertence
 अ-सावर्त *mfn.* (भौतिकी) anisotrope
 असावर्तिक *mfn.* (भौतिकी, उद्भिद्-व्यापारिकी, प्राणिकी) anisotropic, anisotropical
 अ-सावर्तिकता *f.* (रसायन) an-isotropy
 असि. (असिकायाति) (प्राणिकी) Tryp. (Trypanosoma)
 असिकाय-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Trypanosoma
 असिकाय-रुजा *f.* (आयुर्विद्या) trypanosomiasis
 असिकायाति = असिकाय-प्रजाति *f.* Schizotrypanum = Trypanosoma
 असिक्त-भूमि *f.* unirrigated land
 असित *mfn.* black, dark
 असित अन्धक *m.* dark blind
 असित-ऊर्णिका *f.* (औद्भिदी) black mould
 असित-कला *f.* (शारीर) membrane of Krause, Krause's membrane
 असित काय *m.* (प्राणिकी) dark bodies
 असित कोष्ठ *m.* (भा-चित्रणा) dark-room
 अस्तित्व क्षेत्र *n.* (शारीर) Cohnheim's areas

असित खदिर *m.* (रंग-देशना) dark catechu
 असित नील *mfn.* dark blue
 असित पर्व *n.* (शारीर) sarcoous element
 असित पीत अतिरिक्त स्नेह-विलेय *m.* (रंग-देशना) dark yellow extra fat-soluble
 असितवधु *m.* (रंग-देशना) dark brown
 असित-वधु लवण *n.* dark brown salt
 असित मूलांघ्रि *m.* (औद्भिदी) Rhizopus niger, Rhizopus nigricans
 असित रक्त *mfn.* dark red
 असित लेप *m.* dark plaster
 असित स्रप *m.* (भा-चित्रणा) dark slide
 असित हरि *m.* (रंग-देशना) dark green
 असिताश्म *m.* (शैलवर्णना) basalt
 -असिति *f.* -nigrin
 असीम *mfn.* 1 absolute 2 free from limit, unbounded
 असीमावद्ध *mfn.* unbounded
 असीमित *mfn.* unlimited
 असीमित देय *n.* unlimited liability
 असीमित देयता *f.* (अर्थशास्त्र) unlimited liability
 असीमित प्रमण्डल *n.* unlimited company
 असीमित भागिता *f.* (अर्थशास्त्र) unlimited partnership
 असीवन *mfn.* seamless
 असुविधा *f.* disadvantage
 असुषव पेय *n.* nonalcoholic beverage
 असुषिर पुंज *m.* (औद्भिदी) solid mass
 असूचनापत्रित *mfn.* nongazetted
 असूत्रिभाजन *n.* (जैविकी) amitosis
 अक्षैकजाभिति *f.* (औद्भिदी) desmid
 अक्षैनिक *mfn.* civil
 अस्तव्यस्त *mfn.* disorderly
 अस्ति- positive
 अस्ति-उपयोगिता *f.* (अर्थशास्त्र) positive utility
 अस्ति-कारण *n.* causa essendi
 अस्ति-गुण *m.* (सांख्यिकी) positive attributes
 अस्तित्व *n.* existence
 अस्ति-परीक्षा *f.* positive test
 अस्ति-प्रकारक *m.* (तर्कशास्त्र) modus ponens
 अस्तिमान् (-मत्) *m.* have *n.*
 अस्तित्वचन *n.* (तर्कशास्त्र) affirm, affirmation
 अस्तित्वाचि पद *n.* (तर्कशास्त्र) positive term
 अस्तित्वाची (-इन्) *mfn.* (तर्कशास्त्र) affirmative, positive
 अस्त्यारम्भक *mfn.* 1 (तर्कशास्त्र) constructive 2 (रसायन) positive

अस्त्यारम्भक उभयापत्ति *f.* (तर्कशास्त्र) constructive dilemma
 अस्त्र *n.* missile, projectile
 अस्त्रक्षेप- ballistic
 अस्त्रक्षेप-निर्दोल *m.* ballistic pendulum
 अस्त्रमार्ग-वक्र *n.* ballistic curve
 अस्त्रशस्त्र *n.* arms
 अस्त्रादि-कोश *m.* (सिना) magazine
 -अस्थ -osteum
 अस्थायि अग्रिम *n.* temporary advance
 अस्थायि ऋण *n.* temporary debt
 अस्थायि-कठोरता *f.* (रसायन) temporary hardness
 अस्थायि-नियुक्ति *f.* temporary appointment
 अस्थायि-परिसम्पत् *f.* (वाणिज्य) floating assets
 अस्थायि-पुंजी *f.* floating capital
 अस्थायि-प्राप्ति *f.* interim receipt
 अस्थायि-अफनदता *f.* (रसायन) temporary hardness
 अस्थायि-वापिकी *f.* (वाणिज्य) temporary annuity
 अस्थायि-व्यवस्था *f.* (अर्थशास्त्र) temporary settlement
 अस्थायि-सम्पत्ति *f.* (वाणिज्य) floating assets
 अस्थायि साम्य *n.* (अर्थशास्त्र) temporary equilibrium
 अस्थायि-स्थापना *f.* temporary establishment
 अस्थायी (-इन्) *mfn.* 1 (वाणिज्य) floating 2 provisional, temporary, unstable
 अस्थायी न्यायाधीश *m.* temporary judge
 अस्थायी बन्ध *m.* (वाणिज्य) temporary bond
 अस्थायी व्यय *m.* provisional expenditure
 अस्थायी समतोल *m.* (भौतिकी) unstable equilibrium
 अस्थायि-सम्पत्ति *f.* (विधि) chattel
 अस्थि *n.* bone, os
 अस्थि-ossi-, ost-, oste-, osteo-, osseo- (bone)
 -अस्थि *n.* -ost-, -osteon
 अस्थि-करण *n.* formation of bones, ossification, ossify
 अस्थिकर्ता (-रु) *m.* ossifier
 अस्थिका *f.* (शारीर) bonelet = ossicle = ossicula
 अस्थि-काय *m.* (शारीर) body of a bone
 अस्थि-कालिमा (-मन्) *m.* (रसायन) bone black = animal black, animal charcoal, bone char, bone charcoal

अस्थिकि *f.* (जीवरसायन) ossein =
ostein
अस्थि-कृत *m.* (प्राणिकी) osteoblast
अस्थिकृत *mfn.* (शारीर) ossified
अस्थिकृति *f.* (दैहिकी) ossification
(formation of bones)
अस्थिकोष *m.* (आयुर्विद्या) osteo-
myelitis = osteitis
अस्थिकोष-गुच्छमोलाणु *m.* Micrococ-
cus of osteomyelitis
अस्थिकोष वेत्राणु *m.* Bacterium
anthroposepticum
अस्थि-कोशा *f.* (प्राणिकी) bone cell
= bone corpuscle
अस्थि-गहन *n.* (शारीर) bony laby-
rinth
अस्थि-घटना *f.* osteo-plasty
अस्थि-चिकित्सा *f.* (आयुर्विद्या) osteo-
pathy
अस्थि-चूर्ण *n.* bone meal
अस्थिजन-तन्तु *m.* (प्राणिकी) osteo-
genic fibres
अस्थि-तालु *n.* bony palate
अस्थि-तैल = पिशुमेल *n.* (रसायन)
Dippel's animal oil = Dip-
pel's oil = bone oil
अस्थिदण्ड *m.* (शारीर) diaphysis,
shaft of bone
अस्थि-दलक *m.* (प्राणिकी) osteo-clast
अस्थिधानी *f.* ossuary
अस्थिपूर्ण *mfn.* bony
अस्थि-प्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) bony pro-
cess
अस्थि-भंग *m.* (शल्य-चिकित्सा) frac-
ture
अस्थि-भर *mfn.* ossiferous
अस्थिभवन *n.* (दैहिकी) ossification
(formation of bone)
अस्थि-भस्म *n.* bone ash
अस्थिभुक् *mfn.* (शारीर) ossivorous
अस्थिभूत *mfn.* (शारीर) ossified
अस्थि-मत्स्य *m.* bony fish
अस्थिमत्स्याः *m. pl.* (प्राणिकी) Osteo-
ichthyes, bony fishes
अस्थिमय *mfn.* bony, osseous
अस्थिमिति *f.* osteometry
अस्थि-मृदुता *f.* (आयुर्विद्या) osteo-
malacia
अस्थिर *mfn.* (वाणिज्य) variable
अस्थिरज्जु *f.* (शारीर) ligament
अस्थिर राशि *m.* variable amount
अस्थिर विपणि *f.* variable market
अस्थिर विषाणु = अस्थिरालर्क विषाणु *m.*
street virus = street rabies
virus
अस्थिरूप *mfn.* osteoid
अस्थिवत् *mfn.* bony, osseous
अस्थिवर्णना *f.* osteography (des-
criptive osteology)
अस्थि-विलयन *n.* (आयुर्विद्या) ossi-

fluence
अस्थि-विलायक *mfn.* (आयुर्विद्या) ossi-
fluent
अस्थिशिर- epiphysial
अस्थि-शुष्क *mfn.* bone-dry
अस्थीयक *m.* ossifier
अस्थीयन *n.* (दैहिकी) ossification
(formation of bones), ossify
अस्थीयित *mfn.* (शारीर) ossified
अस्थुल क्षोद *m.* fine coarse powder
अस्थतिक *mfn.* (भौतिकी) astatic
अस्थतिक सुवाहमान *m.* astatic
galvanometer
अस्थतिक-सूची *f.* astatic needle
अस्थ्यंगार *m.* (रसायन) bone black =
animal black, animal char-
coal, bone char, bone char-
coal
अस्थ्यशना *f.* (आयुर्विद्या) caries of
bone
अस्थ्याम *mfn.* osteoid
अस्नेह-पट्टी *f.* fatfree strip
अस्नेहपीता *f.* (भेषजिकी) taffeta
अस्पष्ट *mfn.* blurred
अस्पष्ट अर्थ *n.* (गणित) implicit fun-
ction
अस्पृश्यता *f.* untouchability
अस्पृश्यता-उत्सादन *n.* abolition of
untouchability
अस्पृष्ट *mfn.* intact
अस्फटारमक *mfn.* noncrystalline
अस्फटि- (रसायन) amorpho- (amor-
phous)
अस्फटित *mfn.* amorphous
(uncrystallized)
अस्फटिता *f.* (रसायन) amorphism
अस्फटी (-इन्) *mfn.* amorphous
(uncrystallized)
अस्फोटी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) inde-
hiscent (fruits)
अस्मत्कालीन *mfn.* contemporary
अस्त्राम्बु *n.* (दैहिकी) plasma
अस्त्राम्बु- plasmato-
अस्त्राम्बुक *mfn.* plasmatic (pertain-
ing to, or of the nature of,
plasma), plasmic
अस्त्राम्बु-कोशा *f.* plasmocyte
अस्त्राम्बु-कोशावृद *m.* plasmocyte
अस्त्राम्बुता *f.* plasma
अस्त्राम्बुमक्ष *mfn.* plasmophagous
अस्त्राम्बुमक्षण *n.* plasmophagy
अस्त्राम्बु-हरण *n.* (आयुर्विद्या) plasma-
phoresis
अस्त्रोदावृद *m.* (आयुर्विद्या) (अस्त्रोद =
अस्त्राम्बु) plasmoma
अस्थिशिर *n.* (शारीर) epiphysis
अस्वफेन्य *mfn.* (रसायन) unsaponi-
fiable
अस्वफेन्य भाग *m.* unsaponifiable
part

अस्वस्थ-दशा *f.* morbid condition
अस्वस्थ मतिष्क *n.* unsound mind
अस्वामिक 1 *mfn.* (विधि) bona
vacantia 2 *n.* waif
अस्वीकरण *n.* disallow
अस्वीकार *m.* (वाणिज्य) renounce
अस्वीकृति *f.* (वाणिज्य) non-accept-
ance, rejection
अस्वीकृति-अनादरण *n.* dishonour
by nonacceptance
अ-हनवः *m. pl.* (प्राणिकी) Agnatha
अहयः *m. pl.* (प्राणिकी) Ophidia
अहरहःकर्म *n.* daily work
अहर्षित *mfn.* unsensitized
अहर्षित पत्र *n.* unsensitized
paper
अ-हस्त *mfn.* amanous
अहिकुनुम-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Euschscholtzia
अहिजिह्व *m.* adder's-tongue
अहिजिह्व-कुल *n.* (औद्भिदी) Ophio-
glossaceae
अहिजिह्व-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Ophio-
glossum
अहित *n.* disadvantage
अहिपुष्प *n.* poppy
अहिफेन *n.* opium
अहिफेनकी *f.* papavarine
अहिफेन-कुल *n.* (औद्भिदी) Papa-
veraceae
अहिफेन-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Rhoea-
dales = Papaverales
अहिफेन-चुक्र *m.* (भेषजिकी) acetum
opii = vinegar of opium
अहिफेनति = अहिफेन-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Papaver
अहिफेन-निष्कर्ष *m.* tincture of
opium = tinctura opii =
laudanum
अहिफेन-पुष्प *n.* (औद्भिदी) opium
poppy
अहिफेन-गृथ *n.* liniment of
opium = linimentum opii
अहिफेनविषिता *f.* (स्वास्थिकी) lauda-
num poisoning
अहिफेनसहित सुरभि खटी-क्षोद *m.*
(भेषजिकी) aromatic powder
of chalk with opium =
pulvis cretae aromaticus
cum opio
अहिफेनी *f.* morphia = mor-
phine, narcotine
अहिफेनी-परीक्षा कृती *f.* morphia
assay bottle
अहिमूल *n.* (भेषजिकी) serpentaria
= serpentaria = serpentariae
rhizoma = serpentaria rhi-
zome = Red River snakeroot
= Texan snakeroot

अहिमूल-निष्कर्ष *m.* tincture of
serpentry = tinctura ser-
pentariae
अहृष्य *mfn.* insensitive
अहास्य *mfn.* irreducible
आ 1 apo 2 β
आ (कोण) β (angle)
आ (परावृत्त प्रमाण) β, b (fraction
reflected)
आ (विशेष अस्तित्वाची) (तर्कशास्त्र) I
आ (आपीतला) (रसायन) Nd (neo-
dymium)
आ (परावर्तन कोण) (भौतिकी) r
(angle of reflection)
आ. (आग्नेयी) S. E. (south east)
आ- β.
-आ *f.* (रसायन) -on = -one
आ अम्ल *n.* beta acid
आंशिक *mfn.* partial
आंशिक उन्द निपीड (द) *m.* partial
pressure of water vapour
(f)
आंशिक गुणनफल *n.* (गणित) partial
product
आंशिक ग्रहण *n.* (ज्योतिष) partial
eclipse
आंशिक-निपीड-नियम *m.* Law of
partial pressures = Dalton's
law
आंशिक परास्थापन *n.* (तर्कशास्त्र)
partial contraposition
आंशिक पृष्ठांकना *f.* partial en-
dorsement
आंशिक भिन्न *m.* (गणित) partial
fraction
आंशिक विषमता *f.* (सांख्यिकी)
partial skewness
आंशिक शोधन *n.* compounding
आंशिक सम्बन्ध *m.* (सांख्यिकी)
partial association
आंशिक सहसम्बन्ध *m.* partial
correlation
आंसिक *mfn.* humeral
आ. क. ख. (भैषजिकी) T. A. B.
आ. क. ख. लम *m.* (आ = आन्त्रज्वर
typhoid) T. A. B. vaccine
आ. क. ख. वि. (भैषजिकी) T.A.B.C.
आकणायम *m.* chondrite
आकन्द *m.* 1 (कन्द = bulb) (आयुर्विद्या)
ampoule 2 (औदभिदी) tuber
आकन्दसदृश *mfn.* tuberous
आकन्दिका *f.* (औदभिदी) tubercle
आकर *m.* quarry
आकर्तन *n.* (अर्थशास्त्र) clipping
आ-कपूर्विक *mfn.* (रसायन) apo-cam-
phoric
आकर्षण *n.* attract, attrac-
tion
आकर्षण-प्रदेश *m.* (जैविकी) directive

sphere = attraction sphere
आकर्ष-नाल *m.* draw-tube
आकलन *n.* (गणित) sum, summate,
summation, summing
आकलनीय *mfn.* (गणित) sum-
mable
आकलायि *f.* (जीवरसायन) canava-
lin
आकलित *mfn.* (गणित) summed
आकलय *n.* (गणित) summand
आकरिमक *mfn.* accidental, casu-
al, haphazard, occasional
आकस्मिक उच्चावचन *n.* (सांख्यिकी) acci-
dental fluctuations
आकस्मिक पोषिता (-च) *m.* (जैविकी)
accidental host
आकस्मिक रिक्तस्थान *n.* casual
vacancy
आकस्मिक रिक्ति *f.* casual vacancy
आकास्य *n.* composition metal
आकाच *m.* enamel
आकाच-आपाक *m.* enamel kiln
आकाचक *m.* 1 enameler 2
(प्राणिकी) ganoin (enamel-like
covering of a ganoid cell)
आकाचकमत्स्याः *m. pl.* (प्राणिकी)
Ganoidei (they have hard
enameled scales)
आकाचकशल्क *m.* (प्राणिकी) ganoid
scale
आकाचकारि अंग *n.* (शरीर) enamel
organs
आकाच-खचन *n.* enamel
आकाचन *n.* enamel
आकाचन-कन्द-तापमान *m.* enamel-
ling oven thermometer
आकाचना *f.* enameling
आकाच-भाण्ड *n.* enamelware
आकाच श्वेत *m.* enamel white
आकाचावरण *n.* enamel
आकाचित *mfn.* enamelled
आ. का. तै. (आसुत काचर-तैल)
(रसायन) D. O. V.
आकार *m.* form, shape
-आकार -form, -oid, -shaped
आकार-प्रत्यास्थता *f.* elasticity of
shape
आकारिकी *f.* (जैविकी) morphology
आकाल *mfn.* blackish
आकाशचारी (-इन्) *m.* (प्राणिकी)
aerial bird
आकाश-नील *mfn.* sky-blue
आकाश-पक्षी (-इन्) *m.* aerial
bird
आकाश-यात्रा *f.* air-travel
आकाशहरितिन *m.* coerulein
आकाशहरिती *f.* coeruleine
आकाशोद्भिद् *f.* (औदभिदी) epiphyte
= aerophyte
आ-किण्वना *f.* zymosis

आकु. (आकुन्तलाणु) V. (Vibrio)
आकुिकुम *n.* rouge
आकुिकुमी *f.* (रसायन) apo-safranine
आकुिचन *n.* flection, flexion
आकुन्तलाणु *m.* Vibrio
आकुञ्जता *f.* (यान्त्र) camber
आकुञ्जन *n.* (यान्त्र) camber *vb.*
आकुञ्जित *mfn.* (यान्त्र) cambered
आकुलकी *f.* (जैविकी) brucine
आकृति *f.* feature, figure, form
आकृषि *m.* 1 (भौतिकी) pulley
2 (चाक्षुषी) trochlea = pulley
आकृषि-चेता *f.* (प्राणिकी) pathetic
nerve = trochlear nerve
आकृषि-पेशी = उत्तर-तिरश्ची *f.* (शरीर)
trochlear muscle = superior
oblique
आकृष्ट-विम्ब विद्युन्मान *m.* (भौतिकी)
attracted-disc electrometer
आकोच *m.* flexure
आकोचक *m.* (शरीर) flexor
आकोचक-पेशी *f.* (शरीर) flexor
muscle
आकोचन-बिन्दु *m.* (प्राणिकी) con-
striction point
आक्रमण *n.* attack, invasion
आक्रमण-अंग *n.* (प्राणिकी) organs of
offence
आक्रमण-शस्त्र *n.* weapon of offence
आक्रामी जीवाणु *m.* (प्राणिकी) attack-
ing organism = intruding
organism
आकिलन्न *mfn.* humid
आकलेद *m.* humidity
आकलेद-कन्दु *m.* humidity oven
आकलेदन *n.* humidate, humidify
आकवाय *m.* (भैषजिकी) infusion,
infusum
आकवायजवर्ग *m.* (प्राणिकी) Infusoria
आक्ष *mfn.* axial
आक्षक- claviculo-
आक्ष ककाल *m.* (प्राणिकी) axial
skeleton
आक्ष परिभ्रमण *n.* (प्राणिकी) axial
rotation
आक्षरण *n.* milling
आक्षीर *n.* (औदभिदी) latex
आक्षीर-पादप *m.* (औदभिदी) milk-
weed
आक्षीर-कोशा *f.* (औदभिदी) lactiferous
cell = laticiferous cell
आक्षीर-वाहिनी *f.* laticiferous
vessel
आक्षीर (-इन्) *mfn.* laticiferous
आक्षरण *n.* mill
आक्षुरित *mfn.* milled
आक्षुरित तट *n.* milled edge
आक्षुरित शिरस *n.* milled head
आक्षेप-अभ्युक्ति *f.* offensive re-
marks

आक्षेप-भाषा *f.* offensive language
 आक्षेप-वचन *n.* offensive expressions
 आक्षेप-शब्द *m.* offensive words
 आखनक *m.* (प्राणिकी) mole
 आखनक-वंश *m.* (प्राणिकी) Talpidae
 आखनकाति = आखनक-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) Talpa
 आखु *m.* rat
 आखुदंश ज्वर *m.* (आयुर्विद्या) rabbit fever
 आखुदंश ज्वर अधिकुन्तलाणु *m.* Spirillum minus = Spirochaeta morsus
 आखुमारी आन्त्रज्वराणु *m.* Bacillus muripestifer
 आखुरण *n.* scratch
 आखेट *m.* 1 hunting 2 prey
 आखेट-अवस्था *f.* hunting stage
 आखेट-भूमि *f.* hunting ground
 आखेट-वन *n.* hunting forest
 आखेटाटवी *f.* hunting forest
 आखेटिक *m.* hound
 आखेटिपतंग *m.* ichneumon fly
 आखेटिपतंगवश *m.* Ichneumonidae
 आगणक *m.* estimator
 आगणन *n.* appraisalment, appraise *vb.*, estimate *vb.*, estimation
 आगणन-पत्र *n.* appraisalment sheet
 आगणित *mfn.* estimated
 आगणित परिच्यय *m.* estimated cost
 आगणित भारमोक *m.* estimated tare
 आगणित समन्वीक्षा *f.* (ratio of observed deviation to estimated standard deviation) (सांख्यिकी) *t.* test
 आगत उन्मृदा *f.* (औद्भिदी) transported soil
 आगत वीजक *n.* (वाणिज्य) inward invoice
 आगन्तुक 1 *mfn.* (औद्भिदी) adventitious 2 *m.* (आयुर्विद्या) rale
 आगन्तुक-कलिका *f.* (औद्भिदी) adventitious bud
 आगन्तुक क्षेत्र *n.* (भौतिकी) stray field
 आगन्तुक-ध्वनि *m.* (आयुर्विद्या) rale
 आगम *m.* revenue
 आगम-अभिलेख-कोष्ठ-प्राप्ति *f.* revenue record room receipts
 आगम-कर *m.* revenue duty, revenue tax
 आगम-गण *m.* board of revenue
 आगम तथा निगम *m.* receipt and issues
 आगम तथा व्यय *m.* revenue and

expenditure
 आगम तथा शोधन *n.* receipt and payments
 आगम-परिहार *m.* remission of revenue
 आगम-प्रवेश्य-कर *m.* (अर्थशास्त्र) revenue import duty
 आगम-लाभ *m.* (वाणिज्य) revenue profit
 आगम-वण्टन *n.* distribution of revenue
 आगम शीर्षक *n.* heads of revenue
 आगम-संचित-प्रणीवि *f.* revenue reserve fund
 आगम-समिति *f.* board of revenue
 आगम वण्टन *n.* (सांख्यिकी) T² distribution
 आग. समन्वीक्षा *t.* test
 आगामि तथा वहिर्गामि धन *n.* receipts and outgoings
 आगामी (-रत्न) *mfn.* following, proximo (prox.)
 आगामी मास *m.* proximo (prox.)
 आगार *n.* 1 (वाणिज्य) depot 2 house
 आगार-गोधिका *f.* (प्राणिकी) gecko
 आगारगोधिका-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Gekko
 आगारगोधिका-वंश *m.* (प्राणिकी) Gekkonidae
 आगार-माण्ड *n.* (वाणिज्य) stores (goods in store)
 आगोप *m.* insurance
 आगोपक *m.* insurer
 आगोपन *n.* insure
 आगोप-प्रणीवि *f.* insurance fund
 आगोप-प्रव्याजि *m.* insurance premium
 आगोप-लेख *m.* insurance policy
 आगोप-संचित *f.* insurance reserve
 आगोपित *mfn.* insured
 आगोप्य *mfn.* insurable
 आगोप्य हानि-भय *n.* insurable risk
 आगोप्य हित *n.* insurable interest
 आग्नि *m.* firemen
 आग्नेय *mfn.* 1 igneous 2 south eastern
 आग्नेय-दक्षिणा *f.* (आ. द.) south of south-east
 आग्नेय-पूर्वा *f.* (आ. पू.) east of southeast (S. E. E.)
 आग्नेयी *f.* (आ) south east
 आग्रह *m.* insistence
 आग्रहण *n.* insist
 आघट्टन *n.* (गणित) impinge (संघट्टन collide)
 आघात *m.* (भौतिकी) stroke
 -आघात *m.* (आयुर्विद्या) -plegia = -plegy
 आघूर्णन *n.* whirl

आघृती *f.* (जैविकी) butyn
 आंकिक *m.* accountant
 आंकिकी *f.* 1 science of numbers 2 (गणित) theory of numbers
 आंगल *mfn.* English
 आंगल-भारतीय *m.* Anglo-Indian
 आंगल-भारतीयभाषा-माध्यमिक-पाठशाला *f.* anglo-vernacular middle school
 आंगल-मन्त्रसभा *f.* English cabinet
 आंगलमुद्रा *f.* sterling
 आंगलमुद्रा-उद्धार *m.* sterling loans
 आंगलमुद्रा-भूत *n.* sterling debt
 आंगलमुद्रा-देशसमूह *m.* sterling block
 आंगलमुद्रा प्रतिभूति *f.* sterling securities
 आंगलमुद्रा-विनिमय *m.* sterling exchange
 आंगलमुद्रा-विनिमय-प्रमाण *m.* sterling exchange standard
 आंगलमुद्रा-विपत्र *n.* (अर्थशास्त्र) sterling bills
 आंगलमुद्रा-समूह *m.* sterling block
 आंगल-संसद् *f.* Parliament
 आंगुलिक *m.* fingerling
 आ. च. अ. (आधार चयापचय अर्थ) B. M. R. (basal metabolism rate)
 आचरण *n.* behave, behaviour, character, practice
 आचरण-पुस्तक *n.* character book
 आचरण-प्रकार *m.* behaviour pattern
 आचल रुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus radiatus
 आचर *m.* 1 custom, practice 2 moral
 आचार-नियम *m.* rule of conduct
 आचारनीतिशास्त्र *n.* ethics
 आचारिक *mfn.* moral
 आचारिक तथा आर्थिक असंयम *m.* moral and material abandonment
 आचूर्ण *n.* gypsum
 आचूर्ण-गुप्सो-
 आचूर्ण-घटित *m.* gypso-plast
 आचूर्ण-संच *m.* plaster cast
 आचूषण *n.* soak
 आचैतेनी *f.* (रसायन) stovaine
 आच्छद *m.* (प्राणिकी) integument = tegument, tegmen
 आच्छद-उत्सर्गनालिका *f.* (प्राणिकी) integumentary nephridium
 आच्छादन *n.* superpose, superposition
 आच्छादन-प्रतिमूर्ति *f.* (प्राणिकी) superposition image
 आच्छादित *mfn.* (औद्भिदी) superposed
 आच्छाद्य *mfn.* superposable

आच्छाया *f.* (चाक्षुषी) penumbra
 आ-जिन्य *n.* β-oxan
 आजीवन गोपलेख *m.* whole life policy
 आजीवननिवासन *n.* transportation for life
 आजीवन भाटकी (-इन्) *m.* life tenant
 आजीवन-भूमिपत्ति *f.* life estate
 आजीवन-वार्षिक-वृत्ति *f.* life annuity
 आजीवन-सम्पत्ति *f.* (विधि) life estate
 आजीवन स्वार्थ *m.* (अर्थशास्त्र) legal interest
 आजीविका *f.* livelihood
 आशापालन *n.* obey
 आ. ज्व. (आन्त्रज्वराणु) E.
 आञ्जवर्धनी *f.* (भैषजिकी) apolysin
 आंजन *mfn.* (रसायन) stibial = antimonial
 आंजन क्षोद *m.* antimonial powder = pulvis antimonialis = James' powder
 आंजन-द्राक्षिरा *f.* (भैषजिकी) antimonial wine = wine of antimony = vinum antimonile
 आंजन रजत *n.* antimonial silver
 आंजनसीस *n.* (रसायन) antimonial lead = hard lead
 आंजन हियुल *n.* (रसायन) antimonial vermilion
 आढक *m.* (ढ) gallon (gal., gall.)
 आढक प्रतिपुरुष प्रतिदिन (भूसेचन) gallons per head per day
 आणि-जंवा *f.* (यान्त्र) shank of pin
 आप्त्वीक्ष *mfn.* microscopic
 आतंच *m.* clot
 आतचक *m.* coagulant, coagulator
 आतचन *n.* coagulate, coagulation
 आतंच-मान *m.* coagulo-meter
 आतचि *f.* (जीवरसायन) coagulin = precipitin
 आतचित *mfn.* clotted, coagulated
 आतचित पिण्ड *m.* coagulated mass, coagulum
 आतंची (-इन्) *mfn.* coagulative
 आतंचेद *m.* (जीवरसायन) coagulase
 आतंच्य *mfn.* coagulable
 आतंच्यता *f.* coagulability
 आतत *mfn.* tense
 आततत्व *n.* tenseness, tensity
 आतति *f.* tension
 आतति-अवस्था *f.* (सेना) state of tension
 आततिक *n.* (अभियन्त्रणा) stay (a tie-piece to contribute stiffness) = tie
 आतति-साधित्र *n.* tension apparatus
 आतनन-परीक्षित्र *n.* tensile tester
 आतनन-प्रत्यावर्तन *n.* (यान्त्र) tensile stress

आतनन-बल *n.* (भौतिकी) tensile strength
 आतन्य *mfn.* tensible, tensile
 आतन्यता *f.* tensibility, tensibleness, tensility, tensileness
 आतप-अभिलेखक *m.* sunshine recorder
 आतप-उपनेत्र *n.* sunglasses
 आतपत्र, आतप-वर्ष *n.* (आत्मवह) sun visor
 आतपाघात *m.* (आयुर्विद्या) sun-stroke
 आतसिक *mfn.* (रसायन) linoleic
 आतसिक अम्ल *n.* linoleic acid
 आतसिन *m.* (रसायन) linolein
 आतसीय *n.* (रसायन) linoleate
 आतस्य *n.* linoleum
 आतानक *m.* tensor
 आतानी (-इन्) *mfn.* tensive
 आतान्द्रौरैल *n.* (रसायन) chavibetol (an oily liquid in the essential oil from the leaves of the betel pepper)
 आतान्न दण्डाणु *m.* Bacillus rubellus
 आतिय *n.* (रसायन) mellone
 आतियेय *n.* (रसायन) mellonide
 आतु *m.* (रसायन) -ium (-um)
 आत्म- auto-, automatic, self-
 आत्म-उद्धावन जलाशय *m.* automatic flushing tank
 आत्म-उद्धावना *f.* automatic flush
 आत्मग *mfn.* automatic
 आत्मग-अभियन्त्रणा *f.* automotive engineering
 आत्मगता *f.* (प्राणिकी) automatism
 आत्मगत्व *n.* (प्राणिकी) automatism
 आत्म-छेद *m.* (जैविकी) autotomy
 आत्म-जारण *n.* (जीवरसायन) autoxidize
 आत्मजारयिता (-रु) *m.* autoxidator
 आत्मधृत *n.* (विधि) freehold
 आत्मधृतजीवन-वाद *m.* (प्राणिकी) vitalistic theory = vitalistic view of life
 आत्मधृत-सम्पत्ति *f.* (विधि) freehold property
 आत्मना-गति *f.* (प्राणिकी) automatic movement
 आत्म-निर्भर *mfn.* (अर्थशास्त्र) selfsufficient
 आत्म-नोद्य *mfn.* (सेना) selfpropelled
 आत्मपचन *n.* (जीवरसायन) autolyse
 आत्म-पचना *f.* (जीवरसायन) autolysis
 आत्मपचनीय *mfn.* autolytic
 आत्मपाचन *n.* (जीवरसायन) autolyse
 आत्मपाचि *f.* autolysin
 आत्मपाचित *n.* (जीवरसायन) auto-

lysate
 आत्म-पूरक द्रवमि *m.* self-filling burette
 आत्म-पोषी (-इन्) *mfn.* (उद्भिद्-व्यापारिकी) autotrophic
 आत्मप्रतीकारी (-इन्) *mfn.* immunifacient
 आत्मवलि *m.* martyr
 आत्मवलिदाता (-रु) *m.* martyr
 आत्मराजता *f.* autarchy
 आत्म-रोगाणुभक्ष *m.* (शाकाण्विकी) auto-bacteriophage
 आत्मलस *m.* (आयुर्विद्या) auto-vaccine
 आत्म-वेटक *m.* automatic distributor
 आत्मवह *m.* automobile
 आत्मवह उद्देहन *n.* automobile lift
 आत्मवह गंत्र *n.* automobile engine
 आत्म-व्याघाती (-इन्) *mfn.* (तर्कशास्त्र) self-contradictory
 आत्म-शोण-चिकित्सा *f.* (आयुर्विद्या) auto-hemo-therapy
 आत्म-संयम *m.* self-restraint
 आत्म-संपीडन-रीति *f.* (भौतिकी) Faraday's method
 आत्मागद *m.* (वैहिकी) Australian vermilion = chrome red
 आत्मागद = chromic acid
 आत्मागद = autocoid
 आत्माध्यर्षण *n.* self-surrender
 आत्मावेजन *n.* (रसायन) autocatalysis
 आत्मीय *mfn.* private
 आ. द. (आग्नेय दक्षिणा) S. E. S.
 आदग्ध *mfn.* (रसायन) charred (incompletely burnt)
 आत्त *mfn.* accepted
 आदर *m.* honour, respect
 आदरण *n.* vb. honour
 आदरार्थ शोधन *n.* payment for honour
 आदरार्थ स्वीकरण *n.* (वाणिज्य) acceptance for honour
 आदर्श *m.* 1 ideal 2 (तर्कशास्त्र) norm 3 pattern 4 *mfn.* ideal
 आदर्श-दशा *f.* ideal condition
 आदर्श द्राक्षिरा वल्य *n.* (भैषजिकी) ideal wine tonic
 आदर्श मुद्रा *f.* (अर्थशास्त्र) ideal money
 आदर्श वाति *m.* (भौतिक रसायन) perfect gas = ideal gas
 आदर्शावली *f.* (भूगोल) Aravali
 आदर्श विज्ञान *n.* normative science
 आदहन *n.* char (to burn incompletely)
 आ-दा *f.* (भौतिकी) in-put

आदाता (-त्) *m.* 1 (वाणिज्य) payee, receiving 2 (विधि) receiver 3 (प्राणिकी) receptor
 आदाता आश्रय = आश्रय *m.* receiver
 rest = cradle
 आदाता प्रदेश *m.* (औद्भिदी) receptor region
 आदात्त अंग *n.* receptor organ
 आदात्त-कोश *f.* (दैहिकी) receptor cell
 आदात्त-लेखायाम् (वाणिज्य) account payee (credit to the payee's account)
 आदात्त सिध्म *n.* receptor patches
 आदात्त-स्थात्र *n.* (नभोवाणी) receiving station
 आदान *n.* 1 accept, acceptance, receive 2 (नभोवाणी) reception
 आदान- receiving
 आदान-प्रदेश *m.* (औद्भिदी) receptive spot
 आदान-साधित्र *n.* receiving apparatus
 आदा-प्रदे समे input is equal to output
 आदायि तल *n.* (औद्भिदी, प्राणिकी) receptive surface
 आदारुण *n.* (आयुर्विद्या) favus
 आदारुणक (आदा.) *n.* (शाकाण्विकी) (आदारुण = favus, -क = कवक fungus) Achorian
 आदारुहरिद्रा-निष्कर्ष *m.* tinctura berberidis
 आदारुहरिद्रावल्क *m.* (मेषजिकी) barberry bark = berberidis cortex
 आदि 1 *m.* beginning 2 *mfn.* first, primordial, initial
 आदि-कल्प *m.* (भौतिकी) Archezoic
 आदि-कारण *n.* (तर्कशास्त्र) first cause
 आदि-जात *mfn.* primordial
 आदि-दारु *n.* proto-xylem
 आदि-दृति *f.* (औद्भिदी) primordial utricle
 आदिनियमतः ab initio (from first) principles
 आदिनूतनयुग *n.* (भौतिकी) Oligocene
 आदि प्रनियम *m.* (गणित) first principle
 आदि-प्रार *m.* Bowman's capsule
 आदि बिन्दु *m.* 1 (गणित) pole (of polar coordinates) 2 zero-point
 आदिम *mfn.* initial
 आदियोनि *m., f.* (औद्भिदी) archegonium
 आदियोनि-उद्भिदः *f. pl.* (औद्भिदी) Archegoniatae
 आदियोनि-मान् *m.* (औद्भिदी) archegoniate

आदियोनि-वृन्त *n.* (औद्भिदी) archegoniophore
 आदियोनि-वेद्य *n.* (औद्भिदी) archegonial chamber
 आदि-रेखा *f.* (गणित) initial line
 आधक्क *m.* (Hindi धक्का) push
 आधक्कन *n.* push
 आधक्कान्वायुक्ति *f.* (यान्त्र) push fit
 आधरण *n.* cupboard
 आधान *n.* container
 आधायक *m.* (विधि) pawner
 आधार *m.* 1 backing, support 2 base = basis, foundation, ground 3 foot 4 key = solution 5 (गणित) base = end
 आधार- basal, basilar
 आधारक *m.* 1 (औद्भिदी) matrix 2 supporter
 आधार-ककाल *m.* (आत्मवह) framework
 आधार-कणिका *f.* blepharoplast
 आधार-कला *f.* 1 basic art 2 (शारीर) basilar membrane
 आधार-काय *m.* (वैदिकी) basal body
 आधार-काल *m.* (सांख्यिकी) basic period
 आधार-चयापचय *m.* (जीवसायन, दैहिकी) basal metabolism
 आधार-चयापचय-अर्ध *m.* (आ. च. अ.) basal metabolism rate
 आधारतत्त्व *n.* (तर्कशास्त्र) postulate
 आधार-पट्ट *m.* 1 (प्राणिकी) basal plate 2 (यान्त्र) sole plate = bedplate
 आधार-पदार्थ *m.* (औद्भिदी) ground-age substance
 आधार-परिवर्तन *n.* (सांख्यिकी) change of base
 आधार-पाठशाला *f.* basic school
 आधार-पाठशाला-शिक्षक *m.* basic school teacher
 आधार-फलक *m.* base-board
 आधार-बिन्दु *m.* 1 cardinal point 2 (भौतिकी) point of support
 आधार-बिम्ब *m.* basal disc
 आधार-भित्ति *f.* (औद्भिदी) basal wall
 आधारभूत *mfn.* basic, cardinal, fundamental
 आधारभूत आवश्यकता *f.* (जीवसायन) basic needs
 आधारभूत नियम *m.* basic principles
 आधारभूत प्रनियम *m.* fundamental principles
 आधारभूत सिद्धान्त *m.* basic principles
 आधार-मूल *n.* fundamental root
 आधार-रेखा *f.* (गणित) base line
 आधारलम्ब *mfn.* (औद्भिदी) basal
 आधारलम्ब *mfn.* (औद्भिदी) basifixed
 आधारलम्ब जरायुन्यास *m.* (औद्भिदी)

basal placentation
 आधारलम्ब परागशय *m.* basifixed anther
 आधार-दलय *m.* (अयोमार्ग) foundation ring
 आधार-शलाका *f.* supporting rod
 आधार-शिक्षण *n.* basic education
 आधार-शिल्प *n.* basic craft
 आधार-स्थूलक *m.* (प्राणिकी) placode
 आधारान्वेषण *n.* basic research
 आधारिक *mfn.* basal
 आधारी (-इन्) *m.* (आत्मवह) 1 frame 2 *mfn.* supporting
 आधारी ककाल *m.* (प्राणिकी) supporting frame
 आधारीत *f.* (कृति tissue) (औद्भिदी) fundamental tissue = ground tissue
 आधारीयोग *m.* (वाणिज्य) basic industry = key industry
 आधि *m.* (विधि) pawn
 आधिकौषिक *m.* (वाणिज्य) banker
 आधिक्य *n.* 1 (वाणिज्य) balance 2 excess, surplus 3 preponderance
 आधि-मध्यम *m.* pawn-broker
 आधिमान् *m.* (विधि) pawnnee
 आधिबिद्य-परिषद् *f.* academic council
 आधिसभ्य *mfn.* senatorial = senatorian = senatorical
 आधिस्वनिक *mfn.* (भौतिकी) supersonic
 आधिस्वनिकी *f.* (भौतिकी) supersonics = ultrasonics
 आधुनिक *mfn.* modern
 आधूसर *mfn.* grayish, greyish
 आधूसर श्वेत *m.* grayish white
 आधृत *mfn.* supported
 आधेय *n.* contents
 आध्मात *mfn.* inflated
 आध्मान *n.* inflate
 आध्यापिकी *f.* pedagogy
 आदिवासी-जाति *f.* aboriginal tribe
 आदिवासी (-इन्) 1 *m.* aborigine 2 *mfn.* aboriginal
 आदिवृक्क-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) archinephric duct
 आदिश *m.* (गणित, भौतिकी) scalar
 आदिष्ट *mfn.* substituted
 आदिष्ट घनादेश *m.* order cheque
 आदि-सिद्धान्त *m.* (गणित) first principle
 आदि-स्थिति *f.* (गणित) initial position
 आदि-स्पन्द *m.* (तेजोन्वेष) initial pulse
 आदिस्फटिज *m.* crystallite
 आदृत *mfn.* honoured

आदृत विपत्र *n.* (वाणिज्य) honoured bill
 आदेय *mfn.* acceptable
 आदेयता *f.* acceptability, acceptableness
 आदेश *m.* 1 commutation 2 order 3 (रसायन) substitute, substitution
 आदेशक *m.* (विधि) process
 आदेशक-प्रज्ञापक *m.* process-server
 आदेशकर *m.* orderly
 आदेशक-वाहक *m.* process-server
 आदेश-गूढलेख *m.* substitution cipher
 आदेश-देय *mfn.* payable to order
 आदेशन *n.* 1 commute 2 substitute
 आदेशलेख *m.* (विधि) writ
 आदेश-संयोग *m.* (रसायन) substitution compound
 आदेशी (-इन्) *m.* (रसायन) substituent
 आदेश्य *mfn.* commutable
 आद्य *mfn.* 1 first, initial, primary, primordial 2 (भौमिकी) Archean 3 aboriginal 4 primitive
 आद्य-proto-
 आद्य-उत्सर्ग-नालिका *f.* proto-nephridium
 आद्य-कल्प *m.* (भौमिकी) Archean, Archean era
 आद्यकल्प-शैल-वर्ग *m.* (भौमिकी) Archean group of rocks
 आद्यकि *f.* (जीवरसायन) edestin
 आद्यकिन्य *n.* (जीवरसायन) edestan
 आद्य गुण *m.* (औद्भिदी) primitive character
 आद्यग *n.* (चाक्षुषी) beginning organ
 आद्यजाल *n.* (प्राणिकी) archedictyon
 आद्यतालुका. *m. pl.* (प्राणिकी) Palaeognathae (birds having a primitive type of palate)
 आद्यधोवाही (-इन्) *m.* (औद्भिदी) protophloem
 आद्यन्त्र *n.* (प्राणिकी) archenteron
 आद्यन्त्र-गुहा *f.* archenteric cavity
 आद्यन्त्र-सुख *n.* (प्राणिकी) blastopore
 आद्यपक्षि-प्रजाति *f.* (पुरा-सात्त्विकी) Archaeopteryx
 आद्यपरिपुष्पाः *m. pl.* (औद्भिदी) Archichlamydeae
 आद्य प्रकार *m.* (प्राणिकी) primitive type
 आद्य प्रविभाजी (-इन्) *m.* (औद्भिदी) primary meristem
 आद्य-मध्यरम्भ *m.* (औद्भिदी) proto-stele

आद्य-युग *n.* Precambrian period = Archean period
 आद्य रुण्ड *m.* (प्राणिकी) protocorm
 आद्यरूप *n.* prototype
 आद्य-रोहिकोशा *f.* (प्राणिकी) primordial germ cell
 आद्यवलय-वर्ग *m.* (प्राणिकी) Archannelida
 आद्यविकास *m.* (जानपद विमान-चालन) initial development
 आद्यविहंग-प्रजाति *f.* (पुरा-सात्त्विकी) Archaeornis
 आद्यविहंगानुवर्ग *m.* (पुरा-सात्त्विकी) Archaeornithes
 आद्य-शंकु-कोशा *f.* primitive cone cells
 आद्यशीर्ष *n.* protocephalic
 आद्य सुषुव *m.* primary alcohol
 आद्यस्तर *m.* (प्राणिकी) germinal layer = stratum = germ layer
 आद्योद्भिदः *f. pl.* Protophyta
 आनतदर्पण दूरक्ष *m.* Herschel telescope
 आनति-मात्रा *f.* (गणित) amount of turning
 आनन्त्य *n.* (गणित) infiniteness, infinity
 आनन्त्य *mfn.* flexible
 आनन्त्य घृषि-रज्जु *f.* flexible cord of rubber
 आनन्त्य प्रथ *m.* flexible spatula
 आनन्त्य संविधान *n.* (राजनीति) flexible constitution
 आनाह *m.* constipation
 आनियम *m.* (प्रशासन) regulation
 आनियमन *n.* regulate, regulation
 आ. निर्. (आहता निर्देश्यः) (अधिकोषण) R/D (refer to drawer)
 आनिर्णयन *n.* judge
 आनीत *mfn.* (वाणिज्य) brought
 आनील *mfn.* bluish
 आनील नीललोहित *mfn.* bluish violet
 आनीलारुण *mfn.* purplish
 आनीलारुण रक्त *mfn.* purplish red
 आनुतोषिक *n.* gratuity
 आनुनासिक्य *n.* (आयुर्विद्या) rhinolalia
 आनुपातिक *mfn.* proportional
 आनुपातिक अर्थ *m.* (अर्थशास्त्र) proportional rate (of tax)
 आनुपातिक कर *m.* (अर्थशास्त्र) proportional tax
 आनुभविक *mfn.* empirical
 आनुभविक नियम *m.* (तर्कशास्त्र) empirical law
 आनुभविक मनोविज्ञान *n.* empirical psychology
 आनुमानिक *mfn.* deductive

आनुशासिक *mfn.* disciplinary
 आनुशासिक कर्म *n.* disciplinary action
 आनुपगिक *mfn.* incidental
 आनुपगिक व्यय *m.* incidental charges
 आनुष्ठानिक *mfn.* 1 ceremonial 2 practical
 आनैरवष्ट *n.* (रसायन) sovprene
 आन्तर *mfn.* inner, inside, internal, medial
 आन्तर अन्त *n.* inner end
 आन्तर-अर्थव्यवस्था *f.* internal economics
 आन्तर आन्त्रप्रदान *m.* internal intestinal plexus
 आन्तरक *n.* core
 आन्तरक क्षेत्रफल *n.* core area
 आन्तर कर्ण *m.* internal ear
 आन्तर कवच *n.* (औद्भिदी) intine
 आन्तर कोण *m.* (गणित) internal angle
 आन्तर-गणन *n.* interpolation
 आन्तररुहिनः *m. pl.* Coelenterata
 आन्तर-शैवी *f.* (प्राणिकी) internal carotid
 आन्तर-चोल *m.* tunica interna
 आन्तरजात *mfn.* (औद्भिदी) endogenous
 आन्तरजात उद्भव *m.* (औद्भिदी) endogenous origin
 आन्तर जालिका-स्तर *m.* (प्राणिकी) inner molecular layer
 आन्तरतटदन्त *m.* (प्राणिकी) pleurodont
 आन्तरतम *mfn.* innermost
 आन्तरतम अभिवार *m.* (गणित) innermost bracket
 आन्तरतम स्तर *m.* inner layer
 आन्तरदेशक *m.* (रसायन) internal indicator
 आन्तर नासाविवर *m.* (प्राणिकी) internal nare
 आन्तर पुष्प *n.* inner flower
 आन्तर प्रत्यास्थ *m.* elastica interna
 आन्तर-वृद्धती *f.* vastus internus
 आन्तर मांसल स्तर *m.* (औद्भिदी) inner fleshy layer
 आन्तर सागं *m.* internal passage
 आन्तर-रचना *f.* internal structure
 आन्तर रोष *m.* (भौतिकी) internal resistance
 आन्तर वाहिनी-प्रदाय *m.* (औद्भिदी) inner vascular supply
 आन्तर व्यासमि *m.* inside caliper
 आन्तर-सीमा-कला *f.* (प्राणिकी) inner limiting membrane
 आन्तर स्तंभ *m.* (वाणिज्य) inner column

आन्तरार्धक *m.* (गणित) internal bisector
 आन्तजैविकी *f.* entozoology
 आन्तभूमि *mfn.* subterranean
 आन्त्र *n.* intestine = bowel
 आन्त्र-intestinal
 आन्त्र-असमकश *m.* Embadomonas intestinalis
 आन्त्र-उण्डुक *m.* instestinal caecum
 आन्त्रक *n.* (शारीर) small intestine
 आन्त्रकांकुशसुख *m.* Ancylostoma duodenale
 आन्त्र-कुल्या *f.* gut (intestinal canal)
 आन्त्रकुल्या नानारूप *m.* Proteus morgani = Morgan's bacillus
 आन्त्रकृमिघ्न *mfn.* (आयुर्विद्या) anthelmintic
 आन्त्रकोषीय दण्डाणु *m.* Bacillus proteus septicus
 आन्त्रकोष *m.* (आयुर्विद्या) enteritis
 आन्त्रकोष अन्नविषाणु *m.* Salmonella enteritidis = Bacillus enteritidis = Gartner's bacillus
 आन्त्रकोष माला-नोलाणु *m.* Streptococcus enteritis
 आन्त्रगोलाणु *m.* Enterococcus
 आन्त्र जन्तुकामरूपी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) Iodamoeba buetschlii or williamsi = Endolimax williamsi = Entamoeba williamsi = Entamoeba buetschlii = iodine cysts
 आन्त्रजीवाति = आन्त्रजीव-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Enterobius
 आन्त्र-ज्वर *m.* enteric fever, typhoid fever, typhoid
 आन्त्रज्वर दण्डाणु *m.* Bacillus typhi = Bacillus typhosus
 आन्त्रज्वर रोगाणुमक्ष *m.* typhoid bacteriophage
 आन्त्रज्वराणु *m.* (आ. ज्व.) Eberthella (E.)
 आन्त्रज्वराभ आन्त्रज्वराणु *m.* Eberthella belfastiensis
 आन्त्रज्वराभ आन्त्रवेत्राणु *m.* Escherichia khartoumense
 आन्त्रज्वराभीय नानारूप *m.* Proteus pseudovaleric
 आन्त्रतन्त्रित *f.* catgut
 आन्त्रतन्त्रित दण्डाणु *m.* catgut bacillus
 आन्त्र दण्डाणु *m.* Bacillus coli
 आन्त्रन्यासार्गि *f.* (प्राणिकी) enterocrinin
 आन्त्र-पट्टी *f.* (शारीर) taenia coli
 आन्त्रपुच्छ *n.* (शारीर) appendix caeci = appendix vermiformis
 आन्त्रपुच्छकोष *m.* (आयुर्विद्या) appendi-

citis
 आन्त्र-प्रविकार *m.* (जीवरसायन) enterokinase
 आन्त्रप्रविकारि *f.* (प्राणिकी) enterokinin
 आन्त्रमक्षी-अनुवंश *m.* (प्राणिकी) Gastrophilinae
 आन्त्रमक्षी-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Gastrophilus
 आन्त्र-महानीला *f.* (शारीर) portal vein
 आन्त्र-रूप *m.* intestinal juice
 आन्त्ररूपि *f.* (जीवरसायन) erepsin
 आन्त्र-रस *m.* (दैहिकी) succus entericus
 आन्त्ररूप दण्डाणु *m.* veil bacillus
 आन्त्र-रोगसंचार *m.* (भैषजिकी) intestinal infection
 आन्त्र-रोगाणुमक्ष *m.* intestinal bacteriophage
 आन्त्रवल्क *m.* (भैषजिकी) coto = paracoto
 आन्त्रवल्क-निष्कर्ष *m.* tincture of coto = tinctura coto
 आन्त्रवेत्राणु (आ. वे.) *m.* Escherichia (Esch.)
 आन्त्रव्रणिय दण्डाणु *m.* Bacillus satellitus
 आन्त्र-शिखी *m.* Trichomonas confusa = Trichomonas intestinalis
 आन्त्रश्लेष्मकलात्रयि *m.* (शारीर) crypts of Lieberkuhn = glands of Lieberkuhn = Lieberkuhn's glands
 आन्त्र-संसर्ग *m.* (भैषजिकी) intestinal infection
 आन्त्र-स्रोत *n.* (शारीर) intestinal tract
 आन्त्राणुघ्न गुच्छनोलाणु *m.* Micrococcus ghidialii
 आन्त्रादाता (-ट्ट) *m.* (प्राणिकी) enteroceptor
 आन्त्रादिक-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Eimeria
 आन्त्रीय उण्डुक *m.* (प्राणिकी) intestinal caeca
 आन्त्रोत्सर्ग-संहति *f.* (प्राणिकी) enteronephric system
 आन्त्रोपरि- supra-intestinal
 आन्त्रोपरि-उत्सर्ग-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) supra-intestinal excretory ducts
 आन्त्रोपरि-वाहिनी *f.* (प्राणिकी) supra-intestinal vessel
 आन्दोलक *m.* see-saw
 आन्दोलन *n.* agitation, excitement
 आन्ध्र *m.* Telingana
 आपक्व *m.* (दैहिकी) chyme
 आपक्वकरण *n.* (दैहिकी) chymifi-

cation
 आपक्वीय *mfn.* chymous
 आपचन *n.* (आयुर्विद्या) pepsis
 आपट्ट *m.* lamin, lamina
 आपट्ट- lamini-, lamin-
 आपट्ट-आवरण *n.* lamination
 आपट्ट-करण *n.* laminate *vb.*, lamination
 आपट्टन *n.* laminate *vb.*
 आपट्टना *f.* lamination
 आपट्ट-भर *mfn.* laminiferous
 आपट्ट-रूप *mfn.* lamniform
 आपट्ट-विभाजन *n.* lamination, laminate *vb.*
 आपट्ट-संपटन *n.* laminate *vb.*, lamination
 आपट्टावरण *n.* laminate *vb.*
 आपट्टित *mfn.* laminated
 आपट्टीय *mfn.* laminate, laminated, lamnouse, lamninous
 आपण *m.* (वाणिज्य) shop
 आपण- (भैषजिकी) officinal = officinalis
 आपणन-राशि *m.* (वाणिज्य) turnover
 आपणिक *m.* shop-keeper
 आपत्ति *f.* objection
 आपत्ति-लेख *m.* objection statement
 आपत्ति-विवरण *n.* objection statement
 आपन्न *m.* pink
 आपन्न कर्पास-कोट *m.* (प्राणिकी) pink bollworm
 आपन्न तरल *m.* pink liquid
 आपन्नति = आपन्न-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Dianthus
 आपन्न लवण *n.* (रसायन) pink salt
 आपन्नाक्षि *n.* (आयुर्विद्या) pink-eye
 आपन्नाक्षि शोणप्रियाणु *m.* Hemophilus of Koch-Weeks = Hemophilus duplex, Bacillus aegyptiacus = bacillus of pink-eye, Week's bacillus, Bacterium aegyptiacum
 आपनस ananas
 आपनस-कुल *n.* (औदभिदी) Bromeliaceae
 आपनसति = आपनस-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Ananas
 आपनसवन्धुति = आपनसवन्धु-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Bromelia
 आपनसि *f.* (जीवरसायन) bromelin
 आपन्न *mfn.* emergent
 आपन्नाधिवेशन *n.* emergent meeting
 आपराधिकी *f.* criminology
 आपरिवर्तक *m.* (भौतिकी) synchronizer = modulator
 आपरिवर्तन *n.* 1 alter, alteration
 2 (विद्युत्) modulate

आपरिवर्ति-वारंवारता *f.* (भौतिकी) modulating frequency
 आपरिवर्ती (-इन्) *mfn.* alterative
 आपरीक्षक *m.* surveyor
 आपरीक्षण *n.* survey *vb.*, surveying
 आपर्णांग-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Nephrolepis
 आपाक *m.* kiln
 आपाकोन्द्रमान *m.* kiln hygro-meter
 आपाचक *mfn.* peptic
 आपाचन *n.* peptization, peptize
 आपाचयिता (-त्) *m.* peptizer
 आपात *m.* (अर्थशास्त्र) incidence, (सांख्यिकी) incident
 आपात-कोण *m.* (वैमानिकी, भौतिकी) angle of incidence
 आपातन *n.* (गणित) subtend, subtending
 आपातनी *f.* curarine
 आपात-विन्दु *m.* (चाक्षुषी) point of incidence
 आपाति-*mfn.* incidental
 आपातित *mfn.* (सांख्यिकी) 1 incident 2 (गणित) subtended
 आपाति-रश्मि *m.* incident ray
 आपाती (-इन्) *mfn.* 1 (भौतिकी) incident 2 incidental
 आपार-रश्मि *mfn.* radiolucent
 आपांग अर्धगोलाणु *m.* Neisseria flavescens
 आपांगेन्य *n.* (रसायन) fulvene
 आप-पित्तिक *mfn.* (रसायन) apocholic
 आपित्तिक अम्ल *n.* bilianic acid
 आपीत *mfn.* yellowish
 आपीत जल-शाकाणु *m.* Bacillus fulvus
 आपीतला (आ) *f.* (रसायन) neodidymium = neodmium (Nd)
 आपीति *f.* (रसायन) luteolin
 आपीवर *m.* asparagus
 आपीवर शतावरी *f.* (औद्भिदी) Asparagus officinalis
 आपीवरिक *mfn.* (रसायन) aspartic
 आपीवरिक अम्ल *n.* aspartic acid
 आपीवरिकल *n.* (रसायन) aspartyl
 आपीवरी *f.* (रसायन) asparagine
 आपीवरीय *n.* (रसायन) aspartate
 आपीवरील *n.* (रसायन) asparagyl
 आपुंजन *n.* (जैविकी) synzesis
 आ. पू. (अक्षेय-पूर्वा) S. E. E. (east of south east)
 आपूर *m.* supplement
 आपूरक *mfn.* (सांख्यिकी) supplemental = supplementary
 आपूरक-जीवा *f.* (गणित) supplemental chords
 आपूरण *n.* supplement *vb.*
 आपेक्षिक *mfn.* 1 relative

2 specific
 आपेक्षिक ऊष्मा *m.* (भौतिकी) specific heat
 आपेक्षिक-प्ररोचि-धारिता *f.* (विद्युत्) specific inductive capacity
 आपेक्षिक भार *m.* specific gravity
 आपेक्षिक-भार-तुल्य *f.* specific gravity balance
 आपेक्षिकभार-मान *m.* gravitometer
 आपेक्षिक रोध *m.* (विद्युत्) special resistance
 आसं प्रति युक्ति *f.* argumentum ad verecundiam
 आप्यका: *m. pl.* (औद्भिदी) Algae
 -आप्यका: *m. pl.* (औद्भिदी) -phyceae
 आप्यकि *f.* (रसायन) algin
 आप्यकिक *mfn.* alginic
 आप्यकिक अम्ल *n.* alginic acid
 आप्यकीय *n.* (रसायन) alginate
 आप्य-रक्तितमा (-मन्) *m.* (औद्भिदी) hematochrome
 आ-प्रभूज *m.* β-oxan
 आ-प्रसीली *f.* (भैषजिकी) apo-morphia, apo-morphine
 आ-प्रसीली उद्-नीरेय *n.* (रसायन) apo-morphine hydro-chloride
 आप्रवासन *n.* immigration
 आप्रवासी (-इन्) *m.* immigrant
 आ-प्रविणी *f.* (रसायन) apo-aconitine
 आप्लाव *m.* flood, overflow
 आप्लाव-नाड *n.* overflow pipe
 आप्लावि-गण *m.* (प्राणिकी) Errantia
 आप्लावी प्राणी (-इन्) *m.* errant form
 आवन्ध *m.* (अर्थशास्त्र) in-bond
 आवसु *mfn.* brownish
 आवसु गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus flavus desidens
 आ-वाहती *f.* (रसायन) apo-atropine
 -आभ *mfn.* -oid
 आभरणति = आभरण-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Poinciane
 आ. मा. (आपेक्षिक भार) sp. gr. (specific gravity)
 आभास 1 *m.* (तर्कशास्त्र) fallacia = fallacy 2 *mfn.* virtual
 आभास-quasi-
 आभास-आगम *m.* (अर्थशास्त्र) quasi-revenue
 आभास-एकाधिकार *m.* (अर्थशास्त्र) quasi-monopoly
 आभास-कार्य *n.* (चान्त्रिकी) virtual work
 आभास-नाभि *f.* virtual focus
 आभास-प्रसंविदा *f.* (विधि) quasi-contract
 आभास-भागी (-इन्) *m.* quasi-partner
 आभास-भाटक *n.* (अर्थशास्त्र) quasi-

rent
 आभास-भार *m.* (भौतिकी) apparent weight
 आभासमान *mfn.* apparent = seeming
 आभासमान भार *m.* (गणित) apparent weight
 आभासिक *mfn.* fallacious
 आभासी (-इन्) *mfn.* 1 (गणित) apparent = seeming 2 fallacious
 आभिपार्श्व *mfn.* (प्राणिकी) lateral
 आभिपार्श्व-ऋजुपेशी = अपचालक-पेशी *f.* (शारीर) abducent muscle = rectus lateralis
 आभिपार्श्व खात *m.* (शारीर) lateral fossa
 आभिपार्श्व-गुहा *f.* (प्राणिकी) lateral ventricle
 आभिमध्य *mfn.* medial
 आभिमध्य-ऋजुपेशी *f.* (शारीर) rectus medialis
 आभिमहाछिद्र *mfn.* (शारीर) exocipital
 आभियान्त्रिकी *f.* engineering
 -आभिय *mfn.* -oidal
 आभूजि *f.* (रसायन) betulin
 आभूजिक *mfn.* (रसायन) betulinic
 आभूजिव *m.* (रसायन) betulinol
 आभूषण *n.* ornament
 आ. म. प्रमाप *m.* (आंग्ल भेषजसंहिता) British Pharmacopoeia, प्रमाप quality = standard) B. P. quality
 आभोग *m.* (विधि) occupancy
 आभ्यन्तर *mfn.* indoor, inside, internal
 आभ्यन्तर अवरोध *m.* (वाणिज्य) internal check
 आभ्यन्तर पता inside address
 आभ्यन्तर प्रबन्ध *m.* (वाणिज्य) internal management
 आभ्यन्तर-मितव्ययता *f.* internal economy
 आभ्यन्तर यौवनलुप्त *m.* (आयुर्विद्य) internal thymus
 आभ्यन्तर रोगी (-इन्) *m.* indoor patient
 आभ्यन्तर व्यापार *m.* internal trade
 आभ्रमण *n.* spin
 आभ्राम *m.* (भौतिकी) spin
 आभ्रामण *n.* spin
 आभ्रामी विद्युद्यु *m.* (भौतिकी) spinning electron
 आम *mfn.* crude, raw
 आम-अयुलकि *f.* crude digitalin
 आम अदिफेन *n.* (भैषजिकी) crude opium
 आम उत्तैल *n.* crude naphtha
 आम उत्पाद *m.* raw product

आमकारी अन्त काभरूपी *m.* *Endamoeba histolytica*
 आम घृषि *m.* crude rubber
 आम द्रव्य *m.* raw material
 आ-मधु *mfn.* sweetish
 आ-मधुजन *m.* (रसायन) *dulcigen*
 आ-मधुम *n.* (रसायन) *dulcose*
 आ-मधुव *m.* (रसायन) *dulcitol*
 आ-मधिव *f.* (रसायन) *dulcin*
 आ-मध्वी *f.* (रसायन) *dulcine*
 आमन्त्रण *n.* call *vb.*, calling
 आमन्द विलयन *n.* moderately dilute solution
 आम न्यासव *m.* argol = crude tartar
 आम प्राप्तव *m.* raw spirit
 आम प्रोभूजिन *m.* (जीवरसायन) crude protein
 आम-वधुको *f.* Levant umber = raw umber
 आम-महाकोतस *n.* (शारीर) magenstrasse
 आम-सामग्री *f.* raw material
 आमातिसार *m.* dysentery
 आमातिसार अचलान्त्राणु *m.* *Shigella dysenteriae* = Shiga's bacillus = *Bacillus dysenteriae*, *Bacterium dysenteriae*
 आमातिसार रोगाणुभक्ष *m.* dysentery bacteriophage
 आमामान *m.* gauge
 आमाशय *m.* stomach
 आमाशय आन्त्रवेत्राणु *m.* *Escherichia gastrica*
 आमाशय चतुष्क गुच्छगोलाणु *m.* *Micrococcus tetragenus mobilis ventriculi*
 आमाशय दण्डाणु *m.* *Bacillus geniculatus*
 आमाशयवलय-रोहिणी *f.* (शारीर) coronary artery
 आ-मीली *f.* (रसायन) apo-codeine
 आमुद्गार तैल *n.* gyno-cardia oil = chaulmoogra oil, hydnocarpus oil
 आमुद्गारिक *mfn.* gynocardic = chaulmoogric
 आमुद्गारीय *n.* gynocardate
 आमूल *mfn.* radical
 आमूल परिवर्तन *n.* radical changes
 आमूल सुधार (आमूल सुधार) *m.* radical reform
 आमृदु अम्ल *n.* (रसायन) amallic acid
 आ-मेथ्येन्य *n.* apo-fenchene
 आमोद-स्थान *n.* place of public entertainment
 आमोहन *m.* (भेषजिकी) lavender = *lavandula*
 आमोहनति = आमोहन-प्रजाति *f.* *Lavandula*

आमोहन-प्रासव *m.* *spiritus lavandulae* = spirit of lavender
 आं-पक्ष *m.* ayos
 आम्भस *mfn.* hydraulic
 आम्भस-अभियन्त्रणा *f.* hydraulic engineering
 आम्भस आचूर्ण *n.* Keene's cement = hydraulic gypsum
 आम्भस आरोध *m.* (भौतिकी) hydraulic brakes
 आम्भस उत्पापक *m.* (यान्त्र) hydraulic elevator
 आम्भस कर्म *n.* (भूसेचन) hydraulic works
 आम्भस पीठ *m.* (भौतिकी) hydraulic press = Bramah press
 आम्भस वज्रचूर्ण *n.* hydraulic cement, Portland cement
 आम्भस सादृश्य *n.* (भौतिकी) hydraulic analogy
 आम्भसी *f.* hydraulics
 आत्रति = आत्र-प्रजाति *f.* (आंद्भिदी) *Mangifera*
 आत्र-मक्षी *f.* mango-fly
 आत्रातति = आत्रात-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Spondias*
 आत्रेदित मूल *n.* (गणित) repeated root
 आम्लक *m.* Indian gooseberry
 आम्लक-वति = आम्लक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Emblia*
 आम्लक भूम्यामली *f.* = सामान्य आम्लक *m.* *Phyllanthus emblica* = *Emblia officinalis* = emblic myrobalan = Indian gooseberry
 आम्लेच्छी *f.* (रसायन) apo-caffeine
 आय *m.* 1 earning, income
 2 proceeds
 आय-आपात *m.* incidence of income
 आय-कर *m.* income tax
 आयत *m.* (रैखिकी) rectangle
 आयत- (गणित) rectangular
 आयत अधीन्द्र *n.* rectangular hyperbola
 आयत-इष्टका *f.* (भौतिकी) rectangular block
 आयत चित्र *n.* rectangular diagram
 आयतज *n.* (गणित) cuboid
 आयत-याम *m.* (गणित) Cartesian coordinates, rectangular coordinates
 आयत-सान्द्र *n.* rectangular solid
 आयताकार *mfn.* (गणित) rectangular
 आयन्त्रण *n.* restrict, restriction
 आयन्त्रण- restrictiv

आयन्त्रण-पृष्ठांकना *f.* (अर्थशास्त्र) restrictive endorsement
 आय पार्श्व *n.* income side
 आय-व्यय *m.* (वाणिज्य) income and expenditure
 आयव्ययक *n.* budget
 आयव्ययक-अधिकारी (-इन्) *m.* budget officer
 आयव्ययक-भागणन *n.* budget estimate
 आयव्ययक-आवंटन *n.* budget allotment
 आयव्ययक-कार्यक्रम *m.* budget programme
 आयव्ययक-नियंत्रण *n.* budgetary control
 आयव्ययक प्रक्रिया *f.* budget procedure
 आयव्ययक-प्रावधान *n.* budget provision
 आयव्ययक-विभाग *m.* budget department
 आयव्ययक-व्याख्या *f.* memorandum explanatory of the budget
 आयव्ययक-सतुलन *n.* (to) balance the budget
 आयव्ययक-साहित्य *n.* budget literature
 आय-व्यय-लेखा *f.* income and expenditure account
 आयस पीत *m.* siderin yellow
 आयस स्तर *m.* sheet of iron
 आयात *n.* import
 आयात तथा निर्यात *n.* import and export
 आयाम *m.* length
 आयाम- longitudinal
 आयाम-एकक *n.* (भौतिकी) unit of length
 आयाम-तन्तु *m.* (चाक्षुषी) longitudinal or meridional fibre
 आयाम-पट्टी *f.* (शारीर) longitudinal band
 आयाम पेशी *f.* longitudinal muscle
 आयाम-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) longitudinal duct
 आयाम-वलित *mfn.* (औद्भिदी) plicate
 आयाम-विकार *m.* (भौतिकी) longitudinal strain, linear strain
 आयाम-संग्रह-प्रणाली *f.* (प्राणिकी) longitudinal collecting duct
 आयामाभिमुख-स्थिति *f.* (भौतिकी) broad-side-on position
 आयास *m.* strain
 -आयिक *mfn.* (रसायन) -onic
 -आयीय *n.* (रसायन) -onate
 आयु *n.* life
 आयुक्त *m.* commissioner
 आयुक्त-पद *n.* commission

आयुक्तधिकारी (-इन्) *m.* commis-
sioned officer
आयुध *n.* arms
आयुध-*mfn.* military
आयुध अधिनियम *m.* Arms Act
आयुध-विभाग *m.* ordnance depart-
ment
आयुध-सभार *m.* ordinance = ord-
nance stores
आयुधगार *n.* ordnance depot
आयुधिक *mfn.* military
आयुर्विद्या-*mfn.* medical
आयुर्विद्यालय *m.* medical college
आयुर्विद्या-संस्था *f.* medical institu-
tion
आयुर्विद्या-साहित्य *n.* medical litera-
ture
आयुर्वेद *m.* medicine
आयुर्वेद-साहित्य *n.* medical litera-
ture
आयुर्वेदिक *mfn.* medical
आयुश्च *n.* life
आयोग *m.* commission
आयोजक *m.* organizer
आयोजन *n.* 1 associate *vb.*, associ-
ation 2 organize
आर *m.* (गणित) radian
आरक्त *mfn.* reddish
आरक्त- rufo-, rufi-
आरक्त-द्रुस्फोटक *m.* (रसायन) rufi-
gallol
आरक्त-द्रुस्फोटिक अम्ल *n.* rufigallic
acid
आरक्त नीललोहित *mfn.* reddish
violet
आरक्त वस्तु *mfn.* reddish brown
आरक्षण *n.* (अयोमार्ग) reservation
आरक्षित *mfn.* reserved
आरक्षित देय *n.* (वाणिज्य) reserve
liability
आरक्षित पद *n.* reserved posts
आरक्षित मूल्य *n.* (क्रोशचिक्रय) reserve
price
आरक्षित वन *n.* reserved forest
आरक्षित विषय *m.* reserved sub-
ject
आरक्षि-नियम *m.* police rules
आरक्षि-निरोध *m.* custody of police
आरक्षि-महानिरीक्षक *m.* inspector
general of police
आरक्षि-वर्ग *m.* constabulary
आरक्षि-विभाग *m.* police depart-
ment
आरक्षि-सभारक्षण *n.* police custody
आरक्षि-संपालन *n.* custody of police
आरक्षी (-इन्) *m.* constable =
policeman, police
आरक्षी प्रति-महानिरीक्षक *m.* deputy
inspector-general of police
आरञ्जन *n.* tint

आरंजित *mfn.* tinted
आरजित उपनेत्र *n.* tinted glasses
आर-टक *m.* bradawl
आरम्भगण *mfn.* incipient
आरम्भक *m.* (शाकाण्डिकी) starter
(that which starts fermenta-
tion)
आरम्भण *n.* 1 begin, start, take
2 originate
आरम्भण. starting
आरम्भण-प्रविष्टि *f.* (वाणिज्य) starting
entry
आरम्भण-संविद्युत् *m.* (भौतिकी) start-
ing switch
आरम्भण-संघर्ष = स्थैतिक संघर्ष *m.*
(यान्त्रिकी) starting friction =
static friction
आरम्भतः ab initio (from the
beginning)
आरम्भ- संज्ञति *f.* (अयोमार्ग) starter
signal
आरम्भिक *mfn.* elementary, initial
आर रश्मि *m.* (भौतिक रसायन) beta
ray
आरा *f.* awl
आराग *m.* tint
आरागमान *m.* tintometer
आरा-तुण्डक *m.* (प्राणिकी) awl-shap-
ed beak
आरागनगर *n.* Arrah
आरीय *mfn.* (गणित) radian
आरीय माप *m.* (गणित) radian mea-
sure
आरुचिपी *f.* (रसायन) cornutine
आरूढ *mfn.* mounted
आरूढि *f.* ascent
आरूप *n.* sketch *n.*
आरूपण *n.* sketch *vb.*
आरूपण-फलक *n.* sketching board
आरेच *m.* California buckthorn
= Rhamnus purshiana =
chittam
आरेचन *n.* deplete = empty *vb.*
आरेच-वल्क *m.* (भैषजिकी) cascara =
cascara sagrada = chittam
or chittam bark = sacred
bark = cascarilla = cascarilla
bark (a mild laxative)
आरेचवल्क-निष्कर्ष *m.* tincture of
cascarilla = tinctura cascaril-
lae
आरोग्यकरण *n.* cure
आरोग्यकारी (-इन्) *mfn.* 1 cura-
tive 2 sanitary
आरोग्यलभन *n.* recover
आरोग्यलाम *m.* recovery
आरोग्य-व्यय *m.* sanitation charges
आरोग्यशाला *f.* sanatorium
आरोध *m.* brake
आरोध-मुष्टि *f.* (अयोमार्ग) brake

shoe
आरोध-रम्म *m.* (आत्मवह) brake
drum
आरोध-संहति *f.* (भौतिकी) braking
system
आरोपण *n.* 1 impose, imposition
2 (भौतिकी) impress *vb.* 3
(आणवीक्षिकी) mount 4 (भौतिकी)
mounting
आरोपित *mfn.* imposed
आरोपित प्रवेग *m.* impressed velo-
city
आरोपित बल *n.* (भौतिकी) impressed
force
आरोह *m.* ascendance
आरोहक *m.* 1 ascender 2 rider
आरोहण *n.* 1 ascend 2 mount *vb.*
आरोहण-काल *m.* (गणित) time of as-
cent
आरोहणी *f.* mires
आरोहत् *mfn.* ascendant, ascen-
dent
आरोहि परिवर्तन *n.* (गणित) ascend-
ing reduction
आरोही (-इन्) *m.* 1 (भौतिकी)
climber, liana, liane 2 *mfn.*
ascending
आरोही घात *m.* (गणित) ascending
power
आरोही सैनिक-आरक्षी (-इन्) *m.*
mounted military police
आर्तव *mfn.* seasonal
आर्तव उच्चावचन *n.* seasonal fluctua-
tions
आर्तव-प्रवृत्ति *f.* seasonal trend
आर्तव विचरण *n.* seasonal varia-
tions
आर्तव व्यवसाय *m.* (अर्थशास्त्र) sea-
sonal occupation
आर्तवोरस्तारी (-इन्) *mfn.* (आयुर्विद्या)
emmenagogue
आर्थिक *mfn.* 1 economic, eco-
nomical 2 financial 3 mone-
tary, pecuniary
आर्थिक असंयम *m.* material aban-
donment
आर्थिक-कर्मण्यता *f.* economic acti-
vity
आर्थिक-क्रिया *f.* economic activity
आर्थिक-पद्धति *f.* monetary system
आर्थिक प्रपत्र *n.* monetary form
आर्थिक वर्ष *n.* financial year
आर्थिक वस्तु *n.* economic goods
आर्थिक स्वार्थ *m.* (अर्थशास्त्र) pecu-
niary interest
आर्द्र *mfn.* moist, wet
आर्द्र उद्यान-सस्य *n.* wet garden
crop
आर्द्रक *n.* (भैषजिकी) ginger = zingi-
ber

आर्द्रक-श्वेतक *m.* (भेषजिकी) ginger
bleacher
आर्द्रकिक *f.* (भेषजिकी) gingerin
आर्द्रकल *n.* (रसायन) gingerol
आर्द्रता *f.* moisture
आर्द्रता-निश्चेत्र *n.* moisture determination apparatus
आर्द्रता-परीक्षण-कन्दु *m.* moisture testing oven
आर्द्रता-परीक्षण-पलिष *m.* moisture test flask
आर्द्रता-शराव *n.* moisture dish
आर्द्र-पट्ट-विधा *f.* wet-plate process
आर्द्र-परीक्षा *f.* (रसायन) wet test
आर्द्र प्रधूनन *n.* (रसायन) wet puddling
आर्द्रभजन *n.* decrepitate *vb*
आर्द्र-शुष्क-कन्द-तापमान *m.* wet-and-dry-bulb thermometer
आर्धसाप्ताहिक *mfn.* biweekly
आर्य (पत्रव्यवहार) Sir
आलक्षणीय *mfn.* remarkable
आलग 1 *mfn.* viscid, viscose
2 *m.* viscose *n.*
आलग तरल *m.* viscous liquid
आलगता *f.* viscidness
आलगत्व *n.* viscidness, viscosity
आलगत्व-गुणक *m.* (भौतिकी) coefficient of viscosity
आलग दुग्ध दण्डाणु *m.* Bacillus lactis viscosi, Bacillus viscosus lactis
आलग पुंज *m.* (प्राणिकी) viscid mass
आलग मधुदक दण्डाणु *m.* Bacillus viscosus sacchari
आलग-मान *m.* viscometer = viscosimeter
आलगमान-, आलगमानीय *mfn.* viscometrical
आलगमिति *f.* viscometry
आलगमितीय *mfn.* viscometrical
आलगि *f.* viscin
आलगी-करण, आलगी-भवन *n.* viscidize
आलगेक्ष *m.* viscoscope
आलम्ब *m.* hanger
आलम्बन-कोशा *f.* (शारीर) sustentacular cells = supporting cells
आलर्क *n.* rabies = hydrophobia = lyssa
आलर्क-विषाणु *m.* (आयुर्विद्या) virus of rabies
आलर्क-शाला *f.* Pasteur institute
आलर्कीय दण्डाणु *m.* Bacillus lyssae
आलर्कीय माला-गोलाणु *m.* Streptococcus hydrophoborum
आलवण *mfn.* brackish
आलवणाम्बु *n.* brackish water
आलवाल *m.* (शारीर) calyx = calix
आलु *m.* potato

आलुकति = आलुक-प्रजाति *f.* (श्रीद्धिरी)
Alocasia
आलुण्ठन *n.* spoliation
आलुति = आलु-प्रजाति *f.* Dioscorca
आलुनील गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus cyanus
आलु वृन्ताक *m.* Solanum tuberosum
आलेख *m.* picture
आलेखन *n.* portray
-आलेखना *f.* -chromy
आलेख्य *n.* portrait
आलेपन *n.* paint (to portray with paints)
आलोक *m.* note
आलोकन *n.* note *vb.*
आलोकन तथा प्रमाणन *n.* (अर्थशास्त्र) noting and protesting
आलोकन-योग्य *mfn.* deserving notice
आलोक-पत्र *n.* note paper
आलोक-पुरितिका *f.* note book
आलोकशाला *f.* observatory
आलोकित *mfn.* noted
आलोचक *m.* commentator
आलोचन *n.* comment, remark
आलोचना *f.* comment
आवण्टन *n.* allotment
आवण्टनी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) (आवण्टनम् अस्यास्तीति) allottee
आवर *m.* (श्रीद्धिरी) bloom (a surface coating on fruits, leaves etc.)
आवरक *m.* sheathing
आवरण *m.* 1 (काचावरण) case
2 coat *vb.*, cover, covering, envelope, sheath, sheathe *vb.* 3 (प्राणिकी) investment
आवरण-खण्ड *m.* (आण्वीक्षिकी) cover slip
आवरण-पत्र *n.* (वाणिज्य) cover note
आवरण-शक्ति *f.* covering power
आवर्ण (आ) beta (β)
आवर्ण-अयस् *n.* beta iron
आवर्ण-उत्तैरल *n.* (रसायन) beta-naphthyl
आवर्ण-उत्तैरल *m.* (रसायन) beta-naphthol
आवर्ण-पित्तल *n.* beta brass
आवर्ण-मधुम *n.* (रसायन) beta-glucose
आवर्ण-स्वचेतनी *f.* (रसायन) beta-eucaine
आवर्त *m.* (गणित) period
-आवर्त 1 -rotatory 2 -tropes
आवर्तकाल *m.* (गणित) period
आवर्तैर्न निष्कर्ष *m.* (भेषजिकी) anti-periodic tincture = tinctura antiperiodica = tinctura warburgi = tincture of War-

burg, Warburg's tincture
आवर्तन *n.* 1 repeat 2 (अर्थशास्त्र) rotation
आवर्तन-काल *m.* (गणित) periodical time
आवर्तनम् (योग्या) turning
आवर्तन-सारणी *f.* (रसायन) periodic table
आवर्तना *f.* (प्राणिकी) taxis = tropism
आवर्त-सन्धि *m.* (शारीर) rotary joint
-आवर्तित -tropin
आवर्तिक *mfn.* periodic, periodical
-आवर्तिक -tropic, -tropical
-आवर्तिकता *f.* -tropicity
आवर्तितता *f.* (भौतिकी, सांख्यिकी) periodicity
-आवर्तितता -tropia
आवर्तित *n.* (विद्युत्) alternator
आवर्ती (-इन्) *mfn.* periodic, recurring
आवर्ती आय *m.* recurring income
आवर्ती काल *m.* recurring period
आवर्ती दशमिक *m.* (गणित) recurring decimal
आवर्ती प्रत्यय *m.* (अर्थ) revolving credit
आवर्तीय *mfn.* periodic
आवर्ती वाह *m.* (भौतिकी) alternating current
आवर्ती व्यय *m.* recurring charges, recurring expenditure
आवर्ती सन्तत भिन्न *m.* (गणित) recurring continued fraction
आवर्तुलि *f.* (जीवरसायन) globulin
आवर्धक *m.* augments
आवर्धन *n.* augment *vb.*, augmenting
आवर्धित *mfn.* augmented
आवर्धी (-इन्) *mfn.* augmentative = augmentive
आवश्यक *mfn.* 1 compulsory
2 essential, necessary
आ-वसा *f.* grease
आवसानिक *mfn.* terminal
आवाताम-दर्शि *f.* (भेषजिकी) amygdophenin
आवाताम-भूयिल *m.* (रसायन) amydonitrile
आवातामि *f.* (रसायन) amygdalin
आवातामिक *m.* (रसायन) amygdalic
आवातामीय *n.* (रसायन) amygdalate
आवातामेद *m.* (जीवरसायन) amygdalase
आवास *m.* residence
आवासगृह *n.* hotel
आ-विज्वरी *f.* (रसायन) apo-quinine

आ-वितापतिवृत्ती *f.* (रसायन) apo-quin-amine
 आ-वितापी *f.* (रसायन) apo-cincho-
 nine
 आविध *m.* (यान्त्र) gimlet
 आविल *mfn.* turbid
 आविलता *f.* turbidity
 आविलमान *m.* turbidimeter
 आविलमिति *f.* turbidimetry
 आविवर्तिषा *f.* -phoria
 आविष्करण *n.* discover
 आविष्कर्ता (-रु) *m.* discoverer
 आविष्कार *m.* discovery
 आवृत *mfn.* coated
 आवृत-धानी-कुल *n.* Perisporiaceae
 आवृतधानी-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Sphaeri-
 ales
 आवृत्त *mfn.* repeated
 आ. वे. (आन्ववेत्तणु) Esch. (Esche-
 richia)
 आवेचन *n.* distinguish
 आवेजक *m.* (भौतिक रसायन) catalyst
 = catalytic agent = cataly-
 zator = catalyzer
 आवेजन *n.* (भौतिक रसायन) catalysis,
 catalyze
 आवेजनत catalytically
 आवेजन-विधा *f.* (रसायन) catalytic
 process
 आवेजनिक *mfn.* catalytic, cataly-
 tical
 आवेजयिता (-रु) *m.* catalyzer =
 catalyst
 आवेदन *n.* state *vb.* (to express
 the particulars of), state-
 ment
 आवेप *m.* vibration
 आवेप- vibrating, vibratory
 आवेपक *mfn.* vibrant, vibratory
 आवेपन *n.* vibrate
 आवेपन-चुम्बकमान *m.* (भौतिकी)
 vibration magnetometer
 आवेपन-सूत्री *f.* vibration needle
 आवेप-विस्तार *m.* amplitude of
 vibration
 आवेप-संख्या *f.* frequency of vibra-
 tions
 आवेपि-गति *f.* (भौतिकी) vibrating
 movement, vibratory motion
 आवेपिता *f.* vibrancy
 आवेपी (-इन्) *mfn.* vibratile =
 vibratory
 आवेपी अशु *m.* (प्राणिकी) vibratile
 filament
 आवेपी दर्पण *m.* (भौतिकी) vibrating
 mirror
 आवेप्यकी *f.* (जीवरसायन) agmatine
 आवेप्यकी *f.* (जीवरसायन) arginine
 आवेप्यकी-भास्विक अम्ल *n.* (जीवरसायन)
 arginine-phosphoric acid

आर्गसा *f.* expectation
 आर्गसित *mfn.* expected
 आशय *m.* 1 (शरीर) bladder 2 re-
 servoir
 आशयक *m.* vesicle
 आशयकवत् *mfn.* (प्राणिकी) vesicu-
 lar
 आशयक-श्वासन *n.* vesicular breath-
 ing
 आशय-कृमि *m.* bladderworm
 आ-शलाका *f.* (शरीर) Corti's rods
 आशस्त-यथाभूत-चित्र *n.* (अभियन्त्रणा)
 Gantt chart
 आशा *f.* hope
 आशावचन *n.* optimism
 आशावाच (-वत्) *m.* optimist
 आशुग *n.* (अयोमार्ग) express train
 आशु पत्र *n.* express letter
 आशु पथिकसयान *n.* (अयोमार्ग) ex-
 press passenger
 आशुपाती (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी)
 caducous
 आशु माण्डसयान *n.* (अयोमार्ग) express
 goods
 आशु मुजायमान *m.* Abbe's refracto-
 meter
 आशुमान *m.* (भूमापन) tachymeter =
 tachoscope
 आशुरज्य *mfn.* (वैविकी) chromo-
 philic
 आशुरोप आचरण *n.* touchy behavi-
 our
 आशुलग उत्थक्षिर *n.* quickfix boss-
 head
 आशुलिपि *f.* shorthand
 आशुलिपिक *m.* stenographer
 आशुविपैत्तव *m.* (प्राणिकी) tachy-
 sterol
 आशुविषम संघनना *f.* (प्राणिकी) posi-
 tive heteropycnosis
 आशु-शुक्लत् *mfn.* (रसायन) acen-
 cent
 आशुष्क *mfn.* dryish
 आशु सयान *n.* (अयोमार्ग) express
 train
 आशुन *mfn.* turgid
 आशुनता *f.* turgidity
 आशुनता-निपीड *m.* (औद्भिदी) turgor
 pressure
 आशुक्त्व *m.* (रसायन) pinacol
 आशुक्त्व *f.* (रसायन) (आशुक्त्वथैल)
 pinacolin
 आशुक्त्ववीय *n.* (रसायन) pinacolate
 आशुक्ता *f.* (रसायन) pinacone
 आशुक्ताश्म *m.* (भौतिकी) stalactite
 आशुचुति *f.* stactos, stalaktos
 (Gk.)
 आशुचुति-मान *m.* (भैषजिकी) stacto-
 meter
 आशुचोतन *n.* trickle

आश्रयाम *m.* cyan
 आश्रय *m.* 1 = आदातु-आश्रय (आदाना-
 श्रय) cradle = receiver rest
 (of a telephone) 2 rest
 आश्रयण *n.* depend upon
 आश्रयाक्ष *m.* (गणित) axes of re-
 ference
 आश्रव *mfn.* lacrimal
 आश्रवास्थि *n.* (शरीर) lachrymal =
 lacrimal
 आश्रित *n.* (भा-चित्रणा) adjective
 आश्लथ *m.* (यान्त्र) sag
 आश्लिपि *f.* (जीवरसायन) glutin
 आश्लिपिमत् *mfn.* glutinous
 आश्लेप *m.* gluten
 आश्लेपगन्था *f.* (जीवरसायन) gluta-
 thione
 आश्लेपण *n.* glutinate
 आश्लेपतिवृत्ती *f.* (रसायन) gluta-
 mine
 आश्लेप-तिवृत्तेयिक *mfn.* (रसायन) glu-
 tamic
 आश्लेपासविक *mfn.* (रसायन) glutaric
 आश्लेपि *f.* (जीवरसायन) glutenin,
 pectin
 आश्लेपिक *mfn.* (रसायन) pectic
 आश्लेपि-कोशाशु *n.* (रसायन) pecto-
 cellulose
 आश्लेष *m.* slime
 आश्लेषमल *mfn.* slimy
 आश्वत्सति-विन्देदि *f.* (प्राणिकी) osmio-
 phile lipin
 आश्वेत *mfn.* whitish
 आश्वेत दण्डाणु *m.* Bacillus candi-
 cans, Bacillus ubiquitous
 आश्वेतन *n.* bleaching
 आश्वेतना *f.* bleaching
 आसक्त *mfn.* attached
 आसखीयन *n.* ('सखीयति' क्रमवेद)
 associate *vb.*, association
 आ-सकेन्द्रित विलयन *n.* moderately
 concentrated solution
 आसंकोचन *n.* shrinkage
 आसंचित धन *n.* hoarded wealth
 आसंजन *n.* 1 attach, attach-
 ment 2 coordinate *vb.*, co-
 ordination
 आसजन-सयुज *m.* (रसायन) coordi-
 nate covalent
 आसंजन-सहसंयुजता *f.* (रसायन) co-
 ordinate covalence
 आसंजित *mfn.* 1 attached 2 co-
 ordinated
 आसन *n.* seat, seating
 आसन-आवण्टन *n.* allocation of
 seats
 आसन-किण *m.* (शरीर) ischial callo-
 sities
 आसन-क्रम *m.* arrangement of
 seats

आसन-गुदास्थि प्रतान *m.* (प्राणिकी) ischio-coccygeal plexus
 आसनास्थि *n.* ischium = seat bone, seating bone
 आसन्दी *f.* chair
 आसन्न *mfn.* adjoining
 आसन्न भय *n.* imminent danger
 आसवनक *m.* distiller
 आसवन *n.* distill, distillation, distilling, distillment
 आसवन-अर्हा *f.* distillation value
 आसवन-नाल *m.* distilling tube, distillation tube
 आसवन-पल्लि *m.* (रसायन) distillation flask
 आसवन-संघनक *m.* (रसायन) distillation condenser
 आसवन-साधित्र *n.* (रसायन) distillation apparatus, distilling apparatus
 आसवनी *f.* distillery
 आसवनी-क्षेप्य *n.* distillery waste
 आसवनी-प्रासव *m.* distillery spirit
 आसारण *n.* (रसायन) osmose (to subject to osmosis, to diffuse by osmosis)
 आसारिवा *f.* sarsaparilla = sarsa = sarsae radix
 आसाव्य *mfn.* (रसायन) distillable
 आसिक्थ *n.* ceresin
 आसिता *f.* (औद्भिदी) mildew
 आसिह *m.* guaiacum
 आसिह-उद्यास *m.* (भैषजिकी) guaiacum resin = guaiaci resina
 आसिह-निष्कर्ष *m.* tincture of guaiacum = tinctura guaiaci
 आसिहत्र *m.* (रसायन) guaiaci resina = guaiacum resin = guaiacol
 आसिहत्र धूपीय *n.* (भैषजिकी) guaiacol benzoate
 आसिहत्र प्रागारीय *n.* (भैषजिकी) guaiacol carbonate
 आसिहत्र-मिश्रण *n.* (भैषजिकी) guaiacalize
 आसिहायिक अम्ल *n.* guaiaconic acid
 आसिहिय *mfn.* guaiac
 आसिहिय-परिक्षा *f.* guaiac test
 आसिहिय-प्रतिक्रिया *f.* guaiac reaction
 आसु क्रविययी *f.* (रसायन) ala-creatinine
 आसु-क्रव्यी *f.* (रसायन) (आसुवी alanine + क्रव्यी creatine) alacreatine
 आसुत 1 *n.* (रसायन) distillate, distillment 2 *mfn.* (भैषजिकी) destillata 3 *mfn.* (रसायन) distilled

आसुत जल *n.* distilled water = aqua destillata
 आसुत प्रासव *m.* distillery spirit
 आसुत-मदिरा *f.* distilled liquors
 आसुत वारि *n.* (भैषजिकी) distilled water = aqua destillata
 आसुत हरि *m.* distilled green = verdigris green
 आसुत-हरिवी *f.* distilled verdigris
 आसुति *f.* distilling
 आ-सुरगा *f.* (शरीर) Corti's tunnel = Corti's canal
 आसुवी *f.* (रसायन) alanino
 आसुवील *n.* (जीवरसायन) alanyl
 आसुक्ष्म क्षोद *m.* moderately fine powder (cf. सूक्ष्मता)
 आसुयमान *mfn.* (रसायन) distilland
 आसुति *f.* osmosis
 -आसुति *f.* -osmosis
 आसुति-यमन *n.* (प्राणिकी) osmo-regulation
 आसुतीय *mfn.* osmotic
 आसुतीय निपीड *m.* osmotic pressure
 आसुद्व *m.* guaiol
 आलोता (-त्) *m.* (रसायन) alembic
 आसोत्र *n.* still = distiller
 आस्तर *m.* 1 lining 2 (यात्र) liner
 आस्तरित *mfn.* (प्राणिकी) lined
 आस्तरित-कुल्या *f.* (भूसेचन) lined canal
 आस्तानी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) patulous
 आस्तारी गेन्दुक *m.* Tagetes patula
 आस्त्रक *n.* (सेना) (अस्त्राणां समूहः) ammunition = munitions
 आस्त्रक्षेपिकी *f.* ballistics
 आस्त्रगतिकी *f.* ballistics
 आ-स्थगन *n.* abeyance
 आस्थगित *mfn.* 1 abeyant, in abeyance 2 (वाणिज्य) deferred
 आस्थगित अंश *m.* (वाणिज्य) deferred share
 आस्थगित शोधन *n.* (अर्थशास्त्र) deferred payment
 आस्थगित स्कन्ध *n.* deferred stock
 आस्थान *n.* (सेना) base
 आस्थिक *mfn.* osteal
 आस्थिकी *f.* osteology
 आस्थी *f.* (रसायन) collidine
 आस्थूल क्षोद *m.* moderately coarse powder (cf. सूक्ष्मता)
 आस्थ्य *mfn.* bony
 आस्थ्य- osseo- (bony)
 आस्पद *n.* (प्राचीन शब्द) site
 आस्मारक *m.* memorial, monument
 आस्य *n.* mouth, oris
 आस्यक *n.* (प्राणिकी) osculum
 आस्य गुच्छमोलण *m.* Micrococcus

subgranulatus
 आस्यद्विक दण्डणु *m.* Bacillus ulna
 आस्य-शोथ *m.* (आसुर्विद्या) cancrum oris
 आस्य सुकुन्तलाणु *m.* Treponema skoliodontia
 आस्यस्फोट माला-गोलाणु Streptococcus aphthicola
 आस्याभिपाक *m.* (आसुर्विद्या) noma
 आस्याभिपाक दण्डणु *m.* Bacillus nomae
 आस्याभिपाक माला-गोलाणु *m.* Streptococcus nomae
 आस्वाय *mfn.* palatable
 आस्वापक *mfn.* soporific
 आहत *mfn.* struck
 आहत-वाहन, रोगि-वाहन *n.* ambulance
 आहनन *n.* beat *vb.*, strike *vb.*
 आहपुपेय *n.* (रसायन) cadinene
 आहरण *n.* (वाणिज्य) draw *vb.*, drawing
 आहरण-तिथि *f.* date of drawing
 आहरण-लेखा *f.* (वाणिज्य) drawing account
 आहरि *mfn.* greenish
 आ-हरिद्रिक *mfn.* (रसायन) apoturmeric
 आहरिपुष्पति = आहरिपुष्प-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Ruscus
 आहर्ता (-त्) *m.* (वाणिज्य) drawer
 आहर्ता निर्देष्टव्यः (आ. निर्.) (अधिकोपण) refer to drawer (R/D)
 आहार *m.* diet
 आहार- dietary
 आहार-कारक *m.* dietary factor
 आहार-गृह *n.* restaurant
 आहार-पंजी *f.* diet register
 आहार-पोष-कारक *m.* dietary nutrition factor
 आहार-पोषण *n.* nutrition
 आहार-प्रमाण *m.* dietary standard
 आहार-यान *n.* restaurant car
 आहार-विद्या *f.* dietetics
 आहार-श्रेणी *f.* scale of diet
 आहारिकी *f.* dietetics
 आहार्ता (-इन्) *m.* (वाणिज्य) drawee
 आहूत *mfn.* summoned
 आहूत-पुंजी *f.* (वाणिज्य) called up capital
 आहूलेन्य *n.* (रसायन) cadalene
 आहसन *n.* diminish, diminution
 आहास *m.* diminution
 आहासन *n.* diminish, diminution
 आहासि-अभियाचन-नियम *m.* (अर्थशास्त्र) law of diminishing demand
 आहासि-उपयोगिता-नियम=तृप्य-अभीच्छा-नियम *m.* law of diminishing utility = law of satiable wants

आहासि-प्रत्याय-नियम *m.* (अर्थशास्त्र) -
law of diminishing return

आहसी (-इन्) *mfn.* 1 (अर्थशास्त्र)
diminishing 2 regressive

आहान *n.* legal summons =
summons

इ

इ β (fraction transmitted)
इ (निपीड-गुणक) (भौतिकी) β (pres-
sure coefficient)
इ (इष्टकारकत) (शाकाण्वकी) S (Serra-
tia)
इ (इदसुशला) Tb (terbium)
इ (सांख्यिकी) Γ, γ
-इ *f.* (रसायन) -in
इ, ई (पारेषित प्रभाग) (भौतिकी) p
(transmitted fraction)
-इक (रसायन) -ic, -oic
इकार *m.* gamma
इकार अम्ल *n.* gamma acid
इकार माला-गोलायु *m.* gamma strep-
tococcus = anhemolytic
streptococcus
-इकी -ics
इक्षु *m.* cane, sugar cane
इक्षु-अंगमारी *f.* (उद्भिद्-वैकारिकी) cane
blight
इक्षु-आयुक्त *m.* cane commissioner
इक्षु-उपकर *m.* cess on sugarcane
इक्षुति = इक्षु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Sac-
charum
इक्षुपण्ड *m.* sugarcane
इक्षुदहिकीविद् *m.* sugarcane phy-
siologist
इक्षुधु *n.* glucose
इक्षु-पीडनी *f.* cane mill
इक्षु मूलाश *m.* (औद्भिदी) *Striga*
lutea
इक्षुदहक-रोग *m.* (औद्भिद्-वैकारिकी)
rind disease (of sugarcane)
इक्षु-विकास-अधिकारी (-इन्) *m.* care
development officer
इक्षु-वेषक *m.* cane borer
इक्षु-शर्करा *f.* cane sugar
इच्छा *f.* 1 choice 2 desire
3 will 4 willingness
-इज *m.* (त्वानिजी) -ite
इन: (गणित) hence
-इन *n.* (रसायन) -ite
इतर- hetero-
इतर-घटिति *f.* hetero-plasia
इतरजातीय *mfn.* heterogeneous
इतरध्वेय *n.* (रसायन) heteroside
इतर-नाश *m.* (जीवरसायन) hetero-
lysis
इतरनाशिक *mfn.* heterolytic
इतरपुष्ट शाकण्यु *m.* heterotrophic

bacteria
इतर-रुहिक *mfn.* (जैविकी) hetero-
blastic
इतर-वर्णता *f.* (शारीर) hetero-chro-
mia
इतरविवर्तिषा *f.* (आयुर्विद्या) hetero-
phoria
इतरशोणशि *f.* heterolysin
इतर-सूकाय *mfn.* (औद्भिदी) hetero-
thallic
इतरसूकायता *f.* (औद्भिदी) hetero-
thallism
इतरावर्तिता *f.* (आयुर्विद्या) hetero-
tropia
इतरोद्वाह *m.* (जैविकी) hetero-
gamy
इति कृतम् (गणित) Q. E. F. (quod
erat faciendum)
इतिवृत्त पत्रक *n.* history ticket
इति सिद्धम् (गणित) Q. E. D. (quod
erat demonstrandum)
इतिहास-आसन *n.* history chair
इतिहास-प्राध्यापकपद *n.* history
chair
इतिहासविद् *m.* historian
इत्कुकुमक *mfn.* (रसायन) croconic
इत्कुकुमीय *n.* (रसायन) croconate
इद्द्राक्षार्ति = इद्द्राक्षा-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Ampelopsis
इद्द्राक्षि *f.* (जीवरसायन) ampelopsin
इद्द्राक्षेयि *f.* (जीवरसायन) ampelop-
sidin
इद्भृशजा *f.* (रसायन) terbia
इद्भृशजा *f.* (रसायन) terbium
-इन् (रसायन) -ein, -eine
इन्दुक *m.* (रैखिकी) lune
इन्दुकला *f.* (च क्षुपी) meniscus
इन्दुतीय *mfn.* (रैखिकी) lunar
इन्दुमूल *n.* (भेषजिकी) calombo = ca-
lumbo = colombo = columbo,
calumba (calumb.) = ca-
lumbae radix = calumba root
इन्दुमूल-निष्कर्ष *m.* tincture of
calumba = tinctura calum-
bae
इन्द्र- (इन्द्रनता आत्मा) natural
इन्द्रगोप *m.* 1 (खानिजी) carnelian
(a gem) 2 coccionella =
cochineal insect 3 coccus
4 (भेषजिकी) coccus cacti = co-
chineal

इन्द्रगोप-आदेश *m.* cochineal subs-
titute
इन्द्रगोपद्रु *m.* cochineal fig =
nopal
इन्द्रगोपद्रु-वग *n.* nopalry
इन्द्रगोपद्रुनी *f.* nopaline
इन्द्रगोप-निष्कर्ष *m.* tincture of
cochineal = tinctura cocci
इन्द्रगोप रक्त *m.* cochineal red
इन्द्रगोप-वंश *m.* Trombididae
इन्द्रगोप शोण *m.* cochineal scarlet
इन्द्रगोपाति = इन्द्रगोप-प्रजाति *f.* Trom-
bidium
इन्द्रगोपिक अम्ल *n.* (रसायन) coccinio
acid
इन्द्रगोपी *f.* coccine
इन्द्रधनु *n.* rainbow
इन्द्रधनुनील *m.* iris blue
इन्द्रधनुनीललोहित *m.* iris violet
इन्द्रधनु स्तकी *f.* irifamine
इन्द्रयव *n.* (भेषजिकी) underjab
इन्द्रयव ति = इन्द्रयव-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Wrightia
इन्द्रलुप्त *mfn.* bald
इन्द्रवारुणिति = इन्द्रवारुण-प्रजाति *f.*
Colocynthin
इन्द्रवारुणी *f.* (भेषजिकी) colocynth =
colocynthis = colocynthis
pulpa = colocynth pulp =
bitter apple
इन्द्रिय *n.* organ, senses
इन्द्रियग्राह्य *mfn.* sensible
इन्द्रियग्र हाता *f.* sensibility
इन्धन *n.* fuel
इन्धनदाता (-त्) *m.pl.* (अयोमार्ग)
stoker
-इन्ध *n.* (रसायन) -an
इयत्तया *adv.* quantitatively
इयत्ता *f.* (गणित) quantity
इयत्ता- *mfn.* (रसायन) quantitative
इयत्तात्मक *mfn.* quantitative
इयत्तात्मक निबन्ध *m.* quantita-
tive composition
इयत्तात्मक-रीति *f.* quantitative
way
इयत्तात्मक विभेदन *n.* (प्राणिकी) quan-
titative variation
इयत्ता-विश्लेषण *n.* quantitative
analysis
इयत्ता-सामग्री *f.* (सांख्यिकी) quantita-
tive data

इयदीक्षण *n.* (रसायन) titrate
 इयदीक्षा *f.* (रसायन) titration
 इयदीक्ष्य *n.* (रसायन) titer
 -इया *f.* (रसायन) -inone
 -इयिक *mfn.* (रसायन) -inic
 इरणि *n.* (भूगोल) Runn
 इ रश्मि *m.* (भौतिकी) gamma
 rays
 इरावती *f.* (भूगोल) Ravi
 -इल (रसायन) -il, -ile
 -इव *m.* (रसायन) -inol

इवण *m.* gamma
 इपीका *f.* match
 इपीका-धान *n.* match-box
 इष्ट *n.* desideratum
 इष्टका *f.* 1 block 2 brick
 इष्टका-निति *f.* brick-work
 इष्टका-चित्र *n.* (सांख्यिकी) block dia-
 gram
 इष्टका तथा संभार *m.* block and
 tackle
 इष्टका-रक्त *m.* 1 (रंग-देशना) brick

rod = lateritious = lateri-
 ceous 2 (शाकाण्विकी) Serratia
 इष्टकारक्त गुच्छगोलाणु *m.* Micrococ-
 cus cinnabareus
 इष्टकारक्त दण्डणु *m.* Bacillus late-
 riceus, Bacillus prodigiosus
 इष्ट गन्ध *m.* (अमरकोश से) agreeable
 smell
 इष्टस्थान-वसन *n.* (पारजैविकी) elective
 localization

र

रै delta
 -रै *f.* (रसायन) -ino
 रै अम्ल *n.* delta acid
 रैक्ष *m.* (तेजोन्नेप) scope=indica-
 tor
 -रैक्ष *m.* -scope
 रैक्षक *m.* observer
 -रैक्षक *m.* -scopist
 रैक्षण *n.* observe
 -रैक्षा -scopy
 रैक्षित *mfn.* observed
 -रैक्षीय -scopic, -scopical
 रैक्ष्य *n.* (सुदण) proof
 रैक्ष्य-पत्र *n.* (सुदण) proof-sheet
 रैक्ष्य-वाचक *m.* (सुदण) proof-reader
 रैक्ष्य-वाचन *n.* (सुदण) proof-reading
 रैक्ष्य-शोधन *n.* (सुदण) proof correc-
 ting, proof correction

रै धातु *m.* (रसायन) delta metal
 -रैन *m.* (रसायन) -yne
 -रैनव (-इन) (रसायन) -ynol
 -रैना (रसायन) -ynone
 -रैन्य *n.* (रसायन) -ane
 -रैय *n.* (रसायन) -ate
 रै रश्मि *m.* (रसायन) delta rays
 रैश्वराति = रैश्वर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Ixora
 रैश्वरी-कुल *n.* (औद्भिदी) Aristolo-
 chiaceae
 रैश्वरी-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Aristolo-
 chales
 रैश्वरीति = रैश्वरी प्रजाति *f.* Aristolo-
 chia
 रैषक-ष्ट सन्धि *m.* (शारीर) amphiar-
 throsis
 रैषच्छुक्त *mfn.* (रसायन) (रैष+शुक्त)

acoscent
 रैषत्क्षार *mfn.* alkalescent
 रैषत्क्षारता *f.* (रसायन) alkalescence,
 alkalescency (रैषत्क्षार alka-
 lescent)
 रैषदम्ल *mfn.* acidulent
 रैषदालग *mfn.* viscidulous
 रैषद जल-विलय *mfn.* slightly solu-
 ble in water
 रैषददृश्य विषी दण्डाणु *m.* Bacillus
 venenosus invisibilis
 रैषद विलय *mfn.* slightly soluble
 रैषा *f.* shaft
 रैषा-धातु *m.* (यान्त्र) shafting
 रैषा-मिथुनक *n.* (अभियन्त्रणा) shaft
 couplings
 रैषा-संहति *f.* (यान्त्र) shafting

उ

उ (उत्केन्द्रता) (गणित) e
 उ (उत्तर) N (north)
 उ (उदजन) (रसायन) H (hydrogen)
 उ (उद्देय) (रसायन) H (hydride)
 उ (उद्देश्य) (तर्कशास्त्र) S
 उ (कोण) θ (angle)
 उ (सुदुदांक-उत्थापन) delta Δ (ele-
 vation of boiling point)
 उ^२ द्विताणु (भौतिकी) ${}^2_1\text{H}$, ${}^2_1\text{D}$
 (deuteron)
 उ_अ रेखा *f.* (भौतिकी) H_a line
 उ_आ रेखा *f.* (भौतिकी) H_β line
 उ_इ रेखा *f.* (भौतिकी) H_γ line
 उ. ये. (उत्तर-देशानी) N.N.E. (North
 north east)
 उक्त *mfn.* in question

उखा *f.* (भौतिकी) kettle
 उगल *n.* (रसायन) acrylyl
 उगल *n.* (रसायन) (प्रजीरोग्रल carva-
 ceryl) acryl
 उगल- (रसायन) (उग्र-गन्धिन+ -ल)
 acryl-, acrylo-(acrylic)
 उगलिक *mfn.* (रसायन) acrylic
 उगलीय *n.* (रसायन) acrylate
 उग्र *mfn.* 1 acer, acrid 2 gra-
 vis 3 sharp
 उग्र- (रसायन) acr- (*Lat.* acer
 तीक्ष्ण)
 उग्र अवाहण *n.* drastic devalu-
 ation
 उग्रगन्ध पलाण्डु *m.* (लज्जुन) (औद्भिदी)
 Allium sativum (garlic)
 उग्र-गन्धिन *m.* (रसायन) acr-olein

उग्रता *f.* 1 (रसायन) acidity 2 in-
 tensity
 उग्रधु *m.* (रसायन) across
 उग्र-नीलवी *f.* (रसायन) acr-indo-
 line
 उग्र-पिगी *f.* (भेषजिकी) aci-flavine
 उग्रल *n.* (रसायन) acridyl
 उग्र-सुव्युद *m.* (रसायन) acr-alde-
 hyde
 उग्र *f.* (रसायन) acridone
 उग्रिक *mfn.* (रसायन) acridic
 उग्रिण्य *n.* (रसायन) acridan
 उग्रितव *m.* (रसायन) acritol
 उग्रियिक *mfn.* (रसायन) acridinic
 उग्रिल *n.* (रसायन) acrinyl
 उग्रो *f.* (रसायन) acridine
 उग्रो रंजक *m.* acridine dyes

उद्ययातु *m.* (रसायन) acridinium
 = acridonium
 उचित *mfn.* 1 expedient 2 fair
 उचिन-भृति *f.* fair wages
 उचित व्यापार *m.* fair trade
 उच्च *mfn.* 1 advanced 2 high,
 higher, upper 3 senior
 उच्च-अम्लता *f.* high acidity
 उच्च-आतति *f.* (चाक्षुषी) raised ten-
 sion
 उच्च-आतति-संदाय *n.* (भौतिकी) high
 tension cable
 उच्च उदभृत *n.* (मूर्तिकला) high
 relief = alto-relievo
 उच्चकोण-शनकनी *f.* howitzer
 उच्चण्ड *mfn.* (रसायन) drastic
 उच्चतम *mfn.* highest
 उच्चतम घात *m.* (गणित) highest
 dimension
 उच्चतम बिन्दु *m.* highest point
 उच्चतर *mfn.* excelsior, higher
 उच्चतर प्राधिकारिवर्ग *m.* higher
 authorities
 उच्च ताप *m.* high temperature
 उच्चताप-शंकु *m.* Seger cone
 उच्चत्व *n.* height
 उच्च निपीड *m.* (उ. नि.) (यान्त्रिकी)
 high pressure (h. p.)
 उच्च-निपीड तापन-विधि *m.* high pres-
 sure system of heating
 उच्च न्यायालय *m.* High Court,
 High Court of Judicature
 उच्च-न्यायालय-अभिवक्ता (-तृ) *m.* High
 Court pleader
 उच्च-न्यायालय न्यायाधीश *m.* judge of
 the High Court
 उच्च-न्यायालय-संघटन *n.* constitu-
 tion of High Courts
 उच्च पटल *n.* high table
 उच्च-पाठशाला *f.* high school
 उच्च-पूर्वता *f.* (अर्थशास्त्र) high priority
 उच्च-प्रयोगशाला *f.* senior labora-
 tory
 उच्च प्रवेग *m.* high velocity
 उच्च प्रशिक्षण *n.* advanced training
 उच्च प्राथम्य *n.* high priority
 उच्च रोधन *n.* (भूवेचन) high dam
 उच्चर्म *n.* (शारीर) cuticle
 उच्चर्म *f.* (जौवरसायन) cutin
 उच्चर्म-कोशाधु *n.* ento-cellulose
 उच्चर्मोपण *n.* (औद्भिदी) cutiniza =
 cuticularize, cutinization
 उच्चर्मोपित *mfn.* cutinized
 उच्च-द्वारवारता-वाह *m.* high-
 frequency current
 उच्च विनिमय *m.* (अर्थशास्त्र) high ex-
 change
 उच्च वेग *m.* (अभियन्त्रणा) high speed
 उच्च-शक्ति *f.* high power

उच्चशतकनी *f.* howitzer
 उच्च शून्यक *n.* (भौतिकी) high vacuum
 उच्चशून्यकोदञ्च *m.* high vacuum
 pump
 उच्च-सेवा *f.* upper service
 उच्च-स्थली *f.* plateau
 उच्चाटन *n.* overturn = capsizes
 (शकटोच्चाटन 'overturning a
 cart' from भागवत-पुराण)
 उच्चार *m.* (प्राणिकी) castings, ex-
 creta
 उच्चार-कूप *m.* cess-pool
 उच्चार-द्वार *n.* (प्राणिकी) cloacal
 aperture
 उच्चार-मार्ग *m.* (प्राणिकी) cloaca
 उच्चाचलन *n.* supraduction
 उच्चावच-जलरोध-योजना *f.* (भूसेचन)
 contour riding schemes
 उच्चावचन *n.* (वाणिज्य) fluctuate,
 fluctuating, fluctuation, rise
 and fall
 उच्चावचन-सम्पत्ति *f.* (वाणिज्य) fluct-
 uating assets
 उच्चैःप्रस्फोटन *n.* (सेना) altitude
 bombing
 उच्चैःयोधक *m.* (सेना) high-altitude
 fighter
 उच्छत्र *n.* (औद्भिदी) umbel
 उच्छत्र कुल *n.* (औद्भिदी) Umbelli-
 ferae
 उच्छत्र-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Umbelli-
 florae
 उच्छत्र-पंकज *m.* (औद्भिदी) Butomus
 umbellatus
 उच्छत्रिक *mfn.* (रसायन) umbellic
 उच्छद *m.* (प्राणिकी) epipharynx
 उच्छाखा *f.* (शारीर) ramus
 उच्छिन्न *mfn.* struck off
 उच्छीर्ष *mfn.* erect
 उच्छीर्षक सक्षेत्र *n.* (भौतिकी) erecting
 prism
 उच्छीर्ष-मूर्ति *f.* (चाक्षुषी) erect image
 उच्छुस्वायक अम्ल *n.* Bayer's acid
 उच्छेद *m.* ectomy
 उच्छेदन *n.* cancel (to strike out),
 excision, strike off
 उच्छोषण *n.* exsiccate
 उच्छ्राय *m.* (गणित) altitude
 उच्छ्राय- altitudinal
 उच्छ्रायान्वेष *m.* (तेजोन्वेष) mickey
 mouse = radar height finder
 उच्छ्वासन *n.* exhale, expiration
 (respiration इवसन)
 उच्छ्वासित वायु *m.* (स्वारिथकी) ex-
 pired air
 उज्जन *mfn.* enate
 उज्जनन *n.* (औद्भिदी) enation
 उज्जनन-वाद *m.* enation theory
 उज्जसि *f.* (तेजोन्वेष) beacon
 उज्ज्या *f.* (गणित) versed sine

उज्ज्वल कौशेय *n.* glossy silk
 उज्ज्वलन *n.* ignite, ignition
 उज्ज्व *m.* raft
 उज्ज्वक काल *m.* stellachrome
 black
 उज्ज्वन *n.* aviation, flight
 उज्ज्वन-काल *m.* time of flight
 उज्ज्वि-गोषिका *f.* (प्राणिकी) flying
 lizard
 उज्ज्वि-नौका *f.* (सेना) flying boat-
 उज्ज्वि-यन्त्र *n.* (वैमानिकी) flying
 machine
 उज्ज्वी (-इन्) *mfn.* flying
 उज्ज्वी प्रस्फाट *m.* (सेना) flying bomb
 उज्ज्वो मत्स्य *m.* (प्राणिकी) flying fish
 उज्ज्वी लोमश *m.* (प्राणिकी) flying
 fox
 उण्डुक *m.* (शारीर) caecum
 उण्डुक-नाल *m.* (प्राणिकी) caecal tube
 उण्डुक-पुच्छ *m.* (शारीर) appendix
 caeci = appendix vermiformis
 उण्डुकपुच्छ तर्कुरूप *m.* Fusiformis
 furcosus
 उण्डुकयुज *m.* (शारीर) mesocaecum
 उत् *mfn.* high (in saturation)
 उत्-ec-, supra-
 उत्कटोर *m.* inverted cup
 उत्कटोर-विधा *f.* (रसायन) Kessler's
 process
 उत्कटोर-साधित्र *n.* (रसायन) Kessler's
 apparatus
 उत्कण्ठ-स्तर *m.* stratum lucidum
 उत्कथन *n.* (वाणिज्य) quotation,
 quote vb.
 उत्कर्ष *m.* rise
 उत्कल *m.* Orissa
 उत्कलत्र *n.* (प्राणिकी) carapace
 उत्कीर्ण *n.* engrave, engraving
 उत्कीर्ण *mfn.* engraved
 उत्कीर्णरत्न *m.* litho-glyph
 उत्कीर्ण-श्रेणी *f.* engraved scale
 उत्कीर्ण *f.* glyph
 उत्कीर्णादिम *m.* litho-glyph
 उत्कृष्ट-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Epheo-
 laba
 उत्कृष्टजग (उत्कृष्टं गच्छति) *f.* (प्राणिकी)
 looper = measuring worm
 उत्कृष्टगति *f.* looping movement
 उत्कृष्टन-रीति *f.* (प्राणिकी) looping
 manner
 उत्कृष्ट *mfn.* superior
 उत्कृष्ट वृष्टु *f.* acme brown
 उत्कृष्ट-सेवा *f.* superior service
 उत्केन्द्र *mfn.* eccentric
 उत्केन्द्र कूर्पर *m.* (अयोमार्ग) eccentric
 crank
 उत्केन्द्र कोण *m.* eccentric angle
 उत्केन्द्रतया *adv.* (प्राणिकी) eccentric-
 ally
 उत्केन्द्रता *f.* eccentricity

उत्को = उत्क्रम-कोटिज्या *f.* (गणित) *co-*
ver-sine = covered sine
 उत्कोज्या *f.* (गणित) *versed cosine*
 उत्कोल *m., n.* (उत् superior + कोल
 jujube) apple
 उत्कोल- (रसायन) *malo-*
 उत्कोलक *n.* (औद्भिदी) pome
 उत्कोलकीट दण्डाणु *m.* *Bacillus*
melochloos
 उत्कोल-गन्ध दण्डाणु *m.* *Bacillus es-*
terificans
 उत्कोल-तैल *n.* apple oil
 उत्कोल पादप्रीणाणु *m.* *Erwinia*
amylophila
 उत्कोल-प्रजाति *f.* *Malus*
 उत्कोलभूयिल *m.* (रसायन) *malo-*
nitrile
 उत्कोल-मेह *m.* *malo-urea*
 उत्कोलशुलभाति = उत्कोलशुलभ-प्रजाति
f. (प्राणिकी) *Carpocapsa*
 उत्कोलायिक *mfn.* (रसायन) *malonic*
 उत्कोलायीय *n.* (रसायन) *malonate*
 उत्कोलाल *n.* *malonyl*
 उत्कोलिक अम्ल *n.* *malic acid*
 उत्कोलिरा *f.* *cider*
 उत्कोलिरा-तरलमान *m.* *cider hydro-*
meter
 उत्कोलीय *n.* (रसायन) *malate*
 उत्कोशन *n.* (प्राणिकी) *eclosion*
 उत्कोशप्रौढः *m pl.* (प्राणिकी) *Gregari-*
nida
 उत्कोशप्रौढाति = उत्कोशप्रौढ-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) *Gregarina*
 उत्क्रान्त *n.* (प्राणिकी) *howling*
 उत्क्रम *m.* (गणित) *inverse order* =
reverse order = *inverted*
order
 उत्क्रम-कोटिज्या *f.* (गणित) *covered*
sine
 उत्क्रमण *n.* 1 *reversal, reversion*
 2 (विद्युत्) *step up*
 उत्क्रम-परिवर्तित *n.* (भौतिकी) *stepup*
transformer
 उत्क्रम-माप *m.* (भौतिकी) *entropy*
 उत्क्रामण *n.* *reversal*
 उत्क्रम्य *mfn.* *reversible*
 उत्क्रम्यता *f.* *reversibility*
 उत्खलेदन *n.* (उद्भिद्-व्यापारिकी) *gut-*
tation
 उत्खनन *n.* *excavate, quarry*
 उत्खात *mfn.* *quarried*
 -उत्तन -*ectasia*
 उत्तम *mfn.* *superior*
 उत्तम अन्वायुक्त रेखा *f.* (सांख्यिकी) *line*
of best fit
 उत्तम पुरुषवाक् *m.* (प्राणिकी) *best*
talker
 उत्तमर्ग *m.* (वाणिज्य) *creditor*
 उत्तमर्ग-अपहार-संविधि *f.* *reserve for*
discount on creditors

उत्तमर्ग-प्रपञ्जी *f.* (वाणिज्य) *creditor's*
ledger = *supplier's ledger*
 उत्तम वाणीवाद *m.* (प्राणिकी) *best*
talker
 उत्तर 1 *n.* *answer* 2 *mfn.*
anterior 3 *dorsal* 4 *latter*
 5 *superior* 6 *upper*
 उत्तर-1 (वैदिकी) *dorsal* 2 (औद्भिदी)
secondary
 उत्तर अण्डाशय *m.* (औद्भिदी) *superior*
ovary
 उत्तर अधिस्तर *m.* (औद्भिदी) *dorsal*
epidermis, upper epidermis
 उत्तर अवपत्र *n.* *superior palea*
 उत्तर आगार *n.* *upper house*
 उत्तर-ऋजुपेशी *f.* (शारीर) *rectus*
superior, superior rectus
 उत्तरपेशानी (उ. प.) *f.* *north-north-*
east (N. N. E.)
 उत्तर ओष्ठ *m.* (प्राणिकी) *dorsal lip* =
upper lip
 उत्तर चतुर्थक *n.* (सांख्यिकी) *upper*
quartile
 उत्तरज मूत्र *n.* (औद्भिदी) *secondary*
root
 उत्तरज-शाखा *f.* (औद्भिदी) *second-*
ary branches
 उत्तरजात *mfn.* (औद्भिदी) *secondary*
 उत्तरजीवक *m.* *survivor*
 उत्तरजीवन *n.* *survival, survive*
 उत्तरजीवित *mfn.* *survived*
 उत्तरजीवी (-इन्) *mfn.* (वाणिज्य) *sur-*
viving
 उत्तरण-वाध्य *mfn.* *answerable, ob-*
liged to answer
 उत्तरणीय *mfn.* *answerable*
 उत्तरतिथीय *mfn.* *postdated*
 उत्तरतिसीय धनादेश *m.* *postdated*
cheque
 उत्तर-तिरश्ची = आक्षुपि-पेशी *f.* (शारीर,
 चाक्षुषी) *trochlear muscle* =
superior oblique = *obliquus*
superior
 उत्तरदन्त *m.* (शारीर) *teeth in max-*
illa
 उत्तरदानाधिकार *m.* *right of reply*
 उत्तरदायिता *f.* *responsibility*
 उत्तरदायित्व *n.* 1 *responsibility*
 2 *risk*
 उत्तरदायी (-इन्) *mfn.* *accountable,*
answerable, liable, respon-
sible
 उत्तरदायी अधिकारी (-इन्) *m.* *respon-*
sible officer
 उत्तरध्रुव *m.* *North Pole*
 उत्तरध्रुव-कट्टेदन्ध *m.* *Arctic zone*
 उत्तरध्रुव-प्रदेश *m.* *arctic region*
 उत्तर ध्रुवप्रभा *f.* (प्राणिकी) *aurora bo-*
realis
 उत्तर ध्रुव-वृत्त *n.* *arctic circle*

उत्तर-पश्चिमा (उ. प.) *f.* *west of*
north (N.W.)
 उत्तर-पाठशाला *f.* *upper school*
 उत्तर पाताल *n.* *North America*
 उत्तर पुष्पकोश *m.* (औद्भिदी) *superior*
calyx
 उत्तर-पूर्व (उ. पू.) *f.* *east of north*
(N.E.)
 उत्तर भाग *m.* *dorsal part*
 उत्तरभोग्य *mfn.* (वाणिज्य) *reversion-*
ary
 उत्तरभोग्यवार्षिकवृत्ति *f.* *reversionary*
annuity
 उत्तरभोग्य-वृद्धि *f.* *reversionary in-*
terest
 उत्तर-महानीला *f.* (प्राणिकी) *anterior*
vena cava = *superior vena*
cava = *pre cava*
 उत्तर-महासिरा *f.* (प्राणिकी) *precaval*
vein
 उत्तर रजतदीप *m.* *North America*
 उत्तर रन्ध्र *n.* (प्राणिकी) *dorsal pore*
 उत्तरवर्ती (-इन्) 1 *mfn.* *following,*
subsequent, succeeding 2 *m.*
 (औद्भिदी) *superior*
 उत्तर दन्त *n.* (प्राणिकी) *upper eye-*
lid = *palpebra frontalis* =
palpebra superior
 उत्तर-द्वर्धोन्नत *m.* = उन्मीलक-पेशी
f. (चाक्षुषी) *levator palpebrae*
superioris
 उत्तरदल्य *m.* (प्राणिकी) *metatroch*
 उत्तर-वायव्या *f.* *north-northwest*
(N. N. W.)
 उत्तर-वाहिनी *f.* (प्राणिकी) *dorsal*
vessel
 उत्तर विदर *m.* (प्राणिकी) *dorsal fis-*
sure
 उत्तरवृक्क *m.* (प्राणिकी) *metanephros*
 उत्तर-वृद्धि *f.* (औद्भिदी) *secondary*
growth
 उत्तरवैतन *n.* *pension*
 उत्तरवैतनदेय *mfn.* *pensionable*
 उत्तरवैतन-प्रणीवि *f.* *pension fund*
 उत्तरवैतन-समानीकरण प्रणीवि *f.* *pen-*
sion equalization fund
 उत्तरवैतनार्थ देयता *f.* *liability for*
pensions
 उत्तर-सदाक्य *n.* (तर्कशास्त्र) *episylllo-*
gism
 उत्तर-सेवनी *f.* (औद्भिदी) *dorsal*
suture
 उत्तरस्नातक *m.* *postgraduate stu-*
dent
 उत्तरहनु *f.* (शारीर) *maxilla, supe-*
rior maxilla
 उत्तर-हनु *f.* (प्राणिकी) *upper jaw*
 उत्तरहनु. *maxillary*
 उत्तरहनु-कीटर *n.* *maxillary sinus*
 = *maxillary antrum*

उत्तरहनु-चेता *f.* (शारीर) maxillary nerve, maxillary superior
 उत्तरहनु-दन्त *m.* maxillary teeth
 उत्तरहनु-मृश *m.* (प्राणिकी) maxillary palpus
 उत्तरहनु-वस्थि *n.* maxillary bone
 उत्तरा *f.* north (N.)
 उत्तरांग *n.* (तर्कशास्त्र) consequent
 उत्तरांग-आभास *m.* fallacia consequentis = fallacy of the consequent
 उत्तरांग-वचन *n.* (तर्कशास्त्र) affirming the consequent
 उत्तराण्डाशया *m. pl.* (औद्भिदी) Superae
 उत्तराधर *mfn.* 1 (औद्भिदी) dorsoventral 2 (प्राणिकी) dorsoventral
 उत्तराधर अक्ष *m.* (प्राणिकी) dorsoventral axis
 उत्तराधर पत्र *n.* (औद्भिदी) dorsiventral leaf
 उत्तराधर-हानव्य *mfn.* maxillo-mandibular
 उत्तराधरिक *mfn.* (औद्भिदी) dorsiventral
 उत्तराधिकार-कर *m.* succession duty
 उत्तराधिकारिता *f.* (विधि) succession
 उत्तराधिकारी (-इन्) *m.* heir, successor
 उत्तरानुबद्ध *mfn.* continued
 उत्तरान्त्र-वाहिनी *f.* (प्राणिकी) dorso-intestinal vessel
 उत्तरा हनुचेता *f.* superior mandibularis
 उत्तरोत्तर 1 *mfn.* gradual, successive 2 *adv.* successively
 उत्तरोत्तर अवकलन *n.* (गणित) successive differentiation
 उत्तरोत्तर अवधि *m.* successive period
 उत्तरोत्तर कर *m.* gradual tax, gradual taxation
 उत्तरोत्तर कोशा-भाजन *n.* (प्राणिकी) successive cell division
 उत्तरोत्तर प्रक्रम *m.* successive stage
 उत्तरोत्तर प्रहसन *n.* (प्राणिकी) progressive reduction
 उत्तरोत्तर-मात्रा *f.* graduated doses, successive doses
 उत्तरोत्तर माध्य *n.* (अर्थशास्त्र) successive average
 उत्तरोन्मुख *mfn.* north-seeking
 उत्ताप-दीप *m.* incandescent lamp
 उत्तापदीपन *n.* incandescence
 उत्तापदीप्त *mfn.* incandescent
 उत्तापदीप्त कन्द *m.* incandescent bulb
 उत्तापदीप्ति *f.* incandescence
 उत्तापन *n.* ignite, ignition

उत्तापन-ताप *m.* temperature of ignition
 उत्तापन-आर्ध्र *n.* ignition furnace
 उत्ताप-प्रावार *m.* incandescent mantle
 उत्ताप-विद्युदीप *m.* incandescent electric lamp
 उत्तापे-हासन *n.* (रसायन) thermo-reduction
 उत्ताल स्वर *m.* loud note
 उत्तिज *m.* sharpener
 उत्तीर्ण *mfn.* passed
 उत्तीर्ण *mfn.* shrill
 उत्तुला (= उद्यामतुला) *f.* scales
 उत्तेजन *n.* sharpening
 उत्तेजन-प्रस्तर *m.* sharpening stone
 उत्तेजित-विपणि *f.* (वाणिज्य) excited market
 उत्तैरल *n.* naphthyl
 उत्तैरलगन्ध रक्त *m.* naphthion red
 उत्तैरलगन्धिक *mfn.* naphthionic
 उत्तैरलेन्य *n.* (रसायन) naphthylene
 उत्तैरेण्य *n.* (रसायन) naphthene
 उत्तैरेण्यल *n.* (रसायन) naphthanyl
 उत्तैरल 1 *n.* naphtha 2 *mfn.* naphtho
 उत्तैरल अम्ल काल *m.* naphtho acid black
 उत्तैरलजन नील *m.* naphthogene blue
 उत्तैरल-तापमान *m.* naphtha thermometer
 उत्तैरलतिक्ती *f.* naphthamine
 उत्तैरलतिक्ती नीललोहित *m.* naphthamine violet
 उत्तैरलतिक्ती पीत *m.* naphthamine yellow
 उत्तैरलनभोनीलि *f.* naphthazurin
 उत्तैरलनील *m.* naphthanil
 उत्तैरलनील नारग *m.* naphthanil orange
 उत्तैरलनील निरक्त *m.* naphthanil garnet
 उत्तैरलनील नील *m.* naphthanil blue
 उत्तैरलनील रक्त *m.* naphthanil red
 उत्तैरलनील शोण *m.* naphthanil scarlet
 उत्तैरल-रक्ती *f.* naphtho-rubine
 उत्तैरलव *m.* naphthol
 उत्तैरलवन्न काल *m.* naphthofolm black
 उत्तैरलवर्ण नील *m.* naphthochrome blue
 उत्तैरलवर्ण नीललोहित *m.* naphtho violet
 उत्तैरलव-शुल्फायीय *n.* (रसायन) naphthol-sulphonate
 -उत्तैरलविक (रसायन) -naphtholic
 उत्तैरलवीय *n.* (रसायन) naphtholate

उत्तैरल-श्यामवा *f.* naphtha-cyanole
 उत्तैरलश्यामी नील *m.* naphthocya-nine blue
 उत्तैरल *f.* (रसायन) naphthone
 उत्तैरलजीवी *f.* naphthazine
 उत्तैरलि *f.* (रसायन) naphthalin
 उत्तैरलिक *mfn.* (रसायन) naphthoic
 उत्तैरली *f.* (रसायन) naphthine
 उत्तैरलीय *n.* (रसायन) naphthalate
 -उत्तैरलेन्य *n.* (रसायन) naphthalene
 -उत्तैरलेन्य (रसायन) -naphthene
 उत्तैरलेय *n.* (रसायन) -naphthalide
 उत्त्यजन *n.* give up
 उत्त्य *m.* boss
 उत्त्यली (उत् + स्थली) *f.* plateau
 उत्त्यशिर *n.* bosshead
 उत्त्यान *n.* latus rectum
 उत्त्याप *m.* 1 (यान्त्र, यांत्रिकी) jack 2 leaven
 उत्त्यापक *m.* elevator
 उत्त्यापन *n.* 1 advance (to raise to a higher rank, to promote, to elevate) 2 levitation
 उत्त्यापनस्थिरांक *m.* (य) (रसायन) elevation constant (K)
 उत्त्यापित भार *m.* (भौतिकी) weight lifted
 उत्त्याप्य द्विनाभि-उपनेत्र *n.* (चाक्षुषी) rising front bifocal glasses
 उत् पट्ट *m.* (उद् = उद्द्युत) (विद्युत्) positive plate
 उत्पत *mfn.* (रसायन) volatile
 उत्पत क्षारक *m.* (रसायन) volatile alkali
 उत्पतता *f.* volatility
 उत्पतता-परीक्षण-दिसक *m.* volatility testing disc
 उत्पत तैल *n.* (रसायन) essential oil
 उत्पतन *n.* flight
 उत्पतलेन्य *n.* (रसायन) eleoptene = elaeoptene
 उत्पत्ति *f.* product, production, turn-out, yield
 उत्पत्ति-एकक *n.* 1 (अर्थशास्त्र) unit of account 2 unit of output
 उत्पन्न *mfn.* produced
 उत्परिवर्तन *n.* mutation (sudden change)
 उत्परिवर्त-मंडल *n.* tropo-pause
 उत्पल-कुल *n.* (औद्भिदी) Nymphaeaceae
 उत्पलति = उत्पल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Castalia = Nuphar = Nymphaea
 उत्पश्चकपालाशुंद *n.* (प्राणिकी) exoccipital condyle
 उत्पातक *m.* evaporator
 उत्पातन *n.* volatilization
 उत्पातन-कन्दु *m.* volatilization oven

उत्पाद *m.* output, product, production
 उत्पादक-आयुर्विद्या -poiesis
 उत्पादक 1 *m.* producer 2 *mfn.* productive
 उत्पादक (आयुर्विद्या) -poietic
 उत्पादक-अधिपत्य *n.* producer's surplus
 उत्पादक-एकाधिकार *m.* producer's monopoly
 उत्पादक-भाटक *m.* producer's rent
 उत्पादक-कर *m.* (वाणिज्य) excise, excise duty
 उत्पादक-आयुक्त *m.* excise commissioner
 उत्पादक-निरीक्षक *m.* excise inspector
 उत्पादक-विभाग *m.* excise department
 उत्पादकरारोप्य *mfn.* excisable
 उत्पादक-वस्तु *n.* producer's goods
 उत्पादकारक *n.* (अर्थशास्त्र) factors of production
 उत्पाद-गणना *f.* (सांख्यिकी) census of production
 उत्पाद-देशनांक *m.* (सांख्यिकी) indices of production
 उत्पादन *n.* produce *vb.*, producing, product, production
 उत्पादन-अर्थशास्त्र *n.* economics of production
 उत्पादनकारक *m.* (अर्थशास्त्र) agents of production = factors of production
 उत्पाद-पिनिमय *m.* (अर्थशास्त्र) produce exchange
 उत्पादि कर्म *n.* (अर्थशास्त्र) productive work
 उत्पादि कर्म-कौशल *n.* productive efficiency
 उत्पादि कार्य *n.* (अर्थशास्त्र) productive work
 उत्पादित *mfn.* produced
 उत्पादित वस्तु *n.* produced goods
 उत्पादिता *f.* (अर्थशास्त्र) productiveness, productivity
 उत्पादिता-प्रतिपत्ति *m.* canon of productivity
 उत्पादिता-सिद्धान्त *m.* productivity theory (of interest)
 उत्पादि-मृत्ति *f.* productive wages
 उत्पादि वस्तु *n.* (अर्थशास्त्र) productive goods
 उत्पादि सामर्थ्य *n.* (अर्थशास्त्र) productive capacity
 उत्पादी (-इन्) *mfn.* productive
 उत्पादी उभोग *m.* (अर्थशास्त्र) productive consumption
 उत्पादी कर (बलि) *m.* (अर्थशास्त्र) productive duty

उत्पादी व्यय *m.* productive expenses
 उत्पादी श्रम *m.* (वाणिज्य) productive labour
 उत्पाद्वर्जन *n.* outflanking
 उत्पीतातिरक्त *m.* crab apple, English red, masturtium red, Peruvian yellow, tile red, totem
 उत्पीतातिहरि *mfn.* cadmium green
 उत्पीन *mfn.* (प्राणिकी) bloated
 उत्पूरण *n.* (रंग-देशना) filling up
 उत्प्रवहण *n.* (रसायन) effluence
 उत्प्रवासन *n.* emigration
 उत्प्रवासी (-इन्) *m.* emigrant
 उत्प्रवाह *m.* (रसायन) efflux
 उत्प्रवाही (-इन्) *mfn.* (रसायन) effluent
 उत्प्रशाय-कुल *n.* (औद्भिदी) Marchantiaceae
 उत्प्रशायति = उत्प्रशाय-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Marchantia
 उत्प्रेषण-लेख *m.* writ of certiorari
 उत्प्लवन *m.* (नौविकी) buoy
 उत्प्लवन *n.* rebound
 उत्प्लवनतुल्य *f.* hydrostatic balance
 उत्प्लवन-बल *n.* (विमानिकी) buoyancy force
 उत्प्लाविता *f.* buoyancy
 उत्प्लाविता-नियम (भौतिकी) *m.* principle of Archimedes
 उत्प्लावित्व *n.* buoyancy
 उत्प्लावी (-इन्) *mfn.* buoyant
 उत्प्लुतिमान *m.* reboundmeter
 उत्फलकाय *n.* (शारीर) acromion
 उत्फलकाय-acromial
 उत्फुल्ल *mfn.* (रसायन) efflorescent
 उत्फुल्लन *n.* (रसायन) effloresce, efflorescence
 उत्स *m.* fountain, spring (a water spring)
 उत्संज्ञा *f.* designation
 उत्संज्ञापन *n.* designate
 उत्सदन *n.* sublimate, sublimation
 उत्सदना *f.* (रसायन) sublimation
 उत्सर्ग *m.* 1 discharge 2 (योग्या) dismiss 3 (द्वैतिकी) excreta, excretion
 उत्सर्गद्वार *n.* nephrostome
 उत्सर्गनालिका *f.* (प्राणिकी) nephridium
 उत्सर्ग-नालिका-काय *m.* body of nephridium
 उत्सर्गनालिका-घट *m.* (प्राणिकी) nephroblast
 उत्सर्ग-प्रणाली *f.* excretory duct, nephridial duct
 उत्सर्ग-मुख *n.* (प्राणिकी) nephridio-

stome
 उत्सर्ग-रन्ध्र *n.* excretory pore, nephridiopore
 उत्सर्गाण *n.* (प्राणिकी) nephridium
 उत्सर्जन *n.* 1 dispose 2 excrete
 उत्सर्जन-संहति *f.* excretory system
 उत्साद *m.* (रसायन) sublimate *n.*
 उत्सादक *m.* 1 abolisher 2 (रसायन) sublimant
 उत्सादन *n.* 1 abolish, abolishment, abolition, abrogate, annul, cancel, set aside 2 (रसायन) sublimate *vb.*, sublimation
 उत्सादन-abolitionary
 उत्सादन-साधित्र *n.* sublimation apparatus
 उत्सादना *f.* (रसायन) sublimation
 उत्सादित *mfn.* sublimated
 उत्सादित श्वेत सीत *m.* (रंगदेशना) sublimated white lead
 उत्सारण *n.* 1 (अर्थशास्त्र) drain *vb.* 2 (भौतिकी) emit 3 evacuate, evacuation
 उत्सारित *m.* evacuee
 -उत्सारी (-इन्) *mfn.* -agogue (dispelling)
 उत्साहण, उत्साहवर्धन *n.* encouragement
 उत्सृष्ट *mfn.* excreted
 उत्सृष्ट *m.* elevation
 उत्सृष्ट-आदाता (-त्) *m.* (तेजोन्वेप) elevation receiver
 उत्सृष्ट-कोण *m.* (चाक्षुषी) elevation angle = angle of altitude
 उत्सृष्ट-प्रदोलेक्ष *m.* (तेजोन्वेप) elevation oculoscope
 उत्सृष्ट-प्रातन्तु *m.* (तेजोन्वेप) elevation antenna
 उत्सृष्टमान *m.* cathetometer
 उत्सृष्ट *m.* (खानिजी) fionite = siliceous sinter
 उत्सृष्ट *n.* sparkle *vb.*
 उत्सृष्टलिन *n.* scintillate, scintillation
 उत्सृष्ट *m.* explosive
 उत्सृष्टन *n.* blasting, explosion
 उत्सृष्टन-श्लोड *m.* blasting powder
 उत्सृष्टन-तेल *n.* blasting oil
 उत्सृष्टन-रीति *f.* (सेना) blasting method
 उत्सृष्टन-दिलिपि *f.* blasting gelatin
 उत्सृष्टि अपकरण *n.* explosive dispersal
 उत्सृष्टि-गोलिका *f.* explosive bullet
 उत्सृष्टि-शक्ति *f.* explosive-power
 उत्सृष्टि-दिलिपि *f.* explosive gelatin (blasting gelatin)
 उत्सृष्टी (-इन्) *mfn.* explosive

उत्स्फोटि संयोग *m.* explosive compound
 उत्स्फोटि-भूनिर्देश *n.* (रसायन) Du Pont nitrometer
 उत्स्यन्दन *n.* (भौतिकी) effuse
 उत्स्यन्द-मान *m.* effusio-meter
 उत्स्राव-कपाट *n.* (आत्मवह) exhaust valve
 उत्स्रावण *n.* exhaust *vb.*
 उत्स्रावण-अर्ध *m.* rate of exhaustion
 उत्स्राव-नाड *n.* exhaust pipe
 उत्स्राव-व्यजन *n.* exhaust fan
 उत्स्रावाच *m.* exhausting pump
 उत्स्रावित *mfn.* exhausted
 उत्स्रावित वरिमा (-मन्) *m.* (भौतिकी) exhausted space
 उत्स्वेद *m.* (औद्भिद-व्यापारिकी) transpiration
 उत्स्वेदन *n.* (औद्भिद-व्यापारिकी) transpiration
 उत्स्वेदन *n.* (औद्भिदी) transpire
 उत्स्वेदमान *m.* (औद्भिदी) potometer
 उत्स्वेद-त्राह *m.* (औद्भिदी) transpiration current = transpiration stream
 उद् (रसायन) *a.* ana- (on, up, upward)
 उद्- (उदजन) (रसायन) hydr-, hydro- (hydro-gen)
 उदत्तफलक *n.* (प्राणिकी) supra-scapula
 उद-कोशाधु *n.* (रसायन) hydro-cellulose
 उदक्षधर्वर *m.* capstan
 उदक्षामेय काल लेपी *f.* (रंगदेशन) hydranthrene
 उद-क्षालन *n.* rinse
 उदक्षि-गलगंड *m.* exophthalmic goitre = Graves disease
 उदक्षिगोल *n.* (आयुर्विद्या) exophthalmos = exophthalmus
 उदक्षिगोल-गलगंड *m.* exophthalmic goitre = Graves' disease
 उद-क्षौद्रिक अम्ल *n.* hydro-mellitic acid
 उद-गिरिप्रभूर्जिक *mfn.* (रसायन) hydro-sorbic
 उदग्र *mfn.* vertical
 उदग्र अक्ष *m.* vertical axis
 उदग्र छेद *m.* (भौतिकी) vertical section
 उदग्रतया *adv.* vertically
 उदग्र दण्ड *m.* (सांख्यिकी) vertical bar
 उदग्र रिक्ति *f.* (औद्भिदी) orthostichy
 उदग्र वाष्पित्र *n.* vertical boiler
 उदग्र वाष्पित्र-स्थाप *m.* (अयोमार्ग, अमि-यंत्रगा) vertical boiler stays
 उदग्र नध्य व्यवधान *n.* (प्राणिकी) ver-

tical median partition
 उदग्र-मापश्रेणी *f.* (सांख्यिकी) vertical scale
 उदग्रतोही (-इन्) *m.* helicopter
 उदग्र वटन *n.* (प्राणिकी) vertical distribution
 उदग्र वृत्त *n.* (गणित) vertical circle
 उदग्र वेडम *n.* vertical chamber
 उदग्र-श्रम-चलिष्णुता *f.* (अर्थशास्त्र) vertical labour mobility
 उदग्र संयोग *m.* (वाणिज्य) vertical combination
 उदग्र समतल *n.* vertical plane
 उदग्र-स्थिति *f.* (भौतिकी) vertical position
 उदग्रोधोमुख *mfn.* vertically downward
 उदग्रोधोमुख-दिशा *f.* vertically downward direction
 उदग्रोन्मुख *mfn.* vertically upward
 उद-घृषि *m.* (रसायन) hydro-rubber
 उद-चक्रिक *mfn.* (रसायन) hydro-cyclic
 उद-जन *m.* (रसायन) hydro-gen
 उदजनक *m.* (रसायन) 1 hydro-generator 2 hydrogenite
 उदजनन *n.* (रसायन) hydrogenate *vb.*, hydrogenation
 उदजन-प्रभावन *n.* (रसायन) hydrogenate [to expose to (to subject to the influence or action of) hydrogen]
 उदजन-योजन *n.* (रसायन) hydrogenate (to combine with hydrogen)
 उदजन-शुल्बेय नानारूप *m.* Proteus sulfureus
 उदजन-सदृश *mfn.* (भौतिकी) hydro-genic
 उदजनसाधन *n.* (रसायन) hydrogenate (to treat with hydrogen)
 उदजनिक *mfn.* (भौतिकी) hydrogenic
 उदजनिक परमाणु *m.* (रसायन) hydrogenic atom
 उदजनित पेषणीतैल *n.* hydrogenated mill oil
 उदजनेद *n.* (जीवरसायन) hydrogenase
 उदजनेय *n.* (रसायन) hydrogenide
 उदजन्य *mfn.* hydrogenous
 उद-जन्विक *mfn.* (रसायन) hydr-iodic
 उदजन्विक अम्ल *n.* hydr-iodic acid
 उद-जन्वीय *n.* (रसायन) hydr-iodate
 उद-जन्वेय *n.* (रसायन) hydr-iodide
 उदजा-सिक्तिक *mfn.* (रसायन) hydro-xamic

उदजा-तिक्ती *mfn.* (रसायन) hydro-xamino
 उदजा-तिक्ती- (रसायन) hydro-xamino-
 उदजा-तिक्तीक *mfn.* (रसायन) hydro-xamino
 उदजार *mfn.* (रसायन) hydroxy
 उदजार- *n.* (रसायन) hydroxy-(hydroxyl)
 उदजार-द्वादशीन्यिक अम्ल *n.* hydroxy-dodecanic acid = sabinic acid
 उदजारल *n.* (रसायन) hydroxyl
 उदजारल-तिक्ती (रसायन) *f.* (रसायन) hydroxylamine
 उदजारलतिक्ती उद-नीरेय *n.* hydroxylamine hydro-chloride
 उदजारलतिक्ती शुल्बीय *n.* (रसायन) hydroxylamine sulphate
 उदजारलन *n.* (रसायन) hydroxylate *vb.*, hydroxylation
 उदजारलिक *mfn.* (रसायन) hydro-xylic
 उदजारद *m.* (रसायन) catalase
 उद-जारेय *n.* (रसायन) hydr-oxide
 उदंच *m.* pump
 उदचन *n.* pump *vb.*, pumping
 उदचन-क्रिया *f.* pumping action
 उदचन-सयन्त्र *n.* pumping plant
 उदच-मस्जक *m.* (भौतिकी) pump plunger
 उदच-वेश्म *n.* pump chamber
 उदणु (= उदबुदणु) *m.* (भौतिकी, रसायन) positron
 उद-तर-सैकतिक अम्ल *n.* hydro-flu-silicic acid
 उद-तरस्विक *mfn.* (रसायन) hydro-fluoric
 उदतरस्विकाम्ल-योजन *n.* (रसायन) fluoride *vb.*
 उदतरस्विकाम्ल-साधन *n.* (रसायन) fluoride *vb.*
 उद-तरस्वेय *n.* (रसायन) hydro-fluoride
 उद-ताम्रवल्की *f.* (रसायन) hydro-cupriene
 उद-तिक्ती *f.* (रसायन) hydr-amine
 उद-दारुसिक्तिक *mfn.* (रसायन) hydro-cinnamic
 उद-दारुसिक्तिक अम्ल *n.* hydro-cinnamic acid
 उद-दुरिक *mfn.* (रसायन) hydro-bromic
 उद-दुरिक अम्ल *n.* hydro-bromic acid
 उद-दुरिक दह्यु *m.* hydro-bromic ether
 उद-दुरीय *n.* (रसायन) hydro-bromate
 उद-दुरेय *n.* hydro-bromide
 उद-धूप *n.* (रसायन) hydro-benzoin

उद-भूप-तिकतेय *n.* (रसायन) hydro-benz-amide
 उद-नालि *f.* (रसायन) hydantoin
 उद-नालिक *mfn.* (रसायन) hydantoic
 उद-नालीय *n.* (रसायन) hydantoate
 उद-निनीलेन्य *n.* (रसायन) hydriindene
 उद-नीकुल्येय *n.* (रसायन) hydrohalide
 उद-नीरिक *mfn.* (रसायन) hydrochloric
 उद-नीरिक अम्ल *n.* hydrochloric acid = acidum hydro-chloricum
 उद-नीरीय *n.* (रसायन) hydro-chlorate
 उद-नीरेय *n.* (रसायन) hydro-chloride
 उद-नीर्य अम्ल *n.* hydro-chlorous acid
 उद-नैद्री *f.* (रसायन) hydro-cotarnine
 उद-न्य-सिक्थ *n.* (भेषजिकी) cearin
 उद-पित्त-रन्कि *f.* (जीवरसायन) hydro-bili-rubin
 उद-पित्तिक -hydrocholic
 उद-वाहतिक अम्ल *n.* hydr-atropic acid
 उद-भूर्विक *mfn.* (रसायन) hydro-nitric
 उद-मिहिक *mfn.* (रसायन) hyd-urilic
 उद-मिहीय *n.* (रसायन) hyd-urilate
 उद-मेचेय *n.* (रसायन) hydro-sele-nide
 उदय *m.* effects, proceeds, yield
 उदयद्वीप *m.* (भूगोल) Nippon = Japan
 उदयन *n.* (भौतिक रसायन) (उद up + अयन going) anion
 उदयवर्ष-सिक्थ *n.* Japan wax
 उदयवषिक अम्ल *n.* (रसायन) japonic acid
 उदर *n.* (शारीर) abdomen, venter
 उदर-celi-, coeli-, coelio-
 उदर-कजुपेशी *f.* (शारीर) rectus abdominis
 उदर-कीकस *n.* lumbar = lumbar vertebra
 उदर-गुहा *f.* (शारीर) abdominal cavity = peritoneal sac
 उदरगुह्य *mfn.* coeliac
 उदरच्छद *m.* (शारीर) peritoneum
 उदरच्छदकोप *m.* (आयुर्विद्या) peritonitis
 उदरच्छद-पृथ्वीय *mfn.* (प्राणिकी) retro-peritoneal
 उदर-धान *n.* (शारीर) abdominal pouch
 उदरपाद चूर्णप्रावार *m.* (प्राणिकी) gastropod mollusc

उदरपादाः *m.pl.* (प्राणिकी) Gastro-poda
 उदर भारंगी *f.* (श्रीद्विदी) Clerodendron infortunatum
 उदरभित्त्वादिपचन *n.* (प्राणिकी) auto-digestion
 उदरवर्ष *n.* (प्राणिकी) plastron = ventral shield
 उदरावुद *m.* (शारीर) peritoneal tumor
 उदरावुदीय शर्कराकवक *n.* Saccharomyces blanchardi
 उद-रुक्कवकी *f.* (रसायन) hydro-ergobinine
 उदक *m.* consequence
 उदरपण *n.* extradition
 उदल -hydryl
 उद-लवण *n.* (रसायन) hydro-salt
 उदलूनाति = उदलूना-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Astacus
 उदलूना-वंश *m.* (प्राणिकी) Astacidae
 उदलूती *f.* astacine
 उदव *m.* (रसायन) hydriol
 उद-वंगकिक अम्ल *n.* hydro-telluric acid
 उदवनम्यता *f.* (अर्थशास्त्र) elasticity
 उदवनम्यता-प्रनियम *m.* canon of elasticity
 उद-विज्वरव *m.* (रसायन) hydro-quinol
 उद-विज्वरा *f.* (रसायन) hydro-quinone
 उद-विज्वरी *f.* (रसायन) hydro-quinine
 उद-वितापी *f.* (रसायन) hydro-cinchonine
 उद-शुक्तिक *mfn.* (रसायन) hydro-acetic
 उद-शुक्त्र-श्यामिक *mfn.* (रसायन) hydro-sulpho-cyanic
 उद-शुक्वारिल *n.* (रसायन) hydro-sulphuril
 उद-शुक्वार्य *mfn.* (रसायन) hydro-sulphurous
 उद-शुक्चित *n.* (रसायन) hydro-sulphite
 उदशुक्चित मोचन आपन्न *m.* hydro-sulphite discharge pink
 उदशुक्चित मोचन नारंग *m.* hydro-sulphite discharge orange
 उदशुक्चित मोचन हरि *m.* hydrosulphite discharge green
 उद-शुक्वीय *n.* (रसायन) hydro-sulphate
 उद-शुक्वेय *n.* (रसायन) hydro-sulphide
 उद-शुक्वेयित *mfn.* (रसायन) hydro-sulphurated = hydro-sulphureted
 उद-श्यामिक *mfn.* (रसायन) hydro-

cyanic = prussic
 उद-श्यामिक अम्ल *n.* hydro-cyanic acid = prussic acid
 उदश्यामीय *n.* (रसायन) prussiate
 उद-श्यामेय *n.* (रसायन) hydro-cyanide
 उदश्यामेय *n.* (रसायन) -prusside
 उद-सरलेन्य *n.* (रसायन) hydro-terpeno
 उद-सैकता *f.* (रसायन) hydro-silicon
 उद-सैकतिय *n.* (रसायन) hydro-silicate
 उद-सौरभिक *mfn.* (रसायन) hydro-aromatic
 उदस्थिमत् *mfn.* bony
 उदस्फोट *m.* (आयुर्विद्या) blister
 उदस्फोट-तरली *f.* (भेषजिकी) epispastic liquor
 उदस्फोट-प्रजाति *f.* (श्रीद्विदी) Caesulia
 उदस्फोट भृङ्ग *m.* blister beetle = Spanish fly
 उदस्फोट-विलयन *n.* liquor epispasticus = blistering liquid
 उदा *f.* (भौतिक रसायन) hydrone
 उदाकर्ष *m.* drawers, till
 उदाकर्ष-नाल *m.* draw tube
 उदाकर्ष-राशि *m.* (अधिकीय) till money
 उदाकृष्य सप *m.* pull-out slide
 उदाघात *m.* upstroke
 उदांगार *m.* (रसायन) hydro-carbon
 उदांगारवर्गीय *mfn.* hydro-carbonaceous
 उदांगारिक *mfn.* (रसायन) hydro-carbonic
 उदांगारीय *n.* (रसायन) hydro-carbonate
 उदांगार्य *mfn.* (रसायन) hydro-carbonous
 उदाज *mfn.* hydrazo
 उदाज- (रसायन) hydrazo-
 उदाजक *mfn.* hydrazo
 उदाज-द्वि-वज्र-तिकतेय (द्वि-प्रांगार-तिकतेय) *n.* (रसायन) hydrazo-di-formamide
 उदाज-धूपेन्य *n.* (रसायन) hydrazo-benzene
 उदाज-विरालेन्य *n.* (रसायन) hydr-azotoluene
 उदाजी- (रसायन) hydrazo-
 उदाजी-प्रोदलेन्य *n.* hydrazo-methylene
 उदाजीवा *f.* (रसायन) hydrazone
 उदाजीविक *mfn.* (रसायन) hydrazoic
 उदाजीवी (रसायन) hydrazino-
 उदाजीवीय *n.* (रसायन) hydr-azoate
 उदाजीवेय *n.* (रसायन) hydrazide
 उदाजीवेशी *f.* (रसायन) hydrazidine
 उदाजजारिज *m.* stibiconite

उदात्तजारेय *n.* (रसायन) hydro-
peroxide
उदानन्तमूलिक *mfn.* (रसायन) hydro-
coumaric, hydro-cumaric
उदापद् *f.* emergency
उदापद्-अधिकारी (-इन्) *m.* emergency
officer
उदापद्-योग *m.* emergency pres-
cription
उदास्य *n.* (रसायन) hydracid
उदासास *m.* colophony = colo-
phonium = rosin
उदासासिक अम्ल *n.* (रसायन) colo-
phonic acid
उदासासीय *n.* (रसायन) colopho-
nate
उदासासेन्य *n.* (रसायन) colophene
उदासासेन्यिक अम्ल *n.* (रसायन) colo-
phenic acid
उदावर्त *m.* (औद्भिदी) anatropos
उदावर्तति = उदावर्त-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Hydrilla
उदासर्ग *m.* secretion
उदासर्ग- secretory
उदासर्ग-कणिका *f.* (प्राणिकी) secretory
granules
उदासर्गि *f.* (जीवरसायन) secretin
उदासर्जक *mfn.* secretory
उदासर्जक-प्रणाली *f.* (औद्भिदी) secre-
tory duct
उदासर्जन *n.* (औद्भिदी) secrete
उदासीन *mfn.* neutral
उदासीनता-नियम = विपणि-नियम *m.*
law of indifference = law of
market
उदास्तर *m.* (औद्भिदी) amphi-
thecium
उदास्थी *f.* (रसायन) hydro-collid-
ine
उदाहरण *n.* example
उदि *mfn.* (रसायन) hydrin
उदिक *mfn.* (रसायन) hydric
उदीन्यत्र *m.* -hydranol
उदुदुब्ज *mfn.* convexo-convex
उदुब्ज 1 *m.* (आत्मवह) bulge 2 *mfn.*
convex
उदुब्जन *n.* bulging out
उदुब्ज वीक्ष *m.* (भौतिकी) convex
lens
उदुम्बर वट *m.* (औद्भिदी) Ficus
glomerata
उद्दहानि *f.* loss sustained
उद्दर *m.* (प्राणिकी) trochanter
उद्दुजु *mfn.* upright
उद्देय *n.* (रसायन) hydride
उद्दोगलिक *mfn.* (रसायन) hydr-
acrylic
उद्दोगलीय *n.* (रसायन) hydr-acry-
late
उद्दोष *m.* (प्राणिकी) labrum (upper

lip of insects)
उद्दोष-उच्छद *m.* (प्राणिकी) labrum
epipharynx
उद्दोषधर *m.* (प्राणिकी) clypeus
उद्दमन *n.* 1 (प्राणिकी) eruption
2 (तर्कशास्त्र) induction
उद्दमनाभास *m.* (तर्कशास्त्र) fallacy
of induction
उद्दमे-रोध *m.* (अर्थशास्त्र) stoppage at
source
उद्दामि-रीति *f.* (तर्कशास्त्र) inductive
method
उद्दामी तर्क *m.* inductive logic
उद्दारिका *f.* syringe
उद्दारिका-सूची *f.* syringe needle
उद्दारिका-सूची उर्तज *m.* syringe
needle sharpener
उद्दारिण *n.* emit
उद्दारिण-रंगावलि *f.* (भौतिकी) emis-
sion spectrum
उद्दारिण-शक्ति *f.* (भौतिकी) emissive
power
उद्दोहन *n.* (प्राणिकी) out-pocke-
tings
उद्दामण *n.* clutch out
उद्दधर्वर *m.* capstan
उद्दधर्षक *m.* eraser
उद्दधर्षण *n.* erase, erasing, cancel
उद्दधर्षण क्षुरी *f.* erasing knife
उद्दघाटक *m.* opener
उद्दघाटन *n.* 1 disclose 2 expose
3 opening
उद्दघाटन-अनुदान *n.* inauguration
grant
उद्दघाटन-रज्जु *f.* (वैमानिकी) rip
cord
उद्दघाटि कपाट *n.* (आत्मवह) cam-
opening valve
उद्दघोषणा *f.* proclamation
उद्दण्ड *m.* crow-bar
उद्दन्त *m.* 1 (आत्मवह) crown 2
tusk
उद्दन्त-चक्र *n.* (यान्त्र) crown wheel
उद्दन्त-दन्तिका-चक्र (आत्मवह) crown
and pinion wheels
उद्दहन *n.* (रसायन) deflagrate, de-
flagration
उद्दहन-कलश *m.* deflagrating jar
उद्दहन-गोलक *m.* deflagrating globe
उद्दहन-सूत्र *m.* (रसायन) deflagrating
or deflagration spoon
उद्दहक *m.* (रसायन) deflagrator
उद्दह्य *mfn.* deflagrable
उद्दह्यता *f.* deflagrability
उद्दोषक *m.* 1 incentive 2 stimu-
lant, stimulus
उद्दोषक पेय *n.* stimulant beverage
उद्दोषन *n.* 1 (प्राणिकी) excitory
stimulus 2 irritate = stimu-
late, irritation = stimulation

उद्दोषन-प्रकाश *m.* (भौतिकी) exciting
light
उद्दोषना *f.* (दृष्टिकी) irritation =
stimulation, stimulus
उद्दोष्य *mfn.* (दृष्टिकी) irritable
उद्दोष्यता *f.* (दृष्टिकी) irritability
उद्देशक *m.* (गणित) hints = points
उद्देश्य *n.* 1 objective 2 subject
उद्द्युत् *f.* positive electricity
उद्द्युतीय *mfn.* electropositive
उद्द्युत्-प्रभार *m.* (भौतिकी) positive
charge
उद्द्युत्-प्रभृत *mfn.* (विद्युत्) positively
charged
उद्द्युत्-प्रभृत काय *m.* (भौतिकी) posi-
tively charged body
उद्द्युत्प्रयन *n.* positive ion
उद्द्वार *n.* anode
उद्द्वार-विपाक *m.* anode effect
उद्दक्कन *n.* jolting
उद्दक्का *f.* jolt
उद्दर-कुञ्ची *f.* shift key
उद्दरण *n.* 1 extract *vb.*
2 (वाणिज्य) quotation, quote
उद्दर्यतिनील *m.* grotto, grotto blue,
Italian blue
उद्दर्यानील *m.* Guinea green
उद्दर *m.* 1 borrowing 2 credit,
loan
उद्दरग्रहण *n.* borrow, borrowing
उद्दरग्रहीता (-त्) borrower
उद्दरग्राहि-शक्ति *f.* (अर्थशास्त्र) borrow-
ing power
उद्दरद, उद्दर-दाता (-त्) *m.* (वाणिज्य)
lender
उद्दर-दान *n.* lending
उद्दर-पट्ट *m.* leave lend
उद्दरप्रतिभूति-अन्तर *n.* (वाणिज्य) mar-
gin
उद्दर-राशि *m.* borrowed money
उद्दरशक्ति *f.* (अर्थशास्त्र) borrowing
power
उद्दरी (-इन्) *m.* borrower
उद्दविक *m.* (रसायन) scrubber
उद्दविक-विधा *f.* (रसायन) Linde's
process
उद्दवन *n.* 1 (स्वास्थिकी) flushing
2 (रसायन) scrub
उद्दवन-कुर्ची *m.* scrubbing brush
उद्दवन-कोष्ठ *m.* scrubbing room
उद्दवन-जलाशय *m.* (भौतिकी) flushing
tank
उद्दवन-पद्धति *f.* (स्वास्थिकी) flushing
system
उद्दवन-संहति *f.* (स्वास्थिकी) flushing
system
उद्दवना *f.* flush
उद्द्वत-ताल *m.* (सुदृक्लि) shift lock
उद्द्वव *m.* (उद् = उद्द्युत्) (विद्युत्) posi-
tive pole

उद्वन्धन *n.* peg
 उद्वाष्पक *m.* evaporator
 उद्वाष्पन *n.* evaporate, evaporation
 उद्वाष्पन-उपमान *m.* (भौतिकी) Berthelot's calorimeter
 उद्वाष्पन द्रव *m.* evaporation fluid
 उद्वाष्पन-साधन *n.* evaporation apparatus
 उद्वाष्पमान *m.* atmometer = evaporimeter, evaporometer
 उद्वाहु *m.* (शारीर) brachium
 उद्वाहु-नीला *f.* cephalic vein
 उद्वाहु-सिरा *f.* brachial vein
 उद्बुद *m.* bubbler
 उद्भरण *n.* (अयोमार्ग) loading
 उद्भरण-आमान *m.* (अयोमार्ग) loading gauge
 उद्भरण-व्यय *m.* (वाणिज्य) loading charges
 उद्भव *m.* evolution, origin
 उद्भवन *n.* originate
 उद्भव-वेदम *n.* originating chamber
 उद्भवन *n.* bring into play
 उद्भूत *mfn.* brought into play
 उद्भूजात *n.* flora
 उद्भूतकाय *m.* (औद्भिदी) plant body
 उद्भूत-कोशा *f.* (औद्भिदी) plant cell
 उद्भूत-क्षारक *m.* vegetable alkali = vegeto-alkali
 उद्भूत-पदार्थ *m.* vegetable matter
 उद्भूतप्रमावण *n.* plant breeding
 उद्भूतप्राणिनः *m.pl.* (प्राणिकी) Zoophyta
 उद्भूत-प्राणिवृत्त *n.* zoophytography
 उद्भूतप्राणी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) zoophyte
 उद्भूतसंघ *m.* (पारिस्थिकी) plant society
 उद्भूतसदृश पोषण *n.* (औद्भिदी) holophyte nutrition
 उद्भूतसमाज *m.* (पारिस्थिकी) plant association
 उद्भूत समुदाय *m.* (पारिस्थिकी) plant community
 उद्भूत समूह *m.* (औद्भिदी) vegetation
 उद्भूत-सृष्टि *f.* plant kingdom, vegetable kingdom
 उद्भिद् *f.* plant
 उद्भिद्- botan-, botano-, phyto-
 उद्भिद्-phyton
 उद्भिद्-अनुसृष्टि *f.* (औद्भिदी) subkingdom of plants
 उद्भिद्-उपसमाज *m.* plant consociation
 उद्भिद्-भूवृत्त *n.* (औद्भिदी) phyto-geography
 उद्भिद्-रंग *m.* vegetable colour

उद्भिद्-रंजक *m.* vegetable dyes
 उद्भिद्-रसायन *n.* phyto-chemistry
 उद्भिद्-विद्या *f.* (ancient word) botany
 उद्भिद्-वकारिकी *f.* plant-pathology
 उद्भिद्-व्यापारिकी *f.* plant physiology
 उद्भिद्-संग्रहण *n.* botanize
 उद्भिन्न *mfn.* (औद्भिदी) germinated
 उद्भूत *mfn.* 1 brought into play
 2 originated
 उद्भूत *n.* (मूर्तिकर्म) relief
 उद्भूत-मूर्ति *f.* relief image
 उद्भूतन *n.* 1 (प्राणिकी) eruption
 2 (औद्भिदी) germinate, germination
 उद्भेदि बीज *n.* germinating seed
 उद्भ्रमण *n.* hover
 उद्भ्रमि-नक्षी *f.* hover fly
 उद्यान *n.* (भूगोल) Swat valley
 उद्यानक *n.* (भूगोल) Kafiristan
 उद्यान-कर्म *n.* horticulture
 उद्यानकर्म- *mfn.* horticultural
 उद्यान-गोधिका *f.* (प्राणिकी) garden lizard
 उद्यान निवापदलीक *m.* Petunia hybrida
 उद्यान पादप *m.* garden plant
 उद्यानमृद् दण्डाणु *m.* Bacillus spirochus
 उद्यान-रत्ना *f.* (प्राणिकी) garden spider
 उद्याम *m.* lever
 उद्याम-कुञ्ची *f.* lever key
 उद्याम-क्रिया *f.* leverage
 उद्यामन *n.* leverage
 उद्याम-प्रतियोग *m.* (गणित) principle of the lever
 उद्याम-बाहु *m.* arm of a lever
 उद्याम-संघ *m.* (भौतिकी) orders of levers
 उद्याम-रचना *f.* (औद्भिदी) lever mechanism
 उद्याम-लाभ *m.* leverage
 उद्याम-विन्यास *m.* leverage
 उद्याम-सवियुक्त *m.* lever switch
 उद्याम-संहति *f.* 1 leverage
 2 system of levers
 उद्यास *m.* resin
 उद्यास- resinous
 उद्यास-कुल्या *f.* resin canal
 उद्यास-कूप *m.* (औद्भिदी) resin cavity
 उद्यासपटलेप *m.* emplastrum resinae
 उद्यास लेप *m.* (भैषजिकी) resin plaster
 उद्याम-रनेहलेप *m.* unguentum resinae = resin ointment
 उद्यासित *mfn.* resined
 उद्यासीय *n.* (रसायन) resinate

उद्यासोपल *m.* (खानिजी) resin opal
 उद्युज-सूत्र *n.* (रसायन) Thiele formula
 उद्योग *m.* industry
 उद्योग-अधिपति *m.* captain of industry
 उद्योग-अवनति *f.* deterioration of industry
 उद्योग-कर्मण्यता-देशनांक *m.* (सांख्यिकी) indices of industrial activity
 उद्योग-तन्त्र *n.* industrialism
 उद्योग-नायक *m.* captain of industry
 उद्योगपति *m.* industrialist
 उद्योग-प्रयुक्त *mfn.* industrially used
 उद्योग-रक्षण *n.* (अर्थशास्त्र) protection of industry
 उद्योगविकसित *mfn.* industrialized, industrially developed
 उद्योग-विकासन *n.* industrialization, industrialize
 उद्योग-संघटन *n.* (अर्थशास्त्र) organization of industries
 उद्योग-समन्वय *m.* coordination of industries
 उद्योग स्थानसीमन *n.* (अर्थशास्त्र) localization of industries
 उद्योगे *adv.* industrially
 उद्योगे विकसित *mfn.* industrially developed
 उद *m.* otter (from Sanskrit उदः cf. Lithuanian *udra*)
 उदक *m.* Eugenia, red, Hebe, cherry blossom, rose madder, rose Nilsson, spinel red
 उदकपीत *m.* fenille-morte, leather lake, foliage brown, gold pheasant, Prussian brown, Mars yellow, mast, mast brown, oriole, tan, platina yellow, prairie brown, spice, titian, Windsor tan
 उदकतातिनील *m.* amparo purple, Hortense violet
 उदकतातिपीत *m.* nugget = bronze yellow
 उदकतानील *m.* cobalt red, hellebore red, spinel pink
 उदकपीत *m.* coral, coral red, fiesta, flamingo, jasper red, old coral, lacquer, Ruben's madder, lacquer red, pepper red, raspberry red, tangerine
 उददेश *m.* (भूगोल) Orissa
 उदरेख *m.* drawing (outlining a figure)

उद्रेख-अंकनी *f.* drawing pencil
 उद्रेख *n.* drawing (outlining a figure)
 उद्रेख-पत्र *n.* drawing paper
 उद्रेख-फलक *n.* drawing board
 उद्रेख-मसी *f.* drawing ink
 उद्रेख-मापनी *f.* scale of drawing
 उद्रेख-लेखनी *f.* drawing pen
 उद्रेख वाचन *n.* (अभियन्त्रणा) reading a drawing
 उद्रेख-श्रेणी *f.* scale of drawing
 उद्रेख-सूत्री *f.* drawing pin
 उद्रेखानुकरण *n.* (अभियन्त्रणा) copying of drawings
 उदरोह *m.* rise
 उदरोहण *n.* ascend
 उदरोह तथा अवरोह *m.* rise and fall
 उदरोही (इन्) *mfn.* ascending
 उद्वर्तन *n.* evert
 उद्वर्ध *m.* outgrowth
 उद्वर्धन *n.* outgrow, outgrowth
 उद्वहन *n.* lift
 उद्वहन-कुल्या *f.* (भूसेचन) lift canal
 उद्वहन-भूसेचन-योजना *f.* lift irrigation scheme
 उद्वहन-शक्ति *f.* (भौतिकी) lifting power
 उद्वहनी *f.* (अयोमर्ग, वाणिज्य) freight उद्वहान नाल *m.* (स्वारिथकी) Tobin's tube
 उद्धार *m.* lift
 उद्दासन *n.* expel
 उद्दाह *m.* 1 conjugation, union 2 lift
 -उद्दाह -gamy
 उद्दाहन *n.* (भौतिकी) lift
 उद्दाही (इन्) *m.* truck
 उद्दाही उर्च *m.* (यान्त्र) lift pump
 उद्दह *n.* load
 उद्दकसन *n.* evolve
 उद्दकसित *mfn.* evolved
 उद्दकास *m.* (जैविकी) evolution
 उद्दकासन *n.* evolve
 उद्दकास-प्रवृत्ति *f.* (औद्भिदी) evolutionary tendency
 उद्दकासित *mfn.* evolved
 उद्दकासी समाजवाद *m.* (अर्थशास्त्र) evolutionary socialism
 उद्दकिरण *n.* irradiation
 उद्दिक्रयण *n.* (अर्थशास्त्र) selling out
 उद्दक्षेप *m.* elevation
 उद्दशद *mfn.* high (in saturation)
 उद्द्वृत्त *mfn.* everted
 उद्द्वृत्त *n.* (प्राणिकी) everted
 उद्द- (उद्देक) (रसायन) deuterio- (deuterium)
 उद्देक *m.* (रसायन) deuterium
 उद्देकिक अम्ल *n.* (रसायन) deuterio acid

उद्देकीय *n.* (रसायन) deuterate
 उद्द्वय *m.* (वाणिज्य) outlay
 उ. नि. (उच्च निपीड) h. p. (high pressure)
 उन्द- hygro-
 उन्दचूर् *mfn.* hygroscopic
 उन्द-दश *m.* hygro-deik
 उन्द-मान *m.* hygro-meter
 उन्द-लिख *m.* hygro-graph
 उन्दपोडशदन्त *m.* (औद्भिदी) Funaria hygrometrica
 उन्देक्ष *m.* (भौतिकी) hygro-cope
 उन्देक्षीय *mfn.* hygroscopic
 उन्दोद्भिद् *f.* hygrophyte
 उन्नत-रेखा *f.* bold line
 उन्नति-कोण *m.* angle of elevation = angle of altitude
 उन्नयन *n.* 1 (रसायन) educe 2 (तर्क-शास्त्र) eduction 3 (वाष्पगत) eduction 4 raise, raising
 उन्नयन-वार *m.* (भूसेचन) pickup weir
 उन्नयक *m.* (यांत्र) eductor, ejector
 उन्नयक वायु-कपाट *n.* ejector air valve
 उन्नीत *n.* (रसायन) educt
 उन्नीलातिरक्त *m.* phlox purple
 उन्नीलाकर *m.* amparo blue, falvia blue
 उन्नीलाहार *m.* Hungary blue = cobalt blue = olympic blue = oxide blue = Venetian blue
 उन्नुयुज *mfn.* convexo-concave
 उन्मग्न *mfn.* emerged
 उन्मग्न रश्मि *m.* (चाक्षुषी) emerged ray
 उन्मज्जत् *mfn.* (भौतिकी) emergent
 उन्मज्जद् रश्मि *m.* emergent ray
 उन्मज्जन *n.* emerge, emergence
 उन्मज्जन-कोण *m.* angle of emergence
 उन्मज्जन-बिन्दु *m.* (चाक्षुषी) point of emergence
 उन्मत्त *mfn.* infane
 उन्मत्त चिकित्सालय *m.* mental hospital
 उन्मध्य *mfn.* eccentric
 उन्मध्य पट्टक *m.* (यांत्र) eccentric strap
 उन्मध्य प्रतीती *f.* (यांत्र) eccentric sheave
 उन्मध्य लक्ष्यबन्धन *n.* eccentric fixation
 -उन्माद *m.* -mania
 उन्मीलक-पेशी *f.* = उत्तर वर्त्मन्त्रम *m.* (चाक्षुषी) levator palpebrae superioris
 उन्मीलन *n.* (औद्भिदी) unfold
 उन्मीलित *mfn.* unfolded
 उन्मुक्त *mfn.* 1 (वाणिज्य) discharged 2 left out

उन्मुक्त-कोशा-निर्माण *n.* (औद्भिदी) free cell formation
 उन्मुक्त जारक *m.* free oxygen
 उन्मुक्त नष्टनिधि *m.* discharged bankrupt
 उन्मुक्त-न्यष्टि-भाजन *n.* (जैविकी) free nuclear division
 उन्मुक्त पृष्ठतल *n.* (भौतिकी) free surface
 उन्मुक्ति *f.* liberty
 उन्मुक्ते-पत्र *n.* release pass
 उन्मुख *adv.* (गणित) upwards
 उन्मूलक *m.* radical
 उन्मूलक पक्ष *m.* Radical Party
 उन्मूलनवाद *m.* radicalism
 उन्मूलनवादी (-इन्) *m.* radical
 उन्मृग *f.* soil
 उन्मृग अधिकुन्तलाणु *m.* Spirillum terrigenum
 उन्मृदा-अपक्षरण *n.* erosion of soil
 उन्मृदा-अम्लता *f.* soil acidity
 उन्मृदा-नवकरण *n.* (अर्थशास्त्र) renewal of soil
 उन्मृदान्तगत वायु *m.* (औद्भिदी) air content of soil
 उन्मृदा-पीठ *n.* (रसायन) soil base
 उन्मृदा-विज्ञान *n.* soil science
 उन्मृदा-विस्तार *m.* soil extension
 उन्मृदा-आकाणु *m.* soil bacteria
 उन्मृग-श्रान्ति *f.* (अर्थशास्त्र) soil exhaustion
 उन्मृदा-संरक्षण *n.* (भूसेचन) soil conservation
 उन्मोक *m.* 1 (भूसेचन) discharges 2 (यान्त्र) release
 उन्मोक-पद *n.* (यान्त्र) point of release
 उन्मोचन *n.* 1 leaving out, leave out 2 (वाणिज्य) discharge 3 quit, quittance
 उन्मोचन-पत्र *n.* (वाणिज्य) quittance
 उन्मोचन-शुल्क *m.* (वाणिज्य) quit rent
 उ. प. (उत्तर-पश्चिम) N.W. (north-west)
 उप- 1 accessory 2 ad- 3 ancillary, by-, deputy, hypo-, sub-, subsidiary
 उप-आयुक्त *m.* deputy commissioner
 उपकंसु गदाशिर *m.* Claviceps paspali
 उपकंसुनि = उपकंसु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Paspalum
 उपकर *m.* 1 cess 2 (औद्भिदी) elm
 उपकर-कुल *n.* (औद्भिदी) Ulmaceae
 उपकरण *n.* 1 advance (help on) vb. 2 instrument = implement = appliance, tools
 उपकरण तथा संयन्त्र *n.* tools and plants

उपकरण-प्रवन्धन *n.* manipulate
 उपकरण-हस्तन *n.* manipulate
 उपकर-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Ulmus
 उपकर्ण *mfn.* (शारीर) parotid
 उपकर्ण-ग्रन्थि *m.* (शारीर) parotid gland = parotis
 उपकर्ण-प्रणाली *f.* (शारीर) parotid duct
 उपकर्ण-साधित्र *n.* (प्राणिकी) accessory auditory apparatus
 उपकर्पर *m.* (भौतिकी) subshell
 उपकल्पन *n.* (तर्कशास्त्र) hypothesis
 उपकल्पना *f.* (तर्कशास्त्र) hypothesis
 उपकल्पना तथा सत्यापन *n.* hypothesis and verification
 उपकल्पना-रीति *f.* method of hypothesis
 उपकल्पित *mfn.* hypothetical
 उपकाण्ड *m.* subsection
 उपकार *m.* advantage, benefit
 उप-कारक *m.* (जीवरसायन) accessory factor
 उपकारदात्री (इन्) *m.* (वाणिज्य) beneficiary
 उपकार-प्रणीव *f.* benevolent fund
 उपकार सिद्धान्त *m.* (अर्थशास्त्र) benefit theory (of taxation)
 उप-कारागार *n.* subsidiary jails
 उप-कारावास *m.* sub-idiary jails
 उपकारिता *f.* usefulness
 उपकुङ्कुटावधूत्री अकुन्तलाणु *m.* Vibrio schuylkilliensis
 उप-कुलपति *m.* vice-chancellor
 उपकुल्या *f.* (शारीर) Volkmann's canal
 उपकुल्यिका *f.* (भूस्त्रेचन) distributaries
 उपकुल्यिका-जाल *n.* (भूस्त्रेचन) distributaries
 उपकृत *m.* (वाणिज्य) beneficiary
 उपकृति *f.* (वाणिज्य) benefit
 उप-कोषागार *n.* sub-treasury
 उपक्रम *m.* (वाणिज्य) adventure = enterprise = undertaking = venture
 उपक्रमण *n.* 1 originate 2 planning 3 undertaking = adventure = enterprise = venture
 उपक्रम *f.* plan
 उपक्रमाकारी वर्ग *m.* planning agency
 उपक्रमी (इन्) *m.* entrepreneur
 उपक्रामी (इन्) *m.* (वाणिज्य) undertaker
 उपक्षार *m.* Chilean nitrate, Chile niter, soda niter, cubic niter, Chile saltpeter
 उपक्षारक *m.* caliche

उपक्षेप *m.* suggestion
 उपग *mfn.* asymptote
 उपगन्त्र *n.* (अयोमार्ग) booster
 उपगन्त्र-प्ररोध *m.* (अयोमार्ग) booster throtle
 उपगमन *n.* accede, approach *vb.*
 उपगमन-प्रवेग *m.* (गणित) velocity of approach
 उपगलग्रथि *m.* (प्राणिकी) parathyroid = parathyroid gland
 उपगलग्रथिकि *f.* parathyrin
 उपगलग्रथिग्रह *m.* (प्राणिकी) parathyroid tetany
 उप-गुद-नाडी *f.* (प्राणिकी) cubitus
 उपगृह *n.* annexe, annexure
 उपगोमेद *m.* (खानिजी) auerlite
 उप-ग्रन्थि *m.* (प्राणिकी) accessory gland
 उपग्रहण *n.* postulate
 उपग्रह *m.* postulation
 उपघटन *m.* (जैविकी) alloplasm
 उपघात *m.* damage
 उपचमूपति *m.* (सेना) brigadier
 उपचार *m.* remedy, treatment
 उपचारिका *f.* nurse, sister
 उपचालक *m.* (शारीर) adductor
 उपचालन *n.* (शारीर) adduction
 उपचेता *f.* ramus
 उपजपन *n.* whiaper
 उप-ज-मृत *n.* (रसायन) hypo-iodite
 उपजम्भ *m.* (प्राणिकी) maxilla
 उपजाप *m.* whisper
 उपजीविका *f.* subsistence
 उपज्ञा *f.* invention
 उपज्ञात *mfn.* (ancient word) invented
 उपज्ञाता (-त्वे) *m.* inventor
 उपज्ञातिन् *mfn.* (उपज्ञा invention) ingenious
 उपज्ञान *n.* (ancient word) invent
 उपज्ञवी (-इन्) *mfn.* ingenious
 उपगतम्. (रसायन) allox-
 उपतिरम *m.* (रसायन) (उरानांल allantoine + तिग्मिक oxalic) alloxan
 उपतिरमकि *f.* (रसायन) alloxantin
 उपतिरममिहिक अम्ल *n.* (रसायन) alluranic acid
 उपतिरमिक *mfn.* (रसायन) alloxanic
 उपतिरमिह रक्तता *f.* (आयुर्विद्या) (उप-तिग्मिहिक = alloxuric) alloxur-emia
 उपतिरमिहिक *mfn.* (जीवरसायन) alloxuric
 उपतिरमीय *n.* (रसायन) alloxanate
 उपत्वक्षा *f.* (औदभिदी) phelloderm
 उपरंश *m.* (आयुर्विद्या) syphilis = French disease
 उपदश-शोण-दण्डाणु *m.* Van Niessen's bacillus
 उपदश सुकुन्तलाणु *m.* Treponema

pallidum = Spirochaeta pallida
 उपदक्षि *f.* luetin
 उपदंशिक *mfn.* (आयुर्विद्या) luetic
 उपदंशी (-इन्) *mfn.* syphilitic (person)
 उपदंशीय दण्डाणु *m.* Bacillus syphilitidis = Lustgarten's bacillus
 उप-दुरित *n.* (रसायन) hypo-bromite
 उपदेश *m.* advice
 उपदेश-कर्म *n.* advisory work
 उपदेष्टा (-त्वे) *m.* (प्रशासन) advisor
 उपधारण *n.* postulate
 उपधारणा *f.* postulation
 उपधारा *f.* subsection
 उपधनगर *n.* suburb
 उपनति *f.* 1 tendency 2 (सांख्यिकी) trend
 उप-नदी *f.* tributary
 उपनमन *n.* (सेना) capitulation
 उपनमन-प्रवृत्ति *f.* (यान्त्र) tendency to bend
 उप-नायक *m.* lance naik
 उपनाल *m.* (शारीर) allantois
 उपनाल-जिन्यिक अम्ल *n.* (रसायन) allantoxanic acid
 उपनालजिन्येय *n.* (रसायन) allantoxidin
 उपनालमिहिक *mfn.* allanturic
 उपनालि *f.* (जीवरसायन) allantoin
 उपनालिक *mfn.* allantonic
 उपनालिनः *m. pl.* (प्राणिकी) Allantoidea
 उपनालि-मेह *m.* (आयुर्विद्या) allantoin-uria
 उपनाह *m.* (आयुर्विद्या) (सुश्रुत) cataplasm = poultice
 उप-निबन्धक *m.* sub-registrar
 उप-नियम *m.* bye-law
 उप-निरीक्षक *m.* sub-inspector
 उपनिर्मेय *n.* (गणित) corollary
 उप-निर्वाचन *n.* by-election
 उपनिवेश *m.* colony
 उपनिवेशन *n.* colonization
 उपनिवेश स्क्न्धाधिनियम *m.* Colonial Stock Acts
 उपनिश्चायक *m.* (निश्चायक determinant) (गणित) minor
 उप-नीरित *n.* (रसायन) hypochlorite
 उप-नीय *mfn.* (रसायन) hypochlorous
 उपनेत्र *n.* glasses
 उपनेत्रकार *m.* optician
 उपनेत्र-स्कन्द *m.* spring of glasses
 उपनौपति *m.* commodore
 उप-पंजी *f.* subsidiary register
 उप-पंजीयक *m.* sub-registrar
 उपपट्ट *m.* (यान्त्र) strap
 उपपट्ट-द्वय *n.* (यान्त्र) double strap

उपपत्ति *f.* (गणित) proof
 उपपत्ति-रीति *f.* mode of proof
 उपपत्त्यन्तर *n.* (गणित) alternative proof
 उपपत्र *n.* memorandum
 उपपदार्थक *n.* objective
 उप-परजीविता *f.* hyper-parasiticism
 उप-परजीवी (-इन्) *m.* (जैविकी) hyper-parasite
 उपपरिणाह *m.* diakinesis
 उप-परीक्षा *f.* (शिक्षण) test examination
 उप-पाचिद्यता *f.* hypo-pepsinia
 उपपात *m.* accident
 उपपादन *n.* prove
 उपपोति *f.* (जीवरसायन) hypoxanthin
 उपपोतिक *m.* commissioned war-rant officer
 उपप्रकार *m.* (तर्कशास्त्र) mood
 उप-प्रति-निरीक्षक *m.* sub-deputy inspector
 उप-प्रतिशास्ता (-च्) *m.* deputy regent = vice-regent
 उप-प्रतिसमाहर्ता (-च्) *m.* sub-deputy collector
 उप-प्रधान *m.* deputy president
 उप-प्रमाणक *m.* sub-voucher
 उपप्रमेय *n.* (गणित) corollary
 उप-प्रसंवेदक *m.* sub-contractor
 उपप्राप्ति *m.* (विधि) hypothec
 उपप्राधीय *mfn.* (विधि) hypothecatory = hypothecary
 उपप्राधीयन *n.* (विधि) hypothecate, hypothecation
 उपप्राधीयन-पत्र *n.* letter of hypothecation
 उपप्राधीयित *mfn.* (विधि) hypothecated
 उप-फल *n.* by-product
 उपवह *m.* cushion, pad
 उपवहिका *f.* (प्राणिकी) plantula = pulvillus
 उप-बलपति *m.* second lieutenant
 उपबलाधिपति *m.* (सेना) major
 उप-बीजगणित *n.* sub-algebra
 उपबोध *m.* (विधि) charge
 उपभाटकी (-इन्) *m.* subtenant
 उपसुक्त *mfn.* consumed
 उपसुक्त-सामग्री *f.* material consumed
 उपभूयित *n.* (रसायन) hypo-nitrite
 उपभूय्य अम्ल *n.* hypo-nitrous acid
 उपभोक्ता (-च्) *m.* consumer
 उपभोक्त्व-वस्तु *n.* (अर्थशास्त्र) consumer's goods, consumer's utility
 उपभोक्त्राधिक्य *n.* (अर्थशास्त्र) consu-

mer's surplus
 उपभोग *m.* (अर्थशास्त्र) consumption, enjoyment, using up
 उपभोग-अर्थशास्त्र *n.* economics of consumption
 उपभोग-करण *n.* consume
 उपभोग-पुंजी *f.* (अर्थशास्त्र) consumption capital
 उपभोग-वस्तु *n.* (अर्थशास्त्र) consumption goods
 उपभोज्य वस्तु *n.* consumers' goods
 उपमण्डल *n.* canton (a small territorial division of a country)
 उपमध्य *mfn.* (शारीर) paracentral
 उपमा *f.* comparison
 उपमात्र *n.* (भौतिकी) comparator
 उपमानविलयन *n.* reference solution
 उपमार्ग *m.* by-pass
 उपमार्ग-सहित पिनाल-दाहक *m.* (रसायन) Bunsen burner with a by-pass
 उपमा-व्यतिरेक *m.* comparison and contrast
 उपम्रक्षि *f.* (रसायन) margarin
 उपम्रक्षिक अम्ल *n.* (रसायन) margaric acid
 उपम्रक्षी *f.* margarine
 उपम्रक्षी-स्फट *m.* margarine crystals
 उपयान्त्र *n.* (यान्त्र) gear (an-accessory mechanism)
 उपयुक्त *mfn.* appropriate, suitable
 उपयुक्त विलायक *m.* suitable solvent
 उपयुक्त स्थान *n.* appropriate places
 उपयोग *m.* use, utilization
 उपयोगिता *f.* usefulness, value in use = utility
 उपयोगितांश *m.*, उपयोगिता-मात्रा *f.* degree of utility
 उपयोगिता-वक्र *n.* (अर्थशास्त्र) utility curve
 उपयोगिता-वाद *m.* (आचारनीतिशास्त्र) utilitarianism
 उपयोगितावादी (-इन्) *m.* utilitarian
 उपयोगि-धारिता *f.* useful capacity
 उपयोगि वस्तु *n.* economic goods
 उपयोगी रोध *m.* (सांख्यिकी) useful resistance
 उपयोज *m.* (रसायन) adapter
 उपयोजन *n.* adaptation
 उपयोज्य *mfn.* available
 उपराज *m.* viceroy = vice-king
 उपराजक *m.* dukeling
 उपराजता *f.* vicerealty
 उपराज्ञी *f.* vicereine
 उपरि *adv.* above, upon, upward
 उपरि- senior, supra
 -उपरि supra

उपरि-आधार-पाठशाला *f.* senior basic school
 उपरि-औद्योगिक पाठशाला *f.* senior technical school
 उपरिक *mfn.* 1 (औद्भिदी) epibasal 2 formal 3 superior
 उपरि-कर *m.* sur-tax
 उपरिक-सेवा *f.* (प्रशासन) superior service
 उपरि-कोण *m.* top-corner
 उपरिजठर- epigastric
 उपरिजाय *mfn.* (औद्भिदी) epigynous
 उपरिजायता *f.* (औद्भिदी) epigyny
 उपरिजीविनः *m. pl.* (प्राणिकी) Epizoa
 उपरिजीवी (-इन्) 1 *m.* (प्राणिकी) epizoon 2 *mfn.* epizoid
 उपरि-तडाग *m.* (आत्मवह) header tank
 उपरितल-क्षेत्रफल *n.* superficial area
 उपरि-तान *m.* overtone
 उपरिदन्त *m.* (शारीर) crown
 उपरि-दन्ती (-इन्) *m.* (आत्मवह) top gear
 उपरि-निर्दिष्ट *mfn.* referred to above
 उपरि-पाठशाला *f.* senior school
 उपरि-प्रौद्योगिक-पाठशाला *f.* senior technical school
 उपरि-बीजपत्र *n.* (औद्भिदी) epicotyl
 उपरिभूमिक *mfn.* (औद्भिदी) epigeal
 उपरिमुख *mfn.* (औद्भिदी) epistomatous
 उपरिविस्थापन *n.* (रसायन) upward displacement
 उपरि-व्यय *m.* over-head charges
 उपरिशायी (-इन्) *mfn.* superincumbent
 उपरिशायी तरल *m.* superincumbent liquid
 उपरिष्टात् *adv.* (गणित) from above
 उपरिष्टात्पारण *n.* pass over
 उपरिष्ठ-कोशा *f.* (प्राणिकी) superficial cells
 उप-रोधन *n.* (भूमि-सेचन) subsidiary dam
 उपर्यधिक्य *n.* stratum corneum
 उपर्यावर्तिता *f.* (आयुर्विद्या) hypertropia
 उपर्यावर्तिषा *f.* (आयुर्विद्या) hyperphoria
 उपल *m.* (आयुर्विद्या) calculus
 -उपल -lite, -lith
 उपलक्षण *n.* 1 (तर्कशास्त्र) accident 2 imply
 उपलक्षण-प्रकथन *n.* (तर्कशास्त्र) accidental prediction
 उपलक्षणा *f.* implication
 उपलमासा *f.* opalescence
 उपलमासी (-इन्) *mfn.* opalescent
 उपलन्म *m.* detection

उपलम्भक *m.* (रसायन) detector
 उपलम्भन *n.* detect, detecting
 उप-वाणिज्यदूत *m.* vice-consul
 उपवायुपति *m.* Air Commodore
 (R. A. F.)
 उप-विधि *m.* bye-law
 उपविभाग *m.* section
 उपविमानिक *m.* pilot officer
 (R. A. F.)
 उपविषय *m.* subdivision
 उप-विषय-अधिकारी (-इन्) *m.* sub-divisional officer
 उपविषुची आकुन्तलाणु *m.* *Vibrio aquabilis*
 उपवृक्क-*adrenal, adrenoc-*
 उपवृक्क-ऊतिमृत्यु-कारक *m.* (जीवरसायन)
adrenal necrosis factor
 उपवृक्काचेतनी *f.* (मैपजिकी) (उपवृक्की
adrenaline + अन्वचेतनी pro-
caine) adrenocaine
 उपवृक्किक *f.* (मैपजिकी, जीवरसायन)
adrenalin = adrenaline
 = *adrenalina = adrenalinum*
 = *epinephrine*
 उपवृक्किक-तैल *n.* (मैपजिकी) *adreno-*
leum (adrenalin in oil)
 उपवृक्की *f.* (मैपजिकी) *adrenaline*
 = *adrenalina = adrenalinum*
 = *adrenalin = epinephrine*
 उपवृक्कीयन *n.* *adrenalize*
 उप-वृक्क्य *mfn.* (शारीर) *ad-renal*
 उपवृक्क्य काय *m.* (प्राणिकी) *adrenal*
body
 उपवृक्क्या *f.* (रसायन) *adrenalone*
 उपवृन्त *n.* (औद्भिदी) *pedicle*
 उपव्यवसाय *m.* *avocation*
 उपशक्ति *f.* (प्रशासन) *ancillary*
power
 उप-शमन *n.* *abate, abatement,*
diminish
 उपशासक *m.* *lieutenant governor*
 उपशीर्ष *mfn.* *cephalic*
 उप-शीर्षक *n.* *subhead, sub-head-*
ing, subtitle
 उपशुक्रकोशा *f.* (प्राणिकी) *spermatid*
 उपसहरण *n.* *conclude*
 उपसंकोच *m.* *constriction*
 उपसंक्रामण-ऊति *f.* (औद्भिदी) *acces-*
sory transfusion tissue
 उप-सचिव *m.* *under-secretary*
 उपसदन *n.* *approximate vb.,*
approximation
 उपसन्न *mfn.* *approximate*
 उपसन्न-अर्हा *f.* (गणित) *approximate*
value
 उपसमाज *m.* *consociation*
 उप-समादेशक *m.* *officer second-*
in-command
 उप-समिति *f.* *sub-committee*
 उप-समूह *m.* (रसायन) *subgroup*

उपसर्ग *m.* *prefix*
 उपसाद *m.* (चाक्षुषी) *apposition*
 उपसादक *m.* *approximator*
 उपसादन *n.* 1 *approximate vb.,*
approximation 2 (चाक्षुषी)
apposition
 उपसादनतः, उपसादनात् *adv.* *approx-*
imately
 उपसादित *adv.* (गणित) *approx-*
imate, approximated
 उपसाध *m.* *accessory*
 उपसाधन *n.* *accessories*
 उपसाध्य *n.* (गणित) 1 *corollary*
 2 *lemma*
 उपसान्वक *mfn.* *emollient*
 उपसान्वन *n.* *emolliate*
 उपसान्वना *f.* *omollescence*
 उपसामन्त *m.* *viscount*
 उपसामन्तक *m.* *baronet*
 उपसामन्तक-करण *n.* *baronet vb.*
 उपसामन्तकता *f.* *baronetage*
 उपसामन्तक-पद *n.* *baronetcy*
 उपसामन्तक-वंशावली *f.* *baronetage*
 उपसामन्तकवर्ग *m.* *baronetage*
 उपसामन्तकीय *m.* *baronetical*
 उपसामन्तता *f.* *viscountcy*
 उपसामन्तपद *n.* *viscountcy*
 उपसामन्त-विषय *m.* *viscountcy =*
viscounty
 उपसामन्ता *f.* *viscountess*
 उपसष्ट *n.* *by-product*
 उपस्कर *m.* *furniture*
 उपस्करण *n.* (ancient word) *fur-*
nish, furnishing
 उपस्कर तथा अन्वायुक्ति *f.* *furniture*
 and *fittings = furniture and*
fixture
 उपस्कृत *mfn.* (ancient word) *fur-*
nished
 उपस्थ *m.* 1 *genitals* 2 *puddenda*
 उपस्थ कुन्तलाणु *m.* *Spirochaeta*
refringens
 उपस्थत्रण *m.* (आयुर्विद्या) *chancre*
 उपस्थत्रणीय कुन्तलाणु *m.* *Spirochaeta*
orientalis
 उप-स्थान *n.* *sub-station*
 उपस्थात्रिक *m.* (अयोमार्ग) *assistant*
station master
 उपस्थापन *n.* *present, presenta-*
tion, submit
 उपस्थापन-एकक *n.* (गणित) *unit of*
presentation
 उपस्थापना *f.* *presentation*
 उपस्थापित *mfn.* *presented, sub-*
mitted
 उपस्थापक *m.* (ancient word)
attendant = steward
 उपस्थापिका *f.* *stewardess*
 उपस्थित *mfn.* *present*
 उपस्थिति *f.* *presence*

उपस्थिति-पंजी *f.* *attendance regis-*
ter
 उपस्नेह *m.* *lubricant*
 उपस्नेहक *m.* *lubricator*
 उपस्नेहन *n.* *lubricate*
 उपस्नेहन-तैल *n.* *lubricating oil*
 उप-स्वामी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) *sub-*
proprietor
 उपहत *mfn.* *damaged*
 उपहनन *n.* *damage*
 उपहार *m.* *present, tribute*
 उपहृत् *mfn.* (शारीर) *cardiac*
 उपहृदन्त *m.* (शारीर) *cardia (car-*
diac end of the stomach)
 उपहृद्द्वार *n.* (शारीर) *cardia (open-*
ing of the esophagus into
the stomach)
 उपहास *m.* *curtailment*
 उपहासन *n.* *curtail*
 उपाक्ष 1 *m.* (औद्भिदी) *daughter*
axis 2 *mfn.* *paraxial*
 उपाक्ष-नाभि *f.* (काशिकी) *paraxial*
focus
 उपागण्य *mfn.* *appreciable*
 उपागण्य राशि *m.* *appreciable*
quantity
 उपागमन *n.* *access vb., accession,*
approach vb.
 उपागमन-मार्ग *m.* *approaches*
 उपांग *n.* (जैविकी) 1 *appendage =*
appendix 2 *podite*
 उपांग- (शारीर) *appendicular*
 उपांगकंकाल *m.* (शारीर) *appendi-*
cular skeleton
 उपांगुष्ठ *m.* (प्राणिकी) *calcar = pre-*
hallul = spur (in frog)
 उपाचार्य *m.* *assistant professor*
 उपांजनिय *n.* (रसायन) *hypo-anti-*
monate
 उपांड-पत्र *n.* (औद्भिदी) *elliptical*
leaf
 उपातिसार आकुन्तलाणु *m.* *El Tor*
vibrio
 उपान्त *mfn.* *accepted*
 उपादान *n.* *accept, acceptance,*
receive
 उपादान-कारण *n.* (तर्कशास्त्र) *causa*
materialis, material cause
 उपादेय *mfn.* *acceptable*
 उपादेय-करण *n.* *reclaim, recla-*
mation
 उपादेयता *f.* *acceptability, accep-*
tableness
 उपाधार *mfn.* (औद्भिदी) *sub-*
inferior
 उपाधि *m.* 1 (तर्कशास्त्र) *condition*
 2 *degree (of a university),*
title
 उपाधि-उत्सादन *n.* *abolition of*
titles

उपाधिकारी (-इन्) *m.* official
 उपाधिपत्र *n.* diploma
 उपाधिपोतिक *m.* lieutenant commander
 उपाधिवाची (-इन्) *mfn.* (तर्कशास्त्र) conditional
 उपाधिविमानीक *m.* squadron leader (R. A. F.)
 उपाध्यक्ष *m.* deputy speaker
 उपाध्याय *m.* master
 उपान्त *mfn.* penultimate
 उपान्त पद *n.* next to the last term
 उपान्तराल *n.* (गणित) subinterval
 उपान्तिम *mfn.* penultimate
 उपान्तिम खण्ड *m.* (प्राणिकी) penultimate segment
 उपान्त्य खण्ड *m.* (प्राणिकी) penultimate segment
 उपान्त्रज्वर आन्त्रज्वराणु *m.* Eberthella betotensis
 उपात्र *n.* (जीवरसायन) accessory food
 उपान्न-कारक *m.* (जीवरसायन) accessory food factor
 उपावद्ध *mfn.* appurtenant
 उपावन्ध *m.* appurtenance
 उपामियोक्ता (-त्) *m.* arraigner
 उपामियोग *m.* arraignment
 उपामियोजन *n.* arraign
 उपाय *m.* way
 उपायुक्त *mfn.* attached
 उपायोज *m.* attachment
 उपायोजन *n.* attach
 उपार-चनान्तरण *n.* (प्राणिकी) apometabolism
 उपारोध *m.* clog
 उपारोधन *n.* clog *vb.*
 उपारोपण *n.* attribute *vb.*
 उपार्जन *n.* acquire *vb.*, acquisition
 उपार्जित *mfn.* accrued, acquired
 उपार्जित आय *m.* (वाणिज्य) accrued income
 उपार्जित प्रवेग *m.* acquired velocity
 उपार्जित लाभोश *m.* accrued bonus
 उपार्पण *n.* commit, committal
 उपार्वर्तिता *f.* (चाक्षुषी) esotropia
 उपार्विचिषा *f.* (आयुर्विद्या) esophoria
 उपार्श्रय *m.* recourse
 उपार्श्रयण *n.* 1 recourse 2 subalternation
 उपार्श्रित *mfn.* (तर्कशास्त्र) subalternate
 उपार्श्रित-प्रतियोग *m.* (तर्कशास्त्र) subaltern opposition
 उपार्श्रु-ग्रंथि *m.* (प्राणिकी) Harderian gland
 उपार्संग *m.* adjunct

उपाहार-गृह *n.* restaurant
 उपाहूत *mfn.* challenged
 उपाहूत मत *n.* challenged vote
 उपाह्वान *n.* challenge
 उ. पू. (उत्तर-पूर्वा) N. E. (east of north)
 उपेक्षण *n.* ignore, ignoring, neglect *vb.*
 उपेक्षणीय *mfn.* negligible
 उपेक्षा *f.* neglect
 उपेक्षित *mfn.* ignored
 उपेक्ष्य *mfn.* negligible
 उपेक्ष्यता *f.* negligibility
 उपेक्ष्य भार *m.* negligible weight
 उपेन्द्रगोपाति = उपेन्द्रगोप-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Trombicula
 उपोति *f.* (औद्भिदी) accessory tissue
 उपोत्पाद *m.* by-product
 उपोत्फलकाय *n.* (प्राणिकी) metacromion
 उपोद्दलन *n.* (ancient word) ratify
 उपोद्दलित *mfn.* (अर्थशास्त्र) ratified
 उपोरस्क *mfn.* (प्राणिकी) epicoracid
 उत्त *mfn.* (औद्भिदी) sativus
 उब्जक *n.* gouge
 उभज्वाल दीप *m.* Doberiner's matchbox or lamp
 उभय- amb-, amph-, amphi-, amphi- (both)
 उभयकेसर पुष्प *n.* (औद्भिदी) perfect flower
 उभय-क्रवियथी *f.* (जीवरसायन) amphi-creatinine
 उभयचर *mfn.* amphibious
 उभयचरा: *m. pl.* (प्राणिकी) Amphibia
 उभयतश्चूष-प्रवंश *m.* Paramphistomoidea
 उभयतश्चेता: *m. pl.* (प्राणिकी) Amphineura
 उभयतस्तीक्ष्ण *m.* (प्राणिकी) amphi-oxus
 उभयतोमेर *mfn.* (औद्भिदी) parachordal
 उभयतोयोनिवंश *m.* (प्राणिकी) Diphyliidae
 उभयतोयोनिवाति = उभयतोयोनि-प्रजाति *f.* Diphyliidium
 उभयतोलस *mfn.* (प्राणिकी) amphistylic
 उभयतोविकासी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) scorpioid
 उभयतोविकासी बहुवर्ध्वक्ष *m.* (औद्भिदी) scorpioid cymes
 उभयन्युब्ज कीकस *n.* (प्राणिकी) amphicoelous vertebra
 उभय-पाचा *f.* (जीवरसायन) amphi-peptone
 उभयपादवैस्थ पूल *m.* (औद्भिदी) bi-col-lateral bundle

उभयप्रतिक्रिय *mfn.* (रसायन) amphoteric
 उभय-मिश्रण *n.* (जैविकी) amphi-mixis
 उभयमुख *mfn.* (औद्भिदी) amphistomatous
 उभय-रञ्ज्य *mfn.* amphophil, amphophilic, amphophilous
 उभयलिग *m.* (जैविकी) hermaphrodite
 उभयलिगता *f.* (जैविकी) hermaphroditism
 उभयवासी पादप *m.* (औद्भिदी) amphibious plant
 उभय-विकल्प (ऋयविकल्प-विकल्प) *m.* double option 2 put and call option 3 straddle
 उभयविध *mfn.* (रसायन) amphoteric
 उभयविध जारेय *n.* (रसायन) amphoteric oxide
 उभयद्वसन *m.* (प्राणिकी) lungfish
 उभयसाधारण *mfn.* common to both
 उभयस्पर्शी (-इन्) *m.* (गणित) common tangent
 उभयाक्ष *n.* (रसायन) ampholyte
 उभयाक्ष *mfn.* binocular
 उभयांग *mfn.* (औद्भिदी) monocolinous
 उभयान्त-अर्ही *f.* (गणित) extreme values
 उभयापत्ति *f.* (तर्कशास्त्र) dilemma
 उमा *f.* flax
 उमापत्र *n.* (औद्भिदी) linifolius
 उर:- thorac-, thoraci-, thoraco-, thoracic
 उर कीकस *n.* thoracic vertebra = dorsal vertebra
 उर-कूट *n.* (प्राणिकी) keel = carina
 उर-क्वाथक *m.* (मेषजिकी) breast tea = pectoral species
 उरग *m.* (भूगोल) Hazara
 उर-पश्च *m.* (प्राणिकी) metathorax
 उर-पाद *m.* (प्राणिकी) pereopod
 उर-प्राचीर *m.* (शारीर) diaphragm
 उर-श्रव *m.* stethoscope
 उरस *n.* thoracic region
 उरस- stetho-
 उरस *m.* (भूगोल) Hazara
 उरसा-व्यध *m.* breast drill
 उरसि-प्योलस *m.* (आयुर्विद्या) chylothorax
 उरसीक्ष *m.* (आयुर्विद्या) thoracoscope
 उरस्योदर- (शारीर) thoracolumbar
 उरस्योदर-चेता-संहति *f.* sympathetic nervous system = visceral nervous system
 उरज्व-दत्ता (-त्) *f.* (प्राणिकी) harvest-man = daddy long-legs =

shepherd spider
 उरुजवा: *m. pl.* (प्राणिकी) Phalan-
 gida
 उरुमुख-गण *m.* (प्राणिकी) Beroida
 उरुमुख-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Beroe
 उरुमुख-वंश *m.* (प्राणिकी) Beroidae
 उरोस्या *f.* (शारीर) coracoid
 उरोस्याक्षक गवाक्ष *m.* (प्राणिकी) coraco-
 clavicular fenestra
 उरोस्याक्षक-शाखा *f.* (प्राणिकी) coraco-
 clavicular branch
 उरोस्यान्वरत्निक *n.* (शारीर) coraco-
 radialis
 उरोस्या-प्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) coracoid
 process
 उरोस्याफलकीय *mfn.* (प्राणिकी) coraco-
 scapular
 उरोस्यामध्या *f.* (प्राणिकी) mesocora-
 coid
 उरोस्यारत्निक *n.* (प्राणिकी) coraco-
 ulnaris
 उरोस्या-वर्ध *m.* (प्राणिकी) acrocora-
 coid
 उरोस्यास्थि *n.* (प्राणिकी) coracoid
 bone
 उरोत्र *n.* prothorax
 उरोन्तः प्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) endothorax
 उरोन्तवर्ध *m.* endophragm
 उरोन्तवर्धे- (प्राणिकी) endophragmal
 उरोमध्य *n.* (प्राणिकी) mesothorax
 उरोमान *m.* (द्वैहिकी) stethometer
 उरोयुत पशु *m.* (उरोस्थियुत पशु) ster-
 nal rib = true rib
 उरोरेखाति = उरोरेख-प्रजाति *f.* (प्राणिकी)
 Chrysomyia
 उरोलिख *m.* thoracograph
 उरोस्थि *n.* sternal = sternum =
 breast bone
 उरोस्थिक *mfn.* sternal (pertai-
 ning to the sternum)
 उर्वर *mfn.* fertile
 उर्वरक *m.* fertilizer
 उर्वरक तथा खाद *m.* fertilizers and
 manures
 उर्वरता *f.* fertility
 उर्वरा कवक वेत्राणु *m.* Mycobacte-
 rium aluvialum
 उर्वरा भूमि *f.* fertile land
 उल्लक *m.* owl
 उल्लक कुन्तलाणु *m.* Spirochaeta
 zeimanni
 उल्लकमुखाति = उल्लकमुख-प्रजाति *f.* Giar-
 dia
 उल्लक-स्वज *m.* owl clip
 उल्लखल *n.* 1 mortar 2 (यांत्र) socket
 उल्लखल तथा मुशाल *n.* mortar and
 pestle
 उल्लखल-सन्धि = कन्दुक-उल्लखल-सन्धि *m.*
 (शारीर) enarthrosis = ball-
 and-socket joint = enarthro-

idal joint
 उल्कापिण्ड *m.* (उल्काश्म, उल्काधातु)
 meteorite = aerolite
 उल्कायस *n.* (खानिजी) meteoric
 iron
 उल्काश्म *m.* aerolite
 उल्व *n.* (शारीर) amnion (inner-
 most foetal membrane)
 उल्व-भज *m.* amniotic folds
 उल्ववान् (-वत्) *mfn.* (शारीर) amnio-
 tic
 उल्विनः *m. pl.* (प्राणिकी) Amniota
 उल्वी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) amniote
 उल्वीय *mfn.* (शारीर) amniotic
 उल्व्यापः *f. pl.* (शारीर) (शतपथ ब्राह्मण)
 amniotic fluid
 उल्वघन *n.* contravene, contra-
 vention
 उल्लाघ 1 *m.* recovery 2 *mfn.* con-
 valescent
 -उल्लिखा -graph
 -उल्लेख -graph
 उ. वा. (उत्तर-वायव्या) N. N. W.
 (north north west)
 उशीर, उशीर भूतृण *n.* (औदभिदी)
 Andropogon muricatus = An-
 dropogon squarrosus = Kus-
 kus grass
 उष *m.* (भौतिकी) calorie, calory
 (cal.)
 उष- calori-
 उष-कल्प *m.* (भौतिकी) Eozoic
 उषकर *mfn.* (द्वैहिकी) calorific, caloric, calorific
 उषकर रश्मि *m.* calorific rays
 उषकरी अर्हा *f.* calorific value
 उषकरी ऊर्जा *f.* (भैषजिकी) calorific
 wool = capsicum wool
 उषकरी धारिता *f.* (भौतिकी) calorific
 capacity
 उषकरी शक्ति *f.* calorific power
 उषकृति *f.* calorification
 उषजन *mfn.* calorigenic (gene-
 rating heat)
 उष-द्रव *m.* (भौतिकी) calorie fluid
 उष-मान *m.* (भौतिकी) calori-
 meter
 उषमिति *f.* (भौतिकी) calorimetry
 उषमितीय *mfn.* calorimetric,
 calorimetrical
 उषवत्ता *f.* caloricity
 उष-वादी (-इन्) *m.* calorist
 उषस् *f.* aurora
 उषसातु *m.* (उषस्) aurorium
 (aurora)
 उषसि *f.* (रसायन) eosin
 उषसि-रज्य *mfn.* eosinophil
 उषसी *f.* (रसायन) eosine
 उषसीय *n.* eosinate
 उषस्तक्ती *f.* (रगदेशना) eosamine

उषिक *n.* caloric, calorific, calo-
 rific
 उषिक असद्भास *m.* (भौतिकी) caloric
 paradox
 उषिक गन्त्र *n.* caloric engine
 उषिकीय *mfn.* caloric (of or per-
 taining to caloric)
 उषीय *n.* eosate
 उष्टा भ्राजा *f.* magnesia usta
 उष्ट *m.* camel
 उष्टक *m.* (प्राणिकी) llama
 उष्टकेंटक *m.* (औदभिदी) camel's
 thistle
 उष्टकण्टति = उष्टकण्ट-प्रजाति *f.*
 (औदभिदी) Echinops
 उष्टपक्षी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) ostrich
 उष्टपेत्त्रि-अनुगण *m.* (प्राणिकी) Rhea
 उष्टपेत्त्रि-गण *m.* (प्राणिकी) Rheiformes
 उष्टपेत्त्रि-वंश *m.* (प्राणिकी) Rheidae
 उष्टपेत्त्री (-इन्) *m.* (प्राणिकी) Rhea
 उष्टपेत्त्र्याति = उष्टपेत्त्री-प्रजाति *f.*
 Rhea
 उष्ट-लोम *n.* camel hair
 उष्ण *mfn.* hot, warm
 उष्ण कटिवंध *m.* (भूगोल) Torrid Zone,
 tropics
 उष्ण जल *n.* hot water
 उष्णजल-चोल *m.* hot water
 jacket
 उष्णजल-तापन *n.* hot water bath
 उष्णजल-निवाप *m.* hot water fun-
 nel
 उष्णजल-शोषण कन्दु *m.* hot water
 drying oven
 उष्णता *f.* hotness
 उष्णदेश-आयुर्विद्या *f.* tropical medi-
 cine
 उष्णदेशीय *mfn.* tropical
 उष्ण पट्ट *m.* hot plate
 उष्ण प्रदेश *m.* tropical region,
 tropics
 उष्णप्रिय 1 *m.* (जैविकी) thermo-
 phil, thermophile 2 *mfn.*
 (जैविकी) thermophilic
 उष्णप्रिय दण्डाणु *m.* Bacillus ther-
 mophilus
 उष्ण-रुधिर *mfn.* (प्राणिकी) warm-
 blooded
 उष्णवायु-कन्दु *m.* hot-air oven
 उष्णवायु-जीवाणुहा (-इन्) *m.* hot-air
 sterilizer
 उष्ण-शय्या-तापमान *m.* hot bed
 thermometer
 उष्णास *mfn.* (प्राणिकी) warm-
 blooded (animals)
 उष्णीष *m.* (प्राणिकी) galea
 उष्णोत्स *m.* hot spring



ऊ (ऊष्मा) H (heat)
ऊ (ऊर्ध्व) (रसायन) O (ortho)
ऊ (आपेक्षिक ऊष्मा) (भौतिकी) S
ऊ- (ऊर्ध्व-) (रसायन) o- (ortho-)
ऊति *f.* tissue
ऊतिकर *m.* (प्राणिकी) enchyma
-ऊतिकर (प्राणिकी) -enchyma =
-enchyme
ऊतिक्रामिवंश *m.* Trichinellidae
ऊतिक्राम्याति = ऊतिक्रामी-प्रजाति *f.*
(प्राणिकी) Trichinella
ऊति-चारुय *n.* (आयुर्विद्या) sclerema
ऊतिजीवनः *m pl.* (प्राणिकी) Histozaa
ऊतिजीवी (-इन्) 1 *m.* (प्राणिकी)
histozoon 2 *mfn.* (जैविकी)
histozoic
ऊतितापन *n.* (आयुर्विद्या) diathermy
ऊतिलिकृती *f.* (प्राणिकी) histamine
ऊतिमारक किरणकवक *m.* Bacillus
diphtheriae vitulorum = Ac-
tinomyces necrophorus =
Damman's bacillus = Bang's
necrosis bacillus = Schmorl's
bacillus
ऊतिमृत्यु *m.* necrosis
ऊतिरजताभिरजक *m.* Levaditi's
stain
ऊतिसंरचना *f.* tissue structure
= histology
ऊत्यंशक गदाणु *m.* (शाकाण्विकी)
Clostridium histolyticum
ऊत्येयी *f.* (जीवरसायन) histidine
ऊधस *n.* udder
ऊधस्कूपीय माला-गोलाणु *m.* Strep-
tococcus nocardii
ऊन- under-
ऊन , ऊप C_p, C_v
ऊन = $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$
ऊन-न्यष्टि *f.* haploid nucleus
ऊन-प्रदाय *m.* under-supply
ऊनवत्य *mfn.* (प्राणिकी) hypoiiso-
tonic = hypotonic
ऊन-शोधन *n.* under-correction
ऊनसुपबोध (ऊ. सु.) *n.* underproof
spirit (u. p.)
ऊनादून *adv.* in the least
ऊनेन्द्र *n.* (रैखिकी) ellipse
ऊनेन्द्रज *n.* (रैखिकी) ellipsoid
ऊनेन्द्रजीय *mfn.* ellipsoidal
ऊनेन्द्रीय *mfn.* elliptical
ऊप C_v
ऊप (धूप) -oin (benzoin)
ऊर *m.* thigh

ऊर- *mfn.* (शारीर) femoral = cru-
ral, femoro-
ऊरक *m.* (शारीर, प्राणिकी) femoral
(a femoral shield)
ऊर-कुल्या *f.* crural canal
ऊर-चेता *f.* crural nerve
ऊर-त्रिकोण *m.* (शारीर) femoral
triangle
ऊर-रोहिणी *f.* (शारीर) femoral
artery
ऊर्जया *adv.* energetically
ऊर्जा *f.* (भौतिकी) energy
ऊर्जा-उन्मोचन *n.* liberation of
energy
ऊर्जाणु *m.* (भौतिकी) quantum
ऊर्जाणु-वाद *m.* (वाणिज्य) quantum
theory
ऊर्जाणु-संख्या *f.* (वाणिज्य) quantum
number
ऊर्जा-नाश *m.* destruction of
energy
ऊर्जा-प्रदा *f.* energy output
ऊर्जा-विकिरण *n.* (भौतिकी) radiation
of energy, energy radiation
ऊर्जा-समीकार *m.* (गणित) energy
equation
ऊर्जास्थिरता *f.* (भौतिकी) conserva-
tion of energy
ऊर्जा-हानि *f.* energy loss
ऊर्जा-नमोक *m.* energy release
ऊर्ण-erio-
ऊर्णनीरजी *f.* eriochlorine
ऊर्णरक्ती *f.* eriorubine
ऊर्णश्यामी *f.* eriocyanine
ऊर्णहरिती *f.* erioviridine
ऊर्णहयानीली *f.* erioglaucine
ऊर्णहयानीली वरिष्ठ *m.* erioglaucine
supra
ऊर्णा (ऊन) *f.* wool
ऊर्णाकौशिय-रक्ष *m.* (रंग-देशना) pro-
tectol agfa
ऊर्णाजालति = ऊर्णाजाल-प्रजाति *f.*
(औद्भिदी) Eriodictyon
ऊर्णाजालव *m.* (रसायन) eriodictyol
ऊर्णाजिन *n.* fur
ऊर्णाजिन पीठ *m.* fur base
ऊर्णा तथा रोम *n.* wool and hair
ऊर्णादृश *mfn.* flocculent
ऊर्णाफल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Tarcho-
nanthus
ऊर्णा-वपा *f.* (भेषजिकी) adeps lanae,
wool fat, lanolin, lanoline
ऊर्णावल *mfn.* (from शतपथब्राह्मण)
woolly

ऊर्णावल युग्माशय *m.* (प्राणिकी) woolly
opossum
ऊर्णा-वसिक अम्ल *n.* (रसायन) lano-
ceric acid
ऊर्णा-विकास-अधिकारी (-इन्) *m.* wool
development officer
ऊर्णा-स्तुक *m.* flock
ऊर्णािका *f.* 1 floccule 2 (औद्भिदी)
mold, mould
ऊर्णािकायक *m.* flocculator, flocc-
ulent
ऊर्णािकायन *n.* flocculate *vb.*, flocc-
ulation
ऊर्णािकायित *n.* flocculate *n.*
ऊर्णािकाय्य *mfn.* flocculable
ऊर्णािसवेल्लिका *f.* (औद्भिदी) Convol-
vulus lanata
ऊर्णा *f.* (भौतिक रसायन) flocc
ऊर्णा (-इन्) *mfn.* lanate, lanatus
ऊर्णाकर *m.* flocculant
ऊर्णािमत् *mfn.* flocculent
ऊर्णािमत्ता *f.* flocculence
ऊर्णािमय *mfn.* flocculent
ऊर्णािमय निस्साद *m.* flocculent pre-
cipitate
ऊर्ध्व *mfn.* erect, upright, up-
ward
ऊर्ध्व- (रसायन) ortho-
ऊर्ध्व अक्ष *m.* upright axis
ऊर्ध्व काल *m.* ortho black
ऊर्ध्व-क्रविपव *m.* ortho-cresol
ऊर्ध्वग *mfn.* upward
ऊर्ध्वग बल *n.* upward force
ऊर्ध्वघृतल दण्डाणु *m.* Bacillus
orthobutylicus
ऊर्ध्व-धूमलकी *f.* (रंग-देशना) ortho
ceriae
ऊर्ध्व-निजीरेण्य *n.* ortho-cymene
ऊर्ध्ववाहु-नाल *m.* U-tube
ऊर्ध्ववाहु वक्र *f.* (सांख्यिकी) U-shape
curve
ऊर्ध्वभास्विक अम्ल *n.* (रसायन) ortho-
phosphoric acid
ऊर्ध्व-भास्वीय *n.* (रसायन) ortho-
phosphate
ऊर्ध्वमुख *mfn.* upward
ऊर्ध्वमुख बल *n.* upward force
ऊर्ध्ववर्णक *m.* (रंग-देशना) ortho-
chrome
ऊर्ध्व (or उत्थ) वायव्य *n.* (औद्भिदी)
erect aerial
ऊर्ध्व-शून्यक *n.* (भौतिकी) Torricel-
lian vacuum
ऊर्ध्वशून्यक नाल = वापीडमान-नाल *m.*

Toricellian tube = barometric tube
 ऊर्ध्वदयामी *f.* (रंगदेशना) orthocyanine
 ऊर्ध्व-सीमा *f.* upward limit
 ऊर्ध्व-संकतिक *mfn.* (रसायन) orthosilicic
 ऊर्ध्वस्थायी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) penguin
 ऊर्मि *m.* plait (a flat fold)
 ऊर्मिका *f.* ripple

ऊर्वस्थि *n.* (शारीर) femur = femur bone = thigh bone
 -ऊल (from मूल) -oyl
 ऊपर-भूमि *f.* sterile soil
 ऊपी *f.* sterile soil
 ऊष्मकरण *n.* dissipate
 ऊष्मकरण-स्थिरांक *m.* dissipation constant
 ऊष्मकृत *mfn.* dissipated
 ऊष्म-परीक्षण-नाल *m.* heat test tube
 ऊष्म-चिकिरण *n.* (भौतिकी) radiation

of heat
 ऊष्म-चिकिरण *n.* thermal radiation
 ऊष्मसह *mfn.* refractory
 ऊष्मस्थायी (-इन्) *mfn.* thermo-stable
 ऊष्महत *mfn.* (जीवरसायन) thermo-labile
 ऊष्मा (-मन्) *m.* (भौतिकी) heat (H)
 ऊष्माघात *m.* (आयुर्विद्या) heatstroke
 ऊष्मोर्जा *f.* heat energy

ऋ

ऋ (ऋजु) (रसायन) *n.* (normal)
 ऋ (सांख्यिकी) μ
 ऋक्ष *m.* (प्राणिकी) bear = ursus
 ऋक्षपर्वत *m.* (भूगोल) Gondwana Hills
 ऋक्षवदर *m.n.* (औदभिदी) Arctostaphylos = bear-berry = uva-ursi
 ऋक्षवदर-क्वाथ *m.* decoctum uva-ursi
 ऋक्षवदरति = ऋक्षवदर-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Arctostaphylos
 ऋक्षवदरि *f.* (रसायन) arbutin
 ऋक्षव *m.* (रंग-देशना) ursol
 ऋक्षव धूसर *m.* ursol grey
 ऋक्षव पीत-वधु *m.* ursol yellow-brown
 ऋक्षव वधु *m.* ursol brown
 ऋक्षव रक्त-वधु *m.* ursol red-brown
 ऋक्षाति = ऋक्ष-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Ursus
 ऋ-बुर्तल *n.* normal butyl
 ऋ-घृतिक *mfn.* normal-butyric
 ऋजु *mfn.* 1 direct 2 straight 3 (रसायन) normal
 ऋजु. (रसायन) nor- (normal)
 ऋजु अन्तरपण *n.* (अर्थशास्त्र) direct arbitrage
 ऋजु अभियाचन *n.* (अर्थशास्त्र) direct demand
 ऋजु कक्षा *f.* (भौतिकी) normal orbit
 ऋजु कर्पूरीय *n.* norcamphane
 ऋजु कोण *m.* (गणित) straight angle
 ऋजु क्रिया *f.* direct action
 ऋजु घनल *n.* normal butyl
 ऋजु-दीर्घीक्ष *m.* (वाक्षुपी) orthoscopic lens
 ऋजु दशम *mfn.* deci-normal
 ऋजु-दृष्टि रगावलीक्ष *m.* (भौतिकी)

direct vision spectroscope
 ऋजु निर्वाचन *n.* direct election
 ऋजुपक्ष *mfn.* straightwinged
 ऋजुपक्षा *m.pl.* (प्राणिकी) Orthoptera
 ऋजु परिव्यय *m.* direct cost
 ऋजुपूर कोण *m.* (गणित) supplementary angle
 ऋजुपेशी *f.* (शारीर) rectus
 ऋजु प्रकारान्तरण *n.* (तर्कशास्त्र) direct reduction
 ऋजु भूति *f.* direct wages
 ऋजुरेख *mfn.* rectilinear, rectilinear
 ऋजुरेख गमन *n.* rectilinear propagation
 ऋजुरेख प्रचरण *n.* rectilinear propagation
 ऋजु-रेखा *f.* (गणित) straight line
 ऋजुरेखा आकृति *f.* rectilinear figure
 ऋजुरेखा गति *f.* (यान्त्र) straight-line motion
 ऋजुरेखीय *mfn.* rectilinear, rectilinear
 ऋजु लवण *n.* (रसायन) normal salt
 ऋजुवर्त *mfn.* (औदभिदी) orthotropic
 ऋजुवर्त-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Lagarosiphon
 ऋजु वाह *m.* (भौतिकी) straight current
 ऋजु व्यय *m.* direct expenses
 ऋजु श्रृंखल *m.* (रसायन) normal = straight chain
 ऋजु श्रम *m.* direct labour
 ऋजु-सामग्री *f.* direct material
 ऋजु-गण *m.* Solenogastres
 ऋजुवाविवर्तिता *f.* (आयुर्विद्या) orthophoria
 ऋजुवीक्ष *m.* (वाक्षुपी) orthoscope

ऋजुवीक्ष-वीक्ष *m.* lens of orthoscope
 ऋण *n.* 1 debt, indebtedness, loan 2 liability, obligation 3 (गणित) minus 4 *mfn.* (गणित) negative 5 *mfn.* (तर्कशास्त्र) negative
 ऋण अंशु *m.* (औदभिदी) minus strain
 ऋण अवसान *m.* (भौतिकी) negative terminal
 ऋण आवेजन *n.* (रसायन) negative catalysis
 ऋण-उन्मोचन *n.* discharge of a loan
 ऋण एवं अग्रिम *n.* loan and advances
 ऋण कर्म *n.* (भौतिकी) negative work
 ऋण तथा अग्रिम *n.* loans and advances
 ऋण निपीड *m.* negative pressure
 ऋण-निस्तारण *n.* liquidation of debt, liquidation of loan
 ऋण-पत्र *n.* (वाणिज्य) debenture
 ऋणपत्र-उद्धार *m.* debenture loan
 ऋणपत्र-धारी (-इन्) *m.* debenture-holder
 ऋणपत्र-निर्गमन *n.* issue of debenture
 ऋणपत्र-निर्गमने अपहार *m.* discount on issue of debentures
 ऋणपत्र-निष्क्रयण *n.* redemption of debenture
 ऋणपत्र-निष्क्रयण-प्रणीवि *f.* debenture redemption fund
 ऋणपत्र-पुंजी *f.* debenture capital
 ऋणपत्र-वृद्धि *f.* debenture interest
 ऋणपत्र-स्कन्ध *m.* (अर्थशास्त्र) debenture stock

ऋण-बन्ध *m.* debenture bond
 ऋण-विभ्रमिया *f.* (भौतिकी) negative moment
 ऋण-मार्जिन-गृह *n.* (अर्थशास्त्र) clearing-house
 ऋण राशि *m.* (गणित) negative quantity
 ऋणलेख-प्रव्याजि *m.* premium on debentures
 ऋणव्यय *m.* debt service
 ऋण-संख्या *f.* (गणित) negative

number
 ऋण-संघटन *n.* consolidation of debts
 ऋण-संमितीय निश्चायक *m.* (गणित) skew-symmetrical determinant
 ऋण-स्कन्ध *m.* debenture stock
 ऋणाधिक्य *n.* balance of indebtedness
 ऋणापमोचन *n.* absolve
 ऋणिता *f.* indebtedness

ऋणी (-इन्) 1 *m.* debtor 2 *mfn.* indebted
 ऋत *n.* law
 ऋ. ता. नि (ऋजु ताप निपीड) (रसायन) N.T.P.
 ऋतु *m.* season
 ऋतु-विभाग *m.* seasonal ward
 ऋतुत्साव *m.* menstruation
 ऋषिपत्तन *n.* (भूगोल) Sarnath

ए

ए (एजातु) (रसायन) Ac (actinium)
 ए (प्रत्यास्थता-मापांक) (भौतिकी) E (modulus elasticity)
 एक *mfn.* single
 एक- 1 mon-, mono- 2 singly 3 sole 4 solitary
 एक-अभिदिशा *f.* (गणित) same sense
 एक, ए ख (एजातु क, एजातु ख) *m.* Ac A, Ac B (actinium A, actinium B)
 एकक *n.* 1 member 2 unit
 एकक-काल *m.* (गणित) unit-time
 एकक-ककुद् उष्ट्र *m.* dromedary
 एकक-गुण *m.* Mendelian character
 एकक-घनता *f.* (भौतिकी) unit density
 एककंकताति = एककंकत-प्रजाति *f.* Cera-tophyllus
 एकक-ध्रुव *m.* (भौतिकी) unit pole
 एकक-नाल *m.* (भौतिकी) unit tube = Faraday tube
 एकक-परिवर्तन *n.* change of unit
 एक-कर-पद्धति *f.* (अर्थशास्त्र) unitary tax system
 एक-कल्पनी *f.* (यान्त्रिकी) single shear
 एकक-शत *n.* one percent
 एककूट दन्त = अक्षिदन्त *m.* (शारीर) canine = single cuspid tooth = eyetooth
 एककेसर पुष्प *n.* (औद्भिदी) imperfect flower
 एककोश *mfn.* (जैविकी) unicellular
 एककोशजीवज्ञ *m.* protistologist
 एककोशजैविकी *f.* protistology
 एककोशांगी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) proto-plast
 एककोशाजीवाः *m. pl.* (जैविकी) Proto-ista
 एक-कोशावान् (वत्) *mfn.* one-celled
 एक-कोशा-स्थूल *mfn.* (औद्भिदी) one-cell thick

एककोशिनः *m. pl.* (प्राणिकी) Protozoa
 एककोशीय *mfn.* (जैविकी) unicellular
 एककोष्ठाति = एककोष्ठ-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Monocystis
 एक-क्लोम *mfn.* mono-branchiate
 एकगहर *mfn.* (औद्भिदी) unilocular
 एकगुण *mfn.* 1 (काशिकी) monoploid = haploid 2 univalent
 एकगुण सारणीयन *n.* (सांख्यिकी) single tabulation
 एकघात- (गणित) linear
 एकघात-खण्ड *m.* (गणित) linear factor
 एकघात-पदसंहति *f.* (गणित) linear expression
 एकघात-बीजगणित *n.* hyperalgebra = linear algebra
 एकघात-समीकार *m.* (सांख्यिकी) equation of the first order
 एकचक्र-अक्षरुण्ड *m.* stub axle
 एकचक्रिणी *f.* wheelbarrow
 एकच्छाय रंजक *m.* (yielding but one shade) monogenetic dyes
 एकजधानीक *mfn.* (औद्भिदी) leptosporangiate
 एकजन प्रमण्डल *n.* one-man company
 एक-जलीय *n.* (रसायन) monohydrate
 एक-जारेय *n.* (रसायन) mon-oxide
 एकत उभयस्पर्शी (-इन्) *m.* (गणित) direct common tangent
 एकतति *f.* (संगीत) monotony
 एकतन्त्री *f.* (संगीत) monochord
 एकतःपीती (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) telolecithal
 एकतल *m.* monoplane
 एकतश्चूष-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Fasciola
 एकतश्चूष-प्रवश *m.* Fascioloidea (a superfamily)

एकतश्चूषवंश *m.* Fasciolidae
 एकतश्चूषामाति = एकतश्चूषाम-प्रजाति *f.* Fasciolopsis
 एकता *f.* (तर्कशास्त्र) unity
 एकता तथा भिन्नता *f.* (तर्कशास्त्र) unity and diversity
 एकतानता *f.* monotony
 एकतोदोल *m.* (भौतिकी) oscillation
 एकतोविकासी (-इन्) *m.* (औद्भिदी) helicoid
 एकत्र *adv.* together
 एकदारुक *mfn.* (औद्भिदी) monoxyle
 एकदिश *mfn.* (विद्युत्) unidirectional
 एकदिशीयक *m.* (विद्युत्) rectify
 एकधातुता *f.* (अर्थशास्त्र) monometal-lism
 एकन्यष्टिप्रौढाः *m. pl.* (प्राणिकी) Telo-sporidia
 एकपक्ति-लवंगित *mfn.* single-riveted
 एक-पट्टक *m.* (यान्त्रिकी) single strap
 एकपत्रि बीज *n.* (औद्भिदी) monocotyledonous seed
 एकपद *n.* (गणित) monomial, mono-nomial
 एकपद-पदसंहति *f.* (बीजगणित) mono-mial expression
 एकपरमाण्विक *mfn.* (रसायन) mono-atomic
 एकपरमाण्विक सुषव *m.* (रसायन) mono-atomic alcohol
 एकपरिपुष्प *mfn.* monochlamy-deous
 एकपरिपुष्पाः *m. pl.* (औद्भिदी) Mono-chlamydeae
 एकपर्ण *mfn.* (औद्भिदी) unifoliate
 एकपर्णक *mfn.* (औद्भिदी) unifoliate
 एक-पात *m.* (भूसेचन) single drop
 एक-पारिस्थिकी *f.* (औद्भिदी) auto-ecology

एक-पार्श्वस्थ पूल *m.* (औद्भिदी) collateral bundle
 एकपार्श्विक *mfn.* unilateral
 एकपार्श्विक-प्रसंविदा *f.* unilateral contracts
 एकपार्श्विक वाह *m.* (भौतिकी) unilateral current
 एक-पुंकेसर *mfn.* (औद्भिदी) monandrous
 एकपुट *mfn.* (प्राणिकी) univalved
 एक-पुष्पता *f.* (औद्भिदी) solitary inflorescence
 एकपैठिक *mfn.* (रसायन) mono-basic
 एक प्रतिशत *adv.* one percent
 एकप्रदेशीय *mfn.* endemic
 एकप्रदेशीय रोग *m.* endemic disease
 एकप्रनाडीक *mfn.* (औद्भिदी) unicostate
 एकप्रवण-संहति *f.* mono-clinic system
 एक-प्रवणिक *mfn.* monoclinic
 एक-प्र-टि *f.* single entry
 एक-प्रविष्टि-पद्धति *f.* single entry system
 एक-प्राप्त *n.* (वाणिज्य) single endowment
 एक-वन्ध *m.* single bond
 एकवाहु *m.* (यान्त्र) single arm
 एकबीजपत्र *m.* (औद्भिदी) monocotyledon
 एकबीजपत्रि बीज *n.* (औद्भिदी) monocotyledonous seed
 एकबीज-बदरी *f.* (औद्भिदी) one-seeded berry
 एकबीजास्फोटि (-इन्) *n.* (औद्भिदी) achene
 एकबीजास्फोटि फल *n.* (औद्भिदी) achene fruit
 एकबीजारस्फोटिवेश्म *n.* (औद्भिदी) mericarp
 एकभेज *m.* folio
 एक-भाजन *n.* single pan
 एकभित्तिक *m.* (औद्भिदी) blastula
 एकभित्तिका *f.* (प्राणिकी) blastula
 एकभित्तिका-गुहा *f.* (औद्भिदी) blastocoel
 एकभ्रूणिता *f.* (औद्भिदी) monembryony
 एकमत *mfn.* unanimous
 एक-मध्यरम्भ *m.* (औद्भिदी) monostele
 एकमध्यरम्भ-वस्था *f.* (औद्भिदी) monostelic condition
 एक-मिह्य *n.* mono-ureides
 एकमुद्र-कुचीचालक *m.* mono key-operator
 एकमुद्र-सवष्टा (-न्) *m.* mono-caster
 एकमुष्टि *m.* lump sum
 एकमूल्य आपण *m.* (वाणिज्य) one-price shop

एकरंग-सूर्यचित्र *n.* spectroheliogram
 एकराज *m.* monarch
 एकराशिदान *n.* commutation, commute, pay in gross
 एकराशिदिय *mfn.* commutable
 एकरूप *mfn.* uniform
 एकरूप अभिसरण *n.* (गणित) uniform convergence
 एकरूप क्षेत्र *n.* (भौतिकी) uniform field
 एकरूप-गति-अवस्था *f.* (भौतिकी) state of uniform motion
 एकरूपता *f.* uniformity
 एकरूप त्वरण *n.* (भौतिकी) uniform acceleration
 एकरूप प्रवेग *m.* uniform velocity
 एकरूप विमन्दन *n.* uniform retardation
 एकरेखण *n.* (एक-रेखा-स्थापन) align *vb.*, alignment
 एकल *mfn.* 1 single 2 sole 3 solitary 4 univalent
 एकल-हप्लो-सिंगल
 एकल अवसान *n.* (औद्भिदी) solitary terminal
 एकल-कोशावान् (-वत्) *mfn.* single-celled
 एकल-धर्वरी *f.* (गणित) single pulley
 एकलन *n.* insulate = isolate, isolation
 एकल-पवित *f.* single row
 एकल पुष्प *n.* solitary flower
 एकलबीजाणुगण *m.* (शाकाण्विकी) Haplosporidia
 एकल-वर्णक-काल *m.* solochrome black
 एकल विकल्प *m.* single option
 एकल वीक्ष *m.* single lens
 एकल व्यापारी (-इन्) *m.* sole trader
 एकल सन्क्राम्य मत *n.* single transferable vote
 एकलसूत्र *n.* (जैविकी) chromatid
 एक-लंगूल *mfn.* (प्राणिकी) monopolar = unipolar
 एकलिंग *mfn.* (जैविकी) unisexual
 एकलित *mfn.* isolated
 एकवर्ण-गण *m.*, एकवर्णरथिनः *m.pl.* (वस्तु शिल्प) Acarina
 एकवर्ण *mfn.* monochrome
 एकवर्णिक *mfn.* monochromatic
 एकवर्धक्ष *m.* (औद्भिदी) raceme
 एकवर्धक्ष *mfn.* (औद्भिदी) racemose
 एकवर्धक्षीय *mfn.* (औद्भिदी) racemose
 एकवाचि पद *n.* singular term
 एकवाचि-प्रस्थापना *f.* singular proposition
 एकवाची (-इन्) *mfn.* (तर्कशास्त्र) singular
 एकविध *mfn.* uniform

एकविध परिव्यय *m.* single cost
 एकशः *adv.* singly
 एकशफ *mfn.* (प्राणिकी) solidungulate
 एक-शर्कराधु *n.* (रसायन) monosaccharoses
 एकशर्करेय *n.* (रसायन) monosaccharide
 एकशाख *m.* (औद्भिदी) monochasium
 एकशाखी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) monochasial
 एकशाखी बहुवर्धक्ष *m.* (औद्भिदी) monochasial cyme
 एकशास्ता (-न्) *m.* dictator
 एकशास्त्र *n.* dictatorship
 एक-शुक्ति *f.* mono-acetin
 एक-शुल्वा *f.* (रसायन) mono-sulphone
 एक-श्यामजन *m.* mono-cyanogen
 एकश्रुति *f.* (संगीत) (ancient word) monotone
 एकसंयुज *m.* (रसायन) monad, monovalent, univalent
 एक-संलाग *mfn.* (औद्भिदी) monadelphous
 एकसम *mfn.* identical, uniform
 एकसम परिमाण *n.* uniform dimension
 एकसम मूल्य *n.* (अर्थशास्त्र) uniform price
 एकसम विमा *f.* uniform dimension
 एक-समितीय *mfn.* (औद्भिदी) monosymmetric = zygomorphic
 एकसमितीय पुष्प *n.* monosymmetric flower
 एक-सूत्रित *mfn.* (अभियंत्रणा) single-threaded
 एक-सूट *mfn.* (औद्भिदी) uni-parous
 एकसूट बहुवर्धक्ष *m.* uniparouscyme
 एकसेवनीक *n.* (औद्भिदी) foliole
 एक-स्पर्श *m.* (भौतिकी) single touch
 एकस्व *n.* patent
 एकस्व-करण *n.* patent *vb.*
 एकस्व-कार्यालय *m.* patent office
 एकस्व-कृत *mfn.* (वाणिज्य) patented
 एकस्वकृत भेषज *n.* patented medicine
 एकस्वन *m.* (संगीत) unison
 एकस्व-पत्र *n.* letters patent
 एकस्व-भेषज *n.* patent medicine
 एकस्वी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) patentee
 एकाक्ष *m.* (औद्भिदी) monopodium
 एकाक्षकेन्द्री (-इन्) *mfn.* (चाक्षुषी) homocentric = coaxial
 एकाक्ष शिफावृन्त *m.* (औद्भिदी) monopodial rhizome
 एकाक्ष सन्धि *m.* (शारीर) uniaxial joint
 एकाक्षी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) monopodial

एकांग *mfn.* (औद्भिदी) *diclinous* = unisexual
 एकांग-घात *m.* (आयुर्विद्या) *monoplegia*
 एकांगता *f.* (औद्भिदी) *dicliny*
 एकाजीवी *f.* *monazine*
 एकाण्ड *mfn.* (औद्भिदी) *monocarpous* (*pistil*)
 एकात्मक *mfn.* *identical*
 एकारमक सम्बन्ध *m.* (गणित) *identical relation*
 एकादशभुज *m.* (रैखिकी) *undecagon*
 एकादशमय *mfn.* (गणित) *undenary*
 एकादशमास *m.* *November*
 एकादशल *n.* (रसायन) *undecyl*
 एकादशलिक *mfn.* *undecylic*
 एकादशलेन्य *n.* (रसायन) *undecylene*
 एकादशलेन्यिक *mfn.* (रसायन) *undecylenic*
 एकादशीन्य *n.* (रसायन) *undecape*
 एकादिहत *mfn.* (गणित) *factorial*
 एकाधिक-निष्पत्ति *f.* (गणित) *ratio of greater inequality*
 एकाधिकरण *n.* *monopolize*
 एकाधिकार *m.* *monopoly*
 एकाधिकार-अर्हा *f.* (अर्थशास्त्र) *monopoly value*
 एकाधिकार-आगम *m.* (अर्थशास्त्र) *monopoly revenue*
 एकाधिकार-करण *n.* *monopolize*
 एकाधिकार-प्रत्याय *m.* *monopoly return*
 एकाधिकार-प्रत्याय-नियम *m.* (अर्थशास्त्र) *law of monopoly return*
 एकाधिकार-मूल्य *n.* *monopoly price*
 एकाधिकार-लाभ *m.* (अर्थशास्त्र) *monopoly profit*
 एकाधिकारी (-इन्) *m.* *monopolist*
 एकाधिकृत *mfn.* *monopolistic*
 एकाधिकृत संघटन *n.* *monopolistic organization*
 एकाधिचुम्बिक *mfn.* (भौतिकी) *paramagnetic*
 एकान्तरचिति *f.* (धातुकर्म) *chequerbrickwork* = *chequer-work*
 एकान्तरजनन *n.* (जैविकी) 1 *alternate generation*, *alternation of generations* 2 *metagenesis*
 एकान्तरण *n.* *alternate vb.*
 एकान्तरतया *adv.* *alternately*
 एकान्तर-निष्पत्ति *f.* (गणित) *alternando*
 एकान्तर पणन *n.* (अर्थशास्त्र) *simple arbitrage*
 एकान्तर सिध्द *n.* (औद्भिदी) *alternating patch*
 एकान्तरिक *mfn.* *alternate* (having the distance of one)
 एकान्तरिक-संकोचन *n.* (प्राणिकी) *alternate contraction*

एकान्तरेण *adv.* *alternately*
 एकान्तेक *mfn.* *alternate* (one following the other)
 एकान्तेक कर्मकरण *n.* *working alternately*
 एकान्तेकन *n.* *alternate vb.*
 एकाभिकर्ता (-तृ) *m.* (वाणिज्य) *sole agent*
 एकान्ल *mfn.* *mono-acid*
 एकायनित *mfn.* *singly ionized*
 एकाहं *mfn.* (गणित) *single-valued*
 एकाहंश्रित *n.* (गणित) *one-valued function*
 एकावतैना *f.* *monotropy*
 एकावर्तिक *mfn.* *monotropic*
 एकावर्तित *f.* *monotropy*
 एकावक *n.* *okka*
 एकास्फोटि *n.* (औद्भिदी) *mericarp*
 एकि उच्छन्न *n.* (औद्भिदी) *simple umbel*
 एकि-कर-पद्धति *f.* (अर्थशास्त्र) *single tax system*
 एकितगर्भाशयाः *m.pl.* (प्राणिकी) *Monodelphia*
 एकितगर्भाशयिक *mfn.* *monodelphian*, *monodelphic*, *monodelphous*
 एकि पत्र *n.* (औद्भिदी) *simple leaf*
 एकि-परिव्यय-लेखा *f.* *single cost accounts*
 एकि-पुष्पता *f.* (औद्भिदी) *simple inflorescence*
 एकि फल *n.* (औद्भिदी) *simple fruit*
 एकि-लेखा *f.* (वाणिज्य) *single account*
 एकि-लेखा-पद्धति *f.* *single account system*
 एकी (-इन्) *mfn.* 1 *haploid* 2 *single* 3 (औद्भिदी) *simple*
 -एकी (-इन्) *-monas*
 एकीकरण *n.* (चाक्षुषी) *fusion*
 एकीकृत *mfn.* (वाणिज्य) *unified*
 एकीकृत स्कन्ध *m.* *unified stock*
 एकी दण्ड *m.* (सांख्यिकी) *simple bar*
 एकी प्रमाप *m.* (अर्थशास्त्र) *single standard*
 एकीभवन *n.* *coalesce*
 एकीभाव *m.* (चाक्षुषी) *fusion*
 एकेन्द्र *n.* (रैखिकी) *parabola*
 एकेन्द्रज *n.* (रैखिकी) *paraboloid*
 एकेन्द्रजीय *mfn.* *paraboloidal*
 एकेन्द्र-वक्र *n.* (सांख्यिकी) *parabolic curve*
 एकेन्द्रीय *mfn.* (रैखिकी) *parabolic*
 एकेकगणन *n.* *enumerate*
 एकेक-परिव्यय *m.* *terminal cost*
 एकैक-प्रसृष्ट पित्तल-वट्टक *m.* *single polished brass weights*
 एकैकसुद्र *m.* (सुद्रण) *monotype*
 एकैक वर्ण *m.* (गणित) *individual letter*

एकैकशो राज्या *adv.* (योग्या) *single file*
 एकैकशो राज्या गमनम्, दक्षिणतः, द्रुत-प्रयाणम् *n.* (योग्या) *advance in single file, from the right, quick march*
 एकैकाभास *m.* (तर्कशास्त्र) *fallacy of division*
 एकोच्छ्रुत्वायिक अम्ल *n.* (रसायन) *Laurent's acid*
 एकोदजार- (रसायन) *mono-hydroxy-*
 एकोदजार सुषव *m.* (रसायन) *mono-hydroxy alcohol*
 एकोदरछिद्राति = एकोदरछिद्र-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Protopterus*
 एकोदिक *mfn.* (रसायन) *monohydric*
 एकोदिक सुषव *m.* (रसायन) *monohydric alcohol*
 एकोनचुम्बिक *mfn.* (चौम्बिकी) *diamagnetic*
 एकोननिष्पत्ति *f.* (गणित) *ratio of less inequality*
 एकोपाक्ष *n.* (चाक्षुषी) *monocle*
 एज (एजाति) *An* (*actinon*)
 एज-नर *mfn.* (रसायन) *actiniferous*
 एजाति *m.* (रसायन) *actinon*
 एजातु *m.* (रसायन) *actinium*
 एतदर्थे *mfn.* 1 *ad hoc* 2 *in that behalf*
 एतदर्थे-उपकल्पना *f.* *hypothesis ad hoc*
 एतदर्थे-समिति *f.* *ad hoc committee*
 एतद्वारा *adv.* *hereby*
 एतद्विरुद्ध *mfn.* *to the contrary*
 एतद्विषयक *mfn.* *in that behalf*
 -एद (विभेद्) *-ase* (*diastase*)
 एषा *f.* (औद्भिदी) *cambium*
 एषान्तर- (औद्भिदी) *intracambial*
 एषा-वाह्य *mfn.* (औद्भिदी) *extracambial*
 एषा-वल्लय *m.* (औद्भिदी) *cambium ring*
 एषावी पूल *m.* (औद्भिदी) *open bundle*
 ए-निस् (रसायन) (एजाति, एजाति-निरसृति) *Ac-Em* (*actinon, actinon emanation*)
 -एन्य *n.* (रसायन) *-ene*
 -एन्यल *n.* (रसायन) *-enyl*
 -एन्यव *m.* *-enol*
 एन्यवन *n.* (एन्यव-करण, एन्यव-भवन) (*रसायन*) *enolize, enolization*
 एन्यवन-योग्य *mfn.* (रसायन) *enolizable*
 एन्यवनीय *mfn.* (रसायन) *enolizable*
 एन्यविक *mfn.* (रसायन) *enolic*
 एन्यवीय *n.* (रसायन) *enolate*
 -एय *n.* (रसायन) *-ide, -uret*

-एयी *f.* (रसायन) -idine (-ide+
-ine)
-एयेन्य *n.* (रसायन) -idene
एरकटीति = एरकटी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Carica
एरकाति = एरका-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Typha
एरटि *f.* (एरडककटी) papain = pa-
painum
एरटि-संनष्कर्म *m.* elixir of papain
= elixir papaini
एरड *m.n.* ca- tor
एरडककटी *f.* papaya = papaw
एरण्ड-कुल *n.* (औद्भिदी) Euphorbia-
ceae

एरण्ड-कोश-कीट *m.* (प्राणिकी) Philo-
samia ricini = eria
एरड-खलि *n.* castor cake = castor
pomace
एरंडति = एरण्ड-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
Riginus
एरण्ड-तेल *n.* (भैषजिकी) castor oil =
ricinus oil = oleum ricini
एरण्ड-तेल-बीज *n.* (भैषजिकी) ricini
semen = castor-oil seed
एरण्ड-बीज *n.* (भैषजिकी) castor oil
seed = ricini semen, castor
seed = castor bean
एरण्ड-अक्षीय *n.* ricin-oleate
एरड-वसत्राक्षिक *mfn.* (रसायन) ricin-

stearolic
एरंडि *f.* (रसायन) ricin
एरण्डिक *mfn.* (रसायन) ricinic
एरण्डिक अम्ल *n.* ricinic acid
एरण्डिकिक *mfn.* (रसायन) ricininic
एरण्डी *f.* (रसायन) ricinine
-एरंडीय *n.* -ricinate
एला-बीज *n.* (भैषजिकी) cardamom
= cardamomum = cardamom
seeds = cardamomi semina
एवं thus
एव च so also
एपणी *f.* (शल्य-चिकित्सा) probe

ऐ

ऐ. (ऐशानी) N. E. (north east)
ऐ. (कोण) (भौतिकी) ϕ (angle)
ऐ. उ. (ऐशानोत्तर) N. E. N. (north
of north east)
ऐ = $\frac{उप}{उप} \gamma = \frac{C_p}{C_v}$
ऐकात्म्य *n.* identity
ऐकात्म्यतः, ऐकात्म्येन *adv.* identi-
cally
ऐकिक-रीति *f.* unitary method
ऐक्य *n.* concord
ऐच्छिक 1 *mfn.* voluntary
2 (औद्भिदी) facultative

ऐच्छिक एकाधिकार *m.* (अर्थशास्त्र)
voluntary monopoly
ऐच्छिक-पृष्ठांकन *f.* (वाणिज्य) faculta-
tive endorsement
ऐतिहासिक 1 *m.* historian 2 *mfn.*
historical
ऐतिहासिक-भौतिकी *f.* historical
geology
ऐतिहासिक-रीति *f.* historical
method
ऐतिहासिक सम्प्रदाय *m.* (अर्थशास्त्र)
historical school
ऐन्द्र *mfn.* natural

ऐन्द्रवारुणि *f.* (रसायन) colocythin
ऐन्द्रिय *mfn.* sensory
ऐ. पू. (ऐशान-पूर्व) N. E. E. (east
of north east)
ऐरंडि *f.* (रसायन) dericin
-ऐल (तेल) *n.* -ol
-ऐलि *f.* -olin
ऐशान *mfn.* north-eastern
ऐशान-पूर्व *f.* (ऐ. पू.) east of north
east (N. E. E.)
ऐशानी (ऐ) *f.* north-east (N. E.)
ऐशानोत्तर *f.* north of north east
(N. E. N.)

ओ

ओको-डिम्भ *m.* (प्राणिकी) oikopleura
ओघ *m.* flood
ओघ-प्रकाश *m.* flood-light
ओघ-प्रकाशन *n.* flood-lighting
ओजस् *n.* (प्राणिकी) vitality
ओजस्वी (-इन्) *mfn.* vigorous
-ओट *m.* -ite
ओषक *m.* calorifier
ओषण *n.* 1 calorify (to render

hot), calorize 2 warm *vb.*,
warming
ओषण-पट्ट *m.* boiling plate = hot
plate
ओष्ठ *m.* 1 lip 2 spout (a dis-
charging lip)
ओष्ठकोप *m.* (आयुर्विद्या) cheilitis
ओष्ठ-मुश *m.* (प्राणिकी) labial palp
ओष्ठवल्य-रोहिणी *f.* (शारीर) coronary

artery
ओष्ठाङ्क *n.* labial tentacle
ओष्ठी (-इन्) *mfn.* labiate
ओष्ठ्याति = ओष्ठी-प्रजाति (प्राणिकी) *f.*
Chilomastix (there is a pro-
minent cytostome)
ओष्ण = (आ + उष्ण) *mfn.* warm
ओष्णकरण *n.* warm *vb.*, warming
ओष्णता *f.* warmth

औ

औचित्य-प्रश्न *m.* point of order
 औच्चयिक *mfn.* altitudinal
 (of or pertaining to altitude)
 औक्तिक *mfn.* histological
 औक्तिक भिन्न *n.* histological
 differentiation
 औक्तिक-संरचना *f.* histology
 औक्तिकी *f.* histology
 औक्तिकीदृष्ट्या *adv.* (प्राणिकी) histo-
 logically speaking
 औक्तिकीय *mfn.* histological
 औत्तैलेन्य अम्ल काल *m.* naph-
 tharene acid black
 औत्पत्तिक *mfn.* (तर्कशास्त्र) genetic
 वात्सादनिक *mfn.* abolitionary
 औदुम्बर *n.* (औदभिदी) syconium
 औदुमिद *mfn.* botanic=botanical
 औद्भिद-प्राणिकी *f.* zoophytology
 औद्भिद स्नेह *m.* vegetable fat
 औद्भिदिक *m.* botanist
 औदभिदी *f.* botany
 औदभिदी अध्ययन *n.* botanize
 औदभिदी-अन्वेषण *n.* botanize
 औदभिदीय *mfn.* botanic, botani-
 cal
 औदभिदीय आपरीक्षण *n.* botanical
 survey
 औदभिदीय उद्यान *n.* botanical
 garden
 औदभिदीयक *m.* botanizer
 औदभिदीयन *n.* botanize
 औदभिदीविद् *m.* botanist
 औदभौम-धूलि *f.* cosmic dust
 औद्यानिक *mfn.* horticultural
 औद्यानिक उन्दमान *m.* horticultural
 hygrometer

औद्यानिक-योजना *f.* horticultural
 scheme
 औद्यानिकी *f.* horticulture
 औद्यानिकीय *mfn.* horticultural
 औद्योगिक *mfn.* industrial, tech-
 nical
 औद्योगिक तापमान *m.* industrial
 thermometer
 औद्योगिक-धूलि *f.* industrial dust
 औद्योगिक-पाठशाला = प्रौद्योगिक-पाठशाला
f. industrial school = technical
 school
 औद्योगिक प्रत्यय *m.* capital credit
 = industrial credit
 औद्योगिक रसायन *n.* industrial
 chemistry
 औद्योगिक विवाद *m.* industrial dis-
 pute
 औद्योगिक-शिक्षा = प्रौद्योगिक-शिक्षा *f.*
 industrial education = tech-
 nical education
 औद्योगिक सुषव *m.* (रसायन) indus-
 trial alcohol
 औद्योगीकरण *n.* industrialize,
 industrialization
 औद्योगीकृत *mfn.* industrialized
 औद्देखिकी *f.* drawing
 औधस गुच्छमोलाणु *m.* Micrococcus
 caseolyticus
 औन्मृद कारक *n.* (औदभिदी) edaphic
 factors
 औन्मृती *f.* soil science
 औपकणिक *mfn.* (शरीर) parotidean
 औपकाल्पनिक *mfn.* hypothetical,
 hypothetical
 औपकाल्पनिक आर्थिक नियम *m.*

(अर्थशास्त्र) hypothetic econo-
 mic law
 औपकाल्पनिक प्रस्थाप्य *n.* hypothe-
 tical proposition
 औपकाल्पनिक-रचना *f.* hypotheti-
 cal construction
 औपचारिक *mfn.* formal
 औपनिवेशिक *mfn.* colonial
 औपनेत्रिक *m.* optologist
 औपनेत्रिकी *f.* optology
 औपनेत्रिकीय *mfn.* optological
 औपपातिक *mfn.* accidental
 औपराजिक *mfn.* viceregal, vice-
 royal
 औपलाक्षणिक *mfn.* (तर्कशास्त्र) acci-
 dental
 औपलाक्षणिकता *f.* (तर्कशास्त्र) acci-
 dentality
 औरव *mfn.* crural=femoral
 औरव- femoro-
 औरस *mfn.* thoracic
 औरस- *mfn.* thoracico-
 औरस पृष्ठपट्ट-दृढक *n.* (प्राणिकी) thora-
 cic tergal sclerite
 औरस-प्रणाली *f.* (शरीर) thoracic
 duct
 औषध *n.* medicine, preparation
 (in pharmacy)
 औषध-तुला *f.* dispensing
 balance
 औषधनिकाय *m.* dispensatory
 औषधयोजक *m.* dispenser
 औषधयोजन *n.* dispensing
 औषधालय *m.* dispensary
 औषित्र *n.* calorisor=calor-
 rizer

क

क (संक्षेत्र-कोण) (भौतिकी) A (angle of
 prism)
 क_१
 क (कठोर) H (hard in pencils)
 क (काशातु) (रसायन) Nb=Cb (nio-
 bium=columbium)
 क (काल) (भौतिकी) t (time)
 क. (कशांगणु) Ps. (pseudomonas)
 क_२ (आदिम काल) (भौतिकी) t₁

(initial time)
 क_२ (अन्तिम काल) (भौतिकी) t₂ (final
 time)
 क अंकनी *f.* H pencil
 क अप्वान्त्रज्वर वेत्राणु *m.* Bacterium
 paratyphosum A
 क अम्ल *n.* (रसायन) A acid
 'क' ईक्ष *m.* (तेजेन्वेप) 'A' scope
 क. क. क. (कठोर) H. H. H.

क का अंकनी *f.* H B pencil
 ककुद्-प्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) coronary
 process
 ककुद् *f.* (तेजेन्वेप) pip (American)
 = blip (British)=hump
 ककुदी *f.* (प्राणिकी) tubercle, tub-
 erculum
 ककुद्-भाग *m.* (प्राणिकी) pars
 tuberalis

ककुक्षी (-इन्) *m.* zebu = humped ox
 कक्ष *m.* (औद्भिदी) 1 axil 2 ward
 कक्ष-कलिका *f.* (औद्भिदी) axillary bud
 कक्ष-द्रव *m.* coxal fluid
 कक्ष-पुष्प *n.* (औद्भिदी) axillary
 flower
 कक्षांग *n.* (प्राणिकी) coxa
 कक्षावरक पत्र *n.* (औद्भिदी) subtending
 leaf
 कक्षावरण *n.* (औद्भिदी) subtend,
 subtending
 कक्षावृत *mfn.* (औद्भिदी) subtended
 कक्षोद *m.* A powder
 कक्षा *f.* (from आयंभट) orbit (of
 planets)
 Δ क ख ग Δ A B C
 क, ख, ग, घ (मौलिकी) A, B, C, D
 (Wheatstone's Bridge)
 कंकणाकार ग्रहण *n.* (from ज्योतिर्विलास)
 annular eclipse
 कंकणी रन्ध्रशिर *m.* Porocephalus
 armillatus
 कंकण्याति = कंकणी-प्रजाति *f.* Armil-
 lifer
 ककतक्लोम *n.* (प्राणिकी) ctenidium
 कंकत छत्रिक *m.* (प्राणिकी) comb
 jellyfish
 ककत-पट्ट *m.* (प्राणिकी) comb plate
 ककत-मूष *m.* (प्राणिकी) comb rat
 = gundi = ctenodactyl
 कंकत-रूप *mfn.* (प्राणिकी) cteniform
 ककत-रेत्री *f.* found (a file for
 combmakers)
 ककतश्लय *m* ctenidium
 ककतशिर-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Cteno-
 cephalus
 कंकतनः *m.pl.* (प्राणिकी) Cteno-
 phora
 कंकती (-इन्) *m.* (प्राणिकी) comb jelly
 = ctenophore
 कंकतीति = कंकती-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Abutilon
 कंकाल *m.* 1 (अयोमार्ग) frame
 2 skeleton
 कंकाल- skeletal
 कंकाल-अंग *n.* skeletal element
 कंकालजन *mfn.* skeletogenous
 कंकालजनखण्डक *m.* (प्राणिकी) sclero-
 tome
 कंकाल-पेशी *f.* (शारीर) skeletal
 muscles
 कंगुक्षुप-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Zamia
 कंगु-ताल *m.* sago palm
 कंगुताल-कुल *n.* (औद्भिदी) Cycadaceae
 कंगुताल-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Cycadales
 कंगुतालति = कंगुताल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Cycas
 कंगुताला *m.pl.* (औद्भिदी) cycads
 कंगुपर्णागा *m.pl.* (औद्भिदी) cycado-
 filicales

कंगु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Sorghum
 कन्तुति = कन्तु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Arum
 कच्छ *m.* 1 (भूगोल) Cutch 2 marsh
 कच्छ-वाति *m.* (रसायन) marsh gas
 कच्छोद्भिद् *f.* (औद्भिदी) helophyte
 क-छिद्रोति *f.* (शारीर) diplooe
 कज्जल = कज्जल वधु *m.* bistre = soot
 brown
 कज्जलकारी (-इन्) *mfn.* sooty
 कज्जल-तिक्ती वधु *m.* Bistr-amine
 brown
 कज्जलि *f.* (भैषजिकी) asbolin
 कंचुक *m.* cloak, sheath
 कंचुक- chlamydo- ('cloak')
 कंचुक-आवार *m.* (औद्भिदी) sheathing
 base
 कंचुक-जीव *m.* (जैविकी) chlamydozoan
 कंचुकजीवा *m.pl.* (जैविकी) chlamy-
 dozoa
 कंचुक-पक्ष *m.* (प्राणिकी) sheath-
 winged
 कंचुक-पक्षाः *m.pl.* (प्राणिकी) Coleo-
 ptera
 कंचुक-बीजाणु *m.* (औद्भिदी) chla-
 mydospore
 कंचुक-वेत्राणु *m.* (शाकाण्विकी) chla-
 mydo-bacteria
 कंचुकवेत्राणु-कुल *n.* (कुल family)
 Chlamydoacteriaceae
 कंचुकवेत्राणु-गोत्र *n.* (गोत्र order)
 Chlamydoacteriales
 कट *m.* mat
 कट-घास *m.* (औद्भिदी) matgrass =
 nard
 कटघास-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Nardus
 कटाह *m.* pan
 कटाह-पाचक *m.* pan-boiler
 कटाह-शिर *n.* (यान्त्र) pan-head
 कटि *f.* loin
 कटि-त्रिक-प्रतान *m.* (प्राणिकी) lumbo-
 sacral plexus
 कटि-देश *m.* (भूगोल) belt
 कटिवन्ध *m.* (भूगोल) belt, zone
 कटि-रोहिणी *f.* (शारीर) lumbar ar-
 teries
 कटी *f.* link
 कटीकृत-गति *f.* (यान्त्र) link motion
 कटी-संहति *f.* linkage
 कट्ट *mfn.* bitter
 कट्ट- pier-
 कट्टक *n.* (भैषजिकी) picrorhiza
 कट्टकति = कट्टक-प्रजाति *f.* Picrorhiza
 कट्टक-निष्कर्ष *m* tinctura picro-
 rhizae
 कट्टकी *f.* amarine
 कट्ट-तिक्तिक *mfn.* (रसायन) picramic
 कट्ट-तिक्तिक अम्ल *n.* picramic acid
 कट्ट-तिक्तीय *n.* pier-amate
 कट्टतिकतेय *n* (रसायन) pier-amide
 कट्ट-सुन्धी *f.* Lagenaria vulgaris

कट्ट दुग्ध दण्डाणु *m.* Bacillus pseudo-
 butyricus, Weigmann's
 bacillus
 कट्ट मण्डशिक *m.* (औद्भिदी) bitter
 cassava = Manihot utilisima
 कट्ट-रस *m.* bittern
 कट्टल *n.* (रसायन) picryl
 कट्टलतिक्ती *f.* (रसायन) picrylamine
 कट्टल नारंग *m.* (रंग देशना) picryl
 orange
 कट्टल पीत *m.* picryl yellow
 कट्ट लवण *n.* (रसायन) bitter salt =
 Epsom salts
 कट्ट वाताम तैल हरि *m.* bitter almond
 oil green
 कट्टसार *m.* (भैषजिकी) amaroid
 कट्ट स्वाद *m.* bitter taste
 कट्टघास *m.* phytolacca = poke root
 कट्टघास-निष्कर्ष *m.* tinctura phyto-
 laccae
 कटोर *m.* (शारीर) bowl, cup
 कटोर-निम्न *n.* (कटोराकार निम्न) cup-
 shaped depression
 कटोर-वापीडमान *m.* cup barometer
 कटोरशिर *n.* (यान्त्र) cuphead
 कट्टफलति = कट्टफल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Myrica
 कट्टवा-भूजिकिक *mfn* betulinamaric
 कट्टवामधु *m.* (औद्भिदी) bittersweet,
 dulcamara
 कट्टवामधिव *f.* (रसायन) dulcamarin
 कट्टवि *f.* pikrin
 कट्टवि *f.* -picrin-
 कट्टविक *mfn.* (रसायन) picric
 कट्टविक अम्ल *n.* picric acid
 कट्टवीय *n.* (रसायन) picrate
 कठिन 1 *mfn.* hard 2 *n.* scoop,
 shovel
 कठिन अधोवाही (-इन्) *m.* (औद्भिदी)
 hard bast
 कठिन-करण *n.* hardening
 कठिन-काच-नाल *m.* hard glass
 tube
 कठिनतर *mfn.* harder
 कठिन-भवन *n.* hardening
 कठिन शोफ *m.* solid oedema
 कठिन सीस *n.* (रसायन) antimonial
 lead = hard lead
 कठिनावरण *n.* (प्राणिकी) chitinous
 cover
 कठिनि *f.* (जीवरसायन) chitin (forms
 the harder part of the outer
 integument of insects..)
 कठिनि-जन *mfn.* chitinogenous
 (producing chitin)
 कठिनिधु *n.* (रसायन) chitose
 कठिनिधुतिकती *f.* (जीवरसायन) chitosa-
 mine
 कठिनिनः *m.pl.* (प्राणिकी) Crustacea
 कठिनिन्य *n.* (जीवरसायन) chitosan

कठिनिय *mfn.* chitinous
 कठिनिय- chitino- (chitinous)
 कठिनियता *f.* chitinization
 कठिनियना *f.* chitinization
 कठिनियित *mfn.* chitinized
 कठिन्याभ *mfn.* chitinoic
 कठोर *mfn.* hard
 कठोर अवितृण *m.* (औद्भिदी) *Festuca duriuscula* = hard fescue
 कठोर काच *m.* hard glass
 कठोर जल *n.* hard water
 कठोर तालु *m.* (शारीर) hard palate
 कठोर-वन्धक नियम *m.* hard and fast rule
 कठोर वज्रायस *n.* hard steel
 कठोराङ्कनी *f.* hard pencil
 कण *m.* grain
 कण- granular
 कणपुञ्जानेशिज *m.* miedziankite
 कण-रफट *m.* granular quartz
 कणारमक *mfn.* granular, granulo e, granulated
 कणारमक अन्तःपरस *m.* (औद्भिदी) granular endoplasm
 कणारमक कुप्यातु *m.* granulated zinc
 कणाभ *m.* (जैविकी) chondriosome
 कणाभसूत्र *n.* (जैविकी) mitochondria
 कणाश *m.* (यांत्र) file
 कणाश्म *m.* granite
 कणाश्म काल *m.* granite black
 कणाश्म-भाण्ड *n.* granite-ware
 कणिका *f.* granule
 कणिकाच *m.* mezzograph screen
 कणिकाधु *n.* granulose = amylose
 कणिकापिगति *f.* Brownian movement or motion
 कणिकावत् *mfn.* granular = granulose
 कणिका-वाद *m.* (प्राणिकी) granular theory
 कणि-कोशा *f.* (शारीर) granulocyte
 कणि-धर *m.* (औद्भिदी) conidiophore = gonidiophore
 कणियुजाकोप *m.* (आयुर्विद्या) trachoma
 कणियुजाकोपीय दण्डाणु *m.* Bacillus sucinacius
 कणि-युजा गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus micheli

कणि-योनि-कोप *m.* vaginitis verrucosa
 कणियोनि माला-गोलाणु *m.* streptococcus of Ostertag
 कणि-लाक्षा *f.* grained lac
 कणि-स्तर *m.* stratum granulosum
 कणी (-इन्) 1 *m.* (औद्भिदी, शाकाण्विकी) conidium = conidiospore
 2 *f.* (औद्भिदी) gonidium
 3 *mfn.* granular = granulose
 कणी कोष्ठयुञ्ज *m.* Echinococcus granulosus
 कणी श्लोद *m.* granular powder
 कणीधानी *f.* (औद्भिदी) gonidangium
 कण्टक-तन्तु *m.* (सेना) barbed wire
 कण्टक-तन्तु-संपाश *m.* barbed wire entanglements
 कण्ट-कपाल-वर्ग = कण्ट-कपालः *m.pl.* (प्राणिकी) *Acanthocephala*
 कण्टक प्रवारतुक *m.* *Amaranthus spinosus*
 कण्टक वृन्ताक *m.* *Solanum diffusum* = *S. xanthocarpum* = *S. jacquinii* = *S. virginionum*
 कण्टकारि *m.* (भैषजिकी) kantikari
 कंटकि धान *n.* (प्राणिकी) barbed pouch
 कण्टचूड-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Bidens*
 कण्टति = कण्ट प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Acanthus*
 कण्टफल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Xanthium*
 कण्टमूष *m.* hedgehog
 कण्टरूप अनुयत्र *n.* (औद्भिदी) thorny stipule
 कण्टल *mfn.* (औद्भिदी) echinate
 कण्टाग्र *mfn.* pointed
 कण्टाग्र पाद *m.* pointed legs
 कण्टाल *m.* (औद्भिदी) cactus
 कंटालति = कंटाल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Cactus*
 कण्टालिका *f.* *Atropa belladonna* = belladonna
 कंटालिका-निष्कर्ष *m.* tincture of belladonna = tinctura belladonnae
 कंटालिका-पटलेप *m.* (भैषजिकी) plaster of belladonna = emplastrum belladonnae
 कंटालिका-पत्र *n.* belladonna leaf

= deadly nightshade leaf = belladonnae folium
 कंटालिका-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Atropa*
 कंटालिका-मधुरि *f.* glycerin of belladonna = glycerinum belladonnae
 कंटालिका-सूच *n.* liniment of belladonna = linimentum belladonnae
 कंटालिका-लेप *m.* (भैषजिकी) belladonna plaster = emplastrum belladonnae
 कण्टिका *f.* (प्राणिकी) style, stylet = specillum
 कण्टिकावत् *mfn.* (प्राणिकी) stylet-like
 कण्टध *m.* (औद्भिदी) furze = gorse = whin
 कण्टध-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Ulex*
 कण्ट-कूप *m.* cavity of larynx = laryngeal cavity
 कण्टछदि-स्पर्धा *f.* (अर्थशास्त्र) cut-throat competition
 कण्टद्वार *n.* (शारीर) glottis
 कण्टपिधान *n.* (शारीर) epiglottis
 कण्टमणि *m.* (शारीर) Adam's apple
 कठस्थ-करण *n.* commit to memory
 कण्टरा *f.* tendon
 कण्टिका *f.* paragraph
 कण्टवस्था *f.* (औद्भिदी) oidium
 कण्टयुवलम्बक *m.* (नभोवाणी) coherer
 कतिपय *mfn.* 1 few 2 (गणित) a number of
 कतिपय अधिकार *m.* certain rights
 कथन *n.* statement
 कथन-परिशुद्धता *f.* accuracy of statement
 कथितमूल्य *n.* (वाणिज्य) quotation
 कदन्न-जलन्धर *m.* wet beriberi
 कदन्न-शूल *m.* dry beriberi
 कदम्बति = कदम्ब-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Anthocephalus*
 कदली *f.* bannana = banana
 कदलीति = कदली-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Musa*
 कदली-मशी *f.* banana fly = *Drosophila melanogaster*
 कदलीमशी-वंश *m.* (प्राणिकी) *Drosophilidae*
 कदलीमध्याति = कदलीमशी-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Drosophila*

कदाचरण *n.* malpractice
 कदाचार *m.* abuse, corrupt practice or custom, malpractice
 कदाचारी (इन्) *m.* 1 abuser, malpractitioner 2 self-abandoned
 कद्मली आनील *m.* grenadine bluish
 कद्मली अपीत *m.* grenadine yellowish
 कनीयदिचह *n.* sign of 'less than'
 कनीयस् *mfn.* (गणित) less, less than
 कनीयसी आन्तर-क्रजुशेशी *f.* (प्राणिकी) rectus internus minor
 कनीयसी मूर्ते *f.* (चाक्षुषी) smaller image
 कनीयस् संतन्त्र *n.* (संगीत) minor chord
 कनीयोक्ष *m.* (गणित) minor axis
 कनीयो-ग्राम *m.* (संगीत) minor scale
 कन्द *m.* 1 bulb 2 (औद्भिदी) tuber 3 (शारीर) bulbous
 कन्द-उद्धारिका *f.* (भौतिकी) bulb syringe
 कन्दक *m.* (शारीर) bulbil
 कन्दगम *m.* (औद्भिदी) disc, disk
 कन्दगमिणी-वंश *m.* Tungidae
 कन्दगमिण्यानि = कन्दगमिणी-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Tunga
 कन्दग्रीव आसवन पलिघ = कन्दग्रीव पलिघ *m.* (रसायन) Ladenburg's distillation flask = Ladenburg flask
 कन्दज *mfn.* bulbous (growing from bulbs)
 कन्द नलिनी *f.* Liliium bulbiferum
 कन्द-निगलजातक *m.* rhabditiform larva
 कन्दनिगल-प्रवंग *m.* Oxyuroidea
 कन्द-पुष्प *m.* (औद्भिदी) tulip
 कन्दपुष्प-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Tulipa
 कन्द-प्रत्याकर्षक *mfn.* (प्राणिकी) retractor bulbi
 कन्द महारोहिणी *f.* bulbous aorta
 कन्द-रीति *f.* (भौतिकी, रसायन) Du-ma's method
 कन्दली *f.* flying squirrel
 कन्दाकार *mfn.* bulbous
 कन्दिका *f.* (औद्भिदी) corm

कन्दी (-इन्) *mfn.* bulbous
 कन्दु *m.* oven
 कन्दुक *m.* ball
 कन्दुक-उल्खल-सन्धि = उल्खल-सन्धि *m.* (शारीर) ball-and-socket joint = enarthrosis
 कन्दुक-खात-सन्धि *m.* (शारीर) ball-and-cup joint
 कन्दुकन *n.* (रसायन) balling
 कन्दुकन-भ्रष्ट *n.* balling furnace
 कन्दुक-पेपणी *f.* ballmill
 कन्दुक-सघनक *m.* (रसायन) ball condenser
 कन्दुकी *f.* (औद्भिदी) boll
 कन्दुकी-क्रीट *m.* bollworm
 कन्दु-तापमान *m.* oven thermo meter
 कन्दु-नापस्थाप् *m.* oven thermo-stat
 कन्दोन्नम *mfn.* (पेशी) (प्राणिकी) levator bulbi
 कन्या-केश *m.* (तेजोन्वेष) maiden's hair
 कन्याकेशति = कन्याकेश-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Maidenhair ferns = Adiantum
 कपर्द *m.* cowrie, cowry
 कपाट *n.* valve
 कपाट-तकु *m.* valve spindle
 कपाट-दल *n.* cusp of valve
 कपाटयुत *mfn.* valvular
 कपाटरूप *mfn.* valviform, valvular
 कपाट-विपुलक *m.* (भौतिकी) valve amplifier
 कपाट-स्फोटना *f.* (औद्भिदी) valvular dehiscence
 कपाटित, कपाटीय *mfn.* valvular (valved)
 कपाटोद्घाटी (-इन्) *mfn.* valvular (opening by valves)
 कपाटोपयान्त्र *n.* valve gear
 कपाल *n.* (प्राणिकी) 1 cephalon (skull) 2 flat bone
 कपालरूप *n.* (मानविकी) cephalism
 कपाल-वृद्धि *f.* (मानविकी) cephalism
 कपालिनः *m pl.* (प्राणिकी) Craniata
 कपाली (-इन्) *m.* (प्राणिकी) craniate
 कपि *m.* monkey

कपिकच्छु *f.* couhage, cowage
 कपिकच्छुति = कपिकच्छु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Mucuna
 कपित्थति = कपित्थ-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Peronia
 कपिलाप्यक *m.* (औद्भिदी) kelp
 कपिश *mfn.* brown, fuscus
 कपिशक *m.* (रंग-देशना) bordeaux
 कपिशक वभ्रु *m.* bordeaux brown
 कपिशक विकासक *m.* bordeaux developer
 कपिशशामेय *n.* (रंग-देशना) fuscant-threne
 कपिश खनिज *m.* kermes mineral
 कपिशतिक्ती *f.* (रंग देशना) fuscamine
 कपिश मण्डल वायु-शाकाणु *m.* Bacillus mesentericus fuscus
 कपिश मण्डूक *m.* (प्राणिकी) Rana fusca
 कपिशक *m.* cabbage
 कपिशक राजिका *f.* Brassica oleracea = Brassica sativa
 कपिशाप्यक-कुल *n.* (औद्भिदी) Lamnariaceae (कपिश brown + आप्यक algae)
 कपिशाप्यकति = कपिशाप्यक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Laminaria (कपिश brown + आप्यक algae)
 कपिशि *f.* (जीवरसायन) fuscine
 कपिशिज, कपिशखनिज *m.* (खानिजी) limonite = brown hematite
 कपिस्थल *n.* (भूगोल) Kaithal
 कपोत *m.* pigeon
 कपोतक *m.* (प्राणिकी) dove
 कपोत-श्वीर *n.* pigeon's milk
 कपोत नील *m.* columbine blue
 कपोतपुच्छन *n.* (यान्त्र) dove-tailing, dovetail into each other
 कपोतपुच्छित *mfn.* (यान्त्र) dove-tailed
 कपोत प्रवलास दण्डाणु *m.* Bacillus diphtheriae columbarum
 कपोत मृदुवृक्षी (-इन्) *m.* Argas reflexus
 कपोत-विषूची वेत्राणु *m.* Bacterium cholerae columbarum
 कपोल *m.* (प्राणिकी) gena, cheek
 कपोल- (आयुर्विद्या) melo-
 कपोल-घटना *f.* (शब्दचिकित्सा) meloplasty
 कपोल-धान *n.* (प्राणिकी) cheek

pouch
 कफोप्यग्र *n.* (शारीर) olecranon
 कफोप्यग्र-प्रवर्ध *m.* (प्राणिकी) olecranon process
 कवन्ध *n.* (प्राणिकी) trunk
 कमल *n.* lotus
 कमला *f.* (मेषजिकी) Kamala
 कम्प *m.* (भूकम्प) quake (earthquake)
 कम्पक *m.* shaker
 कम्पसह *mfn.* quake-proof
 कम्पी दण्डाणु *m.* Bacillus tremulus
 कम्बल-पतंग *m.* (प्राणिकी) caddis fly
 कम्बु *m.* (शारीर) cochlea
 कम्बोज *m.* Cambodia
 कर *m.* 1 cess 2 (वाणिज्य) duty, impost, tax, taxation
 -कर (शाकाण्डिकी) -faciens, -facient, -ficans
 कर-अपवचन *n.* evasion of tax
 कर-आगम *m.* (अर्थशास्त्र) tax revenue
 करक *m.* cup
 करकांगर *m.* coconut shell charcoal
 कर-ग्रहण *n.* realization of taxes
 करग्राही (-इन्) *m.* tax-collector
 करग्रह्य *mfn.* taxable
 करञ्जति = काञ्ज-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Pongamia
 करञ्ज-तैल *n.* pongamia oil
 करण *n.* act *vb.*, make *vb.*, operate
 करणी *f.* 1 (गणित) surd 2 trowel
 करणीक्रमचय *m.* (गणित) surd permutation
 करणी-गत *mfn.* (गणित) under-root
 करणी-चिह्न *n.* (गणित) radical sign
 करणीय *n.* (गणित) operand
 करणी-वर्ग *m.* (गणित) order of a surd
 करणी-हर-भिन्न *m.* (गणित) fraction with surd denominator
 करणीहार गुणक *m.* (गणित) rationalizing factor
 करद *m.* tax-payer
 करदाता (-तृ) *m.* assessee, taxpayer
 करदान-क्षमता *f.* taxable capacity
 करदेय *n.* (वाणिज्य) 1 bonded 2 taxable

करदेय आय *m.* taxable income
 करदेय-क्षमता *f.* taxable capacity
 करदेय रसशाला *f.* bonded laboratory
 करदेय वस्तुगृह *n.* bonded warehouse
 करनिर्धारक *m.* assessor
 करनिर्धारण *n.* assess, assessment
 करनिर्धारण-सूची *f.* assessment list
 कर-पट *m.* handkerchief
 कर-पद्धति *f.* tax system
 करप्रनियम *m.* (अर्थशास्त्र) canons of taxation
 कर-प्रहास-कार्य *n.* rent reduction operation
 कर-सुक्त *mfn.* exempt from tax, free of tax, tax-free
 करसुक्त क्षेत्र *n.* (अर्थशास्त्र) free zone
 करसुक्त पत्तन *n.* free port
 करसुक्त प्रदेश *m.* (अर्थशास्त्र) free zone
 करमुक्त सूची *f.* free list
 कर-मुक्ति *f.* exemption from taxation
 करयोग्य *mfn.* (वाणिज्य) rateable
 करवर्ग *m.* taxation
 करवगरीयण *n.* taxation
 कर-विमुक्ति *f.* immunity from tax, immunity from taxation
 कर-चिबर्तन *n.* (अर्थशास्त्र) shifting of taxes
 करवीर *m.* sweet-scented oleanther = rose-herry spurge
 करवीर कुञ्ज *n.* (औद्भिदी) Apocynaceae
 करवीरपुर *n.* (भूगोल) Kolhapur
 करवीर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Nerium
 करवीर-वन्धु *m.* periwinkle
 करवीरवन्धु प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Vinca
 कराघात *m.* (अर्थशास्त्र) impact of tax
 काराधीक्षक *m.* tax superintendent
 कराघात *m.* incidence of taxation
 कारारोपण *n.* levy a tax, taxation
 कारारोपण-नीति *f.* (अर्थशास्त्र) taxation policy
 कारारोपण-प्रनियम *m.* (अर्थशास्त्र) principles of taxation
 करीर-कुल *n.* (औद्भिदी) Cappari-

daceae
 करीरति = करीर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Capparis
 करीष *m.* dung
 क रेखा *f.* (रसायन) A line
 कपोटि *f.* (शारीर) skull
 कर्कट *m.* 1 compass (pair of compasses) 2 crab
 कर्कट-यूका *f.* crab louse
 कर्करयुकाति = कर्कटयूका-प्रजाति *f.* Phthirus
 कर्कटशृंगीति = कर्कटशृंगी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Rhus
 कर्कटांकनी *f.* compass pencil
 कर्कटाति = कर्कट-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Cancer
 कर्कडी *f.* cucumber
 कर्कडीति = कर्कडी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Cucumis
 कर्कडी-रूप *mfn.* sausage-shaped
 कर्क-रेखा *f.*, कर्क-वृत्त *n.* Tropic of Cancer
 कर्कश *mfn.* 1 harsh 2 rough
 कर्कटकनगर *n.* (भूगोल) Arakan
 कर्ण *m.* 1 (शारीर) auricle, ear 2 (गणित) hypotenuse
 कर्णकोप *m.* (आयु वैद्या) otitis
 कर्णकोपीय नानारूप *m.* Proteus panamericanus
 कर्ण-गुहा *f.* (शारीर) auditory canal
 कर्णधार *m.* helmsman, pilot
 कर्णधार-समिति *f.* (राजनीति) steering committee
 कर्ण-धृत *mfn.* held on ears
 कर्ण-धृत उपनेत्र *n.* spectacles held on ears
 कर्ण-पट्ट *m.* ear-drum, tympanum
 कर्ण-पल्लव *m.* (शारीर) pinna
 कर्णपीठ *n.* (शारीर) concha
 कर्ण-वालु *m.* (शारीर) ear sand = otoconia
 कर्ण-मार्ग *m.* (शारीर) auditory meatus, meatus auditorius
 कर्ण-रंध्र *n.* (शारीर) auditory passage
 कर्ण-वृत्ति *f.* ear practice
 कर्ण-शलाका *f.* earpieces
 कर्णशुक्ति-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Haliotis
 कर्णशुक्ति-वंश *m.* (औद्भिदी) Hali-

otidae
कर्ण-शृंग *n.* ear trumpet
कर्ण-संश्रवण *n.* (आयुर्विद्या) immediate auscultation
कर्ण-स्तम्बिका *f.* columella auris
कर्णस्फोट *m.*, कर्णस्फोट स्वर्णक्षीरी *f.* (binomial name) (Marathi कानफूट) *Cleome viscosa* = wild mustard = dog mustard = stickly cleome
कर्णस्फोटानि = कर्णस्फोटा-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Cardiospermum*
कर्णस्त्राव *m.* (आयुर्विद्या) otorrhoea
कर्णाट *m.* (भूगोल) Carnatic
कर्णावृन्त *n.* (औद्भिदी) sterigma
कर्णाश्म *m.* (शारीर) ear-stone = otolith
कर्णिका *f.* (प्राणिकी) tubercle = tuberculum
कर्णिकारकुल *n.* (औद्भिदी) *Helictereae*
कर्णिकारति = कर्णिकार-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Pterospermum*
कर्णा जलव्यग्र *m.* (प्राणिकी) eared seal
कर्त्तक *m.* cutter, spinner
कर्त्तन *n.* cut *vb.*, cutting
कर्त्तन-उपकरण *n.* cutlery
कर्त्तन-उपस्नेह *m.* cutting lubricant
कर्त्तन-तैल *n.* cutting oil
कर्त्तन-दन्त *m.* (प्राणिकी) incisor
कर्त्तन-धमनाड *n.* cutting blowpipe
कर्त्तन-नाल *m.* (प्राणिकी) spinning tube
कर्त्तन-प्रस्ताव *m.* cut-motion
कर्त्तन-प्रस्ताव-प्रपत्र *n.* cut motion form
कर्त्तन-वर्ती *f.* cutting torch
कर्त्तन-संयोग *m.* (यान्त्र) cutting compound
कर्त्तन-सिकता *f.* cutting sand
कर्त्तनांग *n.* (प्राणिकी) spinneret
कर्त्तरी *f.* scissors
कर्त्तरीचञ्चु (चटक) *m.* (प्राणिकी) cross-bill
कर्त्तरीपक्ष्याति = कर्त्तरीपक्ष-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Glossina*
कर्त्तव्य *n.* charge, duty
कर्त्तव्य-क्षेत्र *n.* sphere of duty
कर्त्तव्य-धारण *n.* assume the obligation

कर्त्तव्य-पालन *n.* discharge of duties
कर्त्तव्य-वेतन *n.* duty pay
कर्त्तव्यस्थ *mfn.* on duty
कर्ता = दाता (त्वे) *m.* 1 (भौतिक रसायन) actor = donor, agent 2 (गणित) operator
कर्तृ कारण *n.* efficient cause = moving cause = causa effecions (as labour)
कर्त्तव्य *n.* obligation
कर्दम अधिकुन्तलाणु *m.* *Spirillum saprophiles*
कर्दम आकुन्तलाणु *m.* *Vibrio saprophiles*
कर्दम-ज्वर *m.* (पशुचिकित्सा) mud-fever
कर्दमज्वर अतिकुन्तलाणु *m.* *Leptospira grippotyphosa*
कर्दम वेत्राणु *m.* *Bacterium merismopodioides*
कर्पर *m.* 1 (शारीर) cranium 2 (प्राणिकी) shell
कर्पर- cranium-
कर्परत्रक. (शारीर) cranio-sacral, parasymphathetic
कर्पर-त्रिक चैता-संहति *f.* parasymphathetic nervous system
कर्पर-दण्डिका *f.* (प्राणिकी) trabeculae cranii
कर्पर-प्राणी (-श्नु) *m.* shelled animals
कर्पर-वाह्य *mfn.* (प्राणिकी) extra-cranial
कर्परमान *m.* craniometer
कर्पर-मापिकी *f.* craniology
कर्परमिति *f.* craniometry
कर्पर-वापीडमान *m.* cup-barometer
कर्परार्द्धि *n.* (शारीर) cranial bone
कर्पास *m.* cotton, cotton wool = raw cotton
कर्पास-कीट *m.* boll worm
कर्पासति = कर्पास-प्रजाति *f.* *Gossypium*
कर्पासधु *n.* (रसायन) gossypose = raffinose
कर्पास-धूलन *n.* cotton dust
कर्पास-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Gossypium*
कर्पासव *m.* (रसायन) gossypol

कर्पास-सूत्र *n.* cotton cloth yarn
कर्पर *m.* camphor = camphora
कर्पर- camph-, campho- (camphor)
कर्परक *mfn.* (रसायन) campho
कर्पर-कुल *n.* (औद्भिदी) *Dipteraceae*
कर्पर-खटी *f.* (भैषजिकी) creta camphorata
कर्परगन्धि *n.* (भैषजिकी) Roman chamomile = chamomile
कर्परगन्धि-निष्कर्ष *m.* tinctura anthemidis
कर्परण *n.* (कर्पर-व्यापन, कर्पर-साधन) camphorate (to impregnate or treat with camphor)
कर्परति = कर्पर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Camphora*
कर्पर-तैल *n.* camphor oil
कर्पर-निर्यास *m.* camphor gum = gum camphor
कर्पर-पुष्प 1 *n.* camphor flowers 2 *m.* camphor plant = *Anthemis nobilis* = chamomile 3 *n.* (भैषजिकी) chamomile = *anthemis* = *anthemidis flores* = chamomile flowers = Roman chamomile
कर्परपुष्पति = कर्परपुष्प-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Anthemis*
कर्पर-प्रास *m.* (भैषजिकी) spirit of camphor = spiritus camphorae
कर्परल *n.* (रसायन) camphoryl
कर्परव *m.* (रसायन) camphol = borneol
कर्पर-वारि *n.* aqua camphorae = camphor water
कर्परवासा-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Anisomeles*
कर्परविक अम्ल *n.* campholic acid
कर्पर-वृक्ष *m.* camphor laurel = camphor tree
कर्परवेद्य *n.* campholide
कर्पर-सार *m.* (भैषजिकी) essence of camphor
कर्परा *f.* (रसायन) camphorone = camphor-phorone
कर्परांशिक अम्ल *n.* (रसायन) campholytic acid
कर्परांशजारलिक *mfn.* (रसायन) cam-

phocarboxylic
 कम्पूरापीड *m.* (मैषजिकी) camphoro-
 dyne
 कम्पूराम *m.* (मैषजिकी) camphoid
 कम्पूरायिक अम्ल *n.* camphoronic
 acid
 कम्पूरिक *mfn.* camphoric
 कम्पूरित *mfn.* camphorated
 कम्पूरित तैल *n.* (मैषजिकी) campho-
 rated oil = camphor liniment
 कम्पूरिय *mfn.* camphoraceous
 कम्पूरी *f.* camphine
 कम्पूरीण्य *n.* (रसायन) camphane
 कम्पूरीण्यल *n.* (रसायन) camphanyl
 कम्पूरीण्या *f.* (रसायन) camphanone
 कम्पूरीण्यिक *mfn.* (रसायन) campha-
 nic
 कम्पूरीय *n.* (रसायन) camphorate
 कम्पूरूळ *n.* (रसायन) camphoroyl
 कम्पूरुण्य *n.* (रसायन) camphene
 कम्पूरुल *n.* safrol, safrole
 कम्पूरुल-तिक्ती *f.* (रसायन) camphyl-
 amine
 कम्पूरुलन्य *n.* (रसायन) camphylene
 कम्पूरुव *m.* (रसायन) borneol = cam-
 phol
 कम्पूरुवल *n.* (रसायन) bornyl
 कम्पूरुवल नम्रलीय *n.* bornyl salicylate
 कम्पूरुवल वलीय *n.* bornyl valerate
 कम्पूरुवल शुक्तीय *n.* bornyl acetate
 कम्पूरुर *mfn.* mottled
 कम्पूरुरित *mfn.* mottled
 कम्पूरुरी *f.* (प्राणिकी) trout
 कर्म *n.* act, business, operation,
 task, work, works
 -कर्म *n.* -urgy
 कर्म-एकक *n.* (भौतिकी) unit of work
 कर्मकरण *n.* operate, work *vb.*,
 working
 कर्मकरण-उद्देश *m.* (अभियन्त्रणा) work-
 ing drawing
 कर्मकरण-निपीड *m.* (अभियन्त्रणा) work-
 ing pressure
 कर्मकार *m.* workman
 कर्मकार-हानिपूर्ण आगोप *m.* work-
 men's compensation insu-
 rance
 कर्मकारि-योजक *m.* jobber (one who
 provides labour in mills)

कर्मकारी (-इन्) *m.* (वाणिज्य) worker
 कर्मकुशल *mfn.* efficient
 कर्मकौशल *n.* efficiency, workman-
 ship
 कर्म-गृह *n.* workhouse
 कर्मचारि- *mfn.* staff
 कर्मचारिवर्ग *m.* establishment,
 staff
 कर्मचारिवर्गवेतन *n.* pay of establish-
 ment
 कर्मचारी (-इन्) *m.* staff
 कर्मण्य *mfn.* active
 कर्मण्यक *m.* activator
 कर्मण्यकारी (-इन्) *m.* activator
 कर्मण्यता *f.* activity
 कर्मण्यन *n.* activate
 कर्मण्यित *mfn.* activated
 कर्मण्यित-गर्जरि *f.* (जीव-रसायन) acti-
 vated carotin
 कर्मदक्ष *mfn.* efficient
 कर्म-निपीड *m.* (अभियन्त्रणा) work-
 ing pressure
 कर्म-पटल *n.* work-table
 कर्म-परम्परा *f.* campaign, connec-
 ted series of operations
 कर्म-परीक्षक *m.* task checker
 कर्म-प्रनियम *m.* (भौतिकी) principle
 of work
 कर्मयोज्य आतन्य बल *n.* (अभियन्त्रणा)
 working tensile strength
 कर्मयोज्य निपीड *m.* (अभियन्त्रणा) work-
 ing pressure
 कर्मरङ्गति = कर्मरङ्ग-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Averrhoa
 कर्मवाहक *mfn.* working
 कर्मवाहक-दिवस *m.* (अर्थशास्त्र) work-
 ing day
 कर्मवाहक-परिव्यय *m.* working cost
 कर्मवाहक-पुंजी *f.* (वाणिज्य) working
 capital
 कर्मविराम *m.* (वाणिज्य) strike
 कर्मशाला *f.* 1 laboratory
 2 works
 कर्मन्तिक *mfn.* operational
 कर्मन्ध्यक्ष *m.* (वाणिज्य) works
 manager
 कर्मन्तिक *n.* (वाणिज्य) works
 कर्मन्तिक-प्रबन्धक *m.* (वाणिज्य) works
 manager
 कर्मन्तिक *m.* superintendent of

works
 कर्मभाव *m.* (वाणिज्य) unemploy-
 ment
 कर्मभाव-आगोप *m.* unemployment
 insurance
 कर्मि-अधिलाभांश-प्रणीवि *f.* workers'
 bonus fund
 कर्मिष्ठ *mfn.* diligent
 कर्मिष्ठता *f.* diligence
 कर्मो (-इन्) *m.* (वाणिज्य) worker
 कर्म *m.* (गणित) pull
 कर्मण *n.* 1 cultivation 2 draw
vb., haulage, hauling
 कर्मिणशा *f.* (प्राणिकी) tractellum
 कर्मित्र *n.* tractor
 कर्मिबल *n.* (प्रवैगिकी) tractive
 force
 कलकारोपण *n.* calumniate,
 calumny
 कलधौत *n.* bullion
 कलधौत-उत्कारण *n.* (अर्थशास्त्र) drain
 of bullion
 कलधौत-टंकमूल्य *n.* mint price of
 bullion
 कलधौत-विपणि *f.* bullion market
 कलन *n.* calculus
 कलन्दक *m.* (ancient word)
 squirrel
 कलन्दक-मारी *f.* (आयुर्विधा, पशु-
 चिकित्सा) tularemia
 कलन्दक-मारी अविगोलाणु *m.* (शाका-
 पित्रकी) Brucella tularensis
 कलन्दकमारी द्विशिरोरंज्य *m.* Pasteu-
 rrella tularensis
 कलश *m.* jar
 कलशपर्ण *m.* pitcher plant
 कलशपर्ण-कुल *n.* (औद्भिदी) Nepen-
 thaceae
 कलशपर्ण-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Sarrac-
 eniales
 कलशपर्ण-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Nepen-
 thes
 कलश-पादप *m.* (औद्भिदी) pitcher
 plant
 कलशाधान *n.* jarring
 कलशार्थ-काचावरण *n.* glass cover
 for jar
 कलह *m.* contention
 कला *f.* 1 art 2 (शरीर) membrane
 3 minute ($\frac{1}{60}$ of an hour)

- कला *f* -urgy
 कला-कपाट *n.* (प्राणिकी) membranous valve
 कलाकार *m.* artist
 कला-कौतुकालय *m.* art museum
 कला-कौशल *n.* artistic skill
 कला-गहन *n.* (शारीर, प्राणिकी) membranous labyrinth
 कलाजातारिथ *n.* (प्राणिकी) investing bone = membrane bone
 कला तथा विज्ञान *n.* arts and sciences
 कला-दीर्घा *f.* art gallery
 कला-नाल *m.* (प्राणिकी) membranous tube
 कलान्तर *n.* (गणित) interest
 कलान्तर्य *mfn.* (प्राणिकी) (कला membrane) intramembranous
 कलापक्षाः *m.* (प्राणिकी) Hymenoptera
 कला-प्रावीण्य *n.* artistic skill
 कलामय *mfn.* membranous
 कलामय उद्बर्ध *m.* (औद्भिदी) membranous outgrowth
 कलाय *m* pea
 कलायति = कलाय-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Pisum
 कलायवन्धु *m.* (औद्भिदी) medic = medica
 कलायवन्धु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Medicago
 कलाय-स्फट *m.* 'pea' crystals
 कलावत् *mfn.* membranous
 कलावार *m.* (औद्भिदी) hymenium
 कलाविद् *m.* artist
 कलाविन्यास *m.* mechanism
 कला-शाला *f* art gallery, art-studio = studio
 कलाशाला-अभिलेखन *n.* (नभोवाणी) studio recording
 कला सूत्री *f.* minute hand
 कलिका *f.* (औद्भिदी) bud
 कलिकान्त-विन्यास *m.* (औद्भिदी) prefoliation
 कलिंग *m.* (भूगोल) Northern Circars
 कलिंगी (कलिंग) *f.* wrightine = conessine
 कल्प *m* (भौमिकी) era
 -कल्प (भौमिकी) -zoic
 कल्पन *n.* 1 (गणित) assume 2 imagine 3 (वाणिज्य) manufacturing 4 shear
 कल्पन-बल *n.* shear force, shearing force
 कल्पना *f.* (वाणिज्य) 1 assumption, supposition 2 imagination
 कल्पनी *f.* shears
 कल्पित *mfn.* 1 (गणित) assumed 2 (सांख्यिकी) putative
 कल्पित माध्य *n.* (सांख्यिकी) assumed average
 कल्प्यवत् *m.* breakfast
 कल्याण *n.* welfare, well-being
 कल्याण-अर्थव्यवस्था *f.* (अर्थशास्त्र) economics of welfare
 कल्याण-कार्य *n.* welfare work
 कवक *n.* fungus
 कवक- myc-, myco-, myceto-
 कवक-छत्र *m.* myco-derma
 कवक-जन *mfn.* myceto-genic, myceto-genous
 कवक-जनन *n.* myceto-genesis
 कवकजाल *n.* (औद्भिदी) mycelium (a network of hyphae)
 कवकजाल-, कवकजालीय *mfn.* (औद्भिदी) mycelial
 कवकजीवाः *m.pl.* (प्राणिकी) Mycetozoa
 कवकधु *n.* mycose
 कवकरुजा *f* (रसायन) mycosis
 कवक-रूप *mfn.* (प्राणिकी) fungiform
 कवक-विद्या *f.* mycology
 कवकविद्या-उपविभाग *m.* mycological section
 कवकवेत्राणु *m.* Mycobacterium
 कवकशास्त्र *n.* mycetology, mycology
 कवकशास्त्रीय *mfn.* mycetological
 कवकसहचर किरण-दण्डाणु *m* Actinobacillus actinomycetum comitans
 कवकसहजीविता *f.* (औद्भिदी) mycorrhiza
 कवकसहजीवी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) mycorrhizal
 कवकसूत्र *n* (औद्भिदी) hypha
 कवकानि *n pl.* Fungi, Mycetes
 कवकाम *mfn.* mycetoid, mycoid = fungoid
 कवकीय *mfn.* mycetic = mycetous, mycetoid, mycoid = fungoid
 कवचित *mfn.* (सेना) armoured = panzer
 कवचित कंगुताल *m.* (औद्भिदी) armoured cycads
 कवचित वाहन *n.* (सेना) armoured vehicle
 कवल *m.* bolus
 कवाट *n.* (भूमेचन) gate
 कवाप्य *m.* (औद्भिदी) lichen
 क. वे. (कवक-वेत्राणु) Myco. (Mycobacterium)
 कशा *f.* 1 (जैविकी) flagellum 2 whip
 कशांग *m.* flagellate *n.*
 कशांग-गण *m pl.* (प्राणिकी) Flagellata
 कशांगवर्ग *m.* (प्राणिकी) Mastigophora = Flagellata
 कशांगाः *m.pl.* (प्राणिकी) Mastigophora = Flagellata
 कशांगाणुति = कशांगाणु-प्रजाति *f.* Pseudomonas (Ps.)
 कशांगीय *m.* flagellate
 कशाधार-कणिका *f.* (जैविकी) basal granule
 कशाधार-काय *m.* (प्राणिकी) parabasal body
 कशाधार-साधित्र *n.* (प्राणिकी) parabasal apparatus
 कशामूल *n.* (प्राणिकी) rhizoplast
 कशावान् *mfn.* flagellate (bearing flagella)
 कशा-चेरम *n.* flagellate chamber.
 कशा-सर्प *m.* (प्राणिकी) whip snake
 कशिका *f.* (प्राणिकी) monad
 कशिकाति = कशिक-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Monas
 कशेरुति = कशेरु-प्रजाति (औद्भिदी) *f.* Scirpus
 कश्यप *m.* turtle
 कश्यप-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Chelonia = Testudinata
 कश्यपयक्ष्म कवक-वेत्राणु *m.* Mycobacterium chelonei
 कषाय *mfn.* astringent
 कषाय मूल *n.* astringent root
 कषायमूल *m.* geranium
 कषायमूल-कुल *n.* (औद्भिदी) Geraniaceae

कषायमूल-गोत्र *n.* (औदभिदी) *Geranial-*
les
 कषायमूलकृति = कषायमूल-प्रजाति *f.*
 (औदभिदी) *Geranium*
 कषायमूल-तैल *n.* *geranium oil*
 कष्ट *n.* *grievance*
 कष्ट-कारिता *f.* (अर्थशास्त्र) *disutility*
 कस्तूरी *f.* (भैषजिकी) *moschus* =
musk
 कस्तूरी-निष्कर्ष *m.* *tinctura moschi*
 कस्तूरी-विडाल *m.* (प्राणिकी) *civet-*
cat
 कस्तूरीमृग *m.* *musk deer*
 कस्तूरीमृगाति = कस्तूरीमृग-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) *Moschus*
 का *A*
 का (काल) (भौतिकी) *T* (*periodic*
time)
 का. (कापि सख्या) (गणित) *n.* (*any*
number)
 का. (काष्ठिका) *S* (*second*)
 का, अकनी *f.* *B₁ pencil*
 कांस्य *n.* *bell metal, bronze*
 कांस्य-अयस्क *n.* (खानिजी) *bell-metal*
ore
 कांस्यन *n.* *bronze vb.*
 कांस्यन-रस *m.* *bronze liquor*
 कांस्य वधु *m.* *Asiatic bronze* =
bronze brown
 कांस्ययिता (-त्) *m.* *bronzer*
 कांस्य-रूप *mfn.* *bronzed*
 कांस्यरूपण *n.* *bronze vb, bronzing*
 कांस्यरूपणा *f.* *bronzing*
 कांस्य-वर्ण *mfn.* *bronzed, bronzy*
 का, क (काल) *T, t* (*time*)
 काक *m.* *crow*
 काक-कंगु *m.* (बगाली कंगु) *Sorghum*
vulgare
 काकतालीय *mfn.* (तर्कशास्त्र) *post hoc,*
ergo propter hoc
 काकतुण्डिकि *f.* (भैषजिकी) *asclepidin*
 = *asclepin*
 काकतुण्डीति = काकतुण्डी-प्रजाति *f.*
 (औदभिदी) *Asclepias*
 काकपद *n.* 1 *caret* 2 *crowfoot*
 3 *notch* 4 *mfn.* *V-shaped*
 काकपद-सूत्रछेद *m.* (अभिव्यंजना) *vee*
thread sections
 काकपदाकार *mfn.* *V-shaped*
 काकफली *f.* (रसायन) *menispermine*

काकवदरी *f.* *gooseberry*
 काकवदरी-कुल *n.* (औदभिदी) *Grossu-*
lariaceae
 काकवदरी-प्रजाति *f.* (औदभिदी) *Grossu-*
laria
 काकमाची वृन्ताक *m.* *Solanum in-*
certam = *S. rubrum* = *S.*
nigrum
 काकल *n.* (शारीर) *thyroid cartilage*
 काक-लेखनी *f.* *crow-quill*
 का. का. *B. B.* (*pencil*)
 काकार *mfn.* (the क of *Brāhmī*
script of Aśoka is exactly a
cross) *cruciform*
 काकार पुष्प *n.* (औदभिदी) *cruciform*
flower
 का, खा, गा *a, b, c* (*sides of a*
triangle)
 का-घन *m.* (भूसेचन) (घनपाद-प्रति-
 काष्ठिका) *cusec* = *sec. ft. = cu.*
ft. per sec.
 काच *m.* *glass*
 काच-अवसाद *m.* *glass sediment*
 काचक *n.* (पान-काचक) *glass* (*drink-*
ing glass)
 काच-कर्तन-क्षुरी *f.* *glass cutting*
knife
 काच-कर्तन-यन्त्र *n.* *glass cutting*
machine
 काच-कर्तन-हीर *m.* *glass cutting*
diamond
 काच-कलश *m.* *glass-jar*
 काचकलश-आवरण *n.* (रसायन) *glass*
jar cover
 काचकार *m.* *glass-maker*
 काचकार-स्वफेन *m.* (रग-देशना) *glass-*
maker's soap
 काच-कुन्तल *n.* *glass-spiral*
 काचकेश-नाल *m.* *capillary glass*
tube
 काच-केशल-शिखिपिधा *f.* *glass capi-*
llary stopcock
 काच-खण्ड *m.* *slips of glass*
 काच-गुटिका *f.* *glass bead*
 काच-छिद्रक *m.* *glass borer*
 काच-छिद्रग-संभार *m.* *glass boring*
outfit
 काच-छिद्रिष्ठ *n.* (प्राणिकी) *glass*
sponge
 काचछिद्रिष्ठा: *m.pl.* (प्राणिकी) *Hyalo-*

spongia
 काच-धम *m.* *glass blower*
 काच-धमाता (-त्) *m.* *glass blower*
 काचन *n.* *glaze vb.*
 काचना *f.* *glaze*
 काच-नाल *m.* *glass-tube, glass-*
tubing
 काच-नाल-कर्तक *m.* *glass-tube cut-*
ter
 काच-पात्र *n.* *glass vessel*
 काच-फलक *n.* *panes* = *glass panes*
 काच-विम्ब *m.* *glass disc*
 काचभाण्ड *n.* *glassware*
 काचमसी *f.* *duro ink*
 काचर *n.* *vitriol* (*glasslike*)
 काचर-काय *m.* (शारीर) *vitreous*
body
 काचर कार्स्थि *n.* (शारीर) *hyaline*
cartilage
 काचर-कुल्या *f.* *hyaloid canal*
 काचर खात *m.* (चाक्षुषी) *hyaloid*
fossa, patellar fossa
 काचर गैरिक *m.* (रगदेशना) *vitriol*
ocher
 काचर जल *n.* (शारीर) *vitreous*
humour
 काचर-रज्जु छिद्रिष्ठ *n.* (प्राणिकी) *glass*
rope sponge
 काचरज्ज्वाति = काचरज्जु-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) *Hyalonema*
 काचरणीय *mfn.* (रसायन) *vitriifiable*
 काचर-तैल *n.* (रसायन) *oil of vitri-*
ol
 काचर-धमनी *f.* *hyaloid artery*
 काचर-विद्युत् *f.* *vitreous electri-*
city
 काचर वेश्म *n.* *vitreous chamber*
 काचर-सैक *m.* (रसायन) *vitriosil*
 काच-शलाका *f.* *glass rod*
 काचसैकजा *f.* *vitreosil*
 काचांकन-मसी *f.* *glass marking*
ink
 काचांकनी *f.* *glass marking crayon*
or pencil
 काचाभ-पत्र *n.* *Cellophane*
 काचार *m.* (भौतिकी) *vitrain*
 काचालेख *m.* *crystograph*
 काचावरण *n.* *glass case*
 काचास्तर *m.* (अयोमार्ग) *glass-*
lining

| | | |
|---|---|--|
| काचास्तर तडाग-वाहन <i>n.</i> (अयोमार्ग) glass-lined tank wagons | कामरूप्याति = कामरूपी-प्रजाति <i>f.</i> (प्राणिनी) Amoeba | कारणता <i>f.</i> (तर्कशास्त्र) 1 causality 2 causation |
| काचित <i>mfn.</i> glazed | कामरूप्याम <i>mfn.</i> amoebiform = amoeboid | कारणत्व <i>n.</i> 1 causality 2 causa- tion |
| काचित-खर्परी <i>f.</i> glazed tile | कामरूप्याम अधिच्छद <i>m.</i> ameboid epithelium | कारण-नियम <i>m.</i> causal laws |
| काचित तोलन-पत्र <i>n.</i> glazed wei- ghing paper | कामरूप्याम-गति <i>f.</i> ameboid move- ment | कारण-वहुत्व <i>n.</i> (तर्कशास्त्र) plurality of causes |
| काचित धातु-शोषित्र <i>n.</i> glazed metal desiccator | कामल नानारूप <i>m.</i> Proteus fluore- scens, Jager's proteus | कारणम् अदृश्यं = दृश्यं कार्यम् <i>n.</i> causa latet, vis est notissima |
| काचोपम <i>mfn.</i> glassy | कामल वेजाणु <i>m.</i> Bacterium ictero- genes | कारण युत <i>mfn.</i> causal |
| काचोर्णा <i>f.</i> glass wool | कामला <i>f.</i> (आयुर्विद्या) jaundice | कारण-रूप <i>mfn.</i> causal |
| काच्यक <i>m.</i> batch (mixture of raw materials which by fusion is converted into glass) | काम-साहित्य <i>n.</i> sexual literature | कारणवाची (-इन्) <i>mfn.</i> (तर्कशास्त्र) causal |
| काञ्चनारति = काञ्चनार-प्रजाति <i>f.</i> Bauhinia | कामाक्षी <i>f.</i> (भूगोल) Gauhati | कारण-सम्बद्ध <i>mfn.</i> causal |
| काञ्चीपुर <i>n.</i> (भूगोल) Conjeeveram | कामिनी-प्रजाति <i>f.</i> (औद्भिदी) Murraya | कारण-सम्बन्ध <i>m.</i> (सांख्यिकी) causal relationship |
| काठिन्य <i>n.</i> hardness | कामोद्दीपक <i>mfn.</i> (प्राणिनी) sex-stimu- lating | कारणस्य कारणम् <i>n.</i> causa causata |
| काठिन्य-परीक्षक <i>m.</i> hardness tester | कामोद्दीपक न्यासर्ग <i>m.</i> (प्राणिनी) sex- stimulating hormone | कारणस्य कारणं कार्यस्य कारणम् <i>n.</i> causa causae est causa causati |
| काठिन्य-मात्रा <i>f.</i> degree of hardness | काम्पित्यति = काम्पित्य-प्रजाति <i>f.</i> (औद्भिदी) Mallofus | कारणा <i>f.</i> causation |
| काठिन्यमान <i>m.</i> durometer | काम्बोज <i>m.</i> camboge = gamboge = cambogia | कारंड <i>m.</i> (प्राणिनी) duck |
| काठिन्यांग <i>m.</i> (रसायन) degree of hardness | काम्य <i>mfn.</i> agreeable | कारण्डक <i>m.</i> (प्राणिनी) duckling |
| काठोर्य <i>n.</i> hardness | काय <i>m.</i> body | कारण्डक अन्नविषाणु <i>m.</i> Salmonella anatis |
| काण्ड <i>m.</i> 1 (गणित, जैविकी) section 2 (औद्भिदी) stem (the main axis, trunk) | काय-कोशा = तनु-कोशा <i>f.</i> (जैविकी) body cell = somatic cell | कारण्ड-वास <i>m.</i> duck-weed |
| काण्डपट <i>m.</i> curtain | काय-तल <i>n.</i> body surface | कारण्डचञ्चु <i>m.</i> (प्राणिनी) duckbill = platypus = duckmole |
| कादाचनिक, कादाचित्क <i>mfn.</i> occasi- onal | काय-नाल <i>m.</i> body tube | कारण्डशाक-कुल <i>n.</i> (औद्भिदी) Lem- naceae |
| कान्तिद्रव्य <i>n.</i> cosmetic | काय-निर्माण <i>n.</i> body building | कारण्डशाक-प्रजाति <i>f.</i> (औद्भिदी) Lemna |
| कान्यकुब्ज <i>n.</i> (भूगोल) Kanouj | काय-भित्ति <i>f.</i> (प्राणिनी) body wall | कारंड सुकुन्तलाणु <i>m.</i> Treponema anatum |
| कापालिक-देशना <i>f.</i> (कर्परमिति) cepha- lic index | काय-यूका <i>f.</i> (प्राणिनी) body louse | कारण्यगिरि <i>m.</i> Karenni Hills |
| का. पु. (कार्यालय-पुरिस्तका) O. M. (office manual) | काय-रोध <i>m.</i> structural resistance | कारवेछति = कारवेछ-प्रजाति <i>f.</i> (औद्भिदी) Momordica |
| काम <i>m.</i> sex | काय-वर्ध <i>m.</i> (प्राणिनी) parapophysis | कारागार तथा वन्दी-वसति <i>f.</i> jails and convict settlements |
| काम-आह्वान <i>n.</i> (प्राणिनी) sex call | काय-संहति <i>f.</i> system of bodies | कारागारमहा-निरीक्षक <i>m.</i> inspector general of prisons |
| काम-म्लीव <i>mfn.</i> sexually neutral | कायाकरूप <i>m.</i> rejuvenation | कारापाल <i>m.</i> jailor |
| कामरूप <i>m.</i> (भूगोल) Assam | कायान्तरण <i>n.</i> (मौमिकी) metasoma- tism = metasomatosis | कारा-प्रहरी (-इन्) <i>m.</i> warder |
| कामरूपक <i>m.</i> (प्राणिनी) amoebula | कायान्तरण- (मौमिकी) metasomatic | कारावासन <i>n.</i> imprison |
| कामरूप पट्टशल्भ <i>m.</i> Antheraea assama | कार 1 -maker 2 -worker | कारावासि-वसति <i>f.</i> convict settle- ment |
| कामरूपि- amoebi- | कारक <i>m.</i> 1 (औद्भिदी) factor 2 = प्रतिकारक <i>m.</i> (रसायन) factor = reactant | कारावासी (-इन्) <i>m.</i> convict, prisoner |
| कामरूपि-गति <i>f.</i> ameboid move- ment | कारक बल <i>n.</i> (गणित) acting force | |
| कामरूपिघ्न <i>m.</i> amoebicide | कारण <i>n.</i> (तर्कशास्त्र) causa, cause | |
| कामरूपी (-इन्) <i>m.</i> ameba = amoeba | कारणं कार्येण समम् <i>n.</i> (तर्कशास्त्र) causa aequat effectum | |
| कामरूपीय <i>mfn.</i> amoebic | कारण तथा तथ्य <i>n.</i> (सांख्यिकी) cause and fact | |
| कामरूप्यवस्था <i>f.</i> (प्राणिनी) amoeboid stage | | |

कारीष शाकाणु *m.* dung bacteria
 कारु *m.* workman
 कारुक *m.* crew
 कार्वेनिक *m.* cutler
 कार्वेनी *f.* cutlery
 कार्पर *mfn.* cranial = cranic
 कार्पर- cranio-
 कार्पर आकोच *m.* (प्राणिकी) cranial flexure
 कार्पासिक वस्त्र-सूत्र *n.* cotton cloth yarn
 कार्मिकी *f.* helminthology
 कार्मिज *m.* crimson
 कार्मिज रक्त *m.* crimson red
 कार्मिज लक्षक *m.* crimson lake
 कार्य *n.* 1 affair 2 business, concern 3 (तर्कशास्त्र) causatum, effect (कार्य-कारण cause and effect) 4 function 5 task, work
 कार्य- functional
 कार्य-कारण-नियम *m.* law of causation
 कार्य-कारण-सम्बन्ध *m.* (तर्कशास्त्र) causality, causation
 कार्यकारी (-इन्) *mfn.* acting
 कार्यकारी अंग *n.* (दैहिकी) effector organ
 कार्यकारी महावीजाणु *m.* (औद्भिदी) functional megaspore
 कार्य-काल *m.* tenure of office
 कार्यक्रम *m.* program, programme
 कार्य-क्षम *mfn.* efficient
 कार्यक्षमता *f.* efficiency
 कार्यग्रहण *n.* join
 कार्यग्रहण-काल *m.* joining time
 कार्य-चालन *n.* conduct of business
 कार्य तथा कारण *n.* (तर्कशास्त्र) cause and effect
 कार्य-दिवस *n.* working day = work day
 कार्यनिर्वाहक सूत्र *n.* provisional formula
 कार्यनिष्पत्ति *f.* (यांत्रिकी) efficiency
 कार्य-पंजी *f.* work register
 कार्य-पूर्ति *f.* discharge of function
 कार्य-पूर्वता *f.* precedence of business
 कार्य-पूर्वापरता *f.* precedence of business

कार्य-प्रणाली *f.* modus operandi, procedure
 कार्यभार *m.* 1 charge 2 task
 कार्यभारी (-इन्) *m.* kamdar
 कार्य-भृति *f.* piece wages, task wages
 कार्यरीति *f.* procedure
 कार्य-रेखा *f.* (यान्त्र) line of action
 कार्यवहन-नियम *m.* rules of business
 कार्यवाह *m.* proceedings
 कार्यवाह-उपकल्पना *f.* working hypothesis
 कार्यवाहक *mfn.* working
 कार्यवाहक-उपकल्पना *f.* (तर्कशास्त्र) working hypothesis
 कार्यवाह-संख्या *f.* quorum
 कार्यवाहि-संविदा *f.* working agreement
 कार्यवाही *f.* action
 कार्य-विन्यास *m.* arrangement of business
 कार्यशील *mfn.* (प्राणिकी) functional
 कार्यशीलता *f.* (प्राणिकी) functional activity
 कार्य-संचालन *n.* conduct of business
 कार्यसदृश 1 *n.* (जैविकी) analogue
 2 *mfn.* analogous
 कार्य-संपादन *n.* transaction of business
 कार्यसादृश्य *n.* (जैविकी) analogy (resemblance in function)
 कार्य-साधकता *f.* efficiency
 कार्य-सूची *f.* list of business
 कार्यत्मक *mfn.* functional
 कार्यालय *m.* bureau, office
 कार्यालय-अधिव्यय *m.* office oncost
 कार्यावलि *f.* agenda
 कार्यावलि-पद *n.* item on the agenda
 कार्य कारणम् *n.* causa causans
 काल 1 *m.* period, reason, time
 2 *mfn.* black
 काल अभ्रक *n.* black mica = biotite
 काल अयो-जारेय *n.* (रसायन) black oxide of iron
 काल अयो-रस = अयो-रस *m.* black iron liquor = iron liquor
 काल अवनेग *m.* (भैषजिकी) black wash = black lotion = lotio

nigra = aqua phagedaenia nigra
 काल ऋक्ष *m.* black bear
 काल-एकक *n.* (मौक्तिकी, गणित) unit of time, unit time
 कालकण्ठ खञ्जन *m.* (प्राणिकी) Indian wagtail
 काल काचर *n.* black vitriol
 काल-कारक *m.* (मौक्तिकी) time factor
 काल क्षारक *m.* black alkali
 काल-खटी *f.* black chalk
 काल चल *m.* (सांख्यिकी) time variables
 काल जारेय *n.* (रगदेशना) black oxide
 कालजिह्वा *f.* (पशुचिकित्सा) black tongue
 काल ज्वर *m.* kala azar
 कालज्वर सकश *m.* Leishmania donovani
 काल ताम्र *n.* black copper
 काल ताम्र-जारेय *n.* (रसायन) black oxide of copper = cupric oxide
 काल तिमि *m.* (प्राणिकी) black fish
 काल-तिरोहित *mfn.* 1 stale 2 time-barred
 काल-तिरोहित धनादेश *m.* (वाणिज्य) stale cheque
 काल दण्डाणु *m.* Bacillus aterrimus
 कालदर्श *m.* timepiece
 कालद्वीप *m.* Africa
 कालद्वीप भम्भरालिका *f.* Mansonia africana
 कालद्वीप विकुन्तलाणु *m.* Borrelia duttonii
 कालद्वीप-हस्ती (-इन्) *m.* (प्राणिकी) African elephant
 कालद्वीपीय *mfn.* African
 कालद्वीपीय-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) African genus
 कालद्वीपीय सुपुति-रोग *m.* African sleeping sickness = sleeping sickness
 कालधान्य *n.* Ipomoea nil
 कालधान्य *n.* (भैषजिकी) kaladana (kalad.) = pharbitis seeds
 कालधान्य-निष्कर्ष *m.* tinctura kaladanae
 काल-नियमि *m.* (रसायन) ammoniac

- =gum ammoniac (African ammoniac)
 कालनिदाति *m* (खनिकर्म) blackdamp
 =ohokedamp
 काल-परिवर्तन *n*. (सांख्यिकी) time-changes
 कालपर्णा-कुल *n*. (औद्भिदी) Convolvulaceae
 कालपर्णा-गोत्र *n*. (औद्भिदी) Convolvulales
 काल पारद-जारेय *n*. (रसायन) black oxide of mercury = mercurous oxide
 काल-पूर्व *mfn*. precocious
 कालपूर्व लैंगिक विकास *m*. (प्राणिकी) precocious sexual development
 कालपृष्ठ-रीति *f*. (धातुविज्ञानी) dark ground method
 काल-वधु *m*. (रगदेशना) black-brown
 काल भस्म *n*. black ash
 काल-मक्षी *f*. tsetse fly
 कालमक्षी असिकाय *m*. Trypanosoma gambiense
 कालमक्षी-रुजा *f*. (प्राणिकी) nagana
 कालमरिची *f*. (रसायन) chavicine
 कालमात्रा *f*. duration
 कालमान *m*. (भौतिकी) chronometer
 काल-माला *f*. (सांख्यिकी) time series
 कालमेघ-निष्कर्ष *m*. tinctura kalmegh
 कालमेह = शोणवर्तुलिमेह *m*. hemoglobinuria = black water
 कालमेह ज्वर *m*. (आयुर्विद्या) black water fever
 कालयष्टि *f*. (भैषजिकी) black-stick
 कालरगा वायुशाकाणु *m*. Bacillus melanosporus
 काल रजत *n*. (खानिजी) black silver = stephanite
 काल रस *m*. black liquor
 काल लवण *n*. black salt
 काल-लिख *m*. (भौतिकी) chronograph
 काल लोहक = लोहजारेयिज *n*. (रसायन, खानिजी) black manganese = pyrolusite
 काल लोहक-जारेय *n*. black manganese oxide = black oxide of manganese
 काल लोहक द्विजारेय *n*. black manganese dioxide
 काल वगक *n*. (खानिजी) black tellurium = nagyagite
 कालवशि-दन्ति-कोश *m*. (आत्मवह) timing gear caso
 कालवशि-दन्ती (-श्न) *m*. (आत्मवह) timing gear
 कालवात *m*. monsoon
 काल-विगोप *m*. time exposure
 काल-विचरण *n*. (सांख्यिकी) time variations
 काल-विचलन *n*. (सांख्यिकी) time deviations
 काल-विषय *n*. (अर्थशास्त्र) time-bargain
 काल-श्रेणी *f*. time scale
 काल सीस *n*. black lead
 काल सुवर्ण *n*. black gold = maldonite
 काल-स्पन्द-प्रभव *m*. (तेजोन्वेष) time pulse source
 कालस्फोट *m*. (आयुर्विद्या) anthrax
 कालस्फोट दण्डाणु *m*. Bacillus anthracis = milzbrand bacillus, the bacillus of splenic fever
 कालस्फोटाभ दण्डाणु *m*. Bacillus anthracoides
 कालस्फोटाभ वेत्राणु *m*. Bacterium anthracoides
 काल-हरि *mfn*. black-green
 काल हीर, काल हीरक *m*. (खानिजी) black diamond = carbonado
 कालतीत *mfn* over-due
 कालतीत विपत्र *n*. (वाणिज्य) over-due bill
 कालान्तर *n*. (भौतिकी) time interval
 कालान्तराल *n*. (भौतिकी) interruption of time
 कालावधि *m*. duration
 कालावर्तन *n*. time period
 कालि *f*. (जीवरसायन) melanin
 कालिक *mfn*. (सांख्यिकी) historical
 कालिक-चित्र *n*. (गणित) histogram
 कालिकट 1 *m*. calico 2 *n*. (भूगोल) Calcut
 कालिकट धूसर *m*. erganone grey
 कालिकट नील *m*. erganone blue
 कालिकट नीललोहित *m*. erganone violet
 कालिकट पीत *m*. erganone yellow
 कालिक-माला *f*. historical series
 कालिक विचरण *n*. historical variation
 कालिक विश्लेषण *n*. historical analysis
 कालिघाट *m*. Calcutta
 कालिज *m*. (खानिजी) nigrine
 कालि-जन *m*. (जीवरसायन) melanogen
 कालिन्दति = कालिन्द-प्रजाति *f*. (औद्भिदी) Citrullus
 कालि-भर *m*. (जैविकी) melanophore
 कालिम-जन वेत्राणु *m*. Bacterium melaninogenicum
 कालिमा (-मन्) *m*. black
 कार्पनिक *mfn*. ideal, impossible, unreal = imaginary
 कार्पनिक राशि *m*. (गणित) imaginary quantity
 कावकाभ गुच्छगोलाणु *m*. Micrococcus myceticus
 काविकी *f*. mycetology, mycology
 काविकीय *mfn*. mycological
 काश- (काशातु) (रसायन) columbo- (columbium)
 काशभर *mfn*. (रसायन) columbiferous
 काशमान तल *n*. shining surface
 काश-रजीय *n*. (खानिजी, रसायन) columbo-titanate
 काशविज्ञ *m*. optician, optacist
 काश-सहीय *n*. (खानिजी) columbo-tantalate
 काशातु *m*. (रसायन) columbium = niobium
 काशातु पंच-जारेय *n*. columbium pentoxide
 काशायन *n*. skylight
 काशार्थ घन *mfn*. optically dense
 काशार्थ विरल *mfn*. optically rare
 काशिक *mfn*. 1 (रसायन) columbic = niobic 2 optic, optical
 काशिक अक्ष *m*. (खानिजी) optic axis
 काशिक अम्ल *n*. columbic acid
 काशिक उपसाधन *n*. (भौतिकी) optical accessories

काशिक दण्ड *m.* optical bench
 काशिकी *f.* optics
 काशिकीज्ञ *m.* optician
 काशिकीय *mfn.* optic, optical
 काशिता *f.* (भौतिकी, रसायन) optical activity = opticity
 काशितावान् *mfn.* optically active (possessed of optical activity or opticity काशिता)
 काशित्र *n.* optical instrument
 काशित्रकार *m.* optician
 काशित्र-कुलक *n.* optical set
 काशित्र-संहति *f.* optical system
 काशित्रिक *m.* optician
 काशीय *n.* (रसायन) columbate = niobate
 काशुक *n.* satin
 काश्म *m.* stoneware
 काश्म-अम्ल-कुम्भी *f.* stoneware acid jug
 काश्म-अम्ल-निवाप *m.* stoneware acid funnel
 काश्म-कलश *m.* stoneware jar
 काश्म-निवाप *m.* stoneware funnel
 काश्मीर काल *m.* Cashmire black
 काश्मीर नील *m.* Cashmire blue
 काश्मीर बभ्रु *m.* Cashmire brown
 काश्मीर हरि *m.* Cashmire green
 काश्य *mfn.* (रसायन) niobous
 काष्ठ *n.* 1 wood 2 (ध्वानिकी) timber = quality = timbre
 काष्ठ-1 wooden 2 (रसायन) xyl-, xyle-, xylo-
 काष्ठ-अंगार *m.* wood charcoal
 काष्ठ-उच्चैल *n.* wood naphtha
 काष्ठकर्पूर *m.* celluloid = xylonite
 काष्ठकूट *m.* (प्राणिकी) woodpecker
 काष्ठ-गोर्द *n.* wood pulp
 काष्ठ-तन्तु *m.* (औद्भिदी) wood fibre
 काष्ठ-त्रयु *n.* (खानिजी) wood tin
 काष्ठयु *n.* (रसायन) xylose = wood sugar
 काष्ठ-धूलि *f.* (औद्भिदी) sawdust
 काष्ठध्वेय *n.* (रसायन) xyloside
 काष्ठनीलिन *m.* (रसायन) xylindein
 काष्ठपट्टी *f.* spline
 काष्ठफल *n.* nut
 काष्ठ-भाण्ड *n.* wooden ware
 काष्ठमंडप *n.* (भूगोल) Katmandu
 काष्ठमय *mfn.* wooden, woody

काष्ठ-मूल *n.* (रसायन) xyloyl
 काष्ठयुक्ता *f.* (प्राणिकी) wood-louse
 काष्ठरम्म-विधा *f.* (रसायन) Carter process
 काष्ठ-रोग *m.* (ध्वानिकी) timber disease, timbre disease
 काष्ठल *n.* (रसायन) xylyl
 काष्ठ लागक *m.* wood application
 काष्ठलेन्य *n.* (रसायन) xylyene
 काष्ठत्र *m.* (रसायन) xylo
 काष्ठवत् *mfn.* woody
 काष्ठ-विज्वरा *f.* (रसायन) xyloquinone
 काष्ठ-सुपव *m.* (रसायन) wood alcohol
 काष्ठ-स्फान *n.* (अयोमार्ग) key = wood wedge
 काष्ठ-स्वर्ण *m.* (रंग-देशना) mosaic gold
 काष्ठा-कोण *m.* (काशिकी, वैमानिकी) critical angle
 काष्ठांगार *m.* wood charcoal
 काष्ठा-ताप *m.* (भौतिक रसायन) critical temperature
 काष्ठाताप नाल *m.* (भौतिकी) Cagniard de la Tour's tube
 काष्ठाभि *f.* xyloidin
 काष्ठाधिक अम्ल *n.* (रसायन) xylonic acid
 काष्ठा-संकेन्द्रण *n.* (भौतिक रसायन) critical concentration
 काष्ठासुत अम्ल *n.* (रसायन) pyro-ligneous acid
 काष्ठी- (रसायन) xylin-
 काष्ठीक *mfn.* (रसायन) xylic
 काष्ठीका *f.* second (*n.* time)
 काष्ठीका-निदोल *m.* (भौतिकी) second-pendulum
 काष्ठीका-लव *m.* split second
 काष्ठीका-सूची *f.* second hand
 काष्ठीतव *m.* (रसायन) xylitol
 काष्ठीता *f.* (रसायन) xylitone
 काष्ठीन्य *n.* (रसायन) xylan
 काष्ठीय *mfn.* 1 woody 2 (रसायन) xylate
 काष्ठील *n.* (रसायन) xyloyl
 काष्ठीन्य *n.* xylene
 -काष्ठीन्य- (रसायन) -xylen-
 काष्ठीन्यल *n.* (रसायन) xylenyl
 काष्ठीन्यव *m.* (रसायन) xylenol

काष्ठीयक अम्ल *n.* (रसायन) xylic acid
 काष्ठीयी *f.* (रसायन) xyloidine
 काष्ठीयेय *n.* (रसायन) xyloidide
 काष्ठीपल *m.* (खानिजी) wood opal
 कास *m.* 1 cough 2 (भा-मिति) lux
 कासपत्र *n.* (भैषजिकी) grindelia = grindelia robusta = gum plant
 कासपत्र-निष्कर्ष *m.* tinctura grindeliae
 कासमर्द *m.* Indian laburnum = pudding pipe tree = purging cassia
 कासमर्दति = कासमर्द-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Cassia
 कासार-जीवाः *m.pl.* (जैविकी) limnobios
 कासार-जैविकी *f.* limno-biology
 कासार-तल-मान *m.* limnimeter = limnometer
 कासारप्रिय *mfn.* (प्राणिकी) limnophilous
 कासार-विद्या *f.* limnology
 कासारिकी *f.* limnology
 कासारीय *mfn.* (प्राणिकी) limnetic
 कासीस *n.* copperas = vitriol = green vitriol
 कासीस-कालिमा (-मन्) *m.* copperas black
 कार्थि *n.* (शारीर) cartilage = gristle
 कार्थि-adj (प्राणिकी) cartilaginous
 कार्थिकर्पर *m.* (शारीर) chondrocranium
 कार्थिकि *f.* (जीवरसायन) chondrin
 कार्थि-कोशा *f.* (प्राणिकी) chondrocyte
 कार्थिजात अस्थि *n.* cartilage bone = replacing bone
 कार्थि-मत्स्याः *m.pl.* (प्राणिकी) Chondrichthyes = cartilaginous fishes
 कार्थिमय उद्ग्रे *m.* cartilaginous outgrowth
 कार्थि-सन्धि *m.* (शारीर) synchondrosis
 कास्थ्यावरण *n.* (शारीर) perichondrium

कि (किरणतु) (रसायन) U, Ur (uranium)
 कि (संकलित-ऊर्जा) (भौतिकी) E (total energy)
 कि (सम्पूर्ण विकिरण-स्थिरांक) (भौतिकी) σ
 कि. (किरण-दण्डाणु) (शाकाण्विकी) A. (Actinobacillus)
 किं (किविरला) (रसायन) Eu (europium)
 किंवातिकोथ गदाणु *m.* Clostridium egons
 किंवरला *f.* (रसायन) europium
 किंवैषूचिक दण्डाणु *m.* bacillus of Bovet
 किंशुकति = किंशुक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Butea
 किंशुकि *f.* (रसायन) butein
 कि-क्ष (रसायन) (किरणतु क्ष) U-X, (uranium X)
 किंचित्- partial
 किंचिद्-विलेय *mfn.* partially soluble
 किंचुलक-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Helodrilus
 किण *m.* callosity
 किणक *m.* (औद्भिदी) callus
 किणधु *n.* (औद्भिदी, जीवरसायन) callose
 किण्व *n.* (जीवरसायन) ferment, zyme
 किण्व- zym-, ymo-
 किण्वजनक *mfn.* zymogenic, zymogenous
 किण्वजन गुच्छगोलाणु *m.* Micrococcus zymogenes
 किण्वजन जल-शाकाणु *m.* Bacillus circulans
 किण्वजन भू-शाकाणु *m.* Bacillus cinctus
 किण्वजन माला-गोलाणु *m.* Streptococcus zymogenes
 किण्वजन शाकाणु *m.* zymogenic bacteria
 किण्वन *n.* (जीवरसायन) fermentation
 किण्वन-कला *f.* zymotechnics
 किण्वन-नाल *m.* (शाकाण्विकी) ferment tube
 किण्वन-मान *m.* zymometer = zymosimeter

किण्वन-रसायन *n.* zymurgy
 किण्वन-विद्या *f.* zymology
 किण्वपरिदती आन्त्रवेत्राणु *m.* Escherichia coli mutabile
 किण्व मुद्गराणु *m.* Corynebacterium enzymicum
 किण्वशर्करा दण्डाणु *m.* Bacillus amylozymia
 किण्वाम *mfn.* zymoid
 किण्वारम्भी (-इन्) *m.* starter (that which starts fermentation)
 किण्विक *mfn.* zymic, zymotic
 किण्विक अम्ल *n.* zymic acid
 किण्विता *f.* (आसवन) wash (fermented wort)
 किण्वेद *m.* (जीवरसायन) zymase
 किण्व्यक *n.* wort
 कि-त्र (किरणतु त्र) (रसायन) U-Y (uranium Y)
 कियदपि अल्प, कियदपि लघु *mfn.* however small
 किरण- (रसायन) uran-, urano-
 किरण-कवक *n.* (शाकाण्विकी) (किरण ray Gk. aktis + कवक fungus makes) Actino-mycetes
 किरणकवकसहचर किरण-दण्डाणु *m.* Actino-bacillus actinomyces comitans
 किरण-दण्डाणु *m.* (Gk. aktis किरण) Actino-bacillus
 किरण-भर *mfn.* uraniferous
 किरणल *n.* (रसायन) uranyl
 किरणलभास्विज *m.* (खानिजी) phosphuranyl-ite
 किरणल भूयीय *n.* uranyl nitrate
 किरण-सहज *m.* (खानिजी) samarskite = urano-tantalite
 किरण-खान *n.* irradiation
 किरणहससैकिज *m.* (खानिजी) uranothorite
 किरणांगा: (किरणवद्विन्यस्तांगा:) *m.pl.* (प्राणिकी) Radiata
 किरणांगिज *m.* rutherfordine = rutherfordite
 किरणातु *m.* (रसायन) uranium
 किरणातु १ (९२) *m.* uranium I (92)
 किरणातु २ (९२) *m.* uranium II (92)
 किरणातु क्ष (९०) *m.* uranium X (90)
 किरणातु सीस *n.* uranium lead (radium G)

किरणादिसैकिज *m.* mackintoshite
 किरणि *f.* uranin
 किरणिक *mfn.* (रसायन) uranic
 किरणिक अजलेय *n.* uranic anhydride
 किरणिक अम्ल *n.* uranic acid
 किरणिज *m.* (खानिजी) uranite
 किरणी *f.* (रंग-देशना) uranine
 किरणीय *n.* (रसायन) uranate
 किरणीयिज *m.* broggerite = cleveite = uraninite = nivenite = pitchblende
 किरणयी *f.* (जीवरसायन) uranidine
 किरण्य *mfn.* (रसायन) uranous
 किरण्य- (रसायन) uranoso-
 किरण्य-किरणिक जारेय *n.* uranoso-uranic oxide
 किरात-आन्त्राथ *m.* (अनिद्रित) infusum gentianae (simple)
 किरातकुल *n.* (औद्भिदी) Gentianaceae
 किरातगोत्र *n.* (औद्भिदी) Gentianales
 किरातति = किरात-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Gentiana
 किरातधु *n.* (रसायन) gentianose
 किरात-निष्कर्ष *n.* tinctura gentianae
 किरातमूल *n.* (भैषजिकी) gentian = gentiana = gentianae radix = gentian root
 किराटिन: *m.pl.* (प्राणिकी) Rotifera
 किराटिज *m.* (खानिजी) carnotite
 किराटि *f.* (जीवरसायन) casein = caseinogen, caseum
 किराटि- caseo- (casein)
 किराटिक *mfn.* caseic
 किराटि-किण्व दण्डाणु *m.* Bacillus virgula
 किराटिधु *n.* (जीवरसायन) caseose
 किराटि-पाचायक दण्डाणु *m.* Bacillus liodermos
 किराटि युजलेप *m.* casein cement = cold-water glue
 किराटिशुंग *n.* galalith
 किराटि श्लेष *m.* casein glue = cold-water glue
 किराटीय *n.* (जीवरसायन) caseate (a salt of casein)
 किराट्यंशेन *n.* (रसायन) caseolysis
 किराट्येद *m.* (जीवरसायन) casease

किशोर *mfn.* adolescent
 किशोरावस्थ *mfn.* adolescent
 कीकस *n.* (शरीर) vertebra
 कीकस- (शरीर) vertebral
 कीकस-काय *m.* (शरीर) centrum
 कीकस-कुल्या *f.* spinal canal = vertebral canal
 कीकस-चाप *m.* vertebral arch
 कीकसजन *m.* (प्राणिकी) arcuale, arcualia
 कीकस-रोहिणी *f.* vertebral artery
 कीकस-बलय *m.* vertebral ring
 कीट *m.* insect
 कीट-क्षोद *m.* (भैषजिकी) pyrethrum = insect powder
 कीटगद्-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Nosema
 कीटघ्न *m.* insecticide
 कीट-डिम्ब *m.* insect-larva
 कीटद्राव *m.* (भैषजिकी) Actaeae racemosae radix = Cimicifuga = black cohosh = black snakeroot = Cimicifuga racemosa = bugbane
 कीटद्राव-निष्कर्ष *m.* tincture of cimicifuga = tinctura cimicifugae
 कीट-परागित *mfn.* (औद्भिदी) entomophilous
 कीटपुष्प *n.* (भैषजिकी) Dalmatian insect flower = pyrethrum flower = insect flowers = pyrethri flos
 कीटपुष्प-मूल *n.* (भैषजिकी) Spanish pellitory = pyrethrum root = pyrethri radix
 कीटपुष्पमूल-निष्कर्ष *m.* tincture of pyrethrum = tinctura pyrethri
 कीट-मुजः *m.pl.* (प्राणिकी) Insectivora
 कीट-भृत *mfn.* insect-borne
 कीट माला-गोलाणु *m.* Streptococcus insectorum
 कीटविद् *m.* entomologist
 कीट-विद्या *f.* entomology
 कीटविद्या- entomologic, entomological
 कीटविद्या-उपविभाग *m.* entomological section
 कीटशोणिक *mfn.* carminic

कीटशोणिक अम्ल *n.* (रसायन) carminic acid
 कीटशोणि-जन *m.* carminogen
 कीटशोणितिवेद्य *n.* carminamide
 कीटशोणी *f.* (रसायन) animal rouge = carmine
 कीट-संग्रहण *n.* entomologize
 कीटाः *m.pl.* (प्राणिकी) Insecta
 कीटाश *m.* drosera = sundew
 कीटाश-कुल *n.* (औद्भिदी) Droseraceae, sundew family
 कीटाश-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Parietales
 कीटाशति = कीटाश-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Drosera
 कीटाश पादप *m.* insectivorous plant
 कील *m.* 1 nail 2 (शरीर) gomphosis joint
 कील-उत्सृज्य सन्धि *m.* (शरीर) gomphosis joint
 कीला *f.* (यन्त्र) key
 कीला-मार्ग *m.* (यन्त्र) keyway
 कीविक *m.* (प्राणिकी) kiwi (imitative of its cry)
 कु (कुप्यातु) (रसायन) Zn (zinc)
 कु. (कुन्तलाणु) (शाकाण्विकी) S (Spirochaeta = Spirochaetae)
 कु- caco. (bad), kakos-
 कुक्कुट *m.* cock, fowl
 कुक्कुट अचलान्त्राणु *m.* Shigella rettgeri
 कुक्कुट अधिकुन्तलाणु *m.* Spirillum gallinarum
 कुक्कुट-कुन्तलाणुरुजा *f.* (आयुर्विद्या) fowl spirochaetosis
 कुक्कुटघ्न द्विशिरीरज्य *m.* (शाकाण्विकी) Pasteurella avicida, Pasteurella aviseptica
 कुक्कुट चिचिड *m.* (प्राणिकी) fowl tick
 कुक्कुट-पालन *n.* poultry farming, poultry husbandry
 कुक्कुटमाला-गोलाणु *m.* Streptococcus gallinarum
 कुक्कुट विकुन्तलाणु *m.* Borrelia gallinarum
 कुक्कुटविष *m.* henbane = Hyoscyamus niger = black henbane
 कुक्कुटविष-निष्कर्ष *m.* tincture of

hyoscyamus = tinctura hyoscyami
 कुक्कुटविष-पत्र *n.* (भैषजिकी) hyoscyamus = hyoscyami folia = hyoscyamus leaves = henbane leaves
 कुक्कुट-विषूची अधिकुन्तलाणु *m.* Spirillum metchnikovii
 कुक्कुट-विषूची आकुन्तलाणु *m.* Vibrio metchnikovii
 कुक्कुट-विषूची वेत्राणु *m.* Bacterium cholerae gallinarum
 कुक्कुट वेत्राणु *m.* Bacterium gallinarum
 कुक्कुटशाव *m.* (प्राणिकी) chicken
 कुक्कुटशाव अन्नविषाणु *m.* Salmonella pullorum
 कुक्कुटशावक *m.* (प्राणिकी) chick (a young chicken)
 कुक्कुट हिमचवरी (-इन्) *m.* Plasmodium gallenicum
 कुक्कुटादि *m.* poultry
 कुक्कुम *m.* crow pheasant
 कुक्कुर-कास = अतिकास (कुकर खांसी) *m.* whooping cough = pertussis
 कुक्कुरदु *m.* (औद्भिदी) dogbush
 कुक्कुरदुति = कुक्कुरदु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Bulmea
 कुक्षि *m.* 1 (भूगोल) bay 2 (कीणिका) bouts 3 (औद्भिदी) stigma (receptive spot)
 कुक्षि-लवण *n.* bay salt
 कुक्षिवृन्त *n.* (औद्भिदी) style
 कुक्षिवृन्त-कुल्या *f.* (औद्भिदी) stylar canal
 कुक्षिवृन्त-बाहु *m.* (औद्भिदी) style arm
 कुक्षिवृन्तभिन्नता *f.* (औद्भिदी) heterostyly
 कुगन्धल *n.* (रसायन) cacodyl
 कुगन्धलिक अम्ल *n.* (रसायन) cacodylic acid
 कुगन्धलीय *n.* (रसायन) cacodylate
 कुङ्कुग *m.* Congo
 कुङ्कुम *n.* crocus, saffron
 कुङ्कुमति = कुङ्कुम-प्रजाति *f.* Crocus
 कुङ्कुमदर्शी *f.* (रंगदेशना) curcuphenine
 कुङ्कुमदर्शी पीत *m.* curcuphenine yellow

कुंकुमनीली *f.* safraniline
 कुंकुमी *f.* safranino
 कुंकुमी नील *m.* safranino blue
 कुंकुमी शोण *m.* safranino scarlot
 कुंकुम्य *mfn.* croceous
 कुंकुम्य- (रसायन) croceo- (croceous)
 कुचिका *f.* solution, key
 कुंचित *mfn.* (औद्भिदी) crisp, crisped
 कुंचित- stroph-, stropho-
 कुंचितपुष्प *n.* strophanthus
 कुंचितपुष्पि *f.* (भेषजिकी) kombo strophanthin = strophanthin = strophanthinum
 कुंचितपुष्पि-निष्कर्ष *m.* tinctura strophanthi
 कुंची *f.* (वाणिज्य) key = solution
 कुंची-उच्चास *m.* key lever
 कुंची-गण *m.* key-board (of a typewriter)
 कुंची-चालित *mfn.* (भौतिकी) key-operated
 कुंची-मार्ग *m.* (यान्त्र) keyway
 कुंचीयन *n.* wind *vb.*
 कुंचीयन अंग *n.* (तेजोन्वेप) keying unit
 कुंचीयित स्कन्द *m.* wound up spring
 कुंची-विवर *n.* keyhole
 कुंची-शलाका *f.* key-bar (in a typewriter)
 कुंची-संविद्युत् *m.* keyswitch
 कुटज *m.* (औद्भिदी) kurchi
 कुटज-ववाथ *m.* decoctum kurohi
 कुटजति = कुटज-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Holarrhena
 कुटज-निष्कर्ष *m.* tinctura kurohi
 कुटजी *f.* holarrhenine
 कुटी *f.* hut
 कुटीर-उद्योग *m.* cottage industry
 कुटुम्ब *n.* family
 कुटुम्ब-उत्तरप्रेतनप्रणीवि *f.* family pension funds
 कुटुम्ब-विश्रामगृह *n.* family rest house
 कुट्टाश्म *m.* metal = road metal
 कुट्टित *mfn.* hammered
 कुट्टितारश्म-रथ्या *f.* metalled road
 कुट्टिनी *f.* bawd
 कुट्टिनी-गृह *n.* bawd-house

कुट्टिम *m.* floor
 कुट्टिमचित्र 1 *n.* mosaic 2 *mfn.* (प्राणिकी) tessellated
 कुट्टिमचित्र अधिच्छद *m.* tessellated epithelium
 कुट्टिमचित्र-दृष्टि *f.* (प्राणिकी) mosaic vision
 कुट्टिमचित्रवाद *m.* (प्राणिकी) mosaic theory
 कुट्टिमदार *m.* (औद्भिदी) maple
 कुट्टिमदार-कुल *n.* (औद्भिदी) Aceraceae
 कुट्टिमदार-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Acer
 कुट्टिमदार-शर्करा *f.* maple
 कुट्टिम-प्रमार्ज *m.* floor-polish
 कुट्ट्य *mfn.* malleable
 कुट्ट्यता *f.* malleability
 कुट्ट्यायस *n.* malleable iron
 कुट्ट्यायस संघनक-संघन *m.* malleable iron condenser clamp
 कुठार *m.* axe
 कुठारी *f.* hatchet
 कुड्म 1 *n.* button 2 *m.* (जैविकी) bud
 कुड्म-कर्ण *m.* (प्राणिकी) pug
 कुड्मन *n.* (औद्भिदी) budding *n.*
 कुड्मनकोशा *f.* (औद्भिदी) teloblast
 कुड्म-प्रावर *m.* (प्राणिकी) gonotheca
 कुड्मल *m.* 1 (औद्भिदी) bud 2 (चाक्षुषी) bud (vascular)
 कुड्मल-निर्घास *m.* (औद्भिदी) blastocolla
 कुड्मल-शल्क *n.* (औद्भिदी) bud-scale
 कुड्मली *f.* (औद्भिदी) gemma
 कुड्मली-चपक *m.* gemma cup
 कुड्मलीयन *n.* (औद्भिदी) gemmation
 कुड्म-संजीव *m.* (प्राणिकी) blastostyle
 कुड्मित संजीव *m.* (प्राणिकी) blastozoid
 कुण्डतुण्ड-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Chiamaera
 कुण्डतुण्ड-वर्ग *m.* (प्राणिकी) Holocephali
 कुण्डसूची *f.* (प्राणिकी) seeker = bristle
 कुण्ड *n.* sink *n., vat*
 कुण्ड रजक *m.* vat dye

कुण्डल *n.* (विद्युत्) coil
 कुण्डलन *n.* (विद्युत्) coil *vb.*
 कुण्डलित *mfn.* coiled
 कुतांगीयिज *m.* aurichalcite
 कुदार *m.* ebonite, ebony
 कुदार-देशिज *n.* ebonite indicator
 कुदारवृक्ष *m.* ebony
 कु-नाभिता *f.* (आयुर्विद्या) ametropia
 कुनिर्माण *n.* malformation
 कुन्त *m.* lance, spear
 कुन्त-नायक *m.* lance naik
 कुन्तपर्ण *mfn.* (औद्भिदी) hastata
 कुन्तपर्ण-त्रिवृता *f.* (औद्भिदी) Ipomoea hastata
 कुन्त-प्रान्त *m.* (औद्भिदी) hastate margin
 कुन्तल *m.* 1 hair curl, spiral 2 *mfn.* spiral
 कुन्तल- *mfn.* spiral
 कुन्तल-कपाट *n.* (प्राणिकी) spiral valve
 कुन्तल-चित्रण *n.* (प्राणिकी) spiral sculpturing
 कुन्तलन *n.* (प्राणिकी) spiralization
 कुन्तल नाल *m.* (भौतिकी) spiral tube
 कुन्तल-पट्टिका *f.* (औद्भिदी) tape grass = wild celery
 कुन्तल-पट्टी *f.* (औद्भिदी) spiral band
 कुन्तल-रेखित *mfn.* (प्राणिकी) spirally striated
 कुन्तलवलयति = कुन्तलवलय-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Spirogyra
 कुन्तल-वलयित *mfn.* (प्राणिकी) spirally coiled
 कुन्तल स्कन्द *m.* (भौतिकी) spiral spring
 कुन्तल-स्थूलना *f.* (औद्भिदी) spiral thickening
 कुन्तलाणु (कु.) *m.* Spirochaeta, spirochaete
 कुन्तलाणुरजा *f.* (आयुर्विद्या) spirochaetosis = spirochetosis
 कुन्तलिका *f.* chalaza = treadle
 कुन्तलित *mfn.* spiralized
 कुन्तवत् *mfn.* (औद्भिदी) hastate
 कुन्ताग्र *n.* spear-head
 कुन्तिका *f.* (शस्त्र-चिकित्सा) lancet
 कुन्तिका-रूप *mfn.* lancet-shaped
 कुन्द *m.* (यान्त्र) lathe
 कुपाशिज *m.* guadalcazarite

कुपिताक्ष *mfn.* ophthalmiac, ophthalmious
 कुपी-नामपत्र *n.* label of a bottle
 कुपोषण *n.* malnutrition
 कुप्य 1 *n.* alloy 2 *mfn.* zinco
 कुप्य-(रसायन) zinci-, zinco- (zinc)
 कुप्यक 1 *n.* spelter 2 *mfn.* zinco
 कुप्यक-निश्चूर्णक *m.* spelter calciner
 कुप्य-जारशिय *m.* voltzite
 कुप्यजारेयिज *m.* (खानिजी) zincite
 कुप्यतानेशिय *m.* sandbergerite
 कुप्य-तात्राम्ल-कोशा *f.* zinc-copper-acid cell
 कुप्य-धातु *m.* base metal
 कुप्यधूलियन *n.* (धातुकर्म) sherardizing
 कुप्यनेपिज *m.* adamite
 कुप्य पुष्प *n.* (रसायन) flowers of zinc = philosopher's wool = nihil album
 कुप्य-भर *mfn.* zinci-ferous
 कुप्यभास्विज *m.* phosphophyllite
 कुप्यभ्राजातु *m.* (धातुकर्म) Electron = Elektron
 कुप्यसुत, कुप्यरूप *mfn.* zincky, zincous
 कुप्यलोजारिज *m.* hetaerolite = zinchausmannite
 कुप्यलोहायस्फटीयिज *m.* dysluite
 कुप्यविरजतन-विधा *f.* (रसायन) Parkes process
 कुप्यशिज *m.* black-jack = mock-lead = false galena = sphalerite = wurtzite
 कुप्यशुस्विज *m.* goslarite
 कुप्यश्वेत *m.* (रसायन) Charlton white = lithopone = zinc white = Griffith's white = enamel white = Orr's white = unilith
 कुप्य-स्फटीयिज *m.* gabnite = zinc spinel
 कुप्यांगिज *m.* calamine = smithsonite = drybone
 कुप्यातु *m.* (रसायन) zinc
 कुप्यातु-आवरण *n.* (रसायन) zincify
 कुप्यातु-आस्वत *mfn.* zinc-lined
 कुप्यातु-छद *mfn.* zinc-roofed
 कुप्यातु-जारेय *n.* (भैषजिकी) zinci

oxidum = zinc oxide
 कुप्यातु-जारेय-स्नेहलेप *m.* ointment of zinc oxide = unguentum zinci oxidi
 कुप्यातु-तात्र-मिथुन *n.* (रसायन) zinc copper couple
 कुप्यातु-धात्विया *f.* (खानिजी) zinc spar
 कुप्यातु न्यादर्शक *m.* zinc sampler
 कुप्यातु-पुष्प *n.* flowers of zinc
 कुप्यातु-मय, कुप्यातु-सुत *mfn.* zinc
 कुप्यातु-योजन *n.* (रसायन) zincuret
vb. (combine with zinc)
 कुप्यातु-रक्त-जारेय *n.* (खानिजी) red oxide of zinc
 कुप्यातु-रोपण *n.* zinc *vb.*
 कुप्यातु-व्यापन *n.* (रसायन) zincify, zincuret *vb.*
 कुप्यातु संरस *m.* zinc amalgam
 कुप्यातु-साधन *n.* zinc *vb.*
 कुप्यातु-स्थिरक *m.* zinc fixer
 कुप्याभ *mfn.* zincoid
 कुप्यायन *n.* zinc *vb.*, zincification, zincify
 कुप्यायस्फटीयिज *m.* kreittonite = zinc-iron gahnite
 कुप्यिक *mfn.* (रसायन) zincic
 कुप्यिय *mfn.* zincky, zincous
 कुप्येय *n.* (रसायन) zincide
 कुप्येयन *n.* (रसायन) zincuret *vb.*
 कुप्रयोग-करण *n.* misuse *vb.*
 कुवेरकति = कुवेरक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Cedrela
 कुमा *f.* (भूगोल) Kabul (river)
 कुमावना *f.* malafides
 कुमावी (-इन्) *mfn.* malafide
 कुमारावस्था *f.* immature stage
 कुमारिक *mfn.* aloetic = aloetical
 कुमारिकि *f.* (रसायन) (भैषजिकी) aloin
 कुमारी *f.* (भैषजिकी) aloë = aloes, Indian aloes 2 (भूगोल) Comorin
 कुमारी-अयश् चक्रिका *f.* (भैषजिकी) tablet aloes et ferri
 कुमारी तथा अयो-गुटिका *f.* pill of aloes and iron = pilula aloes et ferri
 कुमारी तथा रसगंध गुटिका *f.* pilula aloes et myrrhae = aloes and myrrh pills

कुमारी तथा रसगंध संनिष्कर्ष *m.* elixir proprietatis = tincture of aloes and myrrh
 कुमारी तथा हिंयु गुटिका *f.* pill of aloes and asafetida = pilula aloes et asafoetidae
 कुमारीति = कुमारी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Aloe
 कुमारी-द्राक्षिरा *f.* (रसायन, भैषजिकी) aloes wine = vinum aloes
 कुमारी-निष्कर्ष *m.* tincture of aloes = tinctura aloes
 कुमारी-रसगंध-गुटिका *f.* aloes and myrrh pills = pilulae aloes et myrrhae = Rufus pills = pilulae Rufi
 कुमारी-रसगंध-चक्रिका *f.* tablet aloes et myrrh
 कुमारी-रसगंध-निष्कर्ष *m.* tincture of aloes and myrrh = elixir proprietatis = tinctura aloes et myrrhae
 कुमारीव *m.* (रसायन) aloes-ol
 कुमारी-शैथिक *mfn.* (रसायन) alorciic = alorcinic
 कुमारी हरि *mfn.* aloes green
 कुमारी-हिंयु-चक्रिका *f.* (भैषजिकी) tablet aloes et asafetidae
 कुमधोषणम् *n.* (भूगोल) Kumbhaconum
 कुम्भिका *f.* gallipot
 कुम्भिकाति = कुम्भिका-प्रजाति (औद्भिदी) Pistia
 कुम्भी *f.* jug
 कुम्भी- *mfn.* (औद्भिदी) napiform
 कुम्भीरूप *mfn.* (औद्भिदी) napiform
 कुरण्टति *f.* (औद्भिदी) Barleria
 कुररी *f.* (प्राणिकी) tern
 कुरविन्द *m.* (खानिजी) corindon = corundum
 कुरविन्दक *m.* diamantine
 कुरहरितिज *m.* (खानिजी) corundophilite
 कुल *n.* 1 family (in a general sense) 2 (औद्भिदी) natural order = family
 -कुल *n.* (औद्भिदी) -aceae
 कुलक 1 *n.* set 2 *m.* (भैषजिकी) nuxvomica
 कुलक-क्षोद *m.* (भैषजिकी) pulvis

nucis vomicae
कुलक-निष्कर्षण *m.* tincture of nux vomica = tinctura nucis vomicae
कुलञ्जति=कुलञ्ज-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Alpinia
कुलंजनि *f.* (कुलंजन Alpinia galanga)
galangin
कुलजी *f.* (रसायन) (कुलंज Alpinia galanga) alpinine
कुलत्थति=कुलत्थ-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Dolichos
कुलनाम *n.* surname
कुलपति *m.* chancellor, head of a university
कुल-प्रधान *m.* head of a family
कुल-सचिव *m.* registrar (of a university)
कुलगत *mfn.* familial
कुलिग *m.* sparrow
कुल्य *m.* member of a family
-कुल्य *mfn.* (औदभिदी) -aceous
कुल्या *f.* (भूसेचन, शारीर) canal, (अभियन्त्रणा) channel
कुल्या-छेद *m.* channel section
कुल्यान्त *m.* (भूसेचन) canal tail
कुल्या-रश्मि *m.* (भौतिकी) canal rays, Kanal-strahlen
कुल्या-सहति *f.* (भूसेचन) canal-system
कुल्यिका *f.* 1 (प्राणिकी) canalicule
2 channel
कु-वण्टन *n.* (अर्थशास्त्र) maldistribution
कु-वातन *n.* bad ventilation
कुव्यवहार *m.* abuse, corrupt practice or custom
कुशल-प्रवन्धन *n.* manipulate
कुशल-हस्तन (कुशलकर्म-हस्तप्रयोजन) *n.* manipulate
शाति=कुशा-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Poa
कुशिश्चुधानाति=कुशिश्चुधान-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Philander
कुष्ठ *m.* (मैषजिकी) kuth
कुष्ठति=कुष्ठ-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Costus
कुष्ठ-प्रत्युपाय *m.* anti-leprosy work
कुष्ठ-रोगी *m.* leper
कुष्ठवैर तैल *n.* hydnocarpus oil

कुष्ठवैर-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Hydnocarpus
कुष्ठवैरिक अम्ल *n.* (रसायन) hydnocarpic acid
कुष्ठ-सूची *f.* bristle = seeker
कुष्ठालय *m.* leper asylum
कुष्ठिकाति=कुष्ठिका-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Saussurea (*cf.* कुष्ठ-प्रजाति = Costus)
कुष्ठी (-इन्) *m.* leper
कुष्माण्डति=कुष्माण्ड-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Benincasa
कु-संवाहक *m.* bad conductor
कुसीत्रातु *m.* calamine
कुसीद *n.* 1 (गणित) interest
2 usury
कुसीदिक *m.* usurer
कुसुम *n.* bloom
कुसुमजीव-गण *m.* (प्राणिकी) Zoanthidea
कुसुमजीव-वश *m.* (प्राणिकी) Zoanthidea
कुसुम-जीवाः *m. pl.* (प्राणिकी) Zoantharia = Hexacoralla
कुसुमजीवाति=कुसुमजीव-प्रजाति *f.*
Zoanthus
कुसुम-मारी *f.* (उदभिद-वैकारिकी) blossom blight
कुसुमाम *m.* (प्राणिकी) sea anemone
कुसुम्भ *n.* (औदभिदी) safflor = safflower
कुसुम्भति=कुसुम्भ-प्रजाति *f.* (औदभिदी)
Carthamus
कुसुम्भरक्त=चीनीय शोण *m.* Chinese rouge = Carthamus red (yellowish red in hue of very high saturation and medium brilliance)
कुसुम्भि *f.* (रसायन) carthamin
कुसुम्भित *n.* carthamite
कुस्तन *m.* (भूगोल) Khotan
कुक्षीर *m.* boxt = boort
कू- (कूट-) (रसायन) ps- (pseudo-)
कूजित्र *n.* (प्राणिकी) syrinx
कूजिनी *f.* (प्राणिकी) warbler
कूट 1 *n.* eminence 2 (शारीर) ridge
3 (वाणिज्य) forgery 4 *mfn.* counterfeit, false, fraudulent 5 (विधि) forged

कूट- pseudo-
कूट अभियोग *m.* fraudulent suit
कूट-अश्वत्थिकवकति *f.* Malleomyces pseudomallei
कूट-आधार-रेखा (सांख्यिकी) *f.* false base line
कूट करण *n.* (विधि) forge, forging, forgery
कूटकर्ता (-त्) *m.* (विधि) forgerer
कूटकर्म *n.* (वाणिज्य) forgery
कूटकारी (-इन्) *m.* forgerer
कूटकाल्स्कोट दण्डाणु *m.* Bacillus pseudoanthracis
कूटक्लोमपाक दण्डाणु *m.* Bacillus of pseudopneumonicus
कूट-घोषतन्त्री *f.* false vocal cords
कूट जालपक्षाः *m. pl.* (प्राणिकी) false netwings
कूट-जीरेयी *f.* pseudo-cumidine
कूट टक *n.* counterfeit coin, false coin, forged coin
कूट-तुला *f.* (भौतिकी) false balance
कूटदन्त *m.* (प्राणिकी) (कूट ridge) acrodont
कूटद्वार *n.* (औदभिदी) trap door
कूटद्विद्वामी *f.* (रंगदेशना) pseudo-dicyanine
कूटनीति *f.* diplomacy
कूटनीतिज्ञ *m.* diplomat
कूटनीलोहि *f.* (रसायन) pseudo-purpurin
कूटपटी *f.* (औदभिदी) replum
कूटपटीक *m.* (औदभिदी) siliqua
कूटपटीका *f.* (औदभिदी) silicula
कूटपटीकालुकुल *n.* (औदभिदी) Sili-culosae
कूटपस्थनुकुल *n.* (औदभिदी) Sili-quosae
कूटपत्र *n.* fraudulent note
कूटपाद *m.* pseudopodium
कूटपाद-गति *f.* movement by pseudopodia
कूटपादि-वर्ग *m.* (प्राणिकी) Sarcodina
कूटप्रबलास सुदगराणु *m.* Corynebacterium pseudo-diphtheriae = Bacillus clavatus = Bacillus pseudodiphthericus = Bacillus Hoffmannii = Hoffmann's bacillus
कूट-प्रविषी *f.* (रसायन) pseudo-

aconitine
 कूटप्रश्न *m.* quiz
 कूट फल *n.* (औद्भिदी) false fruit =
 pseudocarp
 कूटवन्धूल *m.* pseudoacacia
 कूटवन्धूलि *f.* (रसायन) acaciin
 कूट वीभागोप *m.* (औद्भिदी) false
 indusium
 कूट भार *m.* (गणित) false weight
 कूट-सुद्रा *f.* counterfeit money
 कूटमूल्योन्नयन *n.* rig *vb.*
 कूटमूल्योन्नयन *n.* (अर्थशास्त्र) rigging
 the market
 कूटमूषण दण्डाणु *m.* *Bacillus copro-*
genes parvus = *Bacillus*
pseudomurisepticus
 कूट-यक्ष्म द्विशिरोरंज्य *m.* *Pasteurella*
pseudotuberculosis
 कूट-यक्ष्म सुदगराणु *m.* *Corynebacterium*
pseudotuberculosis
 कूट-युक्ति *f.* artifice = crafty
 device
 कूट-युग्मशाखिता *f.* (औद्भिदी) false
 dichotomy
 कूटविषूची अधिकुन्तलाणु *m.* *Spirillum*
 of pseudocholera
 कूटशंकु *m.* (प्राणिकी) pseudocone
 कूटशोफ दण्डाणु *m.* bacillus of
 pseudoedema
 कूट-संज्ञप्ति *f.* false signal
 कूट-स्त्रुत अधिच्छद *m.* (प्राणिकी)
 pseudo-stratified epithe-
 lium
 कूटान्त्रज्वरीय नानारूप *m.* *Proteus*
asiaticus
 कूटामातिसार आन्त्रवेत्राणु *m.* *Escheri-*
chia pseudodysenteriae
 कूटालर्क दण्डाणु *m.* bacillus of
 pseudorabies
 कूटिका *f.* (प्राणिकी) carina
 कूप *m.* cavity, follicle, socket
 कूपक *m.* 1 (औद्भिदी) areole 2 shaft
 कूपजल दण्डाणु *m.* *Bacillus aquatilis*
graveolens
 कूपदण्ड *m.* (दशकुमारचरित) mast
 कूप-संछिद्रणकार्य *n.* well-boring
 operation
 कूपिका *f.* phial = vial
 कूपी *f.* bottle, carafe
 कूपीकति = कूपीक-प्रजाति *f.* *Malassezia*

कूपी-काच *m.* bottle glass
 कूपीकूर्च-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Callis-*
temon
 कूपी-तुण्ड शिशुमार *m.* bottlenose
 dolphin
 कूपी-ध्माता (-र) *m.* bottle blower
 कूपी-शीर्ष *m.* bottle-head
 कूपीशीर्ष *m.* doegling = bottlehead
 कूपीशीर्षिक अम्ल *n.* (रसायन) doeglic
 acid
 कूप्यन्न गदाणु *m.* *Clostridium*
botulinum
 कूर्च *m.* 1 brush 2 tarsal bone
 = tarsus
 कूर्चकति = कूर्चक-प्रजाति *f.* *Penicil-*
lium
 कूर्चकि *f.* penicillin
 कूर्च-प्रसारक *m.* (शारीर) extensor
 tarsi
 कूर्चन *n.* leap
 कूर्च-द्वता *f.* (प्राणिकी) jumping
 spider
 कूर्पर *m.* (यांत्र) crank
 कूर्पर-धान *n.* crank case
 कूर्पर-द्वन्त *n.* (यांत्र) crank pin
 कूर्परपा *f.* (कूर्पर + ईषा) crank-shaft
 कूर्म *m.* tortoise
 कूर्माचल *m.* (भूगोल) Kumaun
 कूर्माण्ड *m.* cucurbit, squash
 कूर्माण्ड-कीट *m.* squash bug
 कूर्माण्ड-कुल *n.* (औद्भिदी) *Cucur-*
bitaceae
 कूर्माण्ड-गोत्र *n.* (औद्भिदी) *Cucur-*
bitales
 कूर्माण्डति = कूर्माण्ड-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) *Cucurbita*
 कूर्माण्ड-मृद *m.* squash beetle
 कूर्माण्ड-लता *f.* squash vine
 कूर्माण्ड-वेधी (-इन्) *m.* squash borer
 = squash vine borer
 कूर्माण्डी *f.* cucurbitine
 कूहा *f.* mist
 कूही *f.* haze
 कृ (कृत कर्म) (भौतिकी) w (work
 done)
 कृकलास *m.* (प्राणिकी) chameleon
 -कृत् (जैविकी) (-blast = -plast,
 -blastic)
 कृत *mfn.* (वाणिज्य) finished
 -कृत -genic, -genous (caused by)
 कृतक *m.* adopted son

कृत कर्म *n.* (कृ) (भौतिकी) (work
 done) (w)
 कृत वस्तु *n.* finished goods
 कृत-व्यतिरेक *mfn.* contrasted
 कृतशेष वस्तु *n.* unfinished goods
 कृतानीक *mfn.* (अभियंत्रणा) faced
 कृतार्थप्रवन्ध *mfn.* financed
 कृत *mfn.* spun
 कृत अयोमार्ग *m.* railway in cut-
 ting
 कृत-रथ्या *f.* road in cutting
 कृत वट्टक *m.* (भौतिकी) slotted
 weights
 कृतश्याज-संपरीक्षा *f.* (भौतिकी) Tyn-
 dall's experiment
 कृतौष्ठ *m.* (आयुर्विद्या) hare-lip
 कृत्य *n.* 1 act 2 operation =
 dealing
 कृत्यक *n.* (वाणिज्य) job
 कृत्यक-प्रपञ्जी *f.* (वाणिज्य) job ledger
 कृत्यक-लेखा *f.* (वाणिज्य) job account
 कृत्यकी (-इन्) *m.* jobber (piece-
 worker)
 कृत्रिम *mfn.* artificial
 कृत्रिम अवरोध *m.* (अर्थशास्त्र) preven-
 tive check
 कृत्रिम कर्पूर *m.* artificial cam-
 phor = pinene hydrochloride
 कृत्रिम कारण *n.* (तर्कशास्त्र) arti-
 ficial cause
 कृत्रिम खाद *m.* artificial manure
 कृत्रिम जन *m.* (विधि) artificial
 person
 कृत्रिम टंक *m.* artificial coin
 कृत्रिम नवनीत *n.* oleomargarine
 = artificial butter
 कृत्रिम-पद्धति *f.* (औद्भिदी) arti-
 ficial system
 कृत्रिम रजक *m.* artificial dyes
 कृत्रिम रोध *m.* (अर्थशास्त्र) preven-
 tive check
 कृत्रिम वर्गीकरण *n.* (औद्भिदी) artifi-
 cial system (of classifica-
 tion)
 कृत्रिम वियोजन *n.* artificial disinte-
 gration
 कृत्रिम संवातन *n.* artificial ventila-
 tion
 कृन्तक *m.* rodent
 कृन्तक-गण *m.* (प्राणिकी) *Rodentia*

कृन्तन *n.* pruning
 कृमयः *m.pl.* (प्राणिकी) Helminthes
 कृमि *m.* (पारजैविकी) helminth =
 vermis = worm
 कृमि- helmintho-
 कृमि-उत्सारी (-इन्) *mfn.* helminth-
 agogue
 कृमिकोश *m.* cocoon
 कृमिगति *f.* vermiculation
 कृमिघ्न *mfn.* anthelmintic, hel-
 minthicide, vermicide =
 vermicidal
 कृमिज *m.* alkermes
 कृमिज-रजन *n.* ingrain
 कृमिज-रजित *mfn.* ingrain
 कृमिजी *f.* (रंग-देशना) carmoisine
 कृमिद्रावि *f.* (भैषजिकी) santonin =
 santoninum
 कृमिद्राविक अम्ल *n.* santonic
 acid
 कृमि-द्रु *m.* (भैषजिकी) absinthium
 = old woman = worm-wood
 कृमिद्रुति = कृमिद्रु-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Artemesia
 कृमिद्रु-निष्कषं *m.* (भैषजिकी) tinctura
 absinthii = tincture of absin-
 thium
 कृमिद्रुवा *f.* (रसायन) cineole
 कृमिद्रुवि *f.* (रसायन) absinthin
 कृमिद्रुविक अम्ल *n.* (रसायन) cincolic
 acid
 कृमिद्रुवेप्य *n.* (रसायन) cinene
 कृमिभी *f.* helminthophobia,
 कृमिभृत् *mfn.* vermigerous
 कृमिरूप *mfn.* vermiform
 कृमिरूपिज *m.* (खानिजी) vermiculite
 कृमिरोग *m.* (आयुर्विद्या) helminthia-
 sis, helminthism
 कृमिल *mfn.* (आयुर्विद्या) helminthous,
 vermicular (full of worms)
 कृमि-वमन *n.* helminth-emesia
 कृमिविद्या *f.* helminthology
 कृमिसदृश *mfn.* vermicular (worm-
 like)
 कृमि-सिक्विथ *f.* (रसायन) coccerin
 कृम्य *mfn.* helminthic
 कृम्यभ्रक्त *n.* (खानिजी) vermiculite
 कृम्यवृद्ध *m.* helminthoma
 कृम्याभ *mfn.* helminthoid
 कृम्याभ दण्डायु *m.* Bacillus vermi-

culosis
 कृम्युत्सारी (-इन्) *mfn.* helminthic
 कृशता *f.* (प्राणिकी) emaciation
 कृशाखेटिक *m.* (प्राणिकी) greyhound
 कृषक *m.* agriculturist, cultiva-
 tor, tenant
 कृषक भाटकी (-इन्) *m.* tenant, ten-
 ant farmer
 कृषक-स्वामित्व *n.* (विधि) peasant
 proprietorship
 कृषि *f.* agriculture, cultivation
 कृषि- agricultural
 कृषि-करण *n.* cultivate, farming
 कृषि-कर्म *n.* agriculture, husban-
 dry
 कृषिघ्न *m.* harvest fly
 कृषिजीवी (-इन्) *m.* agriculturist
 कृषिमित्र प्रयोजन *n.* nonagricultural
 purposes
 कृषि-योग्य *mfn.* arable
 कृषियोग्य *mfn.* cultivable
 कृषि-रसायन *n.* agricultural
 chemistry
 कृषिविद् *m.* agriculturist
 कृषीवल *m.* agriculturist
 कृषीवल-उद्धार-अधिनियम *m.* agricul-
 turist's loans act
 कृषीवल-उद्धार-विधेयक *n.* agricultur-
 ist's loans bill
 कृष्ट-भूमि *f.* cultivated land
 कृष्ण *mfn.* 1 neron 2 black
 कृष्ण-अंगमारी *f.* (उद्भिद्-वैकारिकी)
 black blight
 कृष्णकमल *n.* (औद्भिदी) passion-
 flower
 कृष्णकमल-कुल *n.* (औद्भिदी) Passiflo-
 raceae
 कृष्णकमल-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Passi-
 florales
 कृष्णकमल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Passi-
 flora
 कृष्णकमल-फल *n.* (औद्भिदी) passion
 fruit
 कृष्णकलश *m.* (भौतिकी) black jar
 कृष्णकाक *m.* raven
 कृष्ण-कोकिल *m.* (प्राणिकी) koel
 कृष्ण-जघा *f.* (आयुर्विद्या) blackleg
 कृष्णजघा गदायु *m.* Clostridium
 chauvoei
 कृष्णजीर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Nigella

कृष्णताजारिज *m.* paramelaconite
 कृष्ण तुलसी = तुलसी *f.* (औद्भिदी) holy
 basil = Ocimum sanctum
 = Ocimum hirsutum = Oci-
 mum tomentosum = Ocimum
 viride = mosquito plant of
 south Africa
 कृष्ण-द्वीप *m.* (भूगोल) Andamans
 कृष्ण-नील *mfn.* black-blue
 कृष्णपट्टी-रगावलि *f.* dark band spec-
 trum
 कृष्ण पाक बदरी *f.* (औद्भिदी) black
 currant = Ribes nigrum
 कृष्ण प्रजीर *m.* Carum bulbocasta-
 num = Carum carui = Carum
 nigrum
 कृष्ण-फलक *n.* black-board
 कृष्ण-बदरी *f.* blackberry
 कृष्ण-शुंड रोग *m.* (उद्भिद्-वैकारिकी)
 black head disease
 कृष्ण राजिका *f.* (औद्भिदी) black
 mustard = Brassica nigra
 कृष्णरेखा-रगावलि *f.* dark line spec-
 trum
 कृष्ण-लोहोदजारिज *m.* backstro-
 mite = pseudopyrochroite
 कृष्णसर्प *m.* cobra
 कृष्ण-सर्पप = बभ्रु-सर्प *m.* black mus-
 tard = brown mustard =
 - sinapis nigra
 कृष्ण-सूची *f.* black list
 कृष्णा (कृष्णमण्डल—सुश्रुत) *f.* iris
 कृष्णागार *m.* (भैषजिकी) carbo (char-
 coal)
 कृष्य *mfn.* arable, cultivable
 कृष्य-करण *n.* reclaim *vb.*
 कृष्य-करण *n.* reclamation
 कृष्य-खिलभूमि *f.* cultivable waste
 कृष्य प्रदेश *m.* cultivable area
 कृष्य-भूमि *f.* arable land
 कृ (अपकिरण-शक्ति) D, w
 क्लस *mfn.* manufactured
 क्लसि *f.* 1 clippings
 2 (वाणिज्य) excise duty
 क्लसि-विभाग *m.* excise depart-
 ment
 के (केत्वातु) co (cobalt)
 के (भौतिकी) °k
 केकय *m.* (भूगोल) Jalandhar-Doab
 केकुजारेय *n.* Rinman's green =

cobalt green
 केतकी-कुल *n.* (औद्भिदी) *Penda-*
naeace
 केतकीति *f.* (औद्भिदी) (केतकी-प्रजाति)
Pandanus
 केतु *m.* meteor
 केतुदिनेपिज *m.* safflorite
 केतुनेपिज *m.* modderite
 केतुप्रांगीयिज *m.* sphaerocobaltite
 केतुरूप-माक्षीक *n.* cobaltnickel-
 pyrite = hengleinite
 केतुशुल्चनेपिज *m.* cobaltite
 केतु-शुल्चिज *m.* linnaeite
 केतुस्फदीय नील *m.* Thenard's blue
 = azure blue
 केत्य *mfn.* (रसायन) cobaltous
 केत्य- (रसायन) cobalto-
 केत्य-गंध-श्यामीय *n.* cobalto-thio-
 cyanate
 केत्य नीरेय *n.* cobaltous chloride
 केत्य शुल्चीय *n.* cobalto-sulphate
 केत्य-श्यामिक *mfn.* (रसायन) cobalto-
 cyanic
 केत्य-श्यामेय *n.* cobalto-cyanide
 केत्रिनेपिज *m.* skutterudite
 केत्तयस्यशिज *m.* troilite
 केत्वातु *m.* (रसायन) cobalt
 केत्वातु-भर *mfn.* cobalti-ferous
 केत्वातु माक्षीक *n.* (खानिजी) cobalt
 pyrites = linnaeite
 केत्वातु हरि *m.* Rinman's green =
 cobalt green
 केत्वि- (केत्विक्) (रसायन) cobalti-
 केत्विक् *mfn.* (रसायन) cobaltic
 केत्वि-भूयित *n.* cobalti-nitrite
 केत्वि-श्यामिक *mfn.* (रसायन) cobalti-
 cyanic
 केत्वि-श्यामेय *n.* cobalti-cyanide
 केनेपिज *m.* smaltite
 केन्द्र *n.* centre
 केन्द्रण *n.* centering
 केन्द्रण-वीक्ष = केन्द्रसूचक वीक्ष *m.*
 (चाक्षुपी) centering lens
 केन्द्रपीवी (-रन्) *mfn.* (जैविकी)
 centroleithal
 केन्द्र-रेखा *f.* (गणित) line of centres
 केन्द्रापग *mfn.* centrifugal
 केन्द्राभिग *mfn.* centripetal
 केन्द्राभिमुख *mfn.* (भौतिकी) directed
 towards the centre

केन्द्रिका *f.* (जैविकी) centriole
 केन्द्रित सरिवा-आक्वाय *m.* (भैषजिकी)
 infusum hemidesmi concen-
 tratum
 केन्द्रि शंक्व *n.* (गणित) central
 conic
 केन्द्रीकरण *n.* centralization,
 centralize
 केन्द्रीकृत *mfn.* centralized
 केन्द्रीय *mfn.* central
 केन्द्रीय अक्षांशु *m.* (प्राणिकी) central
 axial filament
 केन्द्रीय-करण *n.* centralization,
 centralize
 केन्द्रीयकृत *mfn.* centralized
 केन्द्रीय गण *m.* (वाणिज्य) central
 board
 केन्द्रीयण *n.* centralization,
 centralize
 केन्द्रीय पाद *m.* (भौतिकी) central
 leg (in spherometer)
 केन्द्रीय-फल-योजना *f.* (कृषि) central
 fruit scheme
 केन्द्रीय-रेखा *f.* (गणित) central line
 केन्द्रीयित *mfn.* centralized
 केन्द्रीयित प्रबन्ध *m.* centralized
 management
 केन्द्रीयित विषय *m.* centralized
 subject
 केयोनेपशिज *m.* glaucodot
 केरल *m.* Malabar
 केरल जयपत्र *m.* Laurus malaba-
 ricum
 केरल-तट *m.* (भूगोल) Malabar
 coast
 केरुइवंजिज *m.* willyamite
 केवल *mfn.* 1 (तर्कशास्त्र) categorical
 2 simple
 केवल *adv.* 1 exclusively, only,
 solely 2 just 3 merely
 केवल कोशाधु *n.* simple cellulose
 केवलद्विपत्र-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Wel-*
witschia
 केवल-न्दष्टि *f.* free nucleus
 केवल प्रसारक *m.* (पारजैविकी) mecha-
 nical vector
 केवलमान 1 *mfn.* exclusive 2 *adv.*
 solely
 केवल संवाक्य *n.* (तर्कशास्त्र) categori-
 cal syllogism

केवलाक्षि *n.* naked eye
 केवलाक्षिदृश्य macro-
 केवलाक्षिदृश्य शरीर *n.* macroscopic
 anatomy
 केवलाक्षि-रूप *n.* naked eye appear-
 ance
 केश *m.* hair
 केशकवकति = केशकवक-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) *Trichophyton*
 केशक्षाल *m.* shampoo *n.*
 केशक्षालन *n.* shampoo *vb.*
 केश गुच्छोलोणु *m.* *Micrococcus*
capillorum
 केशग्रन्था दण्डाणु *m.* bacillus of tri-
 chorrhexis nodosa
 केश-तैल *n.* hair oil
 केशवीजति = केशवीज-प्रजाति *f.*
 (औद्भिदी) *Trichosporum*
 केशभंग दण्डाणु *m.* *Bacillus multi-*
formis trichorrhexidis
 केश-लवण *n.* (खानिजी) hair salt
 केशवास *m.* rosemary
 केशवास-प्रासव *m.* spiritus rosma-
 rini = spirit of rosemary
 केशहीन *mfn.* hairless
 केशाल *m.* capillary *n.*
 केशाल- *mfn.* capillary
 केशाल-क्रिया *f.* (भौतिकी) capillary
 action
 केशालरव *n.* capillarity = capilla-
 riness
 केशाल-मान *m.* capillarimeter
 केशालीय *mfn.* capillary
 केशिकाजूट *m.* (शरीर) glomerulus
 केशिकाजूटस्तर *m.* (प्राणिकी) glome-
 rular layer
 केशिकाभाजि-संहति *f.* (प्राणिकी) portal
 system
 केशिकाभाजि-सिरा *f.* portal vein
 केशोन्द्मान *m.* hair hygrometer
 केसर-कुल *n.* (औद्भिदी) *Iridaceae*
 केसर दण्डाणु *m.* *Bacillus filamen-*
tosus
 कैटिकी *f.* entomology
 कैटिकी-अध्ययन *n.* entomologize
 कैटिकीय *mfn.* entomologic, ento-
 mological
 कैटिकीयन *n.* entomologize
 कैटिकीविद् *m.* entomologist
 कैपवक *n.* (जीवरसायन) bios

- कैण्विकी *f.* zymology
 कौरात *m.* krait
 को, (कोट्याति) (रसायन) X, Xe
 (xenon)
 को (कोणीय प्रवेग) ω (angular velocity)
 कोकिलजातीय *mfn.* cuckoolike
 कोकिलकृति *mfn.* cuckoolike
 कोज्या (कोटिज्या) *f.* (त्रिकोणमिति) cosine
 कोटर *n.* (शारीर) sinus
 कोटरालिन्द-क्वपाट *n.* (प्राणिकी) sinu-auricular valves
 कोटरालिन्द-मुख *n.* (प्राणिकी) sinu-auricular aperture
 कोटि *f.* 1 end 2 (गणित) ordinate
 कोटि-अक्ष *m.* (गणित) axis of ordinates
 कोटिज्या (कोज्या) *f.* (त्रिकोणमिति) cosine
 कोटि स्पर्श (-इन्) *m.* (त्रिकोणमिति) cotangent
 कोट्याति *m.* (रसायन) xenon
 कोण *m.* 1 angle 2 corner
 -कोण -gon
 कोण अ *m.* (चाक्षुषी) angle α (alpha)
 कोण-आपातन *n.* subtend an angle
 कोण इ *m.* angle γ (gamma)
 कोण क *m.* angle κ (kappa)
 कोण-तापमान *m.* angle thermometer
 कोण-निधाय *m.* corner shelf
 कोणनिहानव-अस्थि *n.* (शारीर) angulo-splenic bone
 कोण-बिन्दु *m.* (गणित) angular point
 कोण-मथित्र *n.* angle centrifuge
 कोणमापक *m.* (गणित) protractor
 कोण-विकार *m.* (भौतिकी) angular strain = sheer strain
 कोण-सन्धि *m.* angle joint
 कोणस्तूप *m.* 1 pyramid 2 (काशिकी) angular mound
 कोण-स्वज *m.* corner clip
 कोणाङ्क *m.* (गणित) amplitude (angle of a complex number)
 कोणाभिवार *m.* crotchets [] = square brackets
 कोणायस *n.* angle iron
 कोणायस-खण्ड *m.* (यात्रिकी) (कोणायस angle iron) angle bar
 कोणायस-सन्धि *m.* angle joint
 कोणस्थि *n.* (शारीर) angular (a bone)
 कोणिता = कोणि-वक्रता *f.* (काशिकी) angularity = angular curvature
 कोणी (-इन्) *mfn.* 1 angular 2 (औद्भिदी) angular (a stem)
 कोणीय *mfn.* angular
 कोणीय-क्रीडा *f.* (अभियन्त्रणा) angular play
 कोणीय विशालन *n.* (काशिकी) angular magnification
 कोथ *m.* (आयुर्विद्या) gangrene
 कोथव्रण *m.* (आयुर्विद्या) phagedena
 कोथ-शाकाणु *m.* gangrene bacteria
 -कोप *m.* (आयुर्विद्या) -itis
 कोपी (-इन्) *mfn.* irritating
 कोपी गन्ध *m.* irritating odour
 कोपीय माला-गोलाणु *m.* Streptococcus stenococcus
 कोर *m.* hinge
 कोरसन्धि *m.* (शारीर) (सुश्रुत) ginglymus joint = hinge joint
 कोल *m.* dessertspoon
 कोलक *n.* kola nut (an American nut)
 कोलगिरि *m.* Coalg
 कोलमिहिक *mfn.* (रसायन) barbituric
 कोलमिहिक अम्ल *n.* barbituric acid
 कोलसु *m.* (रसायन) barbital
 कोलसु क्षारतु *m.* (भैषजिकी) barbital sodium = soluble barbital
 कोल-सुव *m.* dessertspoon
 कोलाहल *m.* noise
 कोश *m.* (शारीर) sac
 कोशकार-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Bombyx
 कोशकीट-प्रजाति *f.* Philosamia
 कोशसुख-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Macacus = Macaca
 कोशल *m.* (भूगोल) Oudh
 कोशशायी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) chrysalis
 कोशा *f.* 1 (जैविकी, विद्युत्) cell 2 (शारीर) corpuscle
 कोशा-(कोशाधु) (रसायन) 1 cello-(cellulose) 2 cyt., cyto-
 कोशांशन *n.* (दैहिकी) cytolysis
 कोशांशि *f.* (जीवरसायन) cytolysin
 कोशांशिक *mfn.* (दैहिकी, जीवरसायन) cytolytic
 कोशाकर *m.* (जैविकी) cyto-blastema = mother liquid
 कोशाकवक-वर्ग *m.* Cytomyces
 कोशाकवकानि *n. pl.* Cytomyces
 कोशाकाय *m.* (जैविकी) idiosome = idioblast
 कोशा-किण्व *n.* (जीवरसायन) cyto-zyme = thrombokinase
 कोशा-किण्वेद *m.* cyto-zymase = invertase
 कोशागुद *m.* (प्राणिकी) (कोशा- cyto- + गुद Gk. *proktos* anus) cytoproct = cytopyge
 कोशा-गृह-कर्म *n.* (जैविकी) cell-house operation
 कोशावट *m.* (जैविकी) idioblast
 कोशाजारति = कोशाजार-प्रजाति *f.* (शाकाण्विकी) cell-vibrio
 कोशा-जालिका *f.* (जैविकी) cyto-reticulum
 कोशाजीवी (-इन्) 1 *m.* (जैविकी) cytozoon 2 *mfn.* cytozoic
 कोशातमीति = कोशातकी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Luffa
 कोशा-तरल *m.* (औद्भिदी) cell sap
 कोशा-तूल *n.* cellu-cotton
 कोशा-दंड *m.* (प्राणिकी) rod of cells
 कोशा-द्विधु *n.* (रसायन) cello-biose
 कोशाधु *n.* (रसायन) (कोशा cell) cellulose
 कोशाधुता *f.* cellulosity
 कोशाधुम *n.* (रसायन) cellulose
 कोशाधु-रोपण *n.* cellulose
 कोशाधु-विलायक *m.* Schweitzer's solution
 कोशाधु-समिता *f.* cellulose flour
 कोशाधु-साधन *n.* cellulose
 कोशाध्वाम *m.* celluloid
 कोशाध्वाम-आवृत *mfn.* celluloided
 कोशाध्विक *mfn.* celluloseic
 कोशाध्वेद *m.* cellulase
 कोशा-निर्माण *n.* cell formation
 कोशा-निश्च्रेणी *f.* (जैविकी) tiers of cells
 कोशान्तद्रव्य *n.* (शारीर, जैविकी) matrix = die
 कोशान्तर्वस्तु *n.* (औद्भिदी) cell-content

कोशान्तःस्थ *mfn.* (जैविकी) intracellular
 कोशान्तासर्ग (इन्) *m.* merocrine
 कोशा-पट्ट-रीति *f.* (जैविकी) cell plate method
 कोशा-प्ररस *m.* (जीवरसायन) cell protoplasm
 कोशा-वन्ध *m.* (जैविकी) plasmodesm
 कोशावाहस्थ, कोशावाह्य *mfn.* (प्राणिकी) extracellular
 कोशाभ *mfn.* celloid (cell-like)
 कोशाभि *f.* celloidin
 कोशा-भित्ति *f.* (जैविकी) cell wall, cuticle
 कोशामय *mfn.* cellular
 कोशा-मान *m.* (दैहिकी) cyto-meter
 कोशामुख *n.* (जैविकी) cell-mouth = cytostome
 कोशायी *f.* (जीवरसायन) cytosine
 कोशारस *m.* (जैविकी) cytoplasm
 कोशारस-काय *m.* (प्राणिकी) cytoplasmic body
 कोशारससंगम *m.* (जैविकी) plasmogamy
 कोशारसायन *n.* cyto-chemistry
 कोशारसोद्वाह *m.* (जैविकी) plasmogamy
 कोशावत्ता *f.* cellularity
 कोशा-वर्ण *m.* (जीवरसायन) serichrome
 कोशा-वर्तुलि *f.* (जीवरसायन) cytoglobin
 कोशा-वर्धन *m.* (जैविकी) plasmatorrhesis
 कोशा-वाद *m.* cell theory
 कोशावान् (-वत्) *mfn.* celled, cellular
 कोशाश्म *m.* (औद्भिदी) cystolith
 कोशा-श्वासन *n.* cellular respiration
 कोशास्य *mfn.* celled
 कोशिका *f.* (औद्भिदी) cellule, little cell
 कोशित *n.* pupa
 कोशित-भवन *n.* (प्राणिकी) pupation
 कोशित रूप *n.* (प्राणिकी) pupal instar
 कोशितावस्था *f.* (प्राणिकी) pupation
 कोशीय *mfn.* cellular
 कोशीयता *f.* cellularity

कोशेद *m.* (जीवरसायन) cytase
 कोशोट *m.* (रसायन) Ballistite
 कोशोतिकोप *m.* cellulitis
 कोषागार *n.* treasury
 कोषागार-ग्राहक-पुस्तिका *f.* treasury passbook
 कोषागार-पत्र *n.* (पत्र = अर्थपत्र) treasury note
 कोषागार-विपत्र *n.* treasury bill
 कोषाधिकोप *m.* (वाणिज्य) reserve bank
 कोषाध्यक्ष *m.* treasurer
 कोष *m.* 1 (जैविकी) bowels 2 (अयोमार्ग) compartment, bunker 3 room 4 (आयुर्विद्या, जैविकी) cyst 5 nest
 कोषकशांगानुगण *m.* (जैविकी) Cystoflagellata
 कोषज *m.* (प्राणिकी) redia
 कोषडिम्ब *m.* bladder worm, cysticercus
 कोषडिम्ब-सूक्ष्मरसांस *n.* measly pork
 कोष-तापमान *m.* room thermometer
 कोषपुजाति *f.* (प्राणिकी) Echinococcus
 कोष-भित्ति *f.* (प्राणिकी) cyst wall
 कोषागार *n.* store-house, stores, ware-house
 कोषागार-पंजी *f.* warehouse register
 कोषागारिक *m.* store-keeper
 कोषिका *f.* cabin
 कोषोपल *m.* (औद्भिदी) cystolith
 कोष्ण *mfn.* lukewarm
 कोष्णप्रिय 1 *m.* mesophil 2 *mfn.* mesophilic
 कोष्णप्रिय वेद्याण *m.* mesophilic bacterium
 कोरप (कोटि-स्पर्शी) (त्रिकोणमिति) cot
 कोणिक *mfn.* angular
 कोणिक स्वरण *n.* angular acceleration
 कोणिक प्रवेग *m.* (यांत्रिकी, विद्युत्) angular velocity
 कौतुकालय *m.* museum
 कौतुकालय कलश *m.* museum jar
 कौमार *n.* immature stage
 कौरव *m.* emery
 कौलाल-मृत्तिका *f.* pottery clay
 कोश *m.* a group of cells

कौश-seri = serici-
 कौशकृमि-पालन *n.* sericulture
 कौशकृमिपालन-उद्योग *m.* sericulture industry
 कौशल *n.* skill
 कौशल-क्रीडा *f.* games of skill
 कौशवर्ण नील *m.* (रंगदेशना) serichrome blue
 कौशवर्ण हरि *m.* serichrome green
 कौश-श्लेष *m.* (जीवरसायन) sericin = silk gelatin = silk glue
 कौशाध्व *n.* rayon
 कौशिक-संरचना *f.* cytology
 कौशिकी *f.* cytology
 कौशी *f.* (रसायन) serine
 कौशेय *n.* silk
 कौशेयक *n.* inferior silk (कौशेय + क - produced in छत्तीसगढ़ kosa)
 कौशेय कीटगद *m.* Nosema bombycis
 कौशेयफल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Tridax
 कौशेय माला-गोलाणु *m.* Streptococcus bombycis
 कौशेय शलभ *m.* silk moth
 कौशेयसुरंगिणः *m.pl.* (प्राणिकी) Embioptera
 कौशेयोपार्जक *n.* (खानिजी) gilbertite
 कौशेयोर्णा-नील *m.* (रंग-देशना) Adria blue
 कौसीद *mfn.* (वाणिज्य) usurious
 कौसीद-वृद्धि *f.* usurious interest
 क B (internal resistance or cell resistance, absolute units)
 क (परमाणु क्रमांक) (रसायन) Z (atomic number)
 ककच *m.* 1 saw 2 (औद्भिदी) serratus
 ककच- (औद्भिदी) serrated
 ककच-दन्तुर *mfn.* (औद्भिदी) serratodentate
 ककच-धूलि *f.* (औद्भिदी) sawdust
 ककच-पत्र *n.* serrate leaf
 ककच-मत्स्य *m.* saw-fish
 ककचवत् *mfn.* (औद्भिदी) serrated
 ककचवत्ता *f.* serration
 ककचवत् मृषापिधान *n.* serrated crucible lid
 ककच शैलघास *m.* Fucus serratus
 क्रम *m.* 1 arrangement, order,

system 2 grade 3 step
 -क्रम *m.* (औद्भिदी) -taxis
 क्रमचय *m.* (गणित) permutation
 क्रम-प्रयाणम् *n.* march in steps
 क्रमवद्ध *mfn.* marshalled, orderly,
 systematic, systematized
 क्रमवद्ध-कल्पना *f.* orderly imagina-
 tion
 क्रमवन्ध *m.* (औद्भिदी) gradation
 क्रमवन्धन *n.* 1 (औद्भिदी) grade
 2 (वाणिज्य, विधि) marshal
 3 systematization, systema-
 tize
 क्रम-भजन *n.* break the steps
 क्रमशः *adv.* 1 gradually 2 res-
 pectively
 क्रमसंकोच *m.* (दैहिकी) peristalsis,
 क्रम-संख्या *f.* roll number
 क्रमस्थापन *n.* gradation
 क्रमाकृषि *m.* (यात्र) stepped pulley
 क्रमांक *m.* number
 क्रमांकित *mfn.* numbered, serially
 numbered
 क्रमानुचयन *n.* gradation
 क्रमिक *mfn.* systematic
 -क्रमिक -tactic, -taxic
 क्रमिक समायत *m.* (सांख्यिकी) syste-
 matic square
 क्रय *m.* (वाणिज्य) purchase *n.*, take
 off *n.*
 क्रयण *n.* buy, buying, purchase
vb.
 क्रयण-शक्ति *f.* (अर्थशास्त्र) purchasing
 power
 क्रय-पंजी *f.* purchases journal
 क्रय-पुस्त *n.* purchases book
 क्रय-प्रत्याय-पंजी *f.* purchases
 return journal
 क्रय-प्रत्यायपुस्त *n.* returns outward
 book
 क्रय-मूल्य *n.* cost price
 क्रय-लेख *m.* sale deed
 क्रय-लेखा *f.* (वाणिज्य) purchases
 account
 क्रय-विकल्प *m.* call option (option
 to buy)
 क्रय-विक्रय *m.* buying and selling,
 purchase and sale, traffic
 क्रय-विक्रय-विकल्प *m.* double option
 क्रय-शक्ति *f.* (अर्थशास्त्र) purchasing

power
 क्रय-शक्ति-समार्हता *f.* purchasing
 power parity
 क्रय-शक्ति-समार्हता-सिद्धांत *m.* pur-
 chasing power parity theory
 क्रयविक्रय *m.* hire purchase
 क्रये अपहार *m.* discount off pur-
 chases
 क्रविप- cros-
 क्रविपतिवर्ती *f.* (भैषजिकी) cros-amine
 क्रविप-तुल्यव *m.* cros-ogol
 क्रविपल *n.* (रसायन) cresyl
 क्रविपलिक *mfn.* (रसायन) cresylic
 क्रविपलिक अम्ल *n.* cresylic acid
 क्रविपलीय *n.* (रसायन) cresylate =
 cresoxide
 क्रविपलेन्य *n.* (रसायन) cresylene =
 tolylene
 क्रविपलोट *m.* cresylite
 क्रविपव *m.* (रसायन) cresol
 क्रविपवि *f.* cresolin
 क्रविपिक *mfn.* (रसायन) cresotic
 क्रविपीय *n.* cresotate = cresoti-
 nate
 क्रव्यप *m.* creasote = creosote =
 creosotum
 क्रव्यप- creos-, creoso- (creosote)
 क्रव्यपव *m.* creasol = creosol
 क्रव्यप-व्यापन *n.* creosote *vb.*
 क्रव्यपि *f.* creolin
 क्रव्यपिय *mfn.* creosotic
 क्रव्यपीय *n.* creosotate
 क्रव्यसारी *f.* (रसायन) carnosine
 क्रव्यायसि *f.* (जीवरसायन) carni-
 ferrin
 क्रव्यिक अम्ल *n.* (जीवरसायन) carnic
 acid
 क्रव्ययी *f.* (जीवरसायन) creatinine
 क्रव्यी *f.* (जीवरसायन) creatine
 क्रा (कोशारोध) B (internal resis-
 tance or cell resistance,
 practical units)
 क्रान्ति *f.* revolution
 क्रान्तिकारि परिवर्तन *n.* revolu-
 tionary change
 क्रान्तिकारी (-इन्) 1 *m.* revolu-
 tionist 2 *mfn.* revolutionary
 क्रान्तिकारी समाजवाद *m.* Revolu-
 tionary Socialism
 क्रान्तिमत् *mfn.* revolutionary

क्रान्तिमत् समाजवाद *m.* Revolu-
 tionary Socialism
 क्रान्तिवलय *m.* (ज्योतिष) (सूर्यसिद्धान्त)
 ecliptic
 क्रान्तिवाद *m.* revolutionism
 क्रान्तिवादी (-इन्) *m.* revolutionist
 क्रान्ति-सान्द्र *n.* (गणित) solid of
 revolution
 क्रि (क्रिया-ऊर्जाणु-स्थिरांक) (भौतिकी) h
 क्रिया *f.* act, action, operation
 क्रिया-ऊर्जाणु-स्थिरांक (क्रि) *m.* (भौतिकी)
 Planck's constant (h)
 क्रियाकरण *n.* act *vb.*, operate,
 operation
 क्रियाकार *m.* act, enactment,
 measure
 क्रियापद *n.* verb
 क्रिया-प्रतिक्रिया-नियम = तृतीय- गति-
 नियम *m.* (भौतिकी) Newton's
 third law of motion = third
 law of motion
 क्रिया-रेखा *f.* (यात्र) line of action
 क्रियाशील *mfn.* active
 क्रियाशीलता *f.* activity
 क्रियाशील-घुशकमता *f.* (भौतिकी)
 operating voltage
 क्रिवे *hv* (h is Planck's constant
 and ν is the frequency of
 vibrations आवेप)
 क्रीडा *f.* 1 sport 2 (अभियन्त्रणा)
 play
 क्रीडमानी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) toy
 poodle dog
 क्रीत *mfn.* (वाणिज्य) bought, pur-
 chased
 क्रीत-पुस्त *n.* bought book
 क्रीतभाण्ड, क्रीतवस्तु *n.* (वाणिज्य) take
 off *n.*
 कुमु *f.* (ऋग्वेद) (भूगोल) Kurram
 (river)
 क्रूर *mfn.* cruel
 क्रूरता *f.* cruelty
 क्रैता (-त्) *m.* (वाणिज्य) buyer =
 purchaser
 क्रो (क्रोशक) *m.*, mi. (mile)
 क्रोशक *m.* (क्रो) mile (m., mi.)
 क्रोशक-मान *m.* (आत्मवह) mileo-
 meter
 क्रोशक-संख्या *f.* mileage
 क्रोशक-स्थूण *n.* milepost

क्रोशकाधिदेय *n.* mileage
 क्रोशविक्रय *m.* (वाणिज्य) (कौटल्य अर्थ-शास्त्र) auction, public sale
 क्रोशविक्रयण *n.* auctioneer *vb.*
 क्रोशविक्रेता (-रु) *m.* auctioneer
 क्ल^१ (क्लीवाणु) (भौतिकी) on^१ (neutron)
 क्लान्तिकर *mfn.* tedious
 क्लीव १ *n.* eunuch २ *mfn.* neutral
 क्लीवता *f.* eunuchism
 क्लीवन *n.* cancel, neutralization, neutralize
 क्लीव रंजक *m.* neutral dyes
 क्लीवरंज्य *mfn.* neutrophil
 क्लीव-वल्क *m.* (भैषजिकी) yohimbe
 क्लीववल्की *f.* yohimbine
 क्लीवाणु *m.* neutron
 क्लीवाणुक *n.* neutrino
 क्लीवाम *mfn.* (आयुर्विद्या) eunuchoid
 क्लीवामता *f.* (आयुर्विद्या) eunuchoidism
 क्लीवित *mfn.* sterilized
 क्लेदक्षर *mfn.* deliquescent
 क्लेदक्षरण *n.* deliquesce
 क्लेदक्षरता *f.* deliquescence
 क्लोम *n.* १ gills २ lung
 क्लोमकोथीय दण्डाणु *m.* Bacillus proteus lethalis
 क्लोमगा उच्छाखा *f.* (शारीर) rami pulmonales
 क्लोमगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) pneumococcus
 क्लोम-चाप *m.* (अैणिकी) pulmonary arch
 क्लोम-चेता *f.* (प्राणिकी) pulmonary nerve
 क्लोमत्वग्-गुहा *f.* (शारीर) cavum pulmocutaneum
 क्लोम-ध्वनि *m.* (आयुर्विद्या) bronchophony
 क्लोमनाल *m.* (शारीर) bronchus
 क्लोमनाल अपिगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) Brucella bronchiseptica
 क्लोमनालकोप *m.* (रसायन) bronchitis
 क्लोमनालकोप कुन्तलाणु *m.* Spirochaeta bronchialis
 क्लोमनाल क्षारक-जन *m.* (शाकाण्विकी) Alcaligenes bronchisepticus

क्लोमनाल पूति-दण्डाणु *m.* Bacillus bronchitidis putridae
 क्लोमनाली *f.* bronchiole = bronchiolus
 क्लोमपत्र *n.* (प्राणिकी) lung fluke
 क्लोमपाक *m.* (आयुर्विद्या) pneumonia
 क्लोमपाक प्रावरवेत्राणु *m.* Klebsiella pneumoniae
 क्लोमपाक माला-गोलाणु. Streptococcus pneumoniae
 क्लोमपाक युरमगोलाणु *m.* Sternberg's bacillus = Diplococcus pneumoniae
 क्लोमपाकीय पुंजगोलाणु *m.* Staphylococcus manfredii
 क्लोमपाकीय वेत्राणु *m.* Bacterium dubium pneumoniae
 क्लोम पाश्वाडाशय *m.* Paragonimus ringeri
 क्लोम-पुस्त *n.* (प्राणिकी) lung-book
 क्लोममत्स्य *m.* (प्राणिकी) lungfish
 क्लोमसुखाति = क्लोमसुख-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Branchiostoma
 क्लोम-युग्म *n.* (प्राणिकी) pair of lungs
 क्लोम-रोहिणी *f.* (शारीर) pulmonary artery
 क्लोम-श्वसन *n.* bronchial breathing, lung respiration
 क्लोम-सिरा *f.* (प्राणिकी) pulmonary vein
 क्लोम-स्यून *m.* (प्राणिकी) pulmonary sac
 क्लोम-स्वन *m.* (आयुर्विद्या) pectoriloquy
 क्लोमालिन्द-सुख *n.* (प्राणिकी) pulmoauricular aperture
 क्लोमाशयक-श्वसन *n.* broncho-vesicular breathing
 क्लोमोत्तर वेदम *n.* laryngo-tracheal chamber
 क्लोमोदर चेता *f.* (प्राणिकी) pneumogastric nerve
 क्लोमोदर प्रगण्ड *m.* (प्राणिकी) pneumogastric ganglia
 क्लोम्य पुरुदुग्ध *m.* Polygala senega
 क्लोम्यमूल *n.* (भैषजिकी) senega = senega radix = senega root
 क्लोम्यमूल-निष्कर्ष *m.* tincture of senega = tinctura senegae

क्लोम्यमूलि *f.* (रसायन) senegin
 क्वणत्पुच्छ *m.* (प्राणिकी) belltail = rattlesnake
 क्वस्थितिविज्ञान *n.* (चाक्षुषी) projection
 क्वचित्क *mfn.* occasional
 क्वचित्क रोग *m.* (आयुर्विद्या) sporadic disease
 क्वथ *m.* (भैषजिकी) apozem, decoctum = decoction
 क्वथक *m.* (भैषजिकी) species
 क्वथन *n.* decoct, decoction
 क्वथन-विधा *f.* decoction process
 क्वथनीय *mfn.* (भैषजिकी) apozemical
 क्वथ्य *mfn.* decoctive
 क्ष (क्षारातु) Na (natrium = sodium)
 क्ष, क्षे (क्षेत्रफल) (भौतिकी) a, A (area), s, S
 क्षण *m.* instant, minute
 क्षण-चित्र, क्षण-चित्रण *n.* (भा-चित्रणा) snap-shot
 क्षणमात्र *adv.* momentarily
 क्षणिक *mfn.* momentary
 क्षणिक-पीडा *f.* fleeting pain
 क्षणिक वाह *m.* (भौतिकी) momentary current
 क्षणिक विश्राम *m.* (गणित) momentary rest
 क्षणिक विश्राम-अवस्था *f.* (गणित) state of momentary rest
 क्षणे (गणित) at an instant
 क्षत *n.* wound
 क्षतावरण *n.* woundwort
 क्षति *f.* disadvantage
 क्षतिपूर *m.* (वाणिज्य) indemnity
 क्षतिपूर-अधिनियम *m.* (विधि) act of indemnity
 क्षतिपूर-आगोप *m.* indemnity insurance
 क्षतिपूरक *m.* (वाणिज्य) indemnifier
 क्षतिपूरण *n.* (वाणिज्य) indemnification, indemnify, indemnifying
 क्षतिपूरण *n.* (वाणिज्य) indemnity
 क्षतिपूर-पत्र *n.* letter of indemnity
 क्षतिपूर-बंध *m.* indemnity bond
 क्षतिपूर-विपत्र *n.* (अर्थशास्त्र) indemnity bill
 क्षतिपूरित *mfn.* indemnified
 क्षतिपूर्ति *f.* (वाणिज्य) indemnification, indemnity

क्षति-माप *m.* (वाणिज्य) measure of damages
 क्ष, त्र, ष x, y, z
 क्षमण *n.* 1 absolve 2 pardon
 क्षमता *f.* capacity, faculty
 क्षमता-सिद्धान्त *m.* (करारोपण) faculty theory
 क्षय *m.* waste
 क्षयण *n.* (भौतिकी) waning
 क्षयि-सम्पत्ति *f.* (वाणिज्य) wasting assets
 क्षयी (-इन्) *mfn.* (वाणिज्य) wasting
 क्ष-रश्मि *m.* X-ray = Roentgen ray
 क्ष-रश्मिक 1 *m.* radiologist 2 *mfn.* radiological
 क्ष-रश्मिकी *f.* radiology
 क्ष-रश्मिकीय *mfn.* radiological
 क्षरश्मिकी-विद् *m.* radiologist
 क्ष-रश्मि-कोष्ठ *m.* X-ray room
 क्षरश्मि-चण्डता-मान *m.* skiameter
 क्षरश्मि-चिकित्सा (क्ष-रश्मि) *f.* radiotherapy (X-ray)
 क्षरश्मि-चित्र *n.* X-ray photograph = radiograph
 क्षरश्मि-चित्रक (क्ष-रश्मि) *m.* radiographer (X-ray)
 क्षरश्मि-चित्रण (क्ष-रश्मि) *n.* radiograph (X-ray photograph)
 क्षरश्मि-चित्रणा (क्ष-रश्मि) *f.* radiography (X-ray)
 क्ष-रश्मि-नाल *m.* (भौतिकी) X-ray tube = Roentgen ray tube
 क्षरश्मि-विद्या *f.* radiology (X-ray)
 क्षरश्मि-साधित्र *n.* X-ray apparatus
 क्षा. (क्षारक-जन) (शाकाण्विकी) *A.* (Alcaligenes)
 क्षातिजा *f.*, क्षातिजार oxone (fused sodium peroxide with traces of CuO as catalyst)
 क्षातीयाश्म *m.* (शैलवर्णना) syenite
 क्षा, त्रा, षा X, Y, Z
 -क्षामेण्य (विक्षामेण्य) *n.* (रसायन) -anthrene (anthracene)
 क्षामेण्य अवपीतहरि *m.* anthrene jade green
 क्षार *mfn.* (रसायन) sodio
 क्षार- 1 (रसायन) natro- 2 (शैलवर्णना) natron-
 क्षारक *m.* (रसायन) alkali
 क्षारक- alkal- (alkali)

क्षारक आन्त्रवेत्राणु *m.* Escherichia alcaloscens
 क्षारक-क्षेप्य *n.* alkali waste
 क्षारक-जन (क्षा) *m.* (शाकाण्विकी) (एक प्रजाति) Alcaligenes (A.)
 क्षारकजन अवचलन्त्राणु *m.* Shigella alkaloscens
 क्षारकजन आन्त्रज्वराणु *m.* Eberthella alcaligenes
 क्षारक-कणश्म *m.* (खानिजी) natron-granite
 क्षारक-तिकतेय *n.* (रसायन) alkamide
 क्षारक-धातु *m.* alkalimetal
 क्षारक नभोनीली *f.* alkali azurine
 क्षारक प्रनीच वस्त्र *m.* alkali mode brown
 क्षारक-मान *m.* alkali-meter
 क्षारकमिति *f.* alkalimetry
 क्षारक-मितीय *mfn.* alkali-metric, alkali-metrical
 क्षारक-रक्तता *f.* (आयुर्विद्या) alkalemia
 क्षारक रोग *m.* alkali disease
 क्षारक-दिवति *f.* (जीवरसायन) alkali albumin
 क्षारक-द्वितीय *n.* alkali albuminates
 क्षारक्रीय *mfn.* (रसायन) alkali
 क्षारचूर्णशुल्बिज *m.* glauberite
 क्षार-जारल (रसायन) 1 *mfn.* alkoxy 2 *n.* alkoxy
 क्षार जारलक *mfn.* (रसायन) alkoxy
 क्षार-जारलन, क्षारजारल-प्रवेशन *n.* (रसायन) alkoxyate
 क्षार-ज-रेय *n.* (रसायन) alkoxide
 क्षारटचूर्णज *m.* natroborocalcite
 क्षारण *n.* alkalify (to convert or change into an alkali)
 क्षारणयोग्य *mfn.* alkalifiable
 क्षारणीय *mfn.* alkalifiable
 क्षारत् *mfn.* alkalescent
 क्षारतरस्विज *m.* villiaumite
 क्षार-ताम्रिज *m.* natro-chalcite
 क्षार-तिकतेय *n.* (रसायन) soda-amide
 क्षारत्ता *f.* (रसायन) alkalescence, alkalescency (क्षारत् alkalescent + -ता)
 क्षारदर्शिल *n.* (रसायन) alphyll
 क्षारनीरिज *m.* huantajayite
 क्षार-नेमि *f.* (रसायन) alkarsin

क्षार-पिण्ट *m.* niter cake
 क्षार-भर *mfn.* nitri-ferous
 क्षारमृत्, क्षारमृद् *f.* = जलक्षारशुल्बिज *m.* Glauber's salt = mirabilite = khali = khari earth
 क्षारल *n.* (रसायन) alkyl
 क्षारल-तिकी *f.* (रसायन) alkyl-amine, alkyl-amino
 क्षारल-तिकी- *mfn.* (रसायन) alkyl-amino- (alkyl-amine)
 क्षारल-तिकीक *mfn.* (रसायन) alkyl-amino
 क्षारल-धूमली नीरलोहित *m.* Hofmann's violet
 क्षारलन *n.* (रसायन) alkylate, alkylizo, alkylation
 क्षारलप्रवेश *m.* (रसायन) alkylation
 क्षारल-प्रवेशन *n.* (रसायन) alkylate, alkylize
 क्षारल लवणय *n.* (रसायन) alkyl halide = alkylogen
 क्षारल श्यामेय *n.* (रसायन) alkyl cyanide
 क्षारलिक *mfn.* alkylic
 क्षारलेन्य *n.* (रसायन) alkylene
 क्षारलेयेन्य *n.* (रसायन) alkylidene
 क्षारशुल्बित *n.* (भा-चित्रणा) hypo
 क्षार-संचिति *f.* alkali reserve
 क्षारसह वातु *m.* (रसायन) Monel metal (very resistant to corrosion)
 क्षारसैतिज *m.* malladite
 क्षारस्फतिज *m.* chiolite
 क्षारा *f.* (खानिजी) natron
 क्षारातु *m.* (रसायन) natrium = sodium
 क्षारातु-उपसाद्वित *n.* (रसायन) hypophosphite of sodium
 क्षारातु गर्भोजनीय *n.* (रसायन) sodium thioantimonate (Schlippe's salt)
 क्षारातु दक्षुलीय *n.* (रसायन) sodium ethylate
 क्षारातु दहातु न्यासवीय *n.* (रसायन) sodium potassium tartrate (Rochelle salt)
 क्षारातु भूयीय *n.* (रसायन) sodium nitrate, Chile saltpeter
 क्षारातु शुल्बीय *n.* (रसायन) ('कलाय' स्फट, 'लघुक' स्फट, जलीयित, अजल)

sodium sulphate ('pea' crystals, 'feathery' crystals, hydrated, anhydrous)
 क्षारातु-संरस *m.* sodium amalgam
 क्षारातु (दक्षुल) सुषवीय *n.* (रसायन) sodium (ethyl) alcoholate
 क्षारातु सैकतीय *n.* silicate of soda = sodium silicate
 क्षारातु-स्फटिका *f.* sodium alum
 क्षारातुपनीरित सलिल *n.* (रसायन) eau de Labarraque
 क्षाराम *m.* (रसायन) alkaloid
 क्षाराम-मिति *f.* (भैषजिकी) alkalometry
 क्षारामीय *mfn.* alkaloid, alkaloidal
 क्षारामीय प्रतिकर्ता (-त्) *m.* (रसायन) alkaloidal reagent
 क्षाराभ्रक *n.* (खानिजी) paragonite
 क्षारि- (रसायन) sodio-
 क्षारिक *mfn.* (रसायन) sodic, sodio
 क्षारिज *m.* (खानिजी) sodalite
 क्षारिज-क्षारीयाश्म *m.* (शैलवर्णना) sodalite-syenite
 क्षारिजाश्म *m.* (शैलवर्णना) sodalithite
 क्षारित *mfn.* (रसायन) nitered, nitred
 क्षारिय *mfn.* alkaline
 क्षारिय उदजारेय *n.* (रसायन) alkaline hydioxide
 क्षारियक *m.* alkalizer (an alkalinizing agent)
 क्षारिय-करण *n.* alkalify (to make alkaline)
 क्षारिय-कोजा *f.* (विद्युत्) alkaline cell
 क्षारिय जल *n.* alkaline water
 क्षारियण *n.* alkalization = alkalization, alkalize
 क्षारियण-कर्ता (-त्) *m.* alkalizing agent
 क्षारियण-योग्य *mfn.* alkalizable
 क्षारियता *f.* alkalinity
 क्षारिय-मृत् *f.* (रसायन) alkaline earth
 क्षारियमृत्-धातु *m.* alkaline earth metal
 क्षारिय-मेह *m.* (आयुर्विद्या) alkalinuria
 क्षारिय-वेला *f.* (दैहिकी) (वर्धित क्षारियता का अवधि) alkaline tide (the

period of increased alkalinity)
 क्षारीण *n.* (रसायन) alkyne
 क्षारीण्य *n.* (रसायन) alkane
 क्षारेण्य *n.* (रसायन) alkene
 क्षारेण्यल *n.* (रसायन) alkenyl
 क्षारेय *n.* (रसायन) (क्षारल alkyl + -य-िद्) alkide
 क्षारोद-रीति *f.* (शल्य-चिकित्सा) Dakin method
 क्षारोद-विलयन *n.* (भैषजिकी) Dakin's solution
 क्षार्या *f.* nitriary
 क्षारस्फतिज *m.* cryolithionite
 क्षालेभिज *m.* natrophilite
 क्षाशु विधा *f.* (रसायन) Hargreave's process
 क्षासी विलयन *n.* (रसायन) doctor solution
 क्षास्फनिज *m.* (खानिजी) cryolite
 क्षास्फतिज-काच *m.* cryolite-glass
 क्षास्फसैकिज *m.* natrolite
 क्षितिज *n.* horizon
 क्षितिज-चाप *m.* (काश्चिकी) azimuth
 क्षितिज-चाप-कोण *m.* angle of azimuth
 क्षितिजचाप-प्रातन्तु *m.* (तेजोन्वेप) azimuth antenna
 क्षिप *m.* (आरम्बह) jet
 क्षिप *mfn.* active
 क्षिप काष्ठंगार *m.* active charcoal
 क्षिप्रतम अवरोह *m.* (गणित) quickest descent
 क्षिप्रतम-अवरोह-रेखा *f.* line of quickest descent
 क्षिप प्रांगार *m.* active carbon
 क्षिप्र-मक्षी *f.* (प्राणिकी) tachinid fly
 क्षिप्र मंडल *n.* active amyl
 क्षीणनेत्र-वंश *m.* (प्राणिकी) Stylopidae
 क्षीणनेत्राति = क्षीणनेत्र-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Stylops
 क्षीण स्थायि ध्रुवत्व *n.* (भौतिकी) feeble permanent polarity
 क्षीरचम्पकति = क्षीरचम्पक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Plumeria
 क्षीर-दन्त *m.* milk tooth
 क्षीरधु *n.* (रसायन) galactose
 क्षीरधु आन्त्रवेत्राणु *m.* Escherichia galactophila

क्षीरायिक *mfn.* (रसायन) galactonic
 क्षीरायिक अम्ल *n.* (रसायन) galactonic acid
 क्षीरिक *mfn.* galactic
 क्षीरोत्पाद *m.* (दैहिकी) galactopoiesis
 क्षु V
 क्षु (क्षुद्रातु) (रसायन) Vi (virginium)
 क्षुण्ण *mfn.* powdered
 क्षुण्ण आचूर्ण *n.* powdered gypsum
 क्षुद्र *mfn.* 1 (औद्भिदी) minima 2 petty 3 short, small
 क्षुद्र अचलन्त्राणु *m.* Shigella minutissima
 क्षुद्र कलय *m.* French pea = petits pois
 क्षुद्र-कोशावान् (-वत्) *mfn.* short-celled
 क्षुद्रजन्यु *m.* (प्राणिकी) merogamete
 क्षुद्र जलीयक *m.* (प्राणिकी) Hydra oligactis
 क्षुद्रपत्र प्रवास्तुक *m.* Amaranthus blitum
 क्षुद्र पीतारक्त वेत्राणु *m.* Bacterium aeris minutissimum
 क्षुद्र प्राणी (इन्) *m.* animalcules (as a fly)
 क्षुद्रबीज *n.* seedling
 क्षुद्र-रोक-अग्रदाय-पद्धति *f.* imprest system of petty cash
 क्षुद्र-रोक-पुस्त *n.* petty cash book
 क्षुद्रातु-द्विद्युतातु *m.* (रसायन) dvicesium = virginium, verium, russium
 क्षुद्रापणिक *m.* tehbazari
 क्षुद्रैलाति = क्षुद्रैल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Elettaria
 क्षुद्रोद्वाह *m.* (औद्भिदी) mero-gamy = microgamy
 क्षुद्रोत्क *m.* (प्राणिकी) owl = little owl
 क्षुधामरण *n.* starve
 क्षुधामरण *n.* starve
 क्षुधामरण-मृति *f.* (अर्थशास्त्र) starvation wages
 क्षुप *m.* shrub
 क्षुपच्छत्र मधुकर *m.* Apis florea
 क्षुपमय, क्षुपवत् *mfn.* shrubby
 क्षुपवृत्ति *f.* hedge
 क्षुपाकीर्ण, क्षुपीय *mfn.* shrubby
 क्षुमा *f.* linen

धुमा-भाण्डागार *n.* linen store
 धुर *m.* razor
 धुरण *n.* shave *vb.*
 धुर-पट्टी *f.* razor strop
 धुर-फल *n.* razor blade
 धुराश्म *m.* (शैलवर्णना) novaculite
 धुराश्म-शाण *m.* Arkansas stone
 धुरी *f.* knife
 धुरी तथा प्रथ (संयुक्त) *m.* knife and spatula (combined)
 धुरी-धारा *f.* knife-edge
 क्षेत्र (क्षेत्र) (भौतिकी) *F* (field)
 क्षेत्र, क्ष (क्षेत्रफल) (भौतिकी) *A, a* (area)
 क्षेत्र *n.* area
 क्षेत्र *n.* 1 holding, field 2 (भौतिकी) (क्षेत्र) field (*F*), range 3 purview, scope
 क्षेत्र. (औद्भिदी) *arvensis*
 क्षेत्र-अनुसन्धान *n.* (सांख्यिकी) field investigation
 क्षेत्र-अन्तर्विभाजन *n.* subdivision of holding
 क्षेत्र-अपखण्डन *n.* (अर्थशास्त्र) fragmentation of holdings
 क्षेत्रकर्म *n.* agronomy
 क्षेत्र-कर्मी (-इन्) *m.* field worker
 क्षेत्र-केसर = शरत्-कुंकुम *n.* autumn crocus = meadow saffron = colchicum autumnale
 क्षेत्र-गामी (-इन्) *mfn.* cross-country
 क्षेत्र-द्विहीक *m.* (प्राणिकी) field cricket = *Gryllus campestris*
 क्षेत्र-दूरेक्षिका *f.* field glass
 क्षेत्र-धारण *n.* land-holding
 क्षेत्र-पर्पट *m.* (भेषजिकी) khet-papra
 क्षेत्र-पर्पटति = क्षेत्र-पर्पट-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Oldenlandia*
 क्षेत्र-पुनर्वण्टन *n.* (अर्थशास्त्र) redistribution of holding
 क्षेत्र-प्रकाशना *f.* field publicity
 क्षेत्र-प्रांत-बन्ध *m.* field contour

bunds
 क्षेत्रफल *n.* area
 क्षेत्रविद्या *f.* agronomy
 क्षेत्र-शतघ्नी *f.* (सेना) field gun
 क्षेत्र-संघनन, क्षेत्र-समेकन *n.* consolidation of holdings
 क्षेत्रसहदेवी *f.* *Sonchus arvensis*, *Sonchus olixensis*
 क्षेत्राधिकार *m.* jurisdiction
 क्षेत्रिक *m.* agrarian
 क्षेप *m.* 1 jerk 2 throw
 क्षेपण *n.* cast, throw
 क्षेपणी *f.* paddle
 क्षेपणी-चक्र *n.* (नाविकी) paddle wheel
 क्षेप्य *n.* (वाणिज्य) scrap
 क्षेप्य अयस् *n.* scrap iron
 क्षेप्य उत्पाद *m.* (वाणिज्य) waste product
 क्षेप्य-उपभोग *m.* (अर्थशास्त्र) waste consumption
 क्षेप्यक *n.* wastage
 क्षेप्यज *m.* heath
 क्षेप्यज-कुल *n.* (औद्भिदी) *Ericaceae*
 क्षेप्यज-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Erica*
 क्षेप्यजवत् पत्र *n.* (औद्भिदी) *ericoid* leaves
 क्षेप्य द्रव्य *n.* waste matter
 क्षेप्य नाड *n.* waste pipe
 क्षेप्य पत्र *n.* waste paper
 क्षेपपत्र-पिटक *n.* waste paper basket
 क्षेप्य पुस्त *n.* (पुस्तपालन) waste book
 क्षेप्य-प्रपञ्जी *f.* (वाणिज्य) rough ledger
 क्षेप्य-लवण-रस *m.* *bittern*
 क्षेप्य स्रष्ट *n.* (औद्भिदी) waste product
 क्षेप्यभूमि *f.* (औद्भिदी) heath
 क्षेम 1 *n.* safety, security
 2 *mfn.* safe
 क्षेम-कपाट *n.* safety valve

क्षेमकनी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) *Brahmany kite*
 क्षेत्र (भौतिकी) *H*
 क्षैतिज *mfn.* horizontal
 क्षैतिज अक्ष *m.* horizontal axis
 क्षैतिज कोण *m.* horizontal angle
 क्षैतिज-चपटता *f.* (भौतिकी) horizontal intensity
 क्षैतिज-चलिष्णुता *f.* (अर्थशास्त्र) horizontal mobility
 क्षैतिज छेद *m.* (गणित) horizontal section
 क्षैतिज तल *n.* horizontal plane
 क्षैतिज दण्ड *m.* horizontal bar
 क्षैतिज-मापश्रेणी *f.* horizontal scale
 क्षैतिज-रेखा *f.* horizontal line
 क्षैतिज वितोद *m.* horizontal thrust
 क्षैतिज संयोग *m.* (अर्थशास्त्र) horizontal combination
 क्षेत्रकी *f.* agronomy
 क्षैरधु *n.* (रसायन) talose
 क्षैरिक अम्ल *n.* (रसायन) talonic acid
 क्षोद *m.* powder, pulvis
 क्षोदक *m.* pounder
 क्षोद धूमली *f.* powder fuchsine
 क्षोद नील *m.* (रगदेशना) powder blue
 क्षोदमय, क्षोदरूप *mfn.* powdery
 क्षोद हरि *m.* powder green
 क्षोदासिता *f.* (औद्भिदी) powdery mildew
 क्षोदासिता-कुल *n.* (औद्भिदी) *Erysiphaceae*
 क्षोदासिताति = क्षोदासिता-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Erysiphe*
 क्षोभ *m.* agitation, excitement
 क्षोभण *n.* agitate
 क्षोदिक *mfn.* mellitic
 क्षौम *n.* linen
 क्षौर-फल *n.* shaving blade
 क्षौर-फेन *m.* shaving soap

ख

ख (प्रहसन खण्ड) (भौतिकी) *K, k* (reduction factor)
 ख अम्यान्त्रज्वर वेत्राणु *m.* bacterium paratyphosum *B*

ख-अम्ल *n.* *B-acid*
 'ख' ईक्ष *m.* (तेजोन्वेध) 'B' scope
 ख-कुलक *n.* (गणित) null set
 ख क्षोद *m.* *B powder*

ख, खा *b, B*
 ख-गोल *m.* celestial sphere
 खगोलीय *mfn.* celestial
 खचन *n.* embed

खचित *mfn.* embedded
 खचित्र-दूरदर्श *m.* Cassegrainian telescope
 खञ्जन *m.* (प्राणिकी) wagtail
 खटिका *f.* talc, talcum
 खटिकिय *mfn.* talcose
 खटी *f.* 1 (भैषजिकी) chalk = creta = creta praeparata = prepared chalk 2 chalk crayon
 खटीगोल-कर्म *m.* (प्राणिकी) globigerina ooze
 खटीगोल-वंश *m.* (प्राणिकी) Globigerinidae
 खटीगोलाति = खटीगोल-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Globigerina
 खटी-प्रस्तर *m.* chalk-stone
 खटी-युग *n.* (भूगोल) Cretaceous period
 खटीवर्ति *f.* chalk crayon
 खट्वा-मल *m.* bug = bedbug
 खड्ग *m.* sword
 खड्गपुच्छ *m.* (प्राणिकी) king crab
 खड्गपुच्छ-गण = (खड्ग + पुच्छ-गण) *m.* (प्राणिकी) Xiphosura = Gnathopoda
 खड्गपुच्छ-वंश *m.* (प्राणिकी) Xiphosuridae
 खड्गपुच्छाति = खड्गपुच्छ-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Limulus
 खड्गमत्स्य *m.* (प्राणिकी) swordfish
 खड्गमत्स्य-यकृत-तैल *n.* (प्राणिकी) swordfish liver oil
 खण्ड *m.* 1 chip, piece, slip, turnings 2 clause 3 (गणित) factor (गुणन-खण्ड) (a factor of multiplication) 4 (शारीर) lobe, segment 5 tract
 खण्ड- partial
 -खण्ड (भौगिकी) -mere
 -खण्डक (प्राणिकी) -tome
 खण्डकरण *n.* (गणित) resolution into factors
 खण्ड-कर्म *n.* piece work
 खण्डकवक-वर्ग *m.*, खण्डकवकानि *n. pl.* Schizomycetes
 खण्डखाद्य *n.* (वात्स्यायन) confectionery, sweetmeat
 खण्डखाद्य कला *f.* confectionery
 खण्डखाद्य-गृह *n.* confectionery
 खण्ड-गुणक *m.* schizont

खण्ड-गुणन *n.* (जैविकी) schizogony, schizont
 खण्ड-जनन *n.* (जैविकी) schizo-gensis
 खण्डधु *n.* (रसायन) sucrose
 खण्डधु-नाटक *n.* sucrose pipette
 खण्डन *n.* 1 revoke 2 (गणित) resolution into factors
 खण्ड-प्रजनन *n.* (प्राणिकी) schizogamy
 खण्ड-भाग *m.* (गणित) division by factors
 खण्ड-भाजन *n.* (गणित) division by factors
 खण्डयुत *mfn.* segmented
 खण्डयुत विन्यास *m.* segmental arrangement
 खण्डयुद्ध *n.* (सेना) skirmish
 खण्डयोद्धा (-द्ध) *m.* (सेना) skirmisher
 खण्ड-वान *n.* piece-goods
 खण्डविन्यास *m.* segmentation
 खण्डशः *adv.* 1 clause by clause 2 (प्राणिकी) segmentally
 खण्डशो विन्यस्त *mfn.* segmental in arrangement
 खण्डशो विन्यास *m.* segmental arrangement
 खण्डानुकरन *n.* (गणित) integration by parts
 खण्डिका *f.* (शारीर) lobule
 खण्डिकामय *mfn.* (प्राणिकी) lobulated
 खण्डिकोशा *f.* elasmatocyte
 खण्डित *mfn.* 1 broken 2 (सांख्यिकी) discrete = broken
 खण्डितक *n.* (वाणिज्य) splits
 खण्डित परिपथ *m.* (विद्युत्) broken circuit
 खण्डित पिण्ड *m.* broken lump
 खण्डित-माला *f.* (सांख्यिकी) discrete series = broken series
 खण्डिल *n.* (प्राणिकी) (खण्ड segment) strobila
 खण्डिलन *n.* (प्राणिकी) strobilate, strobilization
 खण्डीय-टोपी *f.* (गणित) segmental cap
 खण्डेद *m.* sucrase
 खण्डोद्भिदः *f. pl.* Schizophyta = fission fungi
 खदिर *m.* 1 (औद्विदी) Acacia catechu 2 (भैषजिकी) catechu =

pale catechu = gambir
 खदिर-निष्कर्ष *m.* tincture of catechu = tinctura catechu
 खदिर बबूल *m.* (औद्विदी) Acacia catechu
 खदिरव *m.* (रसायन) catechol
 खदिरि *f.* (रसायन) catechin
 खदिरिक अम्ल *n.* (रसायन) catechuic acid
 खद्योत *m.* firefly = fire beetle, glowworm
 खनन *n.* mine *vb.*, mining
 खनि *f.* mine *n.*
 खनि-अभय दीप *m.* (खनिकर्म) Davy's safety lamp
 खनि-अभियन्त्रणा *f.* mine engineering
 खनिकर्म *n.* mining
 खनिज *m.* mineral
 खनिज अंगार = भूमि-अंगार *m.* earth coal = mineral coal
 खनिज-ऊर्णा *f.* = सैकतीय तूल *n.* mineral wool = silicate-cotton
 खनिज काय *m.* (औद्विदी) mineral body
 खनिज क्षारक *m.* mineral alkali
 खनिज-गुलिका *f.* globoid (rounded mineral body)
 खनिज जल *n.* mineral water
 खनिज न्यंगार *m.* carbonite (a mineral coke)
 खनिज भस्म *n.* mineral ash
 खनिज रक्त *m.* mineral red = caesura lake
 खनिज रंग *m.* earth colour (any coloured mineral used as pigment)
 खनिज रंजक *m.* mineral dyes
 खनिज-विक्रोणमान *m.* mining theodolite
 खनिज विराल *m.* mineral tar
 खनिज-शास्त्र *n.* mineralogy
 खनिज संसाधन *n.* mineral resources
 खनिज-सृष्टि *f.* kingdom of minerals
 खनिज स्फट *m.* mineral crystal
 खनिज स्रोत *n.* mineral spring
 खनिजान्न *n.* (खान्धिकी) mineral food

खनिजायन *n.* mineralization
 खनित्र *n.* spade
 खनित्रपादाः *m. pl.* (प्राणिकी) Scaphopoda
 खनि-प्रवर्त *n.* Cornish mining ton, mining ton
 खनि-भौतिकी *f.* mining geology
 खनिराल *m.* (खनिज विराल) maltha
 खनि-लेखा *f.* mine account
 खनि-वसति-अधिनियम *m.* Mining Settlement Act
 खर 1 *m.* (औद्भिदी) asper, asperatus 2 *mfn.* rough
 खरमंजरी *f.* (औद्भिदी) chaff-flower = prickly chaff-flower = *Achyranthes aspera*
 खरमञ्जरी-कुल *n.* (औद्भिदी) *Amaranthaceae*
 खरमंजरीति = खरमंजरी-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) (*Achyranthes aspera*)
Achyranthes
 खरात्र *n.* (गणित) cusp
 खरात्र तल *n.* (काशिकी) caustic surface
 खरात्र वक्र *n.* (भौतिकी) caustic curve
 खरोष्ट्र *m.* (भूगोल) Kashgar
 खर्जु *f.* scabies
 खर्जु मासवेध *m.* *Sarcoptes scabiei*
 खर्जूरति = खर्जूर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Phoenix
 खर्पर *m.* 1 (रसायन) cupel 2 (शारीर)

flat bone
 खर्परण *n.* (रसायन) cupel *vb.*, cupellation
 खर्परण कर्ता (-रु) *m.* (रसायन) cupeller
 खर्परी *f.* tile
 खर्परीछत्र *mfn.* (प्राणिकी) imbricate = imbricated = imbricative
 खर्परीछादन *n.* (प्राणिकी) imbricate *vb.*, imbrication = imbricating
 खर्विमान *n.* (भौतिकी) Angstrom unit
 खलति *m.* alopecia = baldness
 खलति वेत्राणु *m.* *Bacterium decalvans*
 खल्ल *m.* hide
 ख संकर *m.* (आयुर्विद्या) B. complex (vitamin)
 खा. (खारी) hhd. (hogshhead)
 खाणु-चाप-मान *m.* (ज्योतिष) heliometer
 खाण्डक *n.* candy
 खात 1 *n.* (शारीर) cup 2 *m.* (शारीर) fossa 3 (गणित) trench
 खातक *n.* ditch
 खाति *f.* (सेना) entrenchment, trench
 खाति-जाल *n.* (सेना) network of entrenchments = system of trenches
 खाति-ज्वर *m.* (आयुर्विद्या) Volhynia fever = trench fever

खाद *m.* manure
 खाद-लवण *n.* manure-salts
 खाद-वपन *n.* manure *vb.*
 खाद-वपता (-रु) *m.* manurer
 खाद्य *n.* (रूपि) ration
 खाद्यदान *n.* provide
 खाद्यपदार्थ *m.* provisions
 खाद्य-शुक्ति *f.* oyster
 खाद्यशुक्ति कुन्तलाणु *m.* *Spirochaeta balbianii*
 खाद्यागार *n.* provision stores
 खानिज रसायन *n.* mineralogical chemistry
 खानिजिक *mfn.* mineralogical
 खानिजिक रसायन *n.* mineralogical chemistry
 खानिजी *f.* mineralogy
 खानिजी-अध्ययन *n.* mineralogize
 खानिजीय *mfn.* mineralogical
 खानिजीयन *n.* mineralogize
 खारी (खा.) *f.* hogshhead (hhd.)
 खिल *m.* waste land
 खुरप *m.* horseshoe
 खुरप-आकार *mfn.* horseshoe-shaped
 खुरप कर्कट *m.* (प्राणिकी) horseshoe crab = king crab
 खुरप-चुन्वक *m.* horseshoe magnet
 खैक (ख_१) *m.* (भेषजिकी) beone
 ख्याति *f.* (वाणिज्य) goodwill

ग

ग (गदाणु) (शाकाण्विकी) *Cl.* (clostridium)
 ग (वि. गा. व.) (भौतिकी) E (E.M.F.) (in absolute units)
 -ग -matic
 ग अप्यान्त्रज्वर अन्नविषाणु *m.* *Salmonella hirschfeldii*
 ग अप्यान्त्रज्वर वेत्राणु *m.* *Bacterium paratyphosum C*
 ग अम्ल *n.* C acid
 गद्गात्रिही *f.* (प्राणिकी) black-headed

gull
 गंगामकर *m.* gavial = *Gavialis gangeticus*
 गंगामकर-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Gavialis*
 गंगावतरी *f.*, गंगोद्भेद *m.* (भूगोल) Gangotri
 गजदन्त-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) *Dentalium*
 गजपिप्पलीति = गजपिप्पली-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) *Scindapsus*, *Pothos*
 गंजा = विजया *f.* (भेषजिकी) cannabis = Indian hemp = hemp

= ganjah = guaza
 गण *m.* 1 (वाणिज्य) board 2 (सेना) battalion 3 (औद्भिरी) order
 -गण (प्राणिकी) -acea
 गणक *m.* 1 calculating machine = calculator = comptometer
 2 teller
 गणजाति *f.* tube
 गणन *n.* calculate, calculation, count *vb.*, counting
 गणन-प्राह्य चलयर्थ *m.* currency by

tale
गणन-तन्तुनाल *m.* Geiger-Müller counter
गणन-यन्त्र *n.* calculating machine = calculator = comptometer
गणन-सूचिनाल *m.* (भौतिकी) Geiger counter
गणना *f.* 1 calculation 2 (गणित) datum 3 (तर्कशास्त्र) enumeration 4 (अर्थशास्त्र) tale
गणना *f.* census
गणना-तल *n.* datum plane or level
गणनात्मक *mfn.* (तर्कशास्त्र) enumerative
गणनाफलक *n.* counter
गणना-बिन्दु *m.* datum point
गणना-भित्ति *f.* datum wall
गणना-रेखा *f.* datum line
गणपूर, गणपूरक *m.*, गणपूरक-संख्या *f.* quorum
गण-राज्य *n.* republic
गणधिवेशन *n.* board meeting
गणित 1 *n.* mathematics 2 *mfn.* calculated
गणित- mathematico-
गणित-उपकरण *n.* mathematical instruments
गणितज्ञ *m.* mathematician
गणित-भौतिकीय *mfn.* mathematico-physical
गणितानुसार *adv.* mathematically
गणितीय *mfn.* mathematical
गणितीय अनुमान *n.* mathematical induction
गणितीय सम्प्रदाय *m.* mathematical school
गणित्र *n.* counter
गण्ड *m.* swelling (in general)
गण्डक *m.* (प्राणिकी) rhinoceros
गण्डयीवा *f.* (आयुर्विद्या) Derbyshire neck
गण्ड-चेता *f.* (शारीर) zygomatic nerve
गण्ड-भृङ्ग *m.* (प्राणिकी) rhinoceros beetle
गण्ड-भृङ्गानुवंश *m.* (प्राणिकी) Dynastinae
गण्ड-शंख-चेता *f.* zygomatico-temporal nerve

गण्डानीक-चेता *f.* (शारीर) zygomatiko-facial nerve,
गण्डास्थि *n.* (शारीर) cheekbone, zygoma, zygomatic bone, jugal, jugal bone, malar bone
गण्डूपद *m.* earthworm
गण्डूपद-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Pheretima
गण्डूपदी-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Eutyphoeus
गत *mfn.* previous
गत-काल *mfn.* out-of-date
गत-प्रयोग *mfn.* obsolete
गत-मास्य (ग.म.) *adj.* (वाणिज्य) ultimo (ult.)
गत वर्ष *n.* previous year
गति *f.* 1 (भौतिकी) motion, movement 2 pace
-गति *f.* -kinesis
गतिक *mfn.* (भौतिकी) kinetic
गतिक-ऊर्जा *f.* kinetic energy
गतिक-वाद *m.* (जैविकी) kinetic theory
गतिक व्यूहापवीय उपकल्पना *f.* kinetic molecular hypothesis
गतिकी *f.* dynamics, kinetics
गति-दिशा *f.* (गणित) direction of motion
गति-न्यष्टि *f.* (प्राणिकी) kinetoplast = kinetonucleus = motion nucleus
गतिमान् (-मत्) *mfn.* moving, in motion
गतिमान् पदार्थ *m.* body in motion
गतिवर्धन *n.* 1 accelerate, acceleration 2 advance
गतिवशी (-श्च्) *m.* (जैविकी) blepharoplast
गति-वृद्धि *f.* acceleration
गतिशील *mfn.* (भौतिकी) dynamic, moving
गतिशील अर्थशास्त्र *n.* dynamic economics
गतिशील समाज *m.* dynamic society
गतिसंख्या *f.* frequency of motion
गत्यपरिवर्तन नियम = प्रथम गति-नियम *m.* (भौतिकी) Newton's first law of motion = first law of motion

गत्यजरोध *m.* deadlock
गदाकवकति = गदाकवक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Aspergillus
गदाणु (ग.) *m.* (शाकाण्डिकी) Clostridium (Cl.)
गदारूप 1 *m.* (प्राणिकी) priapulus 2 *mfn.* (प्राणिकी) claviform
गदारूपिण *m. pl.* Priapuloidea
गदाशिरति = गदाशिर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Claviceps
गन्ध *n.* engine
गन्ध-चालक *m.* engine driver
गन्ध-छादक *m.* (अयोमार्ग) engine shed
गन्धयानादि *n.* rolling stock
गन्ध *m.* odour
गन्ध-1 olfactory 2 (रसायन) thio-, thion-
गन्ध अम्ल *n.* (रसायन) thio acid
गन्धक *m.* 1 (रसायन) blimstone 2 (रगदेशना) thion
गन्धक-उत्स *m.* sulphur spring
गन्धक-गुण *mfn.* sulphureous
गन्धक-दुग्ध *n.* milk of sulphur
गन्धक-कन्द *m.* olfactory bulb
गन्धक-पाक *m.* (भैषजिकी) confection of sulphur = confectio sulphuris
गन्धक-युत *mfn.* sulphureous
गन्धक-योजन *n.* (रसायन) thionate
गन्धक-वर्ण *mfn.* sulphureous
गन्धक-व्यापित *mfn.* sulphureous
गन्धक-रस्नेहलेप *m.* unguentum sulphuris = ointment of sulphur
गन्धका काल *m.* (रगदेशना) thionone black
गन्धकापहर आकुन्तलाणु *m.* Vibrio desulfuricans
गन्ध-काष्ठेन्ध *n.* (रसायन) thioxene
गन्धकिय *mfn.* sulphureous
गन्धकियता *f.* (रसायन) sulphureity
गन्धकियत्व *n.* sulphureousness
गन्ध-क्रीटशोणी *f.* (रगदेशना) thio-carmine
गन्ध-कोलमिहिक अम्ल *n.* (रसायन) thio-barbituric acid
गन्ध-कोशा *f.* (शारीर) olfactory cell
गन्ध-क्रविपव *m.* (रसायन) thio-cresol

गन्ध-क्षामेण्य *n.* (रसायन) thi-anthrene
 गन्ध-क्षेत्र *n.* olfactory area
 गन्ध-खदिरि *f.* (रंगदेशना) thio-catechine
 गन्ध-नर्त *m.* (प्राणिकी) olfactory pit
 गन्ध-गुहा *f.* (शागीर) rhinococele, rhinococele, olfactory capsule, nasal capsule
 गन्धघृषि *m.* vulcanite
 गन्धघृषि-झर्झरी *f.* vulcanite grating
 गन्धघृषि-विवरी *f.* vulcanite tap
 गन्धघृषि-शिखिपिषा *f.* vulcanite stopcock
 गन्ध-चण्डिक *mfn.* (रसायन) thio-tungstic
 गन्ध-चेता *f.* olfactory nerve
 गन्ध-चेता-तन्तु *m.* olfactory nerve fibre
 गन्धजन नभोनीली *f.* (रंगदेशना) thiogene azurine
 गन्ध-जलशान *n.* (रसायन) thio-hydrolysis
 गन्धज्वाली *f.* (रसायन) thiophloxine
 गन्धतातु *m.* (रसायन) thionium
 गन्धतिक्ती *f.* (रसायन) thiamine
 गन्धतिक्ती नीरेय *n.* thiamine chloride
 गन्धतिक्ती पीत *m.* (रंगदेशना) thiamine yellow
 गन्ध-तिक्तेय *n.* (रसायन) thi-amide, thio-amide
 गन्धतिग्मी *f.* thioxine
 गन्ध-तूल काल *m.* (रंगदेशना) thio-cotton black
 गन्ध-त्रय्य अम्ल *n.* (रसायन) thio-stannous acid
 गन्ध-त्रय्यिक *mfn.* (रसायन) thio-stannic
 गन्ध-त्रय्यित *n.* (रसायन) thio-stannite
 गन्ध-त्रय्यीय *n.* (रसायन) thio-stannate
 गन्ध-दक्षु *m.* (रसायन) thio-ether
 गन्ध-दर्शव *m.* (रसायन) thio-phenol
 गन्धदर्शैय *n.* (रसायन) thiophone
 गन्धदर्शैयिक *mfn.* (रसायन) thio-

phenic
 गन्धदुहण *n.* vulcanize, vulcanizing
 गन्धदृहित *mfn.* vulcanized
 गन्धदुस्कोटिन *m.* (रंगदेशना) thio-gallein
 गन्ध-द्वि-दर्शैल-तिक्ती *f.* (रसायन) thio-di-phenyl-amino
 गन्ध-द्वि-मधुव *m.* (रसायन) thio-di-glycol
 गन्ध-द्वि-मधुविक अम्ल *n.* (रसायन) thio-di-glycollic acid
 गन्धद्वयजीवा *f.* thiodiazine
 गन्ध-नम्रलिक अम्ल *n.* (रसायन) thio-salicylic acid
 गन्धनिनील काल *m.* (रंगदेशना) thio-indigo black
 गन्धनिनील काल *m.* (रंगदेशना) thio-indone black
 गन्ध-नेपालिक अम्ल *n.* (रसायन) thio-arsenic acid
 गन्ध-नेपालित *n.* (रसायन) thio-arsenite
 गन्ध-नेपालीय *n.* (रसायन) thio-arsenate
 गन्ध-पथ *m.* olfactory tract, rhinocaul
 गन्धपाक *m.* (रसायन) calcaroni
 गन्धपालंकी *f.* (रसायन) thotine
 गन्ध-पालि *f.* (प्राणिकी) olfactory lobe, rhinencephalon
 गन्धपिंगी *f.* (रंगदेशना) thioflavine
 गन्ध-पिप्पली *f.* Piper cubeba
 गन्ध-पिरालेन्य *n.* (रसायन) thio-tolene
 गन्ध-प्रजारक *m.* (रसायन) thio-ozone
 गन्ध-प्रजारकेय *n.* (रसायन) thio-ozonide
 गन्ध-प्रावर *m.* (प्राणिकी) olfactory capsule
 गन्धभर काल *m.* (रंगदेशना) thiophor black
 गन्ध-भाज *m.* (रसायन) thio-phosgene
 गन्ध-भास्वरल *n.* (रसायन) thio-phosphoryl
 गन्ध-भास्विक *mfn.* (रसायन) thio-phosphoric
 गन्ध-भास्वित *n.* (रसायन) thio-phosphite

गन्धभास्वी *f.* (रंगदेशना) thiophosphine
 गन्ध-भास्वीय *n.* thio-phosphate
 गन्ध-भास्वीय अम्ल *n.* (रसायन) thio-phosphorous acid
 गन्ध-भिदित *n.* (रसायन) thio-bismuthite
 गन्ध-भूयित *n.* (रसायन) thio-nitrite
 गन्ध-भ्राशिन *m.* (रंगदेशना) thio-fluorescein
 गन्ध-मधुविक अम्ल *n.* (रसायन) thio-glycollic acid
 गन्धमरिच 1 *n.* (भैषजिकी) cubeb = cubeba = cubebae fructus = tailed pepper (dried unripe fruit of Piper cubeba) 2 *m.* Piper cubeba
 गन्धमरिच-कर्पूर *m.* (रसायन) cubeb camphor
 गन्धमरिचति = गन्धमरिच-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Cubeba
 गन्धमरिच-तेल *n.* cubeb oil
 गन्धमरिच-निष्कर्ष *m.* tincture of cubeb = tinctura cubebae
 गन्धमरिच सहित श्लेष्मयास तथा गुरुगन्ध विलयन *n.* liquor copaibae et buchu cum cubeb
 गन्ध-मरिचक *n.* (शागीर, प्राणिकी) rhinencephalon
 गन्धमान *m.* olfactometer
 गन्ध-मिक्षिण्य *n.* (रसायन) thio-urethan
 गन्धमिति *f.* olfactometry
 गन्ध-मिह *m.* (रसायन) thio-urea
 गन्धमिह प्रोद-शुक्वीय *n.* thio-urea metho-sulphate
 गन्धरक्ती *f.* (रंगदेशना) thiorubine
 गन्धरासाय काल *m.* (रंगदेशना) thio-chem black
 गन्ध-रोम *n.* olfactory hair
 गन्धल *n.* sulphurosyl = thionyl
 गन्धल-तिक्ती *f.* thionyl-amine
 गन्धल नीरेय *n.* thionyl chloride
 गन्धव *m.* (रसायन) thiol
 गन्धव- (रसायन) thiol-
 गन्धव काल *m.* (रंगदेशना) thionol black
 गन्धव-दुग्धिक अम्ल *n.* (रसायन) thio-lactic acid
 गन्धवर्णजन *m.* (रंगदेशना) thio-

chromogene
 गन्धवल्क *m.* (भेषजिकी) Oliver's bark = oliveri cortex = black sassafras
 गन्धवल्क-निष्कर्ष *m.* tinctura oliveri corticis
 गन्धव-शुक्तिक अम्ल *n.* (रसायन) thio-acetic acid
 गन्धवा *f.* thiole
 गन्ध-विद्या *f.* olfactology
 गन्धवेन्य *n.* thiolene
 गन्धशाक *n.* rue
 गन्धशाक-प्रजाति *f.* (औदभिदी) Ruta
 गन्धशाकाणु *m.* thiobacteria = sulphur bacteria
 गन्ध-शुक्त-तिक्तेय *n.* (रसायन) thio-acet-amide
 गन्ध-शुक्त-नीलेय *n.* (रसायन) thio-acet-anilide
 गन्ध-शुक्तिक *mfn.* (रसायन) thio-acetic
 गन्ध-शुल्वायिक *mfn.* (रसायन) thio-sulphonic
 गन्ध-शुल्वारिक *mfn.* (रसायन) thio-sulphuric
 गन्ध-शुल्वीय *n.* (रसायन) thio-sulphate
 गन्ध-शेयास *m.* (रसायन) thio-resorcinol, thio-resorcin
 गन्ध-श्याम- (रसायन) thiocyan-, thiocyan-
 गन्ध-श्यामक *mfn.* (रसायन) thiocyan-
 गन्ध-श्यामजन *m.* (रसायन) thio-cyanogen
 गन्ध-श्यामिक *mfn.* (रसायन) thio-cyanic
 गन्ध-श्यामीय *n.* (रसायन) thio-cyanate
 गन्ध-श्यामेय *n.* (रसायन) thio-cyanide
 गन्ध-श्यामोपसी *f.* (रंगदेशना) thio-cyanosine
 गन्धसर्पतिक्ती *f.* (रसायन) thio-sinamine
 गन्ध-साम्यंगाजीवेय *n.* (रसायन) thio-semicarbazide
 -गंधसु (रसायन) -thial
 गंध-सुवियी *f.* (रसायन) thi-aldine
 गंध-सुव्युद *m.* (रसायन) thio-

aldehyde
 गंध-सुषव *m.* (रसायन) thio-alcohol
 गंध-स्यून *m.* (प्राणिकी) olfactory sac
 गंधहर *m.* deodorant
 गंधा- (रसायन) thion-, thiono-
 -गंधा (रसायन) -thione
 गंधासु *m.* (प्राणिकी) muskrat
 गंधाखेटिक *m.* pointer (dog)
 गंधाशिन्य *n.* (रसायन) thio-pyran
 गंधागन्यायी *f.* (रंगदेशना) thiopyro-nine
 गंधांगतिक्तेयिक *mfn.* (रसायन) thio-carbamic
 गंधांगनीलेय *n.* (रसायन) thiocarb-anilide
 गंधांगवितिकतेय *n.* (रसायन) thiocarbimide
 गंधांगारल *n.* (रसायन) thiocarbonyl
 गंधांगारल- (रसायन) thiocarbo-
 गंधांगारिक *mfn.* (रसायन) thio-carbonic
 गंधांगारीय *n.* (रसायन) thio-carbo-nate
 गंधाजव पीत *m.* (रंगदेशना) thiazol yellow
 गंधाजवा *f.* (रसायन) thiazole
 गंधाजवी *f.* (रसायन) thiazoline
 गन्धाजीवी *f.* (रसायन) thiazine
 गन्धांजनिक अम्ल *n.* (रसायन) thioanti-monic acid
 गन्धाजनित *n.* (रसायन) thioanti-monite
 गन्धांजनीय *n.* (रसायन) thioanti-monate
 गन्धाजन्य अम्ल *n.* (रसायन) thioanti-monious acid
 गन्धादाता (-त्) *m.* (प्राणिकी) olfacto-receptor
 गन्धा-धूपिक अम्ल *n.* (रसायन) thiono-benzoic acid
 गन्धानुसारी (-श्च) *m.* bloodhound
 गन्धापीनस आन्त्रवेत्राणु *m.* Escherichia foetida
 गन्धाम्ल *n.* sulphacid
 गन्धायन *n.* (रसायन) thionate *vb.*, thionation
 गन्धिक *mfn.* (रसायन) thionic
 -गन्धिक (रसायन) -thionic

गन्धिक अम्ल *n.* thionic acid
 गन्धी *f.* (रसायन) thionine
 -गन्धीन्य -thiane
 गन्धीय *n.* (रसायन) thionate
 -गन्धेन्य -thiene
 गन्धेन्यल *n.* (रसायन) thienyl
 गन्धेन्या *f.* (रसायन) thienone
 गन्धैल-साधित्र *n.* fusel oil apparatus
 गन्धोत्तरेण्य *n.* (रसायन) thio-naph-thene
 गन्धोत्तैलेन्य *n.* thiophthene
 गन्धोदजार- (रसायन) thiohydroxy-
 गन्धोदनालि *f.* (रसायन) thiohydantoin
 गन्धोदीय *n.* (रसायन) thiohydrate
 गन्ध्य *mfn.* thionous
 गभस्ति-लेखित्र *n.* radiograph (for measuring and recording solar radiation; गभस्ति sun-beam)
 गभीर *mfn.* deep
 गभीरता *f.* depth
 गभीरतापूर्वक *adv.* solemnly
 गभीरमुख-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Balantidium
 गभीर-समुद्र-मत्स्य *m.* deep-sea fish
 गमता *f.* (यान्त्रिकी) momentum
 गमता-एकक *n.* (गणित) unit of momentum
 गमता-परिवर्तन-अर्ध *m.* rate of change of momentum
 गमता-स्थिरता *f.* (भौतिकी) conservation of momentum
 गमन *n.* 1 (प्राणिकी) ambulation
 2 move *vb.* 3 pass *vb.*
 गमन-उपांग *n.* (प्राणिकी) ambulatory appendages
 गमन-पाद *m.* (प्राणिकी) walking leg
 ग. मा. (गत मास) ult. (ultimo)
 गम्भीर *mfn.* grave
 गम्भीर-अव्यवस्था *f.* grave disorder
 गम्भीर-कूत्तकुल्या *f.* canal in deep cutting
 गम्भीर दोल *m.* deep bucket
 गम्भीर विभ्रम *m.* (गणित) serious error
 गम्भीर-सद्यस्कृत्यता *f.* grave emergency
 गम्य-स्थान *n.* destination
 गरिमा (-मन्) *m.* dignity

गर्जन *n.* thunder
 गर्जन- bronto-, bront-
 गर्जन-भी *f.* brontophobia
 गर्जन-मान *m.* brontometer
 गर्जन-लिख *m.* bronto-graph
 गर्जन-लेख *m.* bronto-gram
 गर्जन-शास्त्र *n.* brontology
 गर्जर *n.* carrot
 गर्जरति = गर्जर प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Daucus
 गर्जर दण्डाणु *m.* Bacillus carotarium, Bacillus tumescens
 गर्जरमुग् दण्डाणु *m.* Bacillus carotivorous
 गर्जरवत् *mfn.* tapering = conical
 गर्जरि *f.* carotin
 गर्जरि-रक्तता *f.* (आयुर्विद्या) carotinemia
 गर्जरेण्य *n.* (रसायन) carotene
 गर्जयांभ *m.* (जीवरसायन) carotinoid
 गर्त *m.* 1 (शारीर) crypt, fovea
 2 pit
 गर्तकरण *n.* (औद्भिदी) pitting
 गर्तकी (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) retuse
 गर्तकी शणपट्ट *m.* Crotalaria retusa
 गर्तन, गर्त-भवन *n.* (औद्भिदी) pitting
 गर्ताणु *m.* (शारीर) acinus
 गर्ताणुमध्य-कोशा *f.* (शारीर) centro-acinar cell
 गर्तिका *f.* (प्राणिकी) lacunae
 गर्ती (-इन्) *mfn.* (औद्भिदी) emarginate, pitted
 गर्भगृह *n.* adytum
 गर्भधारण *n.* pregnancy
 गर्भपात *m.* (आयुर्विद्या) abortion, miscarriage (after the seventh month)
 गर्भपात अपिगोलाणु (शाकाण्विकी) Alcaligenes abortus = Brucella abortus = Bang's bacillus (cause of contagious abortion in cattle, etc.)
 गर्भपोष *m.* (आयुर्विद्या) placenta
 गर्भयुत *mfn.* gravid
 गर्भयुत जननखण्ड *m.* (प्राणिकी) gravid proglottid
 गर्भस्त्राव *m.* abortion (cf. गर्भपात miscarriage)
 गर्भस्त्रावि *f.* (भैषजिकी) abortin
 गर्भावधि *m.* gestation

गर्भावस्था *f.* pregnancy
 गर्भाशय *m.* uterus = womb
 गर्भाशय- (शारीर) utero- = utero-, uterine
 गर्भाशय-ग्रन्थि *m.* uterine gland
 गर्भाशय-चित्र *n.* (आयुर्विद्या) uterogram
 गर्भाशय-चित्रणा *f.* (आयुर्विद्या) uterography
 गर्भाशय-नाल *m.* uterine tube = Fallopian tube
 गर्भाशय-नालीय *mfn.* (आयुर्विद्या) uterotubal
 गर्भाशय-रन्ध्र *n.* uterine pore
 गर्भाशय-रोहिणी *f.* uterine artery
 गर्भाशय-विद्या *f.* uterology
 गर्भिणीभाव *m.* pregnancy
 गर्भित *mfn.* involved
 गल *m.* throat
 गलकम्बल *m.* dewlap
 गलगण्ड *m.* (आयुर्विद्या) goitre
 गल-ग्रंथि *m.* thyroid gland
 गलग्रन्थि-उदासर्ग *m.* thyroid secretion
 गलग्रन्थिकि *f.* (जीवरसायन) thyromine
 गलग्रन्थि-निस्सार *m.* (आयुर्विद्या) thyroid extract
 गलतिग्मि *f.* (जीवरसायन) thyroxine
 गलधानी *f.* (प्राणिकी) gular pouch
 गलन *n.* rot *vb.*
 गलपोषि *f.* (प्राणिकी) thyrotrophin
 गलमूल *n.* (भैषजिकी) rhatany root = krameria
 गलमूल-निष्कर्ष *m.* tincture of krameria = tinctura krameriae
 गलवाताम *n.* (शारीर) tonsil
 गलवातामकोप *m.* tonsillitis
 गल-वृत्ति *f.* throat practice
 गल-व्रण *m.* pharyngeal ulcer
 गलव्रणीय मालागोलाणु *m.* Streptococcus monomorphus
 गलशोफ *m.* (आयुर्विद्या) cervical angina
 गलशोफ कुन्तलाणु *m.* Spirochaeta vincenti
 गलशोफ विकुन्तलाणु *m.* Borrelia vincenti

गलशोफ सुकुन्तलाणु Treponema vincenti
 गलशोफीय दण्डाणु *m.* bacillus of scarlet fever
 गलित *mfn.* rot = rotten
 गलित पर्वणु *m.* (शाकाण्विकी) Bacillus zopfii = Kurthia zenkeri = Kurthia zopfii
 गलितालु शुक्लगोलाणु *m.* Micrococcus pflugeri
 गलितालु दण्डाणु *m.* bacillus of potato-rot
 गलेचूपुरोग halzoun
 गल्य चित्रसेवती *f.* (औद्भिदी) Althaea officinalis (marsh mallow)
 गल्यमूल *n.* (भैषजिकी) krameria = krameriae radix = krameria root = rhatany root
 गवल *m.* (प्राणिकी) bison
 गवाक्ष *m.* 1 circular window, oeil-de-boeuf, oval window
 2 (प्राणिकी) fenestra
 गवास्व-स्फोट दण्डाणु *m.* Bacillus aphthosus
 गव्य- (रसायन) capro- (caproic)
 गव्य-तापमान *m.* dairy thermometer
 गव्य-तिक्रिय *n.* (रसायन) caproamide
 गव्यल *n.* (रसायन) caproyl
 गव्य लवण *n.* dairy salt
 गव्य-शाला *f.* dairy, dairy farm, dairy house
 गव्यि *f.* (रसायन) caproin
 गव्यिक *mfn.* (रसायन) caproic = capronic
 गव्यिक अम्ल *n.* (रसायन) caproic acid
 गव्यीय *n.* (रसायन) caproate
 गव्योत्पादन *n.* dairy farming
 ग समन्वीक्षा *f.* (सांख्यिकी) C test
 गहन *n.* (शारीर) labyrinth
 गहन अनुसंधान *n.* (सांख्यिकी) intensive investigation
 गहन-कृषि *f.* intensive agriculture
 गहन-दर *m.* (औद्भिदी) tific (having a deep incision)
 गहन-धूमिका *f.* thick fog
 गह्वर *m.* locus

गहर-locular
 गहर-स्फोटना *f.* (औद्भिदी) loculicidal
 dehiscence
 गा (गावातु) Hf (hafnium)
 गा (वि. गा. व.) (भौतिकी) E (E.M.F.)
 (in practical units)
 गा (संभागान्तराल) (सांख्यिकी) h (class-
 interval)
 गाढ *mfn.* 1 deep 2 intimate
 गाढ अन्वायोजी (-इन्) *mfn.* closely
 fitting
 गाढ अभिरंजन *n.* deep stain
 गाढक *n.* canvas
 गाढता *f.* consistency
 गाढ संस्पर्श *m.* intimate contact
 गाध *mfn.* shallow
 गानस्वर *m.* note = musical note
 गान्ध *mfn.* (रसायन) thia
 गान्ध- thia-
 गान्धक *mfn.* (रसायन) thia
 गान्ध-द्वयजवा *f.* (रसायन) thia -
 diazole
 गान्धपीत गुच्छगोलाणु *m.* Micro-
 coccus ochroleucus
 गान्धिक *m.* perfumer
 गान्धिकी *f.* olfactology
 गाम *m.* (यान्त्र) cam
 गामक 1 *m.* motive 2 *mfn.*
 motive
 गामक बल *n.* motive force
 गामक-शक्ति *f.* motive power
 गामिकी *f.* mechanics
 गामेवा *f.* (यान्त्र) camshaft
 गाम्भीर्य *n.* depth
 गाम्भीर्यमान *m.* bathometer, bathy-
 meter
 गाम्भीर्य-मिति *f.* bathymetry
 गाम्भीर्य-मितीय bathymetric,
 bathymetrical
 गायत्री *f.* (रंगदेशना) catch
 गायत्री वस्त्रु *m.* catch brown
 गार्भाशयिकी *f.* uterology
 गार्हस्थ्य *n.* household
 गार्हस्थ्य-विज्ञान *n.* home economics=
 household economics
 गालि *f.* abuse, abusive language
 गालिदाता (-न्) *m.* abuser
 गावल *m.* (रसायन) hafnium
 गावातु *m.* (रसायन) hafnium
 गाहन *n.* dip

गाहन-भुजयनमान *m.* (रसायन) dip-
 ping refractometer
 गि (गतिक-ऊर्जा) (भौतिकी) T (kinetic
 energy)
 गिरि *m.* mountain
 गिरि-ताम्रकूट *n.* (भैषजिकी) arnica=
 arnica montana = leopard's
 bane = mountain tobacco
 गिरिताम्रकूट-निष्कर्ष *n.* tincture of
 arnica root = tinctura arnicae
 radiceis
 गिरिताम्रकूट-मूल *n.* (भैषजिकी) arni-
 cae radix = arnicae rhizoma =
 arnica rhizome = arnica root
 गिरि-धूपियास *m.* mountain balsam
 गिरिनगर *n.* (भूगोल) Girnar
 गिरि-पाटल *m.* mountain rose
 (Antigonon leptopus)
 गिरि-प्रभूलै *m.* sorbus = mountain
 ash
 गिरि-प्रभूर्जिक *mfn.* (रसायन) sorbic
 गिरि-प्रस्थ *m.* (भूगोल) tableland
 गिरि वस्त्रु *m.* (रंगदेशना) montana
 brown
 गिरि-युग *n.* (भूगोल) Permian
 period
 गिरि-शक *m.* (प्राणिकी) rock
 rabbit
 गिरिशकः *m.pl.* (प्राणिकी) Hy-
 racoidea
 गिरिशकः = गिरिशक-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) Hyrax = Procavia
 गिरि-सर्प *m.* rock cress
 गिरिसर्प-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Arabis
 गु (गुप्त ऊष्मा) L (latent heat)
 गु (गुर्वातु) (रसायन) Os (osmium)
 गु. (गुच्छिक) (रसायन) r. (racemic)
 गु. गो. (गुच्छ-गोलाणु) M. (Micro-
 coccus)
 गुग्गुलि = गुग्गुल-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Balsamodendron
 गुच्छ *m.* 1 bunch, clump, cluster
 2 (शाकाण्विकी) ganglion
 गुच्छगोलाणु (गु. गो.) *m.* (शाकाण्विकी)
 Micrococcus (M.)
 गुच्छवास *m.* bunchgrass
 गुच्छवास-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Stipa
 गुच्छ-पक्षाः *m. pl.* (प्राणिकी) Crosso-
 pterygii

गु छपुच्छ-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Nar-
 thecium = Abama
 गुच्छपुष्प-कुल *n.* (औद्भिदी) bunch-
 flower family = Melanthaceae
 गुच्छरूप *n.* (औद्भिदी) tufted
 habit
 गुच्छिक (गु.) *mfn.* (रसायन) race-
 mic (r.)
 गुच्छिक कर्पूर *m.* racemic camphor
 गुच्छीय *n.* (रसायन) racemate
 गुंजन-ज्वाला *f.* (ध्वानिकी) singing
 flame
 गुंजन-ध्वनि *m.* buzzing sound
 गुंजन् नाल *m.* (भौतिकी) singing
 tube
 गुज-प्रस्फोट *m.* (तेजोन्वेष) buzz
 bombs = robot-bombs
 गुंजा *f.* (भैषजिकी) abrus = abri
 semina = jequirity = jumble
 beads = prayer beads
 गुजाक्षिकोप दण्डाणु *m.* bacillus of
 jequirity ophthalmia
 गुंजाति = गुंजा-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Abrus
 गुंजाबीज *n.* (भैषजिकी) abrus = abri
 semina = jequirity = jumble
 beads = prayer beads
 गुंजि *f.* (जीवरसायन) abrin
 गुटिका *f.* 1 bead 2 (भैषजिकी)
 pill = pilula
 गुटिका-नाल *m.* (रसायन) Hempel
 tube
 गुटिका-वंश *m.* Hempel column
 गुटी *f.* ball
 गुटीगुंज *m.* (प्राणिकी) morula =
 polyplast
 गुटी-भार *m.* (यान्त्र) ball bearing
 गुड *m.* jaggery
 गुडताल *m.* (औद्भिदी) jaggery
 palm
 गुडतालति = गुडताल-प्रजाति *f.* Caryota
 गुडरवक् *f.* cinnamon
 गुडधु *n.* gulose
 गुडाधिक *mfn.* (रसायन) gulonic
 गुडूची *f.* gulancha
 गुडूची-कुल *n.* (औद्भिदी) Menispermaceae
 गुडूचीति = गुडूची-प्रजाति *f.* (औद्भिदी).
 Tinospora

गुडूची-निष्कर्ष *m.* tinctura gulan-
cha
गुण 1 *m.* attribute, character,
qualification, quality
2 (रसायन) property 3 (औदभिदी)
strand (fibre) 4 twine
-गुण -fold, -ploid
गुणक *m.* (गणित) coefficient
= multiplier
-गुणता *f.* (प्राणिकी) -ploidy
गुणन *n.* (गणित) multiplication,
multiply
गुणन-खण्ड *m.* (गणित) factor of
multiplication
गुणन-चिह्न *n.* sign of multiplica-
tion
गुणनपूर्व *m.* schizont
गुणनप्रवस्था *f.* (प्राणिकी) multipli-
cative phase
गुणनफल *n.* (गणित) product
गुणन-सारणी *f.* (गणित) multiplica-
tion table
गुणना *f.* (गणित) product
गुण-निदर्शन *n.* sampling of attri-
butes
गुण-वृथक्करण *n.* segregation of
characters
गुणवाचक *mfn.* (तर्कशास्त्र) abstract
गुणवाचि पद *n.* (तर्कशास्त्र) abstract
term
गुणवाची (-इन्) *mfn.* abstract
गुण-विभाजन *n.* (तर्कशास्त्र) meta-
physical analysis
गुण-समंक *n.* statistics of attri-
butes
गुण-सम्बन्ध *m.* association of attri-
butes
गुणसादृश्य *n.* (तर्कशास्त्र) analogy
गुणात्मक *mfn.* qualitative
गुणात्मक वण्टन *n.* (अर्थशास्त्र) qualita-
tive distribution
गुणात्मक विभेदन *n.* (प्राणिकी) quali-
tative variation
गुणानुसार वर्गीकरण *n.* (सांख्यिकी)
classification according to
attributes
गुणार्थ *m.* (तर्कशास्त्र) connotation
गुणार्थक *mfn.* (तर्कशास्त्र) connotative
-गुणावस्था *f.* (प्राणिकी) -ploidy
गुणित (गणित) 1 *n.* multiple

2 into
गुणोत्कृष्ट *mfn.* meritorious
गुणोत्तर अनन्त श्रेढी *f.* infinite
geometric series
गुणोत्तर मध्यक *n.* geometric mean
गुणोत्तर माध्य *n.* geometric
average
गुणोत्तर-श्रेढी *f.* (गणित) geometric
progression
गुण्य *n.* (गणित) multiplicand
गुद *m.* (शारीर) rectum
गुद- (प्राणिकी) anal, podical
गुद-क्लोम *n.* (प्राणिकी) rectal gill
गुद-खण्ड *m.* anal segment
गुदग्रंथि *m.* (प्राणिकी) coccygeal
gland
गुद-द्वार *n.* (शारीर) anus = anal
aperture
गुद-नाडी *f.* anal vein
गुद-पट्ट *m.* podical plates
गुद-पुच्छिका *f.* anal cerci
गुद-पेशीवलय *m.* orbicularis ani
गुद-प्रक्षेप *m.* (प्राणिकी) gon-
apophyuis
गुद-प्रतान *m.* (प्राणिकी) hemorrhoi-
dal plexus
गुद-प्रदेश *m.* (शारीर) anal spot
गुदप्रदेश *m.* (प्राणिकी) podex
गुदयुज *m.* (भौणिकी) mesorectum
गुद-रोहिणी *f.* haemorrhoidal arte-
ries, hemorrhoidal arteries
गुद-वलय *m.* (शारीर) anal segment
गुदव्रणीय दण्डाणु *m.* Bacillus
influenzae similis
गुदा वातिवेत्राणु *m.* Aerobacter
cloacae = Bacillus cloacae
गुदास्थि- (आयुर्विद्या) coccygo-,
coccyg-
गुदास्थि *n.* (शारीर) coccyx
गुदास्थि- coccygeo-
गुदास्थिक *mfn.* (शारीर) coccygeal
गुदास्थि-चेना *f.* (प्राणिकी) coccygeal
nerve
गुदेक्ष *m.* (आयुर्विद्या) proctoscope
गुप्त *mfn.* 1 confidential
2 latent, potential
गुप्त- crypt-, crypto-
गुप्त ऊष्मा (-मन्) *m.* latent heat
गुप्तगोलति = गुप्तगोल-प्रजाति *f.* Crypto-
coccus

गुप्तचर-विभाग *m.* C.I.D.
गुप्त-पदचनभिता *f.* (चाक्षुषी) latent
hypermetropia
गुप्त-वार्ता *f.* intelligence
गुप्तवार्ता-विभाग *m.* intelligence
bureau or department
गुप्त-शुष्मेल *n.* (रसायन) hemo-
pyrrole = crypto-pyrrole
गुप्तश्यामी *f.* (भा-चित्रणा) krypto-
cyanine
गुप्ताक्षिकर्ण-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Amphis-
baena
गुप्ताक्षिकर्ण-वंश *m.* (प्राणिकी) Amphis-
baenidae
गुप्तांग-रोग *m.* venereal disease
गुप्तांडाशय *m.* (प्राणिकी) Bidder's
organ
गुप्तादिफेनी *f.* (रसायन) cryptopine
गुरु 1 *mfn.* grave 2 *adv.* (अभियंत्रणा)
heavily 3 *mfn.* heavy
4 (भैषजिकी) heavy = ponderosa
5 *m.* preceptor
गुरु- (रसायन) osmio- (osmium)
गुरु-उद्रेखित *mfn.* (अभियंत्रणा) drawn
heavily
गुरु कर्पूर तैल *n.* heavy camphor
oil
गुरुगन्ध *m.* (औदभिदी, भैषजिकी) baro-
sma = buchu = buchu folia
= buchu leaves
गुरुगन्ध-कर्पूर *m.* (रसायन) bucco cam-
phor
गुरुगन्ध-निष्कर्ष *m.* tincture of
buchu = tinctura buchu
गुरुघनातु *m.* (खानिजी) osmiridium
गुरुतया *adv.* (अभियंत्रणा) heavily
गुरुतया उद्रेखित *mfn.* (अभियंत्रणा)
drawn heavily
गुरुता *f.* heaviness
गुरु तैल *n.* heavy oil
गुरुत्व *n.* consequence, impor-
tance
गुरु-त्वक्षा *f.* heavy cork
गुरु धातु *m.* heavy metal
गुरु-धातविया *f.* heavy spar
गुरु-धारिता तुला *f.* heavy capacity
balance
गुरु-प्रस्फोटक *m.* heavy bomber
गुरु-भा-वेग-रीति *f.* Romer's method
गुरु-भ्राजा *f.* (भैषजिकी, रसायन)

heavy magnesia = magnesia ponderosa
 गुरु रासायन *n.* heavy chemicals
 गुरु-शतघ्नी *f.* (सेना) heavy gun
 गुरु-श्वेत-भ्राजा *f.* (भैषजिकी) magnesia alba ponderosa
 गुर्य *mfn.* (रसायन) osmium
 गुर्य- (रसायन) osmo- (osmious)
 गुर्वर्थे *mfn.* important
 गुर्वति *m.* (रसायन) osmium
 गुर्वति जारेय *n.* (रसायन) osmium oxide
 गुर्विक *mfn.* (रसायन) osmic
 गुर्विकरञ्ज *mfn.* (प्राणिकी) osmiophil = osmiophile (that which is readily stained by osmic acid)
 गुलिका *f.* pellet
 गुल्फ *m.* ankle = tarsus
 गुल्फाग्र *n.* (प्राणिकी) pretarsus
 गुल्म *m.* 1 cluster 2 company
 गुल्मक *m.* (सेना) platoon
 गुल्म-पति *m.* (सेना) platoon commander
 गुवाकवी *f.* guvacoline
 गुवाकी *f.* guvacine
 गुहा *f.* (शारीर, प्राणिकी) 1 cavity = ventricle, sac, -coele 2 (यान्त्र) recess
 गुहा-क्षौद्र *m.* (भैषजिकी) araroba = Goa powder
 गुहाङ्गक *n.* (प्राणिकी) tentaculocyst
 गुहान्तरद्वार *n.* (प्राणिकी) interventricular foramen
 गुहारुध *m.* (औद्भिदी) tylosis
 गुहा-न्याग्र *m.* (प्राणिकी) cave tiger
 गुहा-संहति *f.* (शारीर) ventricular system
 गुह्य *mfn.* secret
 गुह्यता *f.* secrecy
 गुह्य वचन *n.* (सेना) pass-word
 गुह्य-संचिति *f.* secret reserves
 गुह्येन्द्रिय *n.* odd places
 गूढ *mfn.* secret
 गूढ- *m.* cypher
 गूढता *f.* secrecy
 गूढता-शपथ *m.* oath of secrecy
 गूढ दूरलेख *m.* cypher telegram
 गूर्ध्वचनखर *mfn.* (औद्भिदी) caryophyllaceous

गूढ-पत्र *n.* ballot paper
 गूढपत्र-धान *n.* ballot box
 गूढमत *n.* ballot, secret vote
 गूढमतदान *n.* ballot, vote by ballot = secret ballot
 गूढमतपत्र *n.* ballot, ballot paper
 गूढयोनि-वंश *m.* Hymenolepididae
 गूढयोन्वाति = गूढयोनि-प्रजाति *f.* Hymenolepis
 गूढलेख *m.* cipher, cypher, secret writing
 गूढलेख-पद्धति, गूढलेख-संहिता *f.* cipher code, cypher code
 गूढवृषणता *f.* (आयुर्विद्या) cryptorchidism = cryptorchidism
 गूढशालाका *f.* secret ballot
 गूढ-शालाका द्वारा मतदान *n.* voting by secret ballot
 गूढ सम्मिलन *n.* secret caucus
 गूथ *m.* faeces
 गूथ-क्षूप *m.* cess-pool
 गूध्र *m.* vulture
 गृह *n.* 1 building 2 home, house 3 (वाणिज्य) house
 गृह- *mfn.* domestic
 गृह-कपोत *m.* (प्राणिकी) domestic pigeon
 गृह-कर *m.* house tax
 गृह-कुक्कुट *m.* (प्राणिकी) domestic fowl
 गृह-कुक्कुर *m.* domestic dog = Canis familiaris, house dog
 गृहगामी कपोत *m.* (प्राणिकी) homing pigeon
 गृह-गोधिका *f.* (प्राणिकी) house-lizard
 गृहगोधिका-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Calotes
 गृह-चटक *m.* (प्राणिकी) house sparrow
 गृह-दिल्लीक Gryllus domesticus = house cricket
 गृह-तुल्य *f.* domestic scale
 गृह-नियन्त्रण *n.* regulation of buildings
 गृह-निर्माण-समिति *f.* house building society
 गृह-भाटक *m.* house rent
 गृह-मक्षी *f.* housefly, Musca domestica
 गृह मशक *m.* Culex fatigans = Culex quinquefasciatus

गृह-युद्ध *n.* civil war
 गृह-रक्षी (-इन्) *m.* (सेना) home guard
 गृह-रक्षा *f.* (प्राणिकी) house spider
 गृह-व्यवस्था *f.* house accommodation
 गृह-शल्यचिकित्सक *m.* house surgeon
 गृह-संयुजा *f.* (विद्युत्) house connection
 गृह-संयुजा-पंजी *f.* house connection register
 गृहाग्रणी *m.* floor leader
 गृहेतिष्ठ-आदेश *m.* curfew order
 गृह्य *mfn.* domestic
 गृह्य अर्थप्रबन्ध *m.*, गृह्य-अर्थव्यवस्था *f.* domestic economy
 गृह्य अर्थशास्त्र *n.* domestic economics
 गृह्य उत्तुल्य *f.* balance
 गृह्य कुक्कुर *m.* (प्राणिकी) Canis familiaris = domestic dog
 गृह्य-पद्धति *f.* domestic system
 गृह्य पशु *m.* domestic animal
 गृह्य मधुमक्ष *m.* Glyciphagus domesticus
 गृह्य स्रुगर *m.* hog, swine (domestic hog)
 गृह्यान्नपक्षी (-इन्) *m.* poultry
 गेन्दुक *n.* (भैषजिकी) calendula = marigold = marigold flowers
 गेन्दुकति = गेन्दुक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Tagetes
 गेन्दुक-निष्कर्ष *m.* tincture of calendula = tinctura calendulae
 गैरिक *n.* ocher, ochre
 गो (गोणी) ewt.
 गो (गोमेदातु) (रसायन) Zr (zirconium)
 गोकालमेह रदाणु *m.* Clostridium hemolyticum
 गो-डोमपाक किरणदण्डाणु *m.* (शाकाण्विकी) Actino-bacillus actinoides
 गोडोमपाक दण्डाणु *m.* Bacillus pneumoniae liquefaciens
 गोकुधर *m.* gokhru
 गोकुधर-कुल *n.* (औद्भिदी) Zygophyllaceae
 गोकुधरति = गोकुधर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Tribulus
 गोयन्धि किरणदण्डाणु *m.* (शाकाण्विकी)

Actino-bacillus lignioresi
 गो-अन्थि दण्डणु *m.* bacillus of
 Guadeloupe cattle-farcy
 गोचर *m.* 1 pasture 2 purview
 ३ (गणित, भौतिकी) range
 गोचर-प्रदोलेक्ष *m.* (तेजोन्वेष) range-
 oscilloscope
 गोचरान्वेषण *n.* (तेजोन्वेष) ranging
 गोचरान्वेषण तथा उपलम्भन *n.* ranging
 and detection
 गोचिचिद-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Marga-
 ropus
 गो-चूपशिर *m.* Taenia saginata
 गोचारेविज *m.* baddeleyite
 गोजिहाति = गोजिहा-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Elephantopus
 गोजिहाणुता दिग्नेत्राणु *m.* Flavo-
 bacterium morbiicans
 (found in bovine septicemia)
 गोज्वर *m.* cattle fever
 गोज्वर रक्तजीव *n.* (प्राणिकी) Babesia
 bigemina = Pioplasma bige-
 minum
 गोणी (गो.) *f.* hundredweight
 (cwt.)
 गो-तरस्त्रेय *n.* (रसायन) zirco-fluo-
 ride
 गोत्र *n.* 1 clan २ (औद्भिदी)
 order
 गोथिका *f.* (प्राणिकी) lizard
 गोथिकानुगम *m.* (प्राणिकी) Autosauri
 = Autosauria = Lacertilia
 गोधूम *m.* wheat
 गोधूमति = गोधूम-प्रजाति *f.* (औद्भिदी)
 Triticum
 गोधूम-धान्य *n.* wheat grain
 गोधूम-अणु *n.* (औद्भिदी) wheat
 embryo
 गोधूम-अणु-तैल *n.* wheat germ oil
 गोधूम युक्तम *m.* Pediculoides
 ventricosus
 गोप-protector
 गोपकवचन *n.* (भूगोल) Goa
 गोपनीय *mfn.* confidential
 गोप-प्रव्याजि *m.* insurance pre-
 mium
 गोप-राष्ट्र *n.* (भूगोल) Southern
 Konkan
 गोपलेख *m.* policy
 गोपलेख-ऋण *n.* policy loan

गोपलेख-धारी (-इन्) *m.* policy
 holder
 गोपलेख-अंश *m.* lapse of
 policy
 गोपलेख-वर्ष *m.* policy year
 गोपलेख-व्यपगम *m.* lapse of
 policy
 गोपाद्रि *m.* (भूगोल) Gwalior
 गोपुच्छाकार *mfn.* tapering=conical
 गोमक्षी *f.* gadfly = horsefly
 गोमती *f.* (भूगोल) Gumti
 गोमय कवक-त्रेत्राणु *m.* Mycobacte-
 rium stercoris=mist bacillus
 गोमय दण्डाणु *m.* Bacillus boocopri-
 cus
 गोमसूरिका *f.* (आयुर्विद्या) cowpox =
 vaccinia
 गोमांस पट्टरुमि *m.* beef-tapeworm =
 fat-tapeworm
 गोमांस-रनेह *m.* beef fat
 गो मालागोलाणु *m.* Streptococcus
 bovis
 गोमूत्र-चित्र *n.* (सांख्यिकी) z or zee
 गोमेद *m.* zircon
 गोनेद- (रसायन) zircono- (zirco-
 nium)
 गोमेदजा *f.* (रसायन) zirconia
 गोमेद-तरस्त्रेय *n.* (रसायन) zirconi-
 fluoride
 गोमेद-भर *mfn.* zirconi-ferous
 गोमेदल *n.* (रसायन) zirconyl
 गोमेदातु *m.* (रसायन) zirconium
 गोमेदिक *mfn.* (रसायन) zirconic
 गोमेदिज *m.* zircite
 गोमेदीव *n.* (रसायन) zirconate
 गोयक्ष्म कवक-त्रेत्राणु *m.* Mycobac-
 terium bovis
 गोरक्त दण्डाणु *m.* Bacillus sessilis
 गोरजिज *m.* oliveiraite
 गोरद 1 *n.* (चाक्षुषी) cortex 2 pulp
 गोरद-गुहा *f.* (प्राणिकी) pulp cavity
 गोरदनय *m.* pulpy
 गोरदनय अक्ष *m.* (औद्भिदी) fleshy
 axis
 गोल *m.* 1 ball 2 bomb ३ sphere
 4 *mfn.* cylindrical, globular,
 round, rounded, spherical
 गोल- sphero-
 गोलक *m.* 1 globe २ (चाक्षुषी)

spherule
 गोलक-विवरी *f.* ball tap
 गोलकिरणिज *m.* urano-sphaerite
 गोल-कुसुम *n.* globe-flower
 गोल कोण *m.* round corner
 गोल-कोशा *f.* (शाकाण्विकी) coccus
 गोल-कोशावान् (-वत्) *mfn.* round-
 celled
 गोलक्षेप *m.* bombardment
 गोलक्षेपण *n.* bomb *vb.*, bombard-
 bombardment
 गोलछिन्न *mfn.* (औद्भिदी) crenate
 गोल-छिन्नक *n.* frustum of a sphere
 गोल्द्वमान *m.* (भौतिकी) spher-
 o-meter
 गोलन *n.* (सिना) fire
 गोलपग मृदुपत्र *m.* (औद्भिदी) country
 mallow = Malva rotundifolia
 गोल प्रतिस्वनक *m.* (भौतिकी) Helm-
 holtz resonator
 गोल-बुधन *mfn.* round-bottomed
 गोलबुधन पल्लिष *m.* round-bottomed
 flask
 गोल अमाप्य *m.* Volvox globator
 गोल मत्कुण *m.* Cimex rotundatus
 = Acanthia rotundata
 गोलमत्स्य *m.* (प्राणिकी) balloon
 fish = globe fish = puffer
 गोल-रम्भीय *mfn.* sphero-cylin-
 drical
 गोल रेखक *m.* round ruler
 गोलवाय *m.* geometric spider =
 orb-weaver
 गोलवायाः *m.pl.* (प्राणिकी) Aranea
 गोलवायाति = गोलवाय-प्रजाति *f.*
 (प्राणिकी) Aranea
 गोल-शीर्ष *mfn.* round-topped
 गोल-शीर्ष त्रिपाद *m.* round-topped
 tripod
 गोल-सन्धि *m.* spheroid joint
 गोलस्तम्भ *m.* (औद्भिदी) cylin-
 drical stem
 गोलकार *mfn.* spherical
 गोलकार संवनक *m.* (भौतिकी)
 spherical condenser
 गोलक्षि *n.* (प्राणिकी) globular eye
 गोलान्त-अंकनी *f.* round-pointed
 pencil
 गोलण्डः *m.pl.* (शाकाण्विकी) Cocci
 गोलणु *m.* Coccus

गोलाणु-कुल *n.* (शाकाण्विकी) Cocca-
ceae
गोलाणुप्राणी (-इन्) *m.* (प्राणिकी)
globe animalcule = Volvox
perglobator = rolling alga
गोलाह उपनेत्र *n.* (चाक्षुषी) round
oval glasses
गोलाभ 1 *m.* (भौतिकी) spheroid
2 *mfn.* (भातिकी) spheroidal
गोलाभ पुंज *m.* (प्राणिकी) spheroidal
clump
गोलाभिवार *m.* parentheses =
round brackets
गोलाभीय *mfn.* (भौतिकी) spheroidal
गोलार्ध *m.* (प्राणिकी) hemisphere
गोलाविषय वीक्ष *m.* (चाक्षुषी) aplanatic
lens
गोलाशय भूच्यामली *f.* (औद्भिदी)
Phyllanthus cyclanthera
गोलाश्रि *m.* round corner
गोलास्तर *m.* bulbar conjunctiva
गोलिका *f.* 1 globule 2 shot
गोलिकापात *m.* (सेना) fall of bullet
गोलिज *m.* sphaerite
गोली *f.* bullet
गोलीकोश *m.* cartridge
गोलीय *mfn.* spherical
गोलीय खण्ड *m.* (गणित) segment
of a sphere
गोलीय छेद *m.* (गणित) section of
a sphere
गोलोपचेत्र *n.* round glasses
गो-वसा *f.* beef fat
गोवृक्ककोष दण्डाणु *m.* Bacillus pye-
lonephritidis bovis
गोवृक्क दण्डाणु *m.* Bacillus renalis
bovis
गोवृक्क मुद्गराणु *m.* Coryne-
bacterium renale
गो ब्रज *m.* cattle pen
गोश्रृंग-पर्वत *m.* (भूगोल) Koh-Mari
(in E. Turkistan)
गोष्ठीक्षणसुख *m.* Stomoxys cal-
citrans = stable fly
गोष्ठ-मक्षी *f.* stable fly
गोष्ठी *f.*, गोष्ठीगृह *n.* club
गोस्तनकोष गुच्छगोलाणु *m.* Micro-
coccus mastitidis
गोस्तनकोष दण्डाणु *m.* bacillus of
Guillebeau

गोह *m.* pocket
गोह-तापमान *m.* pocket thermo-
meter
गोह तैलद *m.* pocket oiler
गोह-स्वज *m.* pocket clip
गोहाकार *mfn.* pocket-shaped
गोच्छ-भूयिल *m.* (रसायन) pyruvo-
nitrile
गौच्छल *n.* (रसायन) pyruvyl
गौच्छसुव्युद *m.* (रसायन) pyruv-
aldehyde
गौच्छिक अम्ल *n.* (रसायन) pyruvic
acid
गौच्छिल *m.* (रसायन) pyruvil
गौच्छीय *n.* (रसायन) pyruvate
गौण *mfn.* ancillary, minor,
secondary, subsidiary
गौण अक्ष *m.* 1 (गणित) minor axis
2 (काशिकी) secondary axis
गौण-उक्ति *f.* side observation
गौण कारण *n.* causa secunda
गौण-पुत्री *f.* (अर्थशास्त्र) secondary
capital
गौण-प्रतिक्रिया *f.* side reaction
गौणरूपेण *adv.* secondarily
गौण लैंगिक लक्षण *n.* (जैविकी) secon-
dary sex character
गौण वक्र *n.* minor curve
गौण विचार *m.* side observation
गौण-विद्युत् *f.* (भूसेचन) secondary
power
गौण शीर्षक *n.* minor head
गौण ससर्ग *m.* secondary infection
गौरव *n.* dignity
गौरीशिखर *m.* (भूगोल) Everest
गौल-प्रवृत्तनामिता *f.* (गौल as opposed
to आक्ष) curvature hyper-
metropia
ग्रथ *m.* (रसायन) link = linkage,
union, bond
ग्रथन *n.* 1 liaison 2 (रसायन)
link
ग्र. नारंग *m.* Grella orange
ग्रन्थ *m.* volume
ग्रन्थकर्ता (-त्) *m.* author
ग्रन्थखण्ड *m.* volume
ग्रन्था *f.* (औद्भिदी) node, nodule
ग्रन्थामय मूल *n.* (औद्भिदी) nodulose
root
ग्रन्थि *m.* 1 bale 2 (शारीर) gland

= node
ग्रन्थि- aden-, adeno-
ग्रन्थि-अर्बुद *m.* adenoma
ग्रन्थिका *f.* (शारीर) nodule
ग्रन्थिकेसर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Adeno-
stemma
ग्रन्थि-कोशा *f.* (प्राणिकी) glandular
cell
ग्रन्थि-तिस्सार *m.* gland extract
ग्रन्थिवल्य *n.* glandotone
ग्रन्थिवल्य संयोग *m.* (भैषजिकी) glando-
tone compound
ग्रन्थिमय चूपक *m.* (प्राणिकी) glandular
sucker
ग्रन्थिमय-नालिका *f.* (प्राणिकी) glandu-
lar tubule
ग्रन्थि-मारी *f.* (रसायन) bubonic
plague
ग्रन्थि-मूल *n.* (औद्भिदी) figwort
ग्रन्थिमूल-कुल *n.* (औद्भिदी) Scrophu-
lariaceae (herbs with knotty
roots)
ग्रन्थिमूल-प्रजाति *f.* Scrophularia
ग्रन्थि-शाक *m.* (औद्भिदी) knol-khol
= turnip cabbage
ग्रन्थि-संयोग *m.* (भैषजिकी) glandular
compounds
ग्रन्थ्याशयति = ग्रन्थ्याशय-प्रजाति *f.*
(औद्भिदी) Adenanthaera
ग्र. पीत *m.* Grella yellow
ग्रम -grip
ग्र. रक्त *m.* Grella orange
ग्रसनी *f.* (शारीर) pharynx
ग्रसनी- (शारीर) pharyng-, pha-
ryngo-, pharyngeal
ग्रसनी-अन्तःस्तर *m.* (प्राणिकी) pharyn-
geal endoderm
ग्रसनी-उत्सर्ग-नालिका *f.* pharyngeal
nephridium
ग्रसनी-उत्सर्ग *n.* (प्राणिकी) pharyn-
geal nephridia
ग्रसनी-ककाल *m.* (प्राणिकी) visceral
skeleton
ग्रसनी-कन्द *m.* (प्राणिकी) pharyngeal
bulb
ग्रसनी-कोष *m.* (आयुर्विद्या) pharyn-
gitis
ग्रसनीक्ष *m.* (आयुर्विद्या) pharyngo-
scope
ग्रसनी-चाप *m.* (प्राणिकी) branchial

= branchial vessel, bran-
chial arch, visceral arch
प्रसनी दण्डाणु *m.* Bacillus facul-
tatus
प्रसनी-दर (प्रसनी-चाप-दर) *m.* visce-
ral cleft
प्रसनी-धान *n.* visceral pouches
प्रसनी-निधाय *m.* pharyngeal shelf
प्रसनी-पुंज *m.* pharyngeal mass
प्रसनी-विद्या *f.* pharyngology
प्रसन्धुपरि *mfn.* (प्राणिकी) supra-
pharyngeal
प्रस्त *mfn.* affected
ग्रह *m.* 1 planet 2 receptacle
ग्रहण *n.* 1 admission, admit
2 catch, take 3 entertain,
hold 4 intake
-ग्रहण accede
ग्रहणाधिकार *m.* (विधि) general lien,
lien
ग्रहणी *f.* (शारीर) duodenum
ग्रहवत् *mfn.* (भौतिकी) planetary
ग्रहवत् परमाणु *m.* Bohr-Rutherford
atom, planetary atom
ग्रहवद् विद्युद्दणु *m.* planetary
electron
ग्रहीय *mfn.* planetary
ग्राभ *m.* (आत्मवह) clutch
ग्राभ-पट्ट *m.* clutch plate
ग्राभ-पादक *m.* clutch pedal
ग्राभ-स्थाप *m.* clutch housing
ग्राम *m.* village
ग्राम- rural
ग्राम-अधिकोप *m.* (अर्थशास्त्र) rural
bank
ग्राम-अर्थशास्त्र *n.* rural economics
ग्राम-आपरीक्षण *n.* (अर्थशास्त्र) village
survey
ग्राम-ऋण *n.* rural credit
ग्राम-कारण्ड *m.* (प्राणिकी) domestic
duck

ग्राम-कुक्कुट *m.* (प्राणिकी) domestic
fowl
ग्राम-चटक *m.* (प्राणिकी) house
sparrow
ग्राम-जीवन *n.* rural life
ग्रामणी *m.* village headman
ग्राम-त्याग *m.* (अर्थशास्त्र) rural oxi-
dus
ग्राम-पथदर्शक *m.* village guide
ग्राम-पुनर्निर्माण *n.* rural reconstruc-
tion
ग्राम-प्रत्यय-समिति *f.* (अर्थशास्त्र) rural
credit society
ग्राम-प्रशासन *n.* village adminis-
tration
ग्राम-मापन *n.* (अर्थशास्त्र) village
survey
ग्राम-विकास *m.* rural development
ग्राम-विकास-पार्पद् *f.* rural develop-
ment association
ग्राम-विपणि *f.* village market
ग्राम-वैद्य *m.* village practitioner
ग्राम-समाज *m.* rural society
ग्राम-समुदाय *m.* village community
ग्राम-स्थान, ग्रामास्थान *n.* rural site
ग्रामोद्धार *m.* rural uplift
ग्रामोद्योग *m.* (अर्थशास्त्र) village
industry
ग्राम्य *mfn.* rural
ग्रानिकी *f.* pharyngology
ग्राह *m.* shark
ग्राहक *m.* 1 customer 2 seizer
ग्राहक-पुस्तिका *f.* (वाणिज्य) pass-book
ग्राहक-प्रपञ्जी *f.* customer's ledger
ग्राहक-हस्तलेख *m.* (वाणिज्य) custo-
mer's handwriting
ग्राहिका *f.* chelicerae (they are
small and are helpful in
holding the prey)
ग्राह्य *mfn.* 1 eligible 2 admis-
sible

ग्राह्यता *f.* admissibility, eligi-
bility
ग्राह्य-विपत्र *n.* (अर्थशास्त्र) (ग्राह्य for
विधि-ग्राह्य) eligible bill
ग्रीण्यापिपित *m.* (रगदेशाना) grelanone
yellow
-ग्रीव nocked
ग्रीवा *f.* (शारीर) cervix, neck
ग्रीवा-कुल्या-नोशा *f.* (औद्भिदी) neck
canal coll
ग्रीवा-कोशा *f.* (औद्भिदी) neck cells
ग्रीवा-पट्ट *m.* neck-plate
ग्रीवा-प्रदेश *m.* (प्राणिकी) centromere
ग्रीष्म-सुप्ति *f.* (प्राणिकी) summer
sleep
ग्रीष्म-स्वपन *n.* (प्राणिकी) aestiva-
tion
ग्रीष्म-हास *m.* (औद्भिदी) flocculent
seed
ग्रीष्मातिसार *m.* summer diarrhoea
ग्रैव *mfn.* (शारीर) cervical, carotic
= carotid
ग्रैव- cervico-, cervic-
ग्रैव ग्रन्थि *m.* carotid gland
ग्रैव त्रिकोण *n.* (शारीर) cervical
triangles
ग्रैवदेहीय *mfn.* (प्राणिकी) carotic-
systemic
ग्रैव पर्शु *m.* (शारीर) cervical rib
ग्रैव-रोहिणी = ग्रैवी (शारीर) carotid
artery = carotid
ग्रैवी युचा *f.* (प्राणिकी) ductus caro-
ticus
ग्रैवेय *n.* collar
ग्रैवेयक *n.* (प्राणिकी) choana
ग्रैवेयकोशा *f.* choanocyte
ग्रैवेयकोशि-स्तर *m.* (प्राणिकी) choano-
some
ग्रैवेय-कोशी *m.* (प्राणिकी) choano-
some

घ

घ (घन) cu
घ (घनता) d, ρ (rho)
घ (घनातु) Ir (iridium)
घ (घाताक) e. (exponential

function) ~
घ (घघात) (सांख्यिकी) μ (moment)
घ अम्ल *n.* D acid
घच्छेदा *f.* (गणित) (घ = transcen-

dental e) Napierian loga-
rithm
घट *m.* pot
-घट (जैविकी) -blast = -plast,

-plasm = -plasma
घट-आसोत्र *n.* pot still
घटक *m.* clock
-घटक -plastic
घटक-काच *m.* clock-glass
घटक-सूची *f.* hand of a clock
घटक-स्कंद *m.* spring of a clock
घटचयन-विधा *f.* Dutch process =
stack process
-घटता *f.* -plasmic
घटन *n.* plastidium = plastid
-घटन -plasia, -plasis, -plasy,
-plasm, -plasma, -plast =
-blast, -plastid
घटनक *n.* (जैविकी) plastidule
घटनता *f.* (जैविकी) plastidome
घटना *f.* 1 case 2 event, fact,
incident, phenomenon
-घटना -plasty (act or process
of forming, development, or
growth)
-घटनीय -plastic (-घटना -plasty)
घटाकार *mfn.* (औद्भिदी) urceolate
घटिका *f.* watch
घटी *f.* clock, watch
घटी-काच *m.* watch-glass
घटी-काच-संघर्ष *m.* watch glass
clamp
घटी-तापमान *m.* dial thermometer
घटी-फलक *n.* (आत्मबह) dashboard
= instrument board
-घटीय -plasmic
-घटीय -plastic
घटीवत् *adv.* clockwise
घटी-स्कंद *m.* watch spring
घट्ट-सड़ *m.* (आत्मबह) bumper
घट्यनीक *n.* dial
घण्ट *m.* hour
घण्ट-सूची *f.* hour hand
घंटा *f.* 1 bell 2 period
घंटा-कलश *m.* bell jar
घंटाकार *mfn.* campanulate = bell-
shaped
घण्टाकार-विम्ब *m.* (प्राणिकी) campa-
nulate disc
घंटाकार माप *m.* bell-shaped
measure
घंटाकार वक्र *n.* (सांख्यिकी) bell-
shaped curve
घण्टा-कुल *n.* (औद्भिदी) Campanula-

ceae
-घण्टा-गोत्र *n.* (औद्भिदी) Campanu-
lates
घण्टाणुप्राणी (-इन्) *m.* (प्राणिकी) bell
animalcule
घण्टा-पुष्प *n.* (प्राणिकी) bellflower
घण्टापुष्प-चलरी *f.* (औद्भिदी) railway
creeper
घंटापुष्पाति = घंटापुष्प-प्रजाति *f.*
(औद्भिदी) Campanula
घंटापुष्पासुकुल *n.* Campanulatae
घण्टा-विम्ब *m.* gong
घंटा-रुघ *m.* (स्वास्थिकी) bell-trap
घण्टारूप 1 *m.* (प्राणिकी) vorticella
2 *mfn.* campanulate = bell-
shaped
घण्टारूपाति=घण्टारूप-प्रजाति *f.* (प्राणिकी)
Vorticella
घण्टारूपी (-इन्) *mfn.* (प्राणिकी)
vorticellid
घण्टार्घ *m.* hour rate
घण्टा-चलरी *f.* (औद्भिदी) railway
creeper
घंटावादिकी *f.* campanology
घण्टी-कुइन *n.* bell-push (a button)
घन 1 *m.* (रैखिकी) cube 2 *mfn.*
cubic (cu.) 3 dense, thick
घन- 1 cubi-, cubo-, cubic,
cubical 2 (रसायन) iridio-
घनक *m.* 1 cubelet 2 (सांख्यिकी)
modulus
घन काय *m.* (औद्भिदी) dense body
घनकाय stroma
घन काल *m.* jet black
घन-खदिर *m.* cubical catechu =
gambier = terra japonica
घन गायत्री *f.* (रगदेशना) cube
cutch
घनगुर्वातु = गुरु-घनातु *m.* (खानिजी)
iridosmine = osmilidium
घनगुर्विचं *m.* siserkite
घनगोलाणु *m.* Sarcina
घनचूर्णित *m.* aragonite
घनता *f.* (भौतिकी) density
घनता-एकक *n.* unit of density
घनता-कूरी *f.* density bottle
घनता-तति-मान *m.* (रसायन) densi-
tensi-meter
घनता-तरलमान *m.* density hydro-
meter

घनता-नाडक *n.* density pipette
घनता-नाल *m.* density tube
घनतामान *m.* (भौतिक रसायन) densi-
meter
घनतामान- *mfn.* densimetric
घनतामानीय *mfn.* densimetric
घनतामिति *f.* densimetry
घनत्व *n.* density
घन-धूमिका *f.* dense fog
घनपरमाणु *m.* (भौतिक रसायन) cubical
atom
घनपाक्य *m.* cubic niter = sodium
nitrate
घन-पाद प्रति काष्ठिका (काचन) (भूसेचन)
cubic foot per second
(cusec)
घन-सध्यरम्म *m.* (औद्भिदी) proto-
stele
घन-महातु *m.* (रसायन) iridio-plati-
num
घन-मान *m.* stera (cubic meter)
घनमूल *n.* (गणित) cube root
घनमूलित-निष्पत्ति *f.* (गणित) sub-
triplicate ratio
घनवातिकी *f.* meteorology
घनवातिकीय, घनवातीय *mfn.*
meteorologic
घनवातिकी-विद् *m.* meteorologist
घन विस्तरण *n.* (भौतिकी) cubical
expansion
घनवेधिर-रश्मि *m.* X-ray = Roent-
gen ray
घन-स्फटिका *f.* cubic alum
घनाकार 1 *mfn.* cube-shaped,
cubiform, cubic, cubical
2 *m.* cubical form
घनाकार अधिच्छद *m.* (शारीर) cubical
epithelium
घनातु *m.* (रसायन) iridium
घनातु काल *m.* iridium black
घनायस्क *n.* cube ore
घनास- thromb-, thrombo-
घनासक *n.* (आयुर्विद्या) thrombus
घनास-कोशा *f.* (दैहिकी) thrombo-
cyte
घनासता *f.* (आयुर्विद्या) thrombosis
घनासाम *mfn.* (आयुर्विद्या) thromboid
घनासि *f.* (जीवरसायन) thrombin
घनासिकर *m.* (जीवरसायन) thrombo-
kinase
घनासिकोशा *f.* (दैहिकी) thrombocyte

| | | |
|---|--|---|
| घनास्त्रिजन <i>m.</i> (जीवरसायन) thrombo- gen | power | घृत-मानिय <i>mfn.</i> butyro-metric |
| घनास्रद <i>m.</i> thrombase | घातांक नियम <i>m.</i> (गणित) index law, law of indices | घृतल <i>n.</i> (रसायन) butyl |
| घनिक <i>mfn.</i> iridic | घातांकप्रमेय <i>n.</i> logarithmic theo- rem | घृतल-प्रवेश <i>m.</i> (रसायन) butylation (introduction of butyl) |
| घनिक- (रसायन) iridico- | घाताङ्क-श्रेढी <i>f.</i> (गणित) exponential series | घृतलिक <i>mfn.</i> (रसायन) butylic |
| घनिक अम्ल <i>n.</i> iridic acid | घातांक-समीकार <i>m.</i> (गणित) exponen- tial equation | -घृतव <i>m.</i> (रसायन) -butol |
| घनित <i>n.</i> (रसायन) iridito | घाताङ्क-सिद्धान्त <i>m.</i> (गणित) theory of indices | घृता <i>f.</i> butyrone |
| घनित-निष्पत्ति <i>f.</i> (गणित) triplicate ratio | घातीय <i>mfn.</i> (गणित) indicial | घृताजलेन्य <i>n.</i> (रसायन) buzylene |
| घनीकर <i>m.</i> densifier | घातीय समीकार <i>m.</i> (गणित) indicial equation | घृताजीन्य <i>n.</i> (रसायन) buzane |
| घनीकरण, घनीभवन <i>n.</i> densification, densify <i>vb.</i> | घास <i>m.</i> grass | घृति <i>f.</i> (रसायन) butyryn |
| घनीय <i>n.</i> (रसायन) iridiate | घास कवकवेत्राणु <i>m.</i> Mycobacterium graminis, Mycobacterium "grass bacillus" | घृति- (घृतिक) (रसायन) butyr-, butyro- (butyric) |
| घन्य <i>mfn.</i> (रसायन) iridious | घास-कुल <i>n.</i> (औद्भिदी) Grami- naceae, Gramineae | घृतिक <i>mfn.</i> (रसायन) butyric |
| घन्य अम्ल <i>n.</i> iridious acid | घास-गोत्र <i>n.</i> (औद्भिदी) Poales = Glumiflorae | घृतिकल <i>n.</i> (रसायन) butyryl (radical of butyric acid) |
| घ _३ रेखा <i>f.</i> (भौतिकी) D _३ line | घास-जीर्णक <i>m.</i> (औद्भिदी) meadow peat | घृतिकाम्ल गदाणु <i>m.</i> (शाकाण्विकी) Clostridium butyricum |
| घर्षणी <i>f.</i> trochlea = pulley | घास दण्डाणु <i>m.</i> grass bacillus | घृतिकाम्लजन दण्डाणु <i>m.</i> (शाकाण्विकी) Bacillus huetpeii |
| घर्षणीष्टका <i>f.</i> pulley block = block and tackle | घास-भूमि <i>f.</i> grass-land | घृति-तिकतेय <i>n.</i> (रसायन) butyr- amide |
| घर्षणी-संहति <i>f.</i> (भौतिकी) system of pullies | घास-यूष कारक <i>m.</i> (जीवरसायन) grass juice factor | घृति-नीरसु जलीय <i>n.</i> (रसायन) chloral hydrate |
| घर्षण <i>n.</i> abrasion | घासवनस्थली <i>f.</i> savanna forest = savanna woodland | घृति-सुन्युद <i>m.</i> (रसायन) butyr- aldehyde |
| घर्षण-श्फीका <i>f.</i> lucifer matches = friction matches | घास-वर्ण <i>mfn.</i> chlorine (colour) | घृती <i>f.</i> (रसायन) butine = butyne |
| घर्षदार (घिसाई) <i>m.</i> wear and tear | घास-दल्ली (-इन्) <i>m.</i> (प्राणिकी) grass- hopper = Locusta viridi- ssima | घृतीन्यव <i>m.</i> (रसायन) butanol |
| घर्षधावन <i>n.</i> scrub | घासस्थली <i>f.</i> savanna land | घृतीन्यवेय <i>n.</i> butanolide |
| घर्षधावन-कोष्ठ <i>m.</i> scrubbing room | घास्य (समुद्रघास्य) <i>n.</i> agar (agar- agar) | घृतीन्यसु <i>m.</i> butanal |
| घ. शि. मा. (घन शक्तिमान) c. c. (cubic centimeter) | घूक <i>m.</i> (प्राणिकी) hooting owl | घृतीन्या <i>f.</i> (रसायन) butanone |
| घा (घातांक) <i>E</i> (generalised expo- nential function) | घूर्ण स्कन्ध <i>m.</i> rolling stock | घृतीय <i>n.</i> (रसायन) butyrate |
| घाटा-स्नायु <i>m.</i> (प्राणिकी) ligamen- tum nuchae | घृ (घृतल) (रसायन) Bu (butyl) | घृतेन्य <i>n.</i> (रसायन) butene |
| घाण <i>m.</i> batch | घृ (सघर्षण गुणक from $\sqrt{\text{घृ}}$) (भौतिकी) μ (coefficient of friction) | घृतेन्यल <i>n.</i> (रसायन) butenyl |
| घात <i>m.</i> 1 wound 2 (गणित) degree 3 power 4 (बीजगणित) dimen- sion | घृत- (रसायन) but- | घृत्येद <i>m.</i> (जीवरसायन) butyrynase |
| घातक (प्राणहर) <i>mfn.</i> deadly, fatal, lethal | घृत कवक वेत्राणु <i>m.</i> Mycobacterium butyricum | घृषि <i>m.</i> rubber |
| घातक-मात्रा <i>f.</i> fatal dose = lethal dose | घृतजार <i>mfn.</i> (रसायन) butoxy | घृषि-इष्टका <i>f.</i> rubber block |
| घातक विष <i>n.</i> deadly poison | घृतजार- (रसायन) buloxy- (butoxyl) | घृषि-चूचुक <i>n.</i> rubber teat |
| घातक्रिया <i>f.</i> , घातन <i>n.</i> (गणित) invo- lution | घृतजारल <i>n.</i> (रसायन) butoxyl | घृषिटोपी-कूपिका <i>f.</i> R. C. phial (rubber-capped phial) |
| घातवर्ण-प्रजाति <i>f.</i> (औद्भिदी) Bryo- phyllum | घृतजारेय <i>n.</i> (रसायन) butoxide | घृषि-तैल <i>n.</i> caoutchoucine = rubber oil |
| घातसमीकार <i>m.</i> (गणित) exponential equation | घृतद्वयन्य <i>n.</i> butadiene | घृषिदार-प्रजाति <i>f.</i> (औद्भिदी) Hevea |
| घाताङ्क <i>m.</i> (गणित) exponent of the power, index, index of the | घृत-मान <i>m.</i> butyric-meter | घृषि-नाल-संधर <i>m.</i> rubber tubing clamp |

घृषि-शंकु *m.* (रसायन) rubber cone
 घृष्ट *mfn.* ground
 घृष्ट-काच-विम्ब *m.* ground-glass disc
 घृष्ट-काच-सन्धि *m.* ground glass joint
 घोंघ. (औद्भिदी) circinalis
 घोंघ-वलित *mfn.* (औद्भिदी) circinalis
 घोट *m.* (सेना) trigger
 घोर *mfn.* fierce
 घोरापराध *m.* (विधि) felony
 घोरापराधी (-इन्) *m.* felon

घोषक *m.* announcer
 घोषण *n.* announce *vb.*
 घोषणा *f.* declaration
 घोषणा-प्रपत्र *n.* form of declaration
 घोष-तन्त्री *f.* (शारीर) vocal cord
 घोष-प्रतिस्वनन *n.* (आयुर्विद्या) vocal resonance
 घोष-स्यून *m.* (प्राणिकी) vocal sac
 घोषित लाभंश *m.* announced dividend
 घोषित्र *n.* larynx

घोषित्र. (प्राणिकी) laryngeal
 घोषित्रगा उच्छाखा *f.* (शारीर) ramus laryngeus
 घोषित्रोपचेता *f.* (शारीर) ramus laryngeus
 -स्य -cida, -cidal, -cide
 -स्यीय *mfn.* -cidic
 घ्राण *n.* olfaction
 घ्राणतः *adv.* olfactorily
 घ्राणेन्द्रिय *n.* (दैहिकी) olfaction
 घ्रेय *mfn.* olfactible



ड स्तर *m.* (नभोवाणी) Heaviside layer or region = E layer = ionosphere



च (चण्डालु) (रसायन) W (wolfram) = Tu (tungsten)
 च (चुम्बकीय ध्रुवशक्ति) (भौतिकी) σ (magnetic pole strength)
 चक्र (अल्पिष्ठ विचलन कोण) δm
 चकास *m.* lumen
 चकासत् *mfn.* (भौतिकी) luminescent
 चकासन *n.* illumination, luminate = illuminate *vb.*, luminescing
 चकास वेत्राणु *m.* (शाकाण्विकी) Bacterium luminosum
 चकासा *f.* luminance, luminescence
 चकासापगमन *n.* deluminize
 चकासिता *f.* luminosity
 चकासी (-इन्) *mfn.* luminous = luminant = illuminant
 चकासी स्यन्द *m.* (प्रभासन) luminous flux
 चकित *mfn.* taken aback
 चक्र *n.* 1 wheel 2 circle, circumference 3 (शारीर) girdle 4 cycle
 चक्र- cycl-, cyclo-, cyclical
 चक्र-क्रम *m.* (गणित) cyclic order,

cyclical order
 चक्र-क्षारीय *n.* (रसायन) cyclo-alkane
 चक्रक्षेप *m.* turnings
 चक्र-घनीय *n.* (रसायन) cyclo-butane
 चक्रण *n.* cyclization, cyclize
 चक्र तथा अक्षदण्ड *m.* wheel and axle
 चक्र-तिकती *f.* (रसायन) cycl-ammonium
 चक्र-नैलकरि *f.* (रसायन) cyclo-olefin
 चक्र-द्वि-तैलकरि *f.* (रसायन) cyclo-diolefin
 चक्र-पचद्वयेन्य *n.* (रसायन) cyclopentadiene
 चक्रपंचीन्य *n.* (रसायन) cyclopentane
 चक्र-पंचीन्या *f.* (रसायन) cyclopentanone
 चक्र-पंचेन्य *n.* (रसायन) cyclopentene
 चक्र-प्रमेदीन्य *n.* (रसायन) cyclopropane
 चक्र-मृदसा *f.* cyclo-paraffin
 चक्रयान *n.* wheeled carriage

चक्र-युक्ति *f.* argument in circle
 चक्र-लक्षण *n.* (तर्कशास्त्र) circulus in definiendo
 चक्र-लखन *n.* cyclostyle
 चक्र-लेखनी *f.*, चक्र-लेखित्र *n.* cyclostyle
 चक्र-विन्यास-वर्गाकरण *n.* (अयोमार्ग) Whyte system
 चक्र-वृद्धि *f.* (वाणिज्य) compound interest
 चक्र-षडीन्य *n.* (रसायन) cyclohexane
 चक्र-षडीन्य-अंग-जारलिक अम्ल *n.* (रसायन) cyclohexane-carboxylic acid
 चक्र-षडीन्यव *m.* (रसायन) cyclohexanol
 चक्र-षडीन्या *f.* (रसायन) cyclohexanone
 चक्र-षडेन्य *n.* (रसायन) cyclohexene
 चक्र-षड्ल *n.* (रसायन) cyclohexyl
 चक्रषड्ल-तिकती *f.* cyclohexylamine
 चक्रषड्ल-दुरेय *n.* cyclohexylbromide

चक्रपङ्कल-चक्रीय *n.* cyclo-hexyl-formate
 चक्रपङ्कल-शुक्तीय *n.* cyclo-hexyl-acetate
 चक्रसंख्या *f.* frequency of cyclos
 चक्र-सप्ततीन्य *n.* (रसायन) cyclo-heptane
 चक्र-सप्ततीन्या *f.* (रसायन) cyclo-heptanone
 चक्राणुप्राणी (-इन्) *m.* wheel animalcule
 चक्रान्तर्यटि *f.* (आत्मवह) track rod
 चक्रायस्क *n.* (खानिजी) wheel ore
 चक्राविवर्तिता *f.* (आयुर्विद्या) cyclo-phoria
 चक्रिक *mfn.* cyclic, cyclical
 -चक्रिक *mfn.* (रसायन) -cyclic
 चक्रिक द्वयजाजलेय *n.* (रसायन) cyclic diazoanhydride
 चक्रिक पारेपण *n.* (प्राणिकी) cyclical transmission
 चक्रिक लवण *n.* (रसायन, भौमिकी) cyclic salt
 चक्रिका *f.* tablet
 चक्रित *mfn.* (औद्भिदी) rotate
 चक्रि-पुष्प *n.* (औद्भिदी) cycle-flower
 चक्री (-इन्) *m.* 1 car 2 cycle
 चक्रीय *n.* (रसायन) cyclane
 चक्री दूरवाण *m.* dial telephone
 चक्रीय *mfn.* (गणित) cyclic
 चक्रीय अन्तरपणन *n.* (अर्थशास्त्र) circuitous arbitrage
 चक्रीय उच्चावचन *n.* (अर्थशास्त्र, सांख्यिकी) cyclical fluctuation
 चक्रेण्य *n.* (रसायन) cyclene
 चक्षुः-ophthalmic, ophthalm-, ophthalmo-
 चक्षुर्वृत्ति *f.* ophthalmic practice
 चक्षुर्वैद्य *m.* ophthalmic surgeon
 चक्षुः-शालाकी (-इन्) *m.* ophthalmic surgeon
 चंचलता *f.* unsteadiness
 चंचल रक्तगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) Rhodococcus agilis
 चंचलिक अम्ल *n.* (रसायन) fulminic acid
 चंचलीय *n.* (रसायन) fulminate
 चंचु *m.* nib
 चंचु-कन्द *m.* Dumas bulb

चंचु-कन्द वाष्प-घनता-रीति *f.* Duma's vapour density method
 चंचु-कन्द-साधित्र *n.* Duma's vapour density apparatus
 चंचुकी (-इन्) *m.* (रसायन) beaker
 चंचु-पलिव *m.* beaker flask
 चटक *m.* 1 finch 2 sparrow
 चटचटन *n.* crackle *vb.*, crackling, decrepitate *vb.*, decrepitation
 चटचट-भर्जन *n.* decrepitate *vb.*
 चटचटोत्पत्तन *n.* decrepitation
 चणक *m.* (औद्भिदी) gram
 चंड- (चंडातु) (रसायन) tungsto-(tungsten)
 चंडजारियेज *m.* (खानिजी) tungstite
 चंडता *f.* (भौतिकी) intensity
 चण्ड ताप *m.* high temperature
 चण्ड-तापन *n.* heat strongly
 चण्ड-ताप-भ्राष्ट्र *n.* high temperature furnace
 चण्डताप-मान *m.* (चण्डताप-तापमान) high temperature thermometer
 चंड-भर *mfn.* tungsteniferous
 चण्डलोहिज *m.* wolframite
 चण्डवांत *m.* strong gale
 चंडशुक्विज *m.* tungstenite
 चण्डशोफ *m.* (आयुर्विद्या, पशुचिकित्सा) malignant edema
 चण्डशोफ गदाणु *m.* (शाकाण्विकी) Clostridium oedematis maligni
 चण्ड शोफ दण्डाणु *m.* (शाकाण्विकी) Bacillus oedematis maligni
 चण्डसिक्थ *n.* montan wax
 चण्डसिक्थिक अम्ल *n.* (रसायन) montanic acid
 चंड-सैकतिक *mfn.* (रसायन) tungsto-silicic
 चंड-सैकतीय *n.* tungsto-silicate
 चण्डहसजारिज *m.* thoro-tungstite
 चंडातु *m.* (च) (रसायन) wolfram = tungsten (W)
 चंडातु गैरिक *n.* (खानिजी) tungsten ocher
 चंडातु त्रिजारियेय *n.* tungsten trioxide
 चंडातु-दीप *m.* tungsten lamp, wolfram lamp
 चण्डातु-युत *mfn.* tungstenic
 चंडातु वजायस *n.* (धातुकर्म) tungsten

steel
 चंडात्तिय *mfn.* tungstenic
 चण्डिक *mfn.* (रसायन) wolframite = tungstic
 चंडिक अजलेय *n.* (रसायन) tungstic anhydride
 चंडिक अम्ल *n.* (रसायन) tungstic acid
 चंडिक जारेय *n.* (रसायन) tungstic oxide
 चण्डीय *n.* (रसायन) wolframite = tungstate
 चतुः-tetra-
 चतुःकोष्ठिक *mfn.* (सांख्यिकी) tetrachoric
 चतुःक्लोमा *m.pl.* (प्राणिकी) Tetrabranchia
 चतुःपर्णपालिति = चतुःपर्णपालि-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Selaginella
 चतुःपार्श्व *mfn.* (औद्भिदी) squarish (stem)
 चतुःपुकेसर *mfn.* (औद्भिदी) tetrandrous
 चतुर्- tetra-, tetra
 चतुरक्ष अर्बुदचर्म *m.* Ornithodorus savignyi (has two pairs of eyes)
 चतुरक-सारणी *f.* (गणित) four figure table
 चतुरज काल *m.* (रंगदेशना) tetrazo black
 चतुरजवा *f.* (रसायन) tetrazole
 चतुरजीवीन्य *n.* (रसायन) tetrazane
 चतुरनीक *m.* (रैखिकी) tetrahedron
 चतुरनीति *f.* diplomacy
 चतुरवयव *mfn.* (औद्भिदी) tetramerous
 चतुरवयव-वाद *m.* (औद्भिदी) tetramerous theory
 चतुरादिवेदम *mfn.* (फल) (औद्भिदी) carcerulus (fruit)
 चतुरदजारपिगा *f.* (रसायन) tetrahydroxyflavone
 चतुरदजारपिगाव *m.* (रसायन) tetrahydroxyflavonol
 चतुरोपसा *f.* ingenious invention
 चतुरोष्ठमुखा *m.pl.* (प्राणिकी) Semaeostomata
 चतुरगन्धीय *n.* (रसायन) tetrathionate

चतुर्गुह्य *mfn.* (औद्भिदी) four locular, tetralocular
 चतुर्गुण *mfn.* (जैविकी) tetraploid
 चतुर्घात समीकार *m.* (गणित) biquadratic equation
 चतुर्जारेय *n.* (रसायन) tetroxide
 चतुर्थक *n.* (सांख्यिकी) quartile
 चतुर्थक अपकरण-गुणक *m.* (सांख्यिकी) quartile coefficient of dispersion
 चतुर्थक विचलन *n.* (सांख्यिकी) quartile deviation
 चतुर्थक-विचलन-गुणक *m.* coefficient of quartile deviation
 चतुर्थकान्तर अर्धविस्तार *m.* (सांख्यिकी) semi interquartile range
 चतुर्थ-गुहा *f.* (शारीर) fourth ventricle
 चतुर्थगुहा-अधर *m.* metacoelae
 चतुर्थ-मास *m.* April
 चतुर्थ मूल *n.* (गणित) fourth root
 चतुर्थ-विमा *f.* fourth dimension
 चतुर्थांश *m.* quarter
 चतुर्थांशुपाती (-इन्) *mfn.* (गणित) fourth proportional
 चतुर्थी मारिस्तिष्की *f.* fourth cerebral
 चतुर्दंष्ट्र- (रसायन) tetraethyl-
 चतुर्दंष्ट्रलवुसिन्य *n.* lepidene, tetraphenyl-furan
 चतुर्दंष्ट्रभुज-कोशा *f.* (प्राणिकी) fourteen-sided cell
 चतुर्दशीन्य *n.* (रसायन) tetradecane
 चतुर्दधि *mfn.* (औद्भिदी) tetradynamous
 चतुर्दुराभासिन (अम्ल) *m.* tetrabrom-fluorescein
 चतुर्द्वारेय *n.* (रसायन) tetrabromide
 चतुर्द्वार *n.* (विद्युत्) tetrode
 चतुर्नैवातु *m.* (चौ) plutonium (Pu) (element no. 94)
 चतुर्नारेय *n.* (रसायन) tetrachloide
 चतुर्भुज *m.* (रैखिकी) quadrilateral
 चतुर्भुज संक्षेत्र *n.* (रैखिकी) quadrilateral prism
 चतुर्भुज स्तूप *m.* (रैखिकी) quadrilateral pyramid
 चतुर्भ्रमयः *m pl.* (औद्भिदी) Tetracycliae
 चतुर्भियुनित-चलित्र *n.* (अयोमार्ग) four-coupled locomotive

चतुर्भुक्त *mfn.* (जैविकी) quadrivalent
 चतुर्विंशतिख *m.* (गणित) quadrillion
 चतुर्विंशीन्य *n.* (रसायन) tetracosane
 चतुर्विंसा *f.* four-dimensions
 चतुश्- tetra-, tetra
 चतुश्छिद्र-करोटि *f.* diapsid skull
 चतुश्छिद्रकरोटि-अनुवर्ग *m.* (प्राणिकी) Diapsida
 चतुश्चयामव *m.* (रंग-देशना) tetracyanol
 चतुश्शः (योग्या) fours
 चतुश्शिरपेशी *f.* (शारीर) quadriceps
 चतुश्शो-घटनम् *n.* form fours
 चतुश्- tetra-, tetra
 चतुष्क अनुष्पिग गुच्छगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) Micrococcus tetragenus subflavus
 चतुष्क गुच्छगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) Micrococcus tetragenus
 चतुष्क पुंजगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) Staphylococcus tetragenus = Gaffkya tetragena
 चतुष्क-युगीय *mfn.* (प्राणिकी) quadrato-jugal
 चतुष्काणु *m* tetragenous
 चतुष्काष्ठ *n.* frame (of a picture)
 चतुष्कोण 1 *m.* (रैखिकी) quadrangle, square 2 *mfn.* (औद्भिदी) quadrangulus 3 dimetric = tetragonal 4 quadrate 5 (गणित) tetragonal
 चतुष्कोण वनद्राक्षा *f.* (औद्भिदी) Cissus quadrangularis
 चतुष्कोणास्थि *n.* (प्राणिकी) quadrate = quadrate bone
 चतुष्टय *n.* tetrad
 चतुष्टय समान्तम् (योग्या) fours cover
 चतुष्टयाणु *m.* tetrad
 चतुष्टयीय *n.* (रसायन) tetraborate
 चतुष्टयदाभास *m.* (तर्कशास्त्र) fallacy of four terms
 चतुष्टय-पाणि-पत्र *n.* (औद्भिदी) quadrifoliate palmate leaf
 चतुष्टयद स्थान *n.* quadrupod stand
 चतुष्टयी पर्वत *m.* (भूगोल) Asia Range
 चतुष्टय प्रेष अष्टमिक *m.* quarto post octavo
 चतुश्- tetra-, tetra
 चतुःसंयुज *mfn.* (रसायन) quadrivalent, tetravalent

चतुःसमभुज *m.* (रैखिकी) rhombus
 चतुःस्र *mfn.* (औद्भिदी) tetrarch
 चतुस्ताम्रकुप्यातु *m.* tombac = Dutch metal
 चतुस्तिक्ती *f.* (रसायन) tetramine
 चतुस्तिग्मीय *n.* (रसायन) tetroxalate
 चतुश्चिम *mfn.* (प्राणिकी) four-rayed
 च नाल (ग्राह्य) *m.* Thiele tube
 चन्दन *n.* sandal, santalum = sandalwood
 चन्दन काष्ठ *n.* sandal wood = sanders wood
 चन्दन-कुल *n.* (औद्भिदी) Santalaceae
 चन्दनति = चन्दन-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Santalum
 चन्द्र- *mfn.* lunar
 चन्द्र-कान्त मीनरक *m.* (प्राणिकी) white-breasted kingfisher
 चन्द्रपुच्छ *m.* (प्राणिकी) lyre bird
 चन्द्रपुच्छति = चन्द्रपुच्छ-प्रजाति *f.* (प्राणिकी) Mens-ura
 चन्द्रपुर *n.* (भूगोल) Ferozabad
 चंद्रवीज-कुल *n.* moonseed family
 चन्द्रभागा *f.* (भूगोल) Chenab (river)
 चन्द्रशर *m.* water-cress
 चन्द्रशरति = चन्द्रशर-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Lepidium
 चमर गो *m.* (प्राणिकी) Bos grunniens (yak)
 चम्पति *m.* Commandant, Major General
 चम्पक-कुल *n.* (औद्भिदी) Magnoliaceae
 चम्पकति = चम्पक-प्रजाति *f.* (औद्भिदी) Michelia
 चम्पकव *m.* (रसायन) champacol
 चम्पा *f.* (भूगोल) Annam
 चम्पारण्य *n.* (भूगोल) Champaran
 चम्पधिपति *m.* (सेना) General
 चय *m.* 1 (जैविकी) anabolism (assimilation) 2 pad (as a writing pad)
 चयापचय *m.* (जैविकी, दैहिकी) metabolism
 चर 1 *m.* pasture 2 *mfn.* (जैविकी) motile
 चर $\frac{dy}{dx}$
 चय $\frac{dx}{dy}$

चरण *m.* 1 (प्राणिनी) pos 2 (गणित) quadrant
 चरणारक्षेत्र *n.* (प्राणिनी) ambulacrum
 चर-भूमि *f.* pasture land
 चरम *mfn.* extreme, last, final, ultimate
 चरम-सीमा *f.* extreme *n.*, extremity
 चरमसीमास्थ *mfn.* extreme (at the utmost point, edge, or border)
 चरित्र-शोध-गृह *n.* reformatory
 चरित्रशोध-शाला *f.* reformatory school
 चर्म *n.* 1 corium = derma, skin 2 leather
 चर्म- derm-, dermo-, dermato-
 चर्मकायाति = चर्मकाय-प्रजाति *f.* Dermatomyssus
 चर्मकील *m.* (आयुर्विद्या) (सुश्रुत) papilloma, verruca, wart
 चर्मकीलज्वराणु *m.* (शाकाण्विकी) *Bartonella bacilliformis*
 चर्मकीलज्वर *m.* (आयुर्विद्या) Oroya fever (warts appear on the skin)
 चर्मकीलीय दण्डाणु *m.* (शाकाण्विकी) *Bacillus mollusci*, *Bacillus porri*
 चर्म-कूपी *f.* leathern bottle
 चर्मकोप *m.* (आयुर्विद्या) dermatitis = dermatitis
 चर्मकोप अंकुशमुख *m.* *Ancylostoma braziliense*
 चर्मकोपक *m.* (रसायन) dermatitant
 चर्मकोप गुप्तगोल *m.* *Cryptococcus gilchristi*
 चर्मकोपीय माला-गोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) *Streptococcus tropicalis*
 चर्म-खण्डक *m.* (शारीर) dermatome
 चर्म-ग्रन्थि *m.* (शारीर) cutaneous gland
 चर्म-वटना *f.* dermato-plasty, dermo-plasty
 चर्मचटक-गण *m.* (प्राणिनी) Chiroptera
 चर्म-चटका: *m.pl.* (प्राणिनी) Chiroptera
 चर्मचीरक *n.* parchment paper
 चर्मजारठ्य *n.* (चाक्षुषी) scleroderma
 चर्मण्वती *f.* (भूगोल) Chambal (river)

चर्म तथा खल *m.* skins and hides
 चर्मपक्षा: *m.pl.* (प्राणिनी) Euplexoptera = Dermoptera
 चर्मपक्षी (-श्च्) *m.* membranewinged animal
 चर्मपत्र *n.* parchment, parchment paper
 चर्मपिरी *f.* (रगदेशना) colioflavine
 चर्मपुजगोलाणु *m.* (शाकाण्विकी) *Staphylococcus epidermidis*
 चर्म-भाण्ट *n.* leatherware
 चर्मभास्वी *f.* (रगदेशना) coriphosphine
 चर्मल 1 *mfn.* tough 2 (औद्भिदी) coriaceous
 चर्मलक *n.* (औद्भिदी) achenet
 चर्मलता *f.* toughness
 चर्मव *m.* (भैषजिकी) dermol
 चर्मवेधि-प्रजाति *f.* (प्राणिनी) Dermatocentor
 चर्मसंस्करण *f.* tannery
 चर्मसंस्कार *m.* tanning
 चर्मसंस्कार-विशारद *m.* tanning expert
 चर्मस्तार *m.* (प्राणिनी) patagium
 चर्म-सूत *m.* leather bag
 चर्मात्रपक्ष-गण *m.* (प्राणिनी) Dermoptera
 चर्मांकनी *f.* dermatograph pencil, skin-marking pencil
 चर्माजीवाति = चर्माजीव-प्रजाति *f.* (प्राणिनी) Dermatobia
 चर्मांध subcutaneous = hypodermal
 चर्मांध कोटर *n.* (प्राणिनी) subcutaneous sinuses
 चर्मांधो-लसीका-कोटर *n.* (प्राणिनी) subcutaneous lymph sinus
 चर्मान्त क्षेप *m.* intradermic injection
 चर्मास्थि *n.* (प्राणिनी) dermal bone
 चर्मि *f.* (जीवरसायन) coriin
 चर्मिक *mfn.* dermic
 चर्मक्ष *m.* dermatoscope
 चर्वा *f.* 1 service 2 services = number of trips
 चर्वण *n.* mastication
 चर्वण-निर्यास *m.* chewing gum
 चर्वण-पेशी *f.* (शारीर) masseter
 चर्वण-साधित्र *n.* (प्राणिनी) Aristotle's

lantern
 चर्वणाग *n.* (प्राणिनी) trophi
 चर्व-निर्यास *m.* mastic = gum mastic
 चर्वनिर्यास वृक्ष *m.* mastic tree
 चल *mfn.* 1 (वाणिज्य) current, floating 2 movable 3 moving 4 (गणित, वाणिज्य) variable 5 (सांख्यिकी) variant
 -चल -zoid, -zooid
 चल अग्रहन्वस्थि *n.* (प्राणिनी) movable premaxillary bone
 चल अण्वीक्ष *m.* (भौतिकी) travelling microscope
 चल औषधालय *m.* travelling dispensary
 चल कीकस *m.* (प्राणिनी) movable vertebra
 चल कुण्डल-युवाहमान *m.* (विद्युत्) moving coil galvanometer
 चलक्रेन्द्र *n.* (जलस्थैतिकी) metacentre
 चलक्षेत्रित्र *n.* cinematograph, motion picture projector
 चलगन्त्र *n.* locomotive engine
 चल गोपलेख *m.* floating policy, running policy
 चलघर्षरी *f.* (भौतिकी) movable pulley
 चलचित्र *n.* cinema, film, motion picture
 चलचित्र-क्षेत्रित्र *n.* motion picture projector
 चलचित्र-गृह *n.* cinema-house
 चलचित्रणा *f.* cinematography
 चलचित्र-प्रसण्डल *n.* film company
 चलचित्र-भवन *n.* cinema theatre
 चलचित्र-यान *n.* cinema-van
 चलचित्र-रूपित्र *n.* motion-picture camera
 चलचुम्बक-दर्पण-युवाहमान *m.* (भौतिकी) moving magnet mirror galvanometer = Kelvin's mirror galvanometer
 चल-तार-शीटी *f.* (ध्वानिकी) Galton's whistle (high variable pitch)
 चल देय *n.* current liability
 चलद्-गोपलेख *m.* running policy
 चलद्-व्यापार *m.* going concern
 चलन-कलन *n.* (गणित) differential calculus